

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या ४०२१
काल नं० २१
खण्ड जेव

JIVARAJA JAINA GRANTHMĀLĀ No. 9.

General Editors :

Dr. A. N. Upadhye & Dr. H. L. Jain

**KUNDA-KUNDA
PRABHRITA SANGRAHA**

Compiled from Kundakunda's Works

By

Pt. Kailash Chandra Jain

(Siddhant Shastri)

Principal Shree Syadwad Mahavidyalaya
VARANASI.

Published by

Gulabchand Hirachand Doshi

Jain Sanskriti Sanrakshaka Sangh
SHOLAPUR

1960

[All rights Reserved]

Price Rupees Six Only

कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रह

[कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार और षट्प्राभृत, से विषयवार संकलित तथा द्वादशानुप्रेक्षा, दशभक्ति और समयसार सम्पूर्ण, हिन्दी अनुवाद सहित]

सम्पादक—

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री,

प्रधानाचार्य श्री स्याद्वाद महाविद्यालय
वाराणसी ।

First Edition : 1000 Copies

Copies of this book can be had direct from Jain
Samskriti Samrakshaka Sangha Santosha Bhavana,
Phaltan Galli, Sholapur (India)

Price Rs. 6/-per copy, exclusive of postage

जीवराज जैन ग्रन्थमालाका परिचय

सोलापूर निवामी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद्रजी दोशी कई वर्षोंमें संसार से उदासीन होकर धर्मकार्य में अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रवृत्ति इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित संपत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विद्वानोंमें साक्षात् और लिखित सम्मनियों इस बातकी संग्रह का कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ के प्रोथम कालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थ-क्षेत्र गजापंथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी ममाज एकत्र की और ऊर्हापाह पूर्वक निर्णयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुसे 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' की स्थापना की और उसके लिए ३००००) तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। उनकी परिग्रह-निवृत्ति बढ़ती गई, और सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००) दो लाखकी अपनी संपूर्ण संपत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अर्पण कर दी। इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की। इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' का संचालन हो रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका नौवां पुष्प है।

प्रकाशक

गुलाबचंद हीराचंद दोशी,
जैन संस्कृति संरक्षक संघ,
सोलापूर

मुद्रक

शिवनारायण उपाध्याय
नया संसार प्रेस,
भदौनी, वाराणसी

ग्रन्थमाला के सम्पादकों का वक्तव्य

आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं का जैन साहित्य में अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक तो इन रचनाओं में आध्यात्मिक तत्त्व का जैसा प्ररूपण पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। काल की दृष्टि से भी ये रचनाएँ बड़े हजार वर्ष से कम प्राचीन नहीं हैं। उनकी प्राकृत भाषा व शैली भी अपना वैशिष्ट्य रखती है। उनकी उपलभ्य रचनाओं की संख्या भी १०-१२ है। दिगम्बर सम्प्रदाय में इन आचार्य की प्रतिष्ठा इतनी है कि वे तीर्थंकर महावीर और उनके प्रमुख गणधर गोतम स्वामी के पश्चात् ही मंगल रूप से स्मरण किये जाते हैं।

कुन्दकुन्द की रचनाओं में जैन धर्म व सिद्धान्त की सभी प्रमुख बातों का समावेश हो गया है। किन्तु ये सब विषय वहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। किसी-स्तुत विषय पर उन्होंने कहाँ क्या अभिमत व्यक्त किया है इसका पता लगाना सहज नहीं है। इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक व विषयात्मक परिचय इस ग्रन्थमाला के सम्पादकों में से एक (डा० एन एन० उपाध्ये) द्वारा प्रवचन-सार की प्रस्तावना में विस्तार से कराया जा चुका है। किन्तु समस्त वस्तु का विषय-वार वर्गीकरण का कार्य शेष रहा था। इसकी प्रस्तुत ग्रन्थ में पूर्ति करने का प्रथम बार प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयास के गुण भी हैं और दोष भी। एक बड़ा गुण तो यह है कि उससे एक-एक विषय पर कर्त्ता के समस्त विचार पाठक को एकत्र प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु इसमें दोष यह है कि कर्त्ता ने जिस किसी बात को जिस प्रसंग में कही है उसे उस प्रसंग से निकाल कर भिन्न प्रसंग में जोड़ने से कुछ भ्रान्ति भी उत्पन्न हो सकती है। जिन गाथाओं को नियत विषयों में से कहीं भी संगृहीत नहीं किया जा सका और छोड़ दिया गया उनके कारण भी ऐसे संकलनों पर से यह दावा करना कठिन है कि यहाँ कर्त्ता द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धान्त का विधिवत् वर्गीकरण हो गया। इसका प्रमाण स्वयं इस संकलन में ही वर्तमान है। अन्य ग्रंथों में से तो काट-छाट करके उद्धरणों का चुनाव किया गया है, किन्तु समयसार को यहाँ अविकल रूप से जैसा का तैसा उद्धृत कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कमी-वेशी व प्रकरणों के स्थानान्तरण से अनर्थ उत्पन्न होने की संभावना का निवारण नहीं किया जा सकता था।

किन्तु इस सब के होते हुए भी पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री का कुन्दकुन्दा-
चार्य की रचनाओं का यह विषयवार संरुखन, सुबोध हिन्दी अनुवाद सहित,
एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करेगा ऐसी हमें आशा है। कर्त्ता और उनकी
रचनाओं के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य विषयों का पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना
में विस्तार से विवेचन किया है जिससे उन पाठकों को विशेष रूप से लाभ
होगा जो प्रवचनसार की उक्त अंग्रेजी प्रस्तावना का उपयोग नहीं कर सकते।
प्रवचनसार का वह संस्करण अब दुष्प्राप्य भी हो गया है और इस कारण भी
प्रस्तुत ग्रंथ की प्रस्तावना का स्वागत करने योग्य है। यहाँ विषय का विवेचन
भी पण्डित जी ने अधिक विस्तार से किया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस
ग्रंथ के द्वारा कुन्दकुन्दाचार्य के सिद्धान्तों के अध्ययन की एक नई सुविधा
उत्पन्न हुई है। इसके लिये हम विद्वान सम्पादक के बहुत कृतज्ञ हैं तथा
जीवराज ग्रन्थमाला समिति ने जो इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके
लिये उन्हें भी धन्यवाद है।

मुजफ्फरपुर—१९।३।६०
कोल्हापुर —२४।३।६०

ही० ला० जैन
आ० ने० उपाध्ये
ग्रन्थमाला सम्पादक

सम्पादक के दो शब्द

१९५३ की बात है। पूज्य जल्लक श्री पं० गणेश प्रसाद जी वर्णी श्री सम्मैद शिखर की ओर पैदल विहार करते हुए मार्ग में डालमियानगर ठहरे हुए थे। उस अवसर पर दानवीर साहू शान्ति प्रसाद जी भी वहाँ धार्मिक चर्चा में निमग्न थे। प्रति दिन कुन्दकुन्दान्ध्याय के षट् प्राभृत का वाचन चरता था; और साहू जी बिना किसी विस्तार के मूल गाथा का अर्थ मात्र श्रवण करते थे। उसमें उनका अभिप्राय ग्रन्थकार का मात्र हार्द स्मरना था।

वहीं से मेरे चित्त में कुन्दकुन्द के ग्रन्थों का मूलानुगामी अनुवाद मात्र करने का विचार उत्पन्न हुआ, और जहाँ तक भी शक्य हो उनके कथन के सम्बन्ध में अपनी ओर से विशेष कुछ लिखना उचित नहीं समझा, जिससे पाठक अनुवादक के द्वारा किये गये विवरणों के बोझ से बोझिल न होकर स्वतंत्र रूप से कुन्दकुन्द के कथनों के सम्बन्ध में जहापोह कर सकें।

उसके पश्चात् कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में जैन सिद्धान्त, जैन आचार के किन किन विषयों पर क्या क्या कहा है, यह मेरी जिज्ञासा हुई; क्योंकि कुन्दकुन्द जैन परम्परा के एक महान और प्राचीन ग्रन्थकार हैं। अतः जैन तत्त्वज्ञान का और जैनाचारके क्रमिक विकास के अध्येता के लिये उनके मन्तव्यों को जानना आवश्यक है।

इसलिये मैंने जो ग्रन्थ निर्विवाद रूप से कुन्दकुन्दकृत माने जाते हैं, उनमें प्रतिपादित विषयों का विषयवार संकलन करके तब अपना अनुवाद कार्य प्रारम्भ किया। इसके लिए मैंने कुन्दकुन्द के पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार नियमसार, बारह अनुप्रेक्षा, दशभक्ति, और षट्प्राभृतो (दर्शन प्राभृत, चारित्र प्राभृत, सूत्र प्राभृत बोध प्राभृत, भाव प्राभृत और मोक्ष प्राभृत) को चुना। और समयसार को मैंने अन्त में अविकल ही देना उचित समझा, क्योंकि वह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें काट छांट करने से अर्थ का अनर्थ होना भी संभव है। दूसरे इस संकलन का मेरा एक उद्देश्य मात्र समयसार प्रेमियों के सामने कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों को रखना भी है। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाई समयसार का तो स्वाध्याय करते हैं किन्तु कुन्दकुन्द के ही अन्य ग्रन्थों की ओर ध्यान नहीं देते। एक ही ग्रन्थकार के

द्वारा विभिन्न ग्रन्थों में किये गये कथनों को न देखने से और मात्र समय-सार का ही अवलोकन करने से स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य के भी अभिप्राय को समझने में भ्रम होने की संभावना रहती है और उससे अर्थ का अनर्थ भी होना सम्भव है ।

अतः समयसार का प्रत्येक प्रेमी पाठक एक बार कुन्दकुन्द के ही अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित वस्तु तत्त्वकी झलक ले सके, इय दृष्टि से भी समयसार को अन्त में अविकल देकर उससे पहले संकलित भाग को दिया है ।

जो गाथा कुन्दकुन्द के जिस ग्रन्थ से ली गई है, उसके नीचे उसकी क्रमसंख्या के साथ उस ग्रन्थ का संक्षिप्त नाम भी साथ में दे दिया गया है । इससे पाठक को उसे मूलग्रन्थ में देखने में कठिनाई नहीं होगी ।

संशोधन—संकलन करते समय पञ्चास्तिकाय, आदि मुद्रित ग्रन्थों का ही उपयोग किया गया है । समयसार का जो मूल पाठ जयसेनाचार्य के सामने था, उसके पाठों में अमृतचन्द्र की टीकावाली प्रतियों में पाये जाने वाले पाठ से अन्तर है । अतः जयसेन की टीका तात्पर्यवृत्ति के विशेष पाठों को पाद टिप्पण में 'ता० वृ०' के संकेत के साथ दे दिया है ।

षट् प्राभृतों का संशोधन नीचे लिखी प्रतियों के आधार से किया गया है । वि० जैन पंचायती मन्दिर देहली से प्राप्त प्रति नं० ऊ ३, ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग) ।

१—प्रति नं० ऊ ३ का संकेत 'ऊ' है । यह मूल प्रति शुद्ध है । यह वि० सं० १५८१ की लिखी हुई है । इसके अन्त की लेख प्रशस्ति इस प्रकार है—

'अथ संवत्सरेऽस्मिन् श्री विक्रमादित्य राज्ये संवत् १५८१ वर्षे मार्गसिर शुदी ११ शुभदिने मंगलवासरे हिसार वेरोजाकोट् सुरिशाण इवराहिम साहि-राज्य प्रवर्तमाने श्रीकाष्टासंघे ब्रह्म जू लिखापितं इदं शास्त्रं ।'

२—प्रति ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग) का संकेत 'ग' है । ये दोनों प्रतियां समान हैं । दोनों में मूल गाथाओं का संस्कृत में शब्दार्थ मात्र दिया है । उ० ४ (ग) सम्वत् १७४८ में उग्रसेनपुर में लिखी गई है ।

यथा—सम्वत् १७४८ वर्षे जेष्ठ शुदि ६ तिथीन्दुवारे लिखी श्री उग्र-सेनपुरे विजयगच्छे मुनिश्री ५ गोवर्द्धन जीका सा शिष्य खेमचन्द्रेण स्ववाचनाय । और प्रति उ४ (ख) सं० १७४३ में लिखी गई है ।

३ 'आ' प्रति श्रीमहावीर जी की है । इसमें जो सं० टीका है, यद्यपि वह

श्रुतसागर की टीका का ही संक्षिप्त रूप है। किन्तु कहीं-कहीं, जहाँ श्रुतसागर की टीका मूल के अनुरूप नहीं है वहाँ उससे इसमें अन्तर भी है।

देहलीके दि० जैन पंचायती मन्दिरकी प्रतियां लाला पन्नालालजी अग्रवाल दिल्लीके द्वारा प्राप्त हुई थीं। तथा श्री महावीरजीकी प्रति भारतीय ज्ञानपीठ काशी के व्यवस्थापक श्री बाबूलालजी फागुल्ल के द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके लिए मैं इन दोनों महाशयों तथा उक्त भण्डारों के व्यवस्थापकों का आभारी हूँ।

जीवराज जैन ग्रन्थमाला के मन्त्री डा० ए० एन० उपाध्ये तथा उनके सहयोगी डा० हीरालालजी जैन के प्रयत्न से श्री जीवराज जैनग्रन्थमाला की प्रबन्ध समिति ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके लिए मैं प्रबन्ध समिति का तथा डा० उपाध्ये तथा डा० हीरालालजी का आभारी हूँ। डा० उपाध्ये ने इसका अन्तिम प्रूफ देखकर ग्रन्थ के मूल प्राकृत भाग का संशोधन करने का भी कष्ट उठाया है तथा प्रवचनसार की अपनी अंग्रेजी प्रस्तावना का उपयोग करने की स्वीकृति दी। इसके लिये मैं उनका विशेष रूपसे आभारी हूँ।

जीवराज ग्रन्थमाला के व्यवस्थापक श्री सुभाषचन्द्र अक्कोले तथा नया संसार प्रेस वाराणसी के संचालक पं० शिवनारायण उपाध्याय ने भी ग्रन्थ के प्रकाशन मुद्रण आदि की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है एतदर्थ उनका भी आभारी हूँ।

मेरे इस प्रयत्न के फलस्वरूप यदि स्वाध्याय प्रेमीजनों ने कुन्दकुन्दाचार्य के समयसार की ही तरह उनके अन्य ग्रन्थों का भी अनुगम करने की ओर लक्ष्य दिया तो मैं अपने प्रयत्न को सफल समझूँगा।

चैत्र शुक्ला त्रयोदशी वी. नि. सं. २४८६, वि. सं. २०१६ भदेली, वाराणसी।	}	कुन्दकुन्दाचार्य के चरणारविन्द का चञ्चरीक कैलाशचन्द्र शास्त्री
--	---	---

भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यकी अमृतमयो वाणीका
रसपान करनेमें निमग्न
मुमुक्षुजनोंके कर-कमलोंमें
सादर समर्पित—

प्रस्तावना

‘आचार्य श्री कुन्दकुन्द’

जैन परम्पराके आचार्योंमें श्री कुन्दकुन्दका जो महत्त्व है वह अनुपम है। उनके महत्त्वका ख्याप्तन करने वाला एक श्लोक अति प्रसिद्ध है—

मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं* गौतमो गणी ।

मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

‘भगवान् महावीर मङ्गलरूप हैं, गौतम गणधर मङ्गलरूप हैं, कुन्दकुन्दाचार्य मङ्गलरूप हैं, और जैन धर्म मङ्गलरूप है।

इसमें भगवान् महावीर और उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरके पश्चात् कुन्दकुन्दको स्थान दिया गया है, जो इस बातका सूचक है कि कुन्द-कुन्द का स्थान जैनाचार्योंमें सर्वोपरि माना गया है। दक्षिणसे प्राप्त जैन शिलालेखोंमेंसे अधिकांशमें कुन्दकुन्दान्वयका निर्देश मिलता है जो इस बातका सूचक है कि जैन परम्पराके आचार्य वगैरह अपनेको कुन्दकुन्दान्वयका कहलानेमें गौरव अनुभव करते थे। आज भी जैन परम्परामें आचार्य कुन्दकुन्दका मान सर्वोपरि है। और एक कविके शब्दोंमें उस परम्पराके अनुयायियों की यह आम धारणा है कि—‘द्रुण, न है न होहिगें मुनींद कुन्दकुन्दसे।

कुन्दकुन्दके इस महत्त्वके कारणोंके अनुसंधानके लिये हमें उनके इतिहास और साहित्यका परिशीलन करना होगा।

१ दि० जैन परम्पराके चार संघ अति प्रसिद्ध हैं—द्रविड़, नन्दि, सेन और काष्ठा संघ। अंगदसे प्राप्त शिलालेख नं० १६६ में द्रविड़ संघ कीण्डकुन्दान्वय का निर्देश है। जै० शि० सं० भाग० ३ के शिलालेख नं० ५३८में सेन गणके साथ कुन्दकुन्दान्वय जुड़ा है। देशियगण तो कुन्दकुन्दान्वयसे सम्बद्ध ही था। नन्दिगण भी मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय, देशिय गण, पुस्तक गच्छसे सम्बद्ध था।

ऐतिहासिक परिशीलन

कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धमें उनके ग्रन्थों, टीकाकारों, ऐतिहासिक लेखों तथा परम्परागत कथाओंसे जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार है—

१ आचार्य कुन्दकुन्दने बारस अणुवेक्खा (द्वादश अनुप्रेक्षा) के सिवाय अन्य किसी ग्रंथमें अपना नाम तक नहीं दिया। केवल बोधप्राभृतके अन्तमें अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है।

२ कुन्दकुन्दके प्रथम टीकाकार अमृतचन्द्र सूरिने भी अपनी टीकाओंमें ग्रन्थकर्ताके नाम तकका भी निर्देश नहीं किया। हां, जयसेनाचार्यने, जिनका समय ईसाकी बारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध है, पञ्चास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें लिखा है कि, कुन्दकुन्द कुमारनन्दि सिद्धान्त देवके शिष्य थे। उनके दूसरे नाम पद्मनन्दि आदि थे। प्रसिद्ध कथाके अनुसार उन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर श्रीमंदर स्वामी तीर्थङ्करके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको सुनकर शुद्ध आत्मतत्त्वके साररूप अर्थको ग्रहण किया था। और वहाँसे लौटकर शिवकुमार महाराज आदिके प्रतिबोधके लिये पञ्चास्तिकाय प्राभृतकी रचना की थी।

जयसेनने समयसारकी टीकाके अन्तमें भी दो गाथाओंके द्वारा पद्मनन्दिका गुणगान किया है।

३ इन्द्रनन्दिने, जिन्हें विक्रमकी दसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणका विद्वान् माना जाता है, अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि षट् खण्डागम और

१—इस ऐतिहासिक परिशीलनमें प्रवचनसारकी डा० ए० एन० उपाध्ये लिखित अंग्रेजी प्रस्तावनासे साहाय्य लिया गया है।

२—इदि शिञ्ज्यववहारं जं भणियं कुंदकुंद मुण्णणादे । जो भावइ मुद्धमणा सो पावइ परमण्णिव्वाणं ॥६१॥

३—‘सद्दिवियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं । सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दवाहुस ॥६१॥ वारसअंगवियाण चउदसपुव्वंगविउल-विःथरणं । सुयणाणि भद्दवाहू गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६१॥’—बो० प्रा० ।

४—‘अथ श्री कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवशिष्ये । प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व विदेहं गत्वा वीतरागसर्वज्ञ श्रीमंदरस्वामितीर्थङ्करपरमदेवं दृष्ट्वा तन्मुख-कमलविनिर्गतदिव्यवाणीश्रवणावधारितपदार्थाच्छुद्धात्मतत्त्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पद्मनन्यायपराभिधेयैः..... शिवकुमारमहाराजादिस्नेपर्कचशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचितपञ्चास्तिकाय-प्राभृतशास्त्रे’ ।

कषायप्राप्त ये दोनों सिद्धान्तग्रन्थ गुरुपरिपाटीसे कुण्डकुन्दपुरमें श्री पद्मनन्दि मुनिको प्राप्त हुए। उन्होंने षट्खण्डोंमेंसे आदिके तीन खण्डोंपर बारह हजार प्रमाण परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा।

उक्त जानकारीसे कुन्दकुन्दके सम्बन्धमें नीचे लिखी बातें प्रकाशमें आती हैं—

१ वे कुण्डकुन्द पुरके वासी थे और पद्मनन्दि आदि उनके अनेक नाम थे।

२ वे भद्रबाहुके शिष्य थे।

३ वे पूर्व विदेह गये और उन्होंने श्री मन्दिर स्वामीके मुखसे दिव्यध्वनिका श्रवण किया था।

४ उन्होंने षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा था।

५ वे शिवकुमार महाराजके समकालीन थे

उक्त बातों पर क्रमसे विचार करनेसे पूर्व हम उन कथाओंको भी दे देना उचित समझते हैं जो उनके सम्बन्धमें पाई जाती हैं—

कुन्दकुन्दाचार्यकी कथा

श्री युत' प्रेमी जीने 'ज्ञानप्रबोध' से एक कथा इस प्रकार दी है—

मालवा देशके वारापुर नगरमें राजा कुमुद चन्द्र राज्य करता था। उसकी रानीका नाम कुमदचन्द्रिका था। उसके राज्यमें कुन्द श्रेष्ठी नामका एक वणिक रहता था। उसकी सेटानोंका नाम कुन्दलता था। उनके एक पुत्र था। उसका नाम कुन्दकुन्द था। एक दिन वह बालक अपने मित्र बालकोके साथ खेलता था। उसने उद्यानमें एक मुनिराजको बैठे हुए देखा। मुनिराज नरनारियोंको उपदेश दे रहे थे। बालकने उनका उपदेश बड़े ध्यानसे सुना। बालक उससे इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका शिष्य होगया। उस समय उसकी अवस्था केवल ग्यारह वर्षकी थी।

मुनिराजका नाम जिनचन्द्र था। उन्होंने तेतीस वर्षकी उम्रमें उस कुन्दकुन्द नामके बालकको आचार्य पद प्रदान किया। एक बार आचार्य कुन्दकुन्द-

१ यह कथा जैनहितैषी भाग १०, पृ० ३६६ पर प्रकाशित हुई है। किन्तु उसके प्राप्त न हो सकनेसे हमने डा० उपाध्येकी अंग्रेजी प्रस्तावनासे अनुवाद करके उसे यहां दिया है।

को जैन तत्त्व ज्ञानके सम्बन्धमें कोई शङ्का उत्पन्न हुई। एक दिन ध्यान करते समय उन्होंने शुद्ध मन बचन कायसे श्रीमन्दरस्वामीको नमस्कार किया। उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमंदर स्वामीने उन्हें आशीर्वाद दिया 'सद्धर्म वृद्धिरस्तु'। समवसरणमें उपस्थित श्रोताओंको बड़ा अचरज हुआ कि इन्होंने किसको आशीर्वाद दिया है क्यों कि यहां उन्हें नमस्कार करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता। श्रीमंदर स्वामीने बतलाया कि उन्होंने भारत वर्षके कुन्दकुन्द मुनिको आशीर्वाद दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्दरस्वामीके समवसरणमें ले गये। जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जा रहे थे तो कुन्दकुन्दकी मयूर पिच्छिका गिर गई। तब कुन्दकुन्दने गृद्धके पंखोंसे काम चलाया। कुन्दकुन्द वहां एक सप्ताह रहे और उनकी शंकाएं दूर हो गईं। लौटते समय वह अपने साथ एक पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुद्रमें गिर गई। बहुतसे तीर्थोंकी यात्रा करते हुए वे भारत वर्ष लौट आये और उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया और सात सौ स्त्री पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली।

कुछ समय पश्चात् गिरनार पर्वत पर उनका श्वेताम्बरोंसे विवाद हो गया। तब द्वाही देवी ने यह स्वीकार किया कि दिग्म्बर निग्रन्थ मार्ग ही सच्चा है। अन्तमें अपने शिष्य उमास्वातिको आचार्य पद प्रदान करके वे स्वर्गवासी हुए।

एक कथा डा० चक्रवर्तीने पञ्चास्तिकायकी अपनी प्रस्तावनामें दी है— डा० चक्रवर्तीके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचार्यकी यह कथा पुग्यालवकथा नामक ग्रन्थमें शास्त्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई है। कथा इस प्रकार है—

भारत खण्डके दक्षिण देशमें 'पिडथनाडू' नामका प्रदेश है। इस प्रदेशके अर्न्तगत कुम्भरई नामके ग्राममें करमण्डु नामका धनिक वैश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था। उनके यहां एक ग्वाला रहता था जो उनके पशु चराया करता था। उस ग्वालके नाम मथिवरन था। एक दिन जब वह अपने पशुओंको एक जंगलमें लेजा रहा था, उसने बड़े आश्चर्यसे देखा कि सारा जंगल दावाग्निसे जल कर भस्म होगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे भरे हैं। उसे उसका कारण जाननेकी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ एक पेटीमें आगम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि इस आगम ग्रन्थके कारण ही यह स्थान आगसे बच गया है। अतः वह उन्हें

बड़े आदरसे घर ले आया। उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा।

कुछ दिनोंके पश्चात् एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेठने उन्हें बड़े भक्तिभावसे आहार दिया। उसी समय उस ग्वालेने वह आगम उन मुनिको प्रदान किया। उस दानसे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनोंके आशिर्वाद दिया कि यह ग्वाला सेठके घरमें उसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा। तब तक सेठके कोई पुत्र नहीं था। मुनिके आशिर्वादके अनुसार उस ग्वालेने सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया। और बड़ा होने पर वह एक महान् मुनि और तत्त्व ज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। उनके चारणोंके साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्ववत् वर्णित है।

एक कथा शास्त्र दानके फलके उदाहरण रूपमें ब्रह्मनेमिदत्तके आराधना कथा कोशमें है, जो प्रो० चक्रवर्ती वाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस प्रकार है—

‘भरतक्षेत्रमें कुरुमरई गांवमें गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। एक बार उसने एक जंगलकी गुफामें एक जैन शास्त्र रखा देखा। उसने उस शास्त्रको उठा लिया और पद्मनन्दी नामके मुनिको भेंट कर दिया। उस शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक महान् आचार्योंने उसे देखा था और इसकी व्याख्या लिखी थी और फिर उसे गुफामें रख दिया था। इसीलिए पद्म नन्दि मुनिने भी उसे उसी गुफामें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर उसकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे ब्यालने खा डाला। मर कर वह ग्वाला निदानवश ग्रामपतिके घरमें उत्पन्न हुआ। बड़ा होनेपर एक बार उसने पद्म नन्दि मुनिके दर्शन किये और उसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया। उसने जिन दीक्षा धारण कर ली और समाधि पूर्वक मरण करके राजा कौण्डेश हुआ। वहाँ भी सब सुखोंका परित्याग करके उसने दीक्षा ले ली। उसने जिनदेवकी पूजा की थी और गुरुओंकी सेवा की थी अतः वह श्रुत-केवली हुआ।

रत्न करंड श्रावकाचार (श्लो० ११८) में शास्त्रदानमें ‘कौण्डेशका नाम दिया है। और उसकी संस्कृत टीका में उक्त कथा दी है।

पं० आशाधरजीने (वि० सं० १३००) अपने सागर’ धर्माश्रुतमें

शास्त्रदानका फल बतलाते हुए कौण्डेशका उदाहरण दिया है और अपनी टीकाओं में उसे पूर्व जन्ममें गोविन्द नामका ग्वाला बतलाया है ।

इस कथाके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने लिखा है कि नामोंकी समानताके कारण गलतीसे इसे कुन्दकुन्दकी कथा समझ लिया गया है । किन्तु यथार्थमें यह कथा भी कुन्दकुन्दसे ही सम्बद्ध होनी चाहिये, यह बात 'कौण्डेश' नामसे व्यक्त होती है । किन्तु ये सब कथाएँ पीछेकी उपज जान पड़ती हैं । हरिपेणके बृहत्कथा कोशमें जो शक सं० ८५३ (वि० सं० ६८६) में रचकर पूर्ण हुआ था, कुन्दकुन्दका नाम तक भी नहीं है । फिर भी इन कथाओंसे उस कालमें कुन्दकुन्दाचार्यकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और महानताका आभास मिलता है । उनके सम्बन्धमें प्रचलित कुछ घटनाओंके आधारपर ही उक्त कथाओंका शरीर निमित्त हुआ जान पड़ता है । इसलिये उन्हें एक दम मनघड़न्त नहीं कहा जा सकता । अस्तु,

अब हम साहित्यिक अभिलेखोंसे ज्ञात उक्त पाँच बातोंके सम्बन्धमें विचार करेंगे ।

कुन्दकुन्दके नाम

पञ्चास्तिकायके टीकाकार जयसेनाचार्यने लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्यके पद्मनन्दी आदि नाम थे । और षट्प्राभृतके टीकाकार श्रुतसागर सूरिने (विक्रमकी १६ वीं शती) अपनी टीकाके अन्तमें उनके पाँच नाम बतलाये हैं—पद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिच्छाचार्य । शिला लेखोंसे भी इन नामोंका समर्थन होता है । नन्दिसंघसे सम्बद्ध विजय नगरके शिलालेखमें जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पाँच नाम बतलाये हैं । तथा नन्दिसंघकी एक पट्टावलीमें भी उक्त पाँच नाम बतलाये हैं । किन्तु

१—श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्रीवाचार्यलाचार्य-गृच्छापिच्छाचार्यनामपंचकाविराजितेन चतुरगुलाकाशगमनर्द्धिना पूर्वविदेहपुण्डरीकणी-नगरवन्दितसीमन्धरापरनाम स्वयंप्रभजिनेन तच्छ्रुतज्ञानसम्वाधितभरतवर्ष-भव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कालकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे...।'

२—'श्रीमूलमंजुनि नन्दिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणे उतिरभ्य । तत्रापि सारस्वतनाम्निगच्छे स्वच्छाशयोऽभूदिह पद्मनन्दी ॥३॥ आचार्य कुन्दकुन्दा-ख्यो वक्रग्रीवो महामुनिः । एलाचार्यो गृद्धपिच्छो इति तन्नाम पंचधा ॥४॥' जै०सि० भा० भा० १, कि० ४ पृ० २० ।

अन्य शिला लेखोंमें उनके दो ही नाम मिलते हैं—पद्मनदी और कुन्दकुन्द या कोण्डकुन्द । उनमें भी उनका प्रथम नाम पद्मनदी था । वि० सं० १११० में रचे गये दर्शन सारमें देवसेनने इसी नामसे उनका उल्लेख किया है । और जिस नामसे वह ख्यात है वह नाम उनके जन्म स्थानसे सम्बद्ध है । शेष तीनों नामों की स्थिति चिन्त्य है । उनके सम्बंधमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें अन्वेषणात्मक दृष्टिसे विचार किया है । उनका मन्तव्य है कि जिन शिलालेखोंमें वक्रग्रीवका नाम आया है उनमें प्रथम तो यह नहीं कहा गया कि यह कुन्दकुन्दका नाम है । दूसरे जिन शिला लेखोंमें वक्रग्रीवके साथ संघ गण गच्छका उल्लेख है, उनमें द्रविड़ संघ, नन्दिगण और अरुणलान्वयका उल्लेख है । अतः वक्रग्रीवार्थ कुन्दकुन्दसे भिन्न थे । इसी तरह एलाचार्य नामका समर्थन भी अन्यत्रसे नहीं होता । रहा गृद्धपिच्छाचार्य नाम । सो श्रवण्वेल गोलाके अनेक शिलालेखोंमें उमास्वातिको गृद्धपिच्छाचार्य कहा है । तत्त्वार्थ सूत्रके अन्तमें पाये जाने वाले एक श्लोकमें भी गृद्धपिच्छसे युक्त उमास्वामीको तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामीने धवला टीकामें गृद्धपिच्छाचार्यको तत्त्वार्थ सूत्रका कर्ता कहा है । उन्होंने उमास्वाति या उमास्वामीका नाम ही नहीं लिया । ज्ञान प्रबोधमें पाई जाने वाली कथामें यह अदृश्य लिखा है कि जब कुन्दकुन्द विदेह गये तो मार्गमें उनकी मयूर पिच्छका गिर गई तब उन्होंने गृद्धके पंखोंकी पिच्छकासे काम चलाया । संभवतया इसी घटनासे गृद्धपिच्छाचार्य ये नाम प्रवर्तित हुआ या नामकी संगति बैठानेके लिये उक्त घटनाकी प्रवृत्ति हुई यह कहना शक्य नहीं है । उमास्वातिके सम्बन्धमें भी श्रवण वेलगोलाके एक शिलालेखमें ऐसा पाया जाता है कि मयूर पिच्छ गिर जाने पर उन्होंने गृद्धपिच्छसे काम लिया । अतः कुन्दकुन्द गृद्धपिच्छाचार्य थे या उमास्वाति गृद्धपिच्छाचार्य थे, अथवा गृद्धपिच्छाचार्य इन दोनोंसे अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति थे, यह अनुसन्धेय है ।

कुन्दकुन्दका जन्मस्थान

इन्द्रनन्दिने आचार्य पद्म नन्दिको कुन्दकुन्दपुरका बतलाया है । फलतः श्रवण्वेलगोलाके कतिपय शिलालेखोंमें उनका नाम कोण्डकुन्द लिखा है । श्री पी. वी. देशाईने 'जैनिज्म इन साउथ इण्डिया' में लिखा है कि गुण्टकल रेलवे स्टेशनसे दक्षिणकी ओर लगभग चार मील पर एक कोण्डकल नामका

गांव है जो अनन्तपुर जिलेके गूटी तालुकेमें स्थित है। शिलालेखोंमें इसका प्राचीन नाम कोण्ड कुन्दे मिलता है। इस प्रदेशके अधिवासी आज भी इसे कोण्डकुन्दि कहते हैं। कन्नड़ में कुण्ड और कोण्ड शब्द का अर्थ पहाड़ी होता है। किन्तु जब ये शब्द किसी स्थान के नाम के साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनका अर्थ होता है—पहाड़ी पर या उसके निकट बसा हुआ स्थान। यह अर्थ प्रकृत स्थानके साथ पूरा संघटित होता है। वर्तमानमें भी यह गांव एक पहाड़ी के बिल्कुल निकट है। श्री देसाई इस स्थान पर स्वयं गये थे और उन्होंने पूरी छान-बीन की थी। उन्होंने लिखा है प्राचीनताकी दृष्टिसे इस स्थानका महत्त्व अनुपम है। यहां से अनेक शिला लेख प्राप्त हुए हैं। एक शिला लेख उद्धृत है। पंक्ति ३-१० में स्थान का वर्णन प्रतीत होता है। इसमें पद्म-नन्दि नाम दो बार आया है और उसके साथ में चारण भी है जो अपनी विशेषता रखता है क्योंकि उससे कुन्दकुन्दका ग्रहण होता है। बाद को उसमें कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख है। श्री देसाईका कथन है कि कुन्दकुन्दका जन्म स्थान यही है। किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस प्राचीन शिलालेखमें उक्त स्थानका नाम कोण्डकुन्दे लिखा हुआ है। यह बात सामने आने पर प्रकृत विषयमें एक निश्चय पर पहुँचनेमें विशेष मदद मिल सकती है।

कुन्दकुन्दके गुरु

जयसेनाचार्यने पञ्चास्तिकायकी टीकामें कुन्दकुन्दको कुमारनन्दि सिद्धान्त-देवका शिष्य बतलाया है और नन्दि संघकी पट्टावलीमें उन्हें जिनचन्द्रका शिष्य बतलाया है।

श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नं० २२७ में कुमारनन्दि भट्टारकका नाम आता है। विद्यानन्दिने भी अपनी प्रमाण परीक्षामें कुमार नन्दिके नामसे एक कारिका उद्धृत की है। किन्तु यह कुमारनन्दि दार्शनिक थे और इनका समय भी उतना प्राचीन नहीं है। तथा इनके साथ सिद्धान्तदेवका विशेषण भी नहीं मिलता। इनके सिवाय अन्य किसी कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवका पता नहीं चलता। तथा सिद्धान्त देव उपाधि भी विशेष प्राचीन नहीं है। श्रवण वेलगोलाके शिलालेखोंमें कई विद्वानोंके नामोंके साथ इसका उपयोग हुआ मिलता है। यथा, प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव, देवेन्द्र सिद्धान्त देव, शुभचन्द्र सिद्धान्तदेव। ये सभी दसवीं शताब्दीके लगभग हुए हैं। अतः जयसेनका उक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। इसके सिवाय नन्दिसंघकी पट्टावलीमें

जिनचन्द्रको कुन्दकुन्दका गुरु बतलाया है और वे जिनचन्द्र भावनन्दिके शिष्य हैं। जिनचन्द्रके गुरुत्वका भी अन्यत्रसे समर्थन नहीं होता। फिर भी पट्टावलीके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे कुन्दकुन्दके गुरु थे।

किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने अपने बोध पाहुड़के अन्तमें अपने गुरुके रूपमें भद्रबाहुका स्मरण किया है और अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है। बोध पाहुड़के अन्तकी दो गाथाएँ इस प्रकार हैं:—

सद्विआरो हूओ भासामुत्तेसु जं जिणे कहियं ।
 सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥६१॥
 बारसअंगवियाणं चउदस पुव्वंग विउलविस्थरणं ।
 सुयणाणं भद्रबाहु गमयगुरु भयवओ जयओ ॥६२॥

पहली गाथामें कहा है कि 'जिनेन्द्रने-भगवान महावीरने-अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह भाषा सूत्रोंमें शब्दविकारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूँथा गया है। भद्रबाहुके मुक्त शिष्यने उसको उसी रूपमें जाना है और कथन किया है। दूसरी गाथामें कहा है--'बारह अंगोंके और चौदह पूर्वोंके विपुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु भगवान श्रुतज्ञानी--श्रुतकेवली भद्रबाहु जयवन्त हों।

ये दोनों गाथाएँ परस्परमें सम्बद्ध हैं। पहली गाथामें कुन्दकुन्दने अपनेको जिस भद्रबाहुका शिष्य कहा है दूसरी गाथामें उन्हींका जयकार किया है। और वे भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हैं, यह दूसरी गाथासे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और इसका समर्थन कुन्दकुन्दके समयप्राभृतकी प्रथम^१ गाथासे भी होता है। उसके उत्तरार्धमें उन्होंने कहा है कि 'श्रुतकेवलीके द्वारा प्रतिपादित समय प्राभृतको कहूँगा।' यह श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हो सकते। श्रवणवेलगोलके अनेक शिलालेखों^२ में यह बात अंकित है कि अपने शिष्य चन्द्रगुप्तके साथ भद्रबाहु वहाँ पधारे थे और वहीं एक गुफामें उनका स्वर्गवास हुआ था। इस घटनाको अनेक विद्वानोंने ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार किया है। और

१ वंदिस्तु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गइं पत्ते । वोच्छामि समय-
 पाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥१॥

२. शिला लेख संग्रह भा. १, में लेख नं० १, १७-१८, ४०, ५४, १०८ ॥

कुन्दकुन्दके द्वारा उनका अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया जाना उक्त घटनाकी सत्यताको ही प्रमाणित करता है; क्योंकि कुन्दकुन्द श्रुतकेवली भद्रबाहुके समकालीन नहीं प्रतीत होते क्योंकि अंग ज्ञानियोंकी परम्परामें उनका नाम नहीं है। किन्तु यह बात उन्हें ज्ञात थी कि श्रुतकेवली भद्रबाहु दक्षिण भारतमें पधारे थे और उनके शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा ही दक्षिण भारतमें जैन धर्मके तत्त्व-ज्ञानका प्रसार हुआ था। इसीसे उन्होंने गमक गुरुके रूपमें उनका स्मरण किया और परम्परासे प्राप्त तत्त्व ज्ञानको 'श्रुतकेवली भणित' कहा प्रतीत होता है।

अतः बोधप्राभृतकी अन्तिम गाथाओंमें स्मृत भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहु ही होने चाहिए। किन्तु श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने उक्त दोनों गाथाओंको सम्बन्ध रूपमें ग्रहण न करके अलग-अलग ग्रहण किया है। अपने 'समन्तभद्र' नामक ग्रन्थमें उन्होंने उक्त दो गाथाओंमेंसे केवल प्रथम गाथाको उद्धृत करके लिखा है--'इस उल्लेख परसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि 'भद्रबाहु शिष्यका' अभिप्राय यहां ग्रन्थ कर्तासे भिन्न किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं है। और इसलिये कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य जान पड़ते हैं। उन्होंने इस पद्यके द्वारा यदि सचमुच ही यह इस ग्रन्थका पद्य है तो--अपने कथनके आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विशेष प्रमाणिकताको उद्घोषित किया है। अन्यथा कुन्दकुन्दसे भिन्न भद्रबाहुके शिष्य द्वारा जाने जाने और कथन किये जानेका बातका यहाँ कुछ भी सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। टीकाकार श्रुतसागर भी उक्त सम्बन्धको स्पष्ट नहीं कर सके, उन्होंने 'भद्रबाहु शिष्यके' लिये जो विशाखाचार्यका कल्पनाकी है वह भी कुछ युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती। जान पड़ता है टीकाकारने भद्रबाहुको श्रुतकेवली समझकर वैसेही उनके एक प्रधान शिष्यका उल्लेख कर दिया है। और प्रकरणके साथ कथनके सम्बन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसीसे उसे पढ़ते हुए गाथाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता। अब देखना चाहिये कि यह भद्रबाहु कौन हो सकते हैं जिनका कुन्दकुन्दने अपनेको शिष्य सूचित किया है। श्रुतकेवली तो ये प्रतीत नहीं होते; क्योंकि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके शिष्य माने जानेसे कुन्दकुन्द विक्रमसे प्रायः २०० वर्ष पहलेके विद्वान ठहरते हैं और उस वक्त दशपूर्वधारियोंके जैसे महा विद्वान मुनिराजोंकी उपस्थितिमें कुन्दकुन्दान्वयके प्रतिष्ठित होनेकी बात कुछ जीकी नहीं लगती। इसलिये कुन्दकुन्द उन्हीं भद्रबाहुके शिष्य होने चाहिये जिन्हें प्राचीन ग्रन्थकारोंने आचारांग नामक प्रथम अंगके धारियोंमें तृतीय विद्वान सूचित किया है और

पटावलीमें जिनके अनन्तर गुप्त, माघनन्दी और जिनचन्द्रकी कल्पनाकी गई है।' (समन्तभद्र—पृ० १८४-१८५) ।

इसमें सुस्तार साहबने दूसरी गाथाकी कोई चर्चा ही नहीं की है। किन्तु 'श्री कुन्दकुन्द और यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौन' शीर्षक निबन्ध में उन्होंने पहली गाथा देकर और उसके सम्बन्धमें उक्त बात संक्षेपमें कह कर दूसरी गाथा दी है और लिखा है—' इस परसे यह कहा जा सकता है कि पहली गाथा (नं० ६१) में जिन भद्रबाहुका उल्लेख है वे द्वितीय भद्रबाहु न होकर भद्रबाहु श्रुतकेवली ही हैं। और कुन्दकुन्दने अपनेको उनका जो शिष्य बतलाया है वह परम्परा शिष्यके रूपमें उल्लेख है। परंतु ऐसा नहीं है। पहली गाथामें वर्णित भद्रबाहु श्रुतकेवली मालूम नहीं होते क्योंकि श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें जिन कथित श्रुतमें ऐसा कोई खास विकार नहीं हुआ था। जिसे उक्त गाथामें 'सद्भवियारो हूओ भासासुतेसु जं जिणे कहिय' इन शब्दों 'द्वारा सूचित किया है। वह अविच्छिन्न चला आया था'। (अनेकांत, वर्ष २, कि. १)।

सुस्तार साहबने गाथा ६१ के उक्त पूर्वार्द्धका अर्थ इस प्रकार किया है—

'जिनेन्द्रने--भगवान महावीरने--अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह भापासूत्रोंमें शब्द विकारको प्राप्त हुआ है--अनेक प्रकारके शब्दोंमें गूँथा गया है।' इस अर्थमें जिनकथित श्रुतमें विकार आनेका तो संकेत तक नहीं है। ऐसी स्थितिमें उक्त मिथ्या कल्पनाके आधारपर दूसरे भद्रबाहुकी बात निस्सार प्रतीत होती है।

यह ठीक है कि टीकाकार श्रुतसागरने गाथा नं० ६१ का अर्थ करते हुए भद्रबाहुके शिष्यका अर्थ विशाखाचार्य किया है जो ठीक नहीं है। किन्तु उससे इतना तो प्रमाणित होता ही है कि श्रुतसागर भी इस गाथामें स्मृत भद्रबाहुको श्रुतकेवली भद्रबाहु ही मानते थे। यदि गाथा ६२ न होती तो यह बात विचारणीय थी कि किस भद्रबाहुके शिष्य कुन्दकुन्द थे। गाथा ६२ के होते हुए तो उसमें विचारकी कोई बात ही नहीं रहती। गाथा ६१ में अन्य भद्रबाहुका उल्लेख हो और गाथा ६२ में गुणगान किया जाये दूसरेका, यह तो वही भसल हुई, विवाह किसीका और गीत किसीके।

अतः यह बात असन्दिग्ध है कि कुन्दकुन्दने अपने गुरु रूपसे भद्रबाहु श्रुतकेवलीका उल्लेख किया है। उन्होंने गाथा ६२ में श्रुतकेवली भद्रबाहुको 'गमक गुरु' कहा है। गमकका व्याकरण सिद्ध अर्थ होता है—प्रबोधक—प्रबोध करने वाले गुरु। उससे भी यही प्रमाणित होता है कि

कुन्दकुन्दको परम्परासे श्रुत केवली भद्रबाहुके द्वारा ही प्रबोध प्राप्त हुआ था । तभी तो उन्होंने समय प्राभृतको 'श्रुतकेवली भणित' कहा है ।

रहा प्रश्न द्वितीय भद्रबाहुका, किन्तु उनकी स्थिति संदिग्ध है । त्रिलोक प्रज्ञप्ति, धवला, जयधवलामें जो अंग ज्ञानियोंकी नामावली दी है उसमें यशोबाहु नाम है, इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें जयबाहु नाम है । केवल आदि-पुराणमें और नन्दिसंघकी पट्टावलीमें भद्रबाहु नाम मिलता है । और नन्दि पट्टावलीमें इन द्वितीय भद्रबाहुका भी चौथी पीढ़ीमें कुन्दकुन्दको रखा है । अर्थात् पट्टावलीके अनुसार कुन्दकुन्द द्वितीय भाद्रबाहुके भी परम्परा शिष्य थे । किन्तु श्रवणबेल गोलाके शिलालेख नं०४० में कुन्दकुन्दको श्रुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्तके पश्चात् ही स्थान देकर उन्हें श्रुतकेवली भद्रबाहुके ही अन्वयमें हुआ बतलाया है । इसीका समर्थन बोध प्राभृतसे होता है । अतः कुन्दकुन्दके द्वारा गुरु रूपसे स्मृत भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहु ही हैं । उन्हींको वह अपना गुरु मानते थे ।

कुन्दकुन्दका विदेह गमन

कुन्दकुन्दके विदेह जानेका सबसे प्राचीन उल्लेख देवसेनके^१ दर्शनसारमें (वि सं० १६०) है । और चूँकि दर्शनसारके अन्तमें यह कहा गया है कि उसमें पूर्व गाथाओंका संकलन किया गया है, अतः यह कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्दके विदेह गमनकी किम्बदन्ती उससे भी पुरानी है । पञ्चास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें जयसेनाचार्यने भी कुन्दकुन्दके विदेह जाकर सीमन्धर, स्वामीकी वाणीको श्रवण करनेको 'प्रसिद्ध कथा' कहा है । श्रवण बेलगोलाके

१. श्रीभद्रः सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुतः । श्रुतकेवलनाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥ ४ ॥ चन्द्रप्रकाशोऽज्वलचान्द्रकीर्तिः श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः । यस्य प्रभावाद् वनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीनाम् ॥ ५ ॥ तस्यान्वये भूविदिते वभूव यः पद्मनन्दप्रथमाभिधानः । श्रीकोण्डकुन्दादि-मुनीश्वराख्यसस्तयमाहुद्गतचारणद्धिः ॥ ६ ॥ —शि० संग्रह भा० १, ।

२. 'जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिब्बणाणेण । ए विवोहइ तो सनणा कहं सुमग्गं पयाणांति ॥ ४३ ॥ —दर्शनसार । ३ 'पुंवाइरिय कयाइं गाहाइं समुच्चउण एयत्थ । ... रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण णवसएणउर ।' = दर्शनसार ।

शिलालेखोंमें^१ उन्हें चारण ऋद्धिका धारी बतलाया है। जैन शास्त्रोंमें जो ऋद्धियाँ बतलाई हैं उनमें चारणऋद्धि भी है और उसके अनेक भेद हैं। पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें सैकड़ो योजन तक गमन करनेको चारण ऋद्धि कहते हैं। और पालथी लगाकर या काथोत्सर्गसे स्थित होकर, पैर संचालनके विना आकाशमें गमन करनेको आकाशगामी ऋद्धि कहते हैं। पुराणमें इस तरहकी ऋद्धिके धारी मुनियोंकी कथाएं आती हैं। किन्तु यदि कुंदकुंदने सीमंधर स्वामीकी वाणी सुन करके ग्रंथ रचना की होती तो वे अपने समयप्राभृतको श्रुतकेवली भणित न कहते, और श्रुतकेवलीको अपना गमक गुरु न कहकर सीमन्धर स्वामीको या केवली भगवानको अपना गुरु कहते। अतः उक्त विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह किंवदन्ती एक दम आधुनिक नहीं है, प्राचीन है, तथापि कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोंसे इस तरहका कोई आभास नहीं मिलता।

हाँ, अपने प्रवचनसारकी तीसरी गाथामें^२ कुन्दकुन्दने मनुष्यक्षेत्र (अर्थाई द्वीप) में वर्तमान अरहंतोको नमस्कार किया है। उसका उल्लेख करते हुए डा० उपाध्येने लिखा^३ है कि इस गाथाको उक्त किंवदन्तीके प्रादुर्भाव अथवा सफल द्वारके रूपमें बतलानेका मुझे लोभ होता है। चूंकि कुन्दकुन्दने यहाँसे विदेह क्षेत्रमें वर्तमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार किया है इसलिये वे विदेह क्षेत्र गये थे।^४

इस विषयमें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विदेह जानेकी किंवदन्ती उमा स्वामी और पूज्यपादके विषयमें भी प्रवर्तित है। बम्बईसे प्रकाशित तत्त्वार्थ-श्लोक वार्तिककी प्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व शंकाका समाधान करनेके लिये उमास्वामी विदेह क्षेत्र गये थे। उनकी मयूर पिच्छी मार्गमें गिर गई। तब उन्होंने गृद्धके पिच्छसे काम चलाया। इसीसे गृद्धापिच्छाचार्य कहलाये। राजावलिकथे में लिखा है कि पूज्यपाद पैरोंमें औषधिका लेप करके उसके प्रभावसे विदेह गये थे। श्रवणवेलगोलाके एक शिलालेखमें पूज्यपादकी

१ 'सत्संयमाहुद्गत चारणद्धिः' शि० ले० ४० । 'चारित्रसंजात सुचारणद्धिः' शि० ले० न० ४२ । २ 'वंदांमि य वट्टंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥३॥ - प्र० सा० । ३ प्र० सार० प्रस्ता० पृ० ६ ।

४—श्री पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधिर्द्धिर्जीयाद्विदेहजिनदर्शनपूत्रगात्रः ।

यत्पादधौतजलसंस्पर्शप्रभावात्कालायसं किल तदा कनकीचकार ॥१७॥
-शि० संग्र०, भा० १, पृ० २११ ।

प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनको अनुपम औपध ष्टद्धि प्राप्त थी, विदेह क्षेत्रमें स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था तथा उनके चरणोंके धोये हुए जलके स्पर्शसे उस समय लोहा सोना हो गया था ।

उमा स्वामि और पूज्यपाद विषयक उक्त उल्लेख दर्शनसारसे बहुत अर्वा-चीन है । पूज्यपाद विषयक उक्त शिला लेख तो विक्रम सं० १४६० का है अर्थात् दर्शनसारसे ५०० वर्ष पश्चात्का है । इसलिये प्राचीनतम कथन तो कुन्द-कुन्दके विषयमें ही पाया जाता है । तथापि अभी उसे ऐतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसके लिये अभी और भी अनुसंधानकी आवश्यकता है ।

कुन्द-कुन्दका समय

आचार्य श्रीकुन्दकुन्दके समयके विषयमें प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामें डा० उपाध्येने अपनेसे पूर्वके मतोंका दिग्दर्शन कराते हुए विस्तारसे विचार किया है ।

परम्परागत मत—नंदीसंघकी पट्टावलीके अनुसार विक्रम सम्वत् ४६ में कुन्दकुन्द स्वामी पट्ट पर बैठे । पट्टावलीकी विभिन्न प्रतियोंमें अंतर भी पाया जाता है । डा० हार्नले के द्वारा इण्डियन ऐण्टीकरी जि० २१ में प्रकाशित तान दिगम्बर पट्टावलियोंमें से 'इ' पट्टावलीमें कुन्दकुन्दके पट्टाभिषेकका समय वि० सं० १४६ दिया है । अर्थात् दोनोंमें एकसौ वर्षोंका अंतर है ।

विद्वज्जन बोधकमें एक श्लोक उद्धृत है जिसमें कुन्दकुन्द और उमास्वामीको समकालीन बतलाया है और उनका समय वीर निर्वाण सम्वत् ७७० (विक्रम सं० ३००) बतलाया है । इनमेंसे वि० सं० ४६ वाली मान्यता ही जैन परम्परामें विशेष रूपसे प्रचलित है । इस तरह यह कुन्दकुन्दके समयके विषयमें परम्परागत मत है ।

श्रीप्रेमीजीका मत—जैनहितैषी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व श्री युत प्रमोदजीने आचार्य कुन्दकुन्दके सम्बन्धमें एक लेख लिखा था । उसमें उन्होंने इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए लिखा था कि वीर निर्वाणके पश्चात् ६८३ वर्ष तक अंग ज्ञानकी परम्परा चालू रही । उसके पश्चात् श्रुतावतारके अनुसार चार आचार्य हुए जो अंगों और पूर्वोंके एक देशके ज्ञाता थे । उनके पश्चात् क्रमसे अर्हद्बली, माघनन्दि और धरसेन हुए । धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राभृतके ज्ञाता थे । उन्होंने भूतबली

और पुष्पदन्तकी महाकर्म प्रकृति प्राभृत पदाया और उन दोनोंने षट्खण्डागमके सूत्रोंकी रचनाकी और उन्हें लिपिबद्ध कर लिया ।

उपर गुणधर आचार्यने कसाय पाहुड़को गाथा सूत्रोंमें निबद्ध किया और आर्यमन्त्र तथा नागहस्तीकी पदाया । उनसे उन गाथासूत्रोंको पढ़कर यतिवृषभने उनपर छ हजार प्रमाण चृणिसूत्रोंकी रचना की । उच्चारणाचार्यने उन्हें पढ़कर उनपर १२ हजार श्लोक प्रमाण उच्चारणा वृत्ति रची ।

ये दोनों सिद्धान्त ग्रंथ कुंदकुंदपुरवासी पद्मनन्दिको प्राप्त हुए और उन्होंने षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची ।

इससे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद हुए । अतः ६८३ वर्षके पश्चात् होने वाले धरसेन आदि आचार्योंका अनुमानित रूपमें थोड़ा सा समय निर्धारित करके प्रेमी जी इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कुन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी शताब्दीके अन्तिम चरणमें हुए होंगे ।

प्रेमी जीके निर्णयका दूसरा आधार वह किंबदन्ती है जिसके अनुसार उर्जयन्त गिरिपर कुन्दकुन्दका श्वेताम्बरोंके साथ विवाद हुआ था ।

कुंदकुंदके ग्रन्थोंसे, विशेषतया सुत्तपाहुड़से यह ज्ञात होता है कि कुंदकुंदके समय में जैन परम्परामें श्वेताम्बर और दिगम्बर भेद हो गया था ।

देवसेन के दर्शन सारके अनुसार श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद विक्रम की मृत्यु के १३६ वर्ष बाद हुआ था । प्रेमी जीने दर्शनसारमें प्रदत्त कालको शालिवाहन शक समझकर श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय १३६ + १३५ = २७१ विक्रम सम्बत् निर्धारित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कुंदकुंद अवश्य ही इस समयके पश्चात् हुए हैं । अतः इस हिसाब से भी कुंदकुंद का समय विक्रम सम्बत् की तीसरी शताब्दीका अन्तिम चरण होता है । यह प्रेमी जीके मतका सार है । उनके मतानुसार कुन्दकुन्द किसी भी तरह वीर निर्वाण ६८३ से पूर्व नहीं हो सकते ।

डा० पाठकका मत — जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्थासे प्रकाशित समय-

१. नये तथ्योंके प्रकाशमें आनेसे प्रेमीजीका उक्त मत परिवर्तित हो गया था यह उनके षट्प्राभृतादि संग्रह की भूमिका से प्रकट होता है । प्रेमी जी के उक्त मतको हमने प्रवचनसारकी डा० उपाध्ये लिखित प्रस्तावना से दिया है ।

२. यह मत षट्प्राभृतादि संग्रह (मा० ग० मा० बम्बई) की प्रेमी जी लिखित भूमिका से उद्धृत किया गया है ।

प्राभृतकी भूमिकामें स्व० डा० के० वी० पाठकका यह मत प्रकाशित हुआ था कि कुंदकुन्दाचार्य वि० सं० ५८५ के लगभग हुए हैं। अपने मतकी पुष्टिमें उन्होंने लिखा है कि जिस समय राष्ट्र कूटवंशी राजा तृतीय गोविन्द राज्य करता था उस समयका शक सम्बत् ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला है। उसमें निम्नलिखित पद्य दिये हैं—

कोण्डकोन्दान्वयोदारो गणोऽभूद् भुवनस्तुतः ।
 तदैतद् विषयविख्यातं शाल्मलीग्राममावसम् ॥
 आसीद (?) तोरणाचार्यस्तपःफलपरिग्रहः ।
 तत्रोपशमसभूतभावनपास्तकल्मशः ॥
 पण्डितः पुष्पनन्दीति वभूव भुवि विश्रुतः ।
 अन्तेवासी मुनेस्नस्य सकलश्चद्रमा इव ॥
 प्रतिदिवसभवद्वृद्धिर्निरस्तदोषो व्यपेतहृदयमलः ।
 परिभूतचन्द्रविम्बस्तच्छिष्योऽभूत्प्रभाचन्द्रः ॥

उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयका शक सं० ७१६ का एक और ताम्रपत्र मिला है जिसमें नीचे लिखे पद्य हैं—

आसीद (? तोरणाचार्यः कोण्डकुन्दान्वयोद्भवः ।
 स चैतद्विषये श्रीमान् शाल्मलीग्राममाश्रितः ॥
 निराकृततमोऽराति स्थापयन् सत्पथे जनान् ।
 स्वतेजोद्योतितक्षौणिश्चण्डार्चिरिव यो बभौ ॥
 तस्याभूत् पुष्पनन्दी तु शिष्यो विद्वान् गणाग्रणीः ।
 तच्छिष्यश्च प्रभाचन्द्रस्तस्येयं वसतिः कृता ॥

इन दोनों लेखोंका अभिप्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्य नामके मुनी इस देशमें शाल्मली नामके ग्राममें आकर रहे। उनके शिष्य पुष्पनन्दि और पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचन्द्र हुए।

पाठकजीका कहना है कि पिछला ताम्रपत्र जब शक सम्बत् ७१६ का है तो प्रभाचन्द्रके दादागुरु तोरणाचार्य शक सं० ६०० के लगभग रहे होंगे। और तोरणाचार्य कुंदकुन्दान्वयमें हुए हैं। अतएव कुंदकुंदका समय उनसे १५० वर्ष पूर्व अर्थात् शक सं० ४५० के लगभग माननेमें कोई हानि नहीं।

चालुक्यवंशी कीर्ति महाराजने बादामी नगरमें शक सम्बत् ५०० में प्राचीन कदम्बवंशका नाश किया था। और इसलिये इससे लगभग ५० वर्ष पूर्व

कदम्बवंशी महाराज शिवमृगेशवर्मा राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है। पंचास्तिकायके कनड़ी टीकाकार बालचन्द्र और संस्कृत टीकाकार जबलेनाचार्यने लिखा है कि यह ग्रन्थ आचार्य कुन्दकुन्दने शिवकुमार महाराजके प्रतिबोधके लिये रचा था और ये शिवकुमार शिवमृगेशवर्मा ही जान पड़ते हैं। अल्पेन भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यका समय शक सम्वत् ४५० (वि० सं० ५८५) सिद्ध होता है। यह स्व० डा० के० बी० पाठकका मत है।

डा० ए० चक्रवर्तीका मत—प्रो० ए० चक्रवर्तीने पञ्चास्तिकायकी अपनी प्रस्तावनामें प्रो० हार्नले द्वारा सम्पादित नन्दि संघकी पट्टावलियोंके आधार पर कुन्दकुन्दको पहली शताब्दीका विद्वान माना है और यह सूचित किया है कि कुन्दकुन्द वि० सं० ४६ में आचार्य पदपर प्रतिष्ठित हुए, ४४ वर्षकी अवस्थामें उन्हें आचार्यपद मिला, ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदपर प्रतिष्ठित रहे और उनकी कुल आयु ६५ वर्ष १० महीने १५ दिन थी।

अपने इस मतके समर्थनका प्रयत्न करते हुए प्रो० चक्रवर्तीने इस बातपर जोर दिया है कि कुन्दकुन्द द्रविड़ संघके थे। उन्होंने मंत्रलक्षण नामक एक पुस्तकमें नीचे लिखा श्लोक उद्धृत किया है—

दक्षिणदेशे मलये हेमग्रामे मुनिर्महारमासीत् ।

एलाचार्यो नामा द्रविलगणाधीशो धीमान् ॥

प्रो० चक्रवर्तीका कहना है कि श्लोकमें कथित प्रदेश द्रविड़ देशमें खोजे जा सकते हैं। और कुन्दकुन्द द्रविड़ देशके वासी थे तथा उनका एक नाम एलाचार्य था। जैन परम्पराके अनुसार एलाचार्य प्रसिद्ध तमिलग्रन्थ कुरलके रचयिता थे। एलाचार्यने कुरलको रचा और अपने शिष्य तिरुवल्लुवरको दे दिया और उसने उसे मदुरासंघको भेंट कर दिया। एलाचार्यका दूसरा नाम एलालसिंह था। एलालसिंह तिरुवल्लुवरका साहित्यिक संरक्षक माना जाता है। कुरलका जैनगुरु एलाचार्यके द्वारा रचित होना अन्य तथ्योंसे भी समुचित प्रतीत होता है। यथा—कुरलका नैतिकस्वर, सर्वोत्तम धन्धेके रूपमें कृषिकी बल्लुब लोगोंसे जिससे द्रविड़ देशमें जैन धर्मके प्राथमिक अनुयायी बनाये, प्रशंसा।

कुरलके कर्ताके साथ एलाचार्य अथवा कुन्दकुन्दकी एकरूपता कुरलकी ईसाकी प्रथम शताब्दिमें जा रखती है। किन्तु यह सर्वथा असंभव नहीं है। कुरल शिल्लप्पदिकारम् और मण्णिमेखलासे प्राचीन है। 'शिल्लप्पदिकारम्' की रचना वंजीके चेरवंशी राजा सेंगुत्तुवन् सेषके छोटे भाईने की थी और मण्णिमेखलौ

की रचना उसीके समकालीन मित्र कुल वनिकन् सत्तनर ने की थी। देवी मन्दिर (शिलालेखिकायम्) की प्रतिष्ठाके समय श्रीलंकाका राजबाहु उपस्थित था। अतः कुरल उससे भी प्राचीन है। इसलिये इससे भी कुन्दकुन्दके पट्टावली प्रतिपादित समयका ही समर्थन होता है।

आगे प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठकके मतका निराकरण किया है। डा० पाठकने प्राचीन कदम्ब नरेश श्री विजय शिव मृगेश महाराजको पंचास्तिकायमें निर्दिष्ट शिवकुमार महाराज बतलाया है; क्योंकि उसके समयमें जैनधर्म श्वेताम्बर और दिगम्बर रूपमें विभाजित हो गया था और कुन्दकुन्दने स्त्री मुक्तिका निषेध करके श्वेताम्बर मान्यतापर प्रहार किया है।

प्रो० चक्रवर्तीने डा० पाठककी इस बातको तो मान्य किया है कि कुन्दकुन्द श्वेताम्बर दिगम्बर भेदके पश्चात् हुए हैं। किन्तु प्राचीन कदम्बनरेश शिवमृगेश महाराजको शिवकुमार महाराज माननेसे इंकार किया है क्योंकि कुन्दकुन्दके समयसे कदम्बरजवंशका समय बहुत बादका है। प्रो० चक्रवर्तीने पल्लववंशके शिवस्कन्दको शिवकुमार महाराज बतलाया है; क्योंकि स्कन्द और कुमार शब्द एकार्थक हैं। तथा उसे युव महाराज भी कहते थे जो कुमार महाराजका ही समानार्थक है।

पल्लव नरेश थोण्डमण्डलम् पर राज्य करते थे। उनकी राजधानी कांजीपुरम् थी। कांजीपुरम्के राजा शिवा प्रेमी थे। तथा थोण्डमण्डलम् विद्वानों की भूमि था। अनेक महान् द्रविड विद्वान्, जैसे कुरलके कर्ता आदि थोण्डमण्डलम्के थे। ईस्वी सन्की दूसरी शताब्दीमें कांजीपुरम्की बड़ी ख्याति भी थी। उसके आस पास जैनधर्मका फैलाव था। अतः यदि ईसाकी प्रथम शताब्दीमें कांजीपुरम्के पल्लव नरेश जैनधर्मके संरक्षक रहे हों अथवा स्वयं जैनधर्मके पालक रहे हों तो यह असंभव नहीं है, इसके सिवाय मयिदावोल्ल दान पत्रकी भाषा प्राकृत है और वह दान कांजीपुरम्के शिवस्कन्दवर्माने दिया था। इस दान पत्रका आरम्भ 'सिद्धार्थ' से होता है। तथा मथुराके शिलालेखोंसे इसकी गहरी समानता है। ये बातें दाता नरेशके जैनधर्मकी और मुकावकी सूचक हैं। अन्य भी अनेक शिला लेखोंसे स्पष्ट है कि पल्लव नरेशोंके राज्यकी भाषा प्राकृत थी। और कुन्दकुन्दने अपने ग्रंथ प्राकृतमें ही रचे थे। अतः प्रो० चक्रवर्तीने यह निष्कर्ष निकाला है कुन्दकुन्दने जिस शिव कुमार महाराजके लिये प्राभृत रचे थे वह पल्लव नरेश शिवस्कन्द थे यह बहुत कुछ संभाव्य है।

पं० जुगल किशोर जी मुख्तारका मत—श्री पं० जुगल किशोर ज मुख्तार ने 'समन्त' भद्र' नामक अपने निबन्धमें समन्तभद्रके काल निर्णयके प्रसंगसे कुन्दकुन्द स्वामीके काल पर भी विस्तारसे विचार किया है। सबसे प्रथम उन्होंने विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत श्लोककी चर्चा की है जिसमें लिखा है कि वीर निर्वाणसे ७७० वर्ष बाद उमास्वाति तथा कुन्दकुन्द हुए। और अनेक विप्रत्तिपत्तियां दिखाते हुए नन्दिसंघकी पट्टावलीमें दिये काल वि० सं० ४६-१०१ को भी पट्टावलीकी हालत देखते हुए सहसा विश्वसनीय नहीं माना है। और इस लिये इन आधारोंको उन्होंने प्रकृत विषयके निर्णयार्थ उपयोगी नहीं स्वीकार किया है। ऐसी दशामें दूसरे किसी मार्गसे कुंदकुंदका ठीक समय उपलब्ध करनेके लिये उन्होंने भी इंद्रनंदिके श्रुतावतारको आधार बनाया है तथा प्रेमी जीकी तरह वह भी इसी निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि कुंदकुंदाचार्य वीर निर्वाण सम्वत् ६८३ से पहले नहीं हुए, पीछे हुए हैं। किंतु कितने पीछे हुए हैं यह स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने लिखा है कि यदि अन्तिम आचारांगधारी लोहाचार्यके बाद होनेवाले चार आरातीय मुनियों का एकत्र समय २० वर्षका और अर्हद्बलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि तथा कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वर्षका ही मान लिया जाये तो यह सहजमें ही कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० वर्ष अथवा वीर निर्वाणसे ७६३ (६८३ + २० + ६०) वर्ष बाद हुए हैं और यह समय उस समयके करीब ही पहुँच जाता है जो विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत पद्यमें दिया है। और इसलिए इसके द्वारा उसका बहुत कुछ समर्थन होता है।

इसके बाद मुख्तार साहबने नन्दिसंघकी पट्टावलीकी चर्चा उठाई है और लिखा है कि उसमें वीरनिर्वाणसे भूतबलि पर्यन्त ६८३ वर्षकी गणना की है। यदि इसे ठीक मान लिया जाये और यह स्वीकार कर लिया जाये कि भूतबलिका अस्तित्व वीरनिर्वाण सम्वत् ६८३ तक रहा है तो भूतबलिके बाद कुन्दकुन्दकी प्रादुर्भूतिके लिए कमसे कम २०-३० वर्षकी कल्पना और भी करनी होगी क्योंकि कुन्दकुन्दको दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीके द्वारा प्राप्त हुआ था। इस तरहसे कुन्दकुन्दके समयका प्रारम्भ वीर निर्वाणसे ७०३ या ७१३ के करीब हो जाता है। परन्तु यदि यही मान लिया जाये कि वीर

१. मा० प्र० माला बम्बईसे प्रकाशित रत्नकरंड श्रावकाचारके आदिमें 'समन्तभद्र' नामक निबन्ध, पृ० १५८ आदि।

निर्वाणसे ६८३ वर्षके अनन्तर ही कुन्दकुन्द हुए हैं तो यह कहना होगा कि वे विक्रम सम्बत् २१३ के बाद हुए हैं, उससे पहले नहीं। यही पं० नाथूराम जी प्रेमी आदि अधिकांश जैन विद्वानोंका मत है। इसमें मुख्तार सा० ने इतना और जोड़ दिया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका देह जन्म मानते हुए, उसका विक्रम संवत् यदि राज्य सम्बत् है तो उससे १६५ वर्ष बाद और यदि मृत्यु सम्बत् है तो उससे १३३ वर्ष बाद कुन्दकुन्दाचार्य हुए हैं।

आगे मुख्तार साहबने डा० पाठकके मतकी समीक्षा करते हुए पञ्चास्तिकायके शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेखको बहुत कुछ आधुनिक बतलाया है क्योंकि मूल ग्रन्थमें उसका कोई उल्लेख नहीं है और न अमृतचन्द्राचार्यकी टीका परसे ही उसका समर्थन होता है। फिर भी मुख्तार साहबने शिवमृगेश वर्माके साथ शिवकुमार महाराजके सभिकरणकी अपेक्षा परलव नरेश शिवस्कन्द वर्माके साथ उनके सभिकरणको अच्छा बतलाया है। किन्तु कुन्दकुन्दका प्लाचार्य नाम था इस बातको अमान्य किया है। तथा पट्टावलिके आधार पर प्रो० चक्रवर्ती द्वारा निर्धारित किये गये समय ईसाकी प्रथम शताब्दीमें भी अनेक अनुपपत्तियाँ प्रदर्शित की हैं। और अन्तमें कुन्दकुन्द कृत बोध पाहुडकी ६१ वीं गाथाके आधार पर कुन्दकुन्दको द्वितीय भद्रबाहुका शिष्य स्वीकार किया है। किन्तु पट्टावलीमें जो द्वितीय भद्रबाहुका समय वि० सं० ४ दिया है उसे युक्तियुक्त नहीं माना।

डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें उक्त सब मत देकर उसके आधार पर कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय रखे हैं। हम भी यहाँ उनपर अपने ढंगसे विचार करेंगे।

१—श्वे० दि० संघ भेद हो जानेके पश्चात् कुन्दकुन्द हुए।

२—कुन्दकुन्द भद्रबाहुके शिष्य हैं।

३—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंका ज्ञान गुरु परम्परासे कुन्दकुन्द पुरमें पद्मनन्दिको प्राप्त हुआ और उन्होंने षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डोंपर टीका ग्रन्थ लिखा।

४—जयसेन और बालचन्द्रकी टीकाओंके उल्लेखके अनुसार कुन्दकुन्द शिवकुमार महाराजके समकालीन थे।

५—कुन्दकुन्द तमिल ग्रन्थ कुरलके रचयिता हैं।

इन पाँचों मुद्दोंको दो भागोंमें रखा जा सकता है। पहले भागमें प्रारम्भके दो मुद्दोंको रखा जा सकता है क्योंकि उन दोनोंका आधार स्वयं कुन्दकुन्दका साहित्य है। और शेष तीन मुद्दोंको दूसरे भागमें रखना उचित होगा क्योंकि उनका आधार अन्यकृत उल्लेखादि हैं।

संघभेद के पश्चात् कुन्दकुन्द हुए

पहले लिख आये हैं कि कुन्दकुन्दने अपने बोधप्राप्तकी अन्तिम गाथामें श्रुतकेवली भद्रबाहुका जयकार किया है और उससे पहली गाथामें अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है। अतः यह निर्विवाद है कि कुन्दकुन्दने अपनेको श्रुतकेवली भद्रबाहुका ही शिष्य बतलाया है। और श्रुतकेवली भद्रबाहुके साथ ही दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी घटनाका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

भगवान महावीरके निर्वाणके पश्चात् तीन केवली हुए गौतम गणधर, सुधर्मास्वामी और जम्बूस्वामी। तथा केवल ज्ञानियोंके पश्चात् पाँच श्रुतकेवली हुए। जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे। भगवान महावीरके तीर्थमें हुए आरातीय पुरुषोंमें भद्रबाहु श्रुतकेवली ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों अपना धर्मगुरु मानते हैं। किन्तु श्वेताम्बर अपनी स्थविर परम्पराको भद्रबाहुके नामसे न चलाकर भद्रबाहुके गुरुभाई संभूतिविजयके शिष्य स्थूलभद्रसे चलाते हैं। और उनकी गणना भी श्रुतकेवलियोंमें करते हैं।

श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्ष पड़नेकी घटनासे श्वेताम्बर साहित्य भी सहमत है। दिगम्बर परम्पराके अनुसार भद्रबाहु मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्तके साथ अपने संघको लेकर दक्षिण भारत को चले गये थे। और वहाँ कटवप्र नामक पहाड़ पर, जो वर्तमानमें चन्द्रगिरि कहलाता है और मैसूर प्रदेशके श्रवण वेलगोला नामक स्थानमें स्थित है, उनका स्वर्णवास हुआ था। किन्तु श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वे नेपाल देशकी ओर चले गये थे। जब दुर्भिक्ष समाप्त हुआ तो पाटलीपुत्रमें साधुसंघ एकत्र हुआ और सबकी स्मृतिके आधारपर ग्यारह अंगोंका संकलन किया गया। किन्तु बारहवें दृष्टिवाद अंगका संकलन न हो सका; क्योंकि उसका ज्ञाता भद्रबाहुके सिवाय कोई दूसरा न था।

तब संघने भद्रबाहु को बुलानेके लिये दो मुनियोंको भेजा। उन्होंने कहला दिया कि मैंने महा प्राण नामक ध्यानका आरम्भ किया है। उसकी साधना में बारह वर्ष लगेंगे। अतः मैं नहीं आ सकता। इस उत्तरसे रुष्ट

होकर संघने पुनः दो मुनियोंको उनके पास भेजा और उनसे कहा कि वह जाकर भद्रबाहुसे पूछना कि जो मुनि संघके शासनको न माने तो उसे क्या दण्ड देना चाहिये। यदि वह कहें कि उसे संघबाह्य कर देना चाहिये तो उनसे कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य हैं। दोनों मुनियोंने जाकर भद्रबाहुसे वही प्रश्न किया और उन्होंने वही उत्तर दिया। 'तिथ्योगाली पद्मस्य' में लिखा है कि भद्रबाहु के उत्तरसे नाराज होकर स्थविरों ने कहा—संघकी प्रार्थना का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा इसका विचार करो। भद्रबाहुने कहा—मैं जानता हूँ कि संघ इस प्रकार वचन बोलनेवालेका वहिष्कार कर सकता है। स्थविर बोले—तुम संघकी प्रार्थनाका अनादर करते हो... इसलिये श्रमण संघ आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार बन्द करता है।'

अतः यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि भद्रबाहु श्रुत केवलके समयमें अवश्य ही ऐसी घटना घटी जिसने अखण्ड जैन परम्परामें भेद पैदा कर दिया। और उस भेदका मुख्य कारण साधुओंके द्वारा वस्त्र धारण किया जाना था। यह बात दिगम्बर तथा श्वेताम्बर नामसे ही स्पष्ट होजाती है। स्त्रीकी मुक्ति होने न होने का प्रश्न भी उसीसे सम्बद्ध है। प्रारम्भमें ये ही दो प्रश्न मुख्य रूपसे संघभेदके कारण हुए। और कुन्दकुन्दने अपने प्राभृतोमें इन्हीं दोनों पर जोर दिया है। उदाहरणके लिये सूत्र प्राभृतको उठाकर देखें। उसमें कहा है कि वस्त्रधारी यदि तीर्थङ्कर भी हो तो जिन शासनमें उसे मुक्ति नहीं कही है। नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं ॥ २३ ॥ स्त्रियोंकी योनि नाभि, कर्ण और स्तनोंके मध्यमें सूक्ष्म जीव आगममें कहे हैं उनको प्रवज्या (जिनदीपा) कैसे दी जा सकती है ॥ २४ ॥ अतः यह निश्चित है कि कुन्दकुन्द संघ भेदके पश्चात् हुए हैं।

दर्शन 'सार'में लिखा है कि विक्रमराजाकी मृत्युसे १३६ वर्ष बीतने पर सौराष्ट्रकी वलभी नगरोंमें श्वेतपट संघ उत्पन्न हुआ और श्वेताम्बरोंके अनुसार वीर निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चात् अर्थात् विक्रम संवत् १३६ में वोटिकों का उत्पत्ति हुई। चूँकि जैन ग्रन्थोंमें विक्रम संवत्को विक्रमकी मृत्युसे प्रवर्तित बतलाया है और श्वेताम्बर साहित्यमें वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष पश्चात् विक्रम

१. छत्तीसे वारस सए, विक्रमरायस मरणपत्तरस ।

सौरट्टो वलहीए उप्परणो सेबडो संघो ॥ ११ ॥—दर्शनसार ।

सम्बन्ध की उत्पत्ति बतलाई है। अतः दोनों कालोंमें केवल ३ वर्षका अन्तर है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि संघभेद विक्रम संवत् १३६ या १३६ में ही हुआ। संघ भेदका सूत्रपात तो श्रुतकेवली भद्रबाहुके समयमें ही हो चुका था। फिर वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। संघभेदके उक्त निर्दिष्टकाल और भद्रबाहुके बीचमें लगभग ४०० वर्षका अन्तर है। इतने सुदीर्घकालमें पनपते पनपते वि० सं० १३६ में उसने स्पष्ट और दृढ़ रूप लेलिया।

दर्शनसारमें लिखा है कि वि० सं० २०५ में यापनीय संघ स्थापित हुआ। यह संघ, जैसा कि इसके नामसे प्रकट होता है, एक निर्वाह परक संघ था जो कुछ बातोंमें दिगम्बर परम्पराका अनुयायी था और कुछ बातोंमें श्वेताम्बर परम्पराका। इसके मुनि नग्न रहते थे मगर यह सम्प्रदाय स्त्री मुक्ति मानता था। उधर कुन्दकुन्दने जहाँ नग्नताका समर्थन किया वहाँ स्त्री को प्रव्रज्या तकका नियेध किया। अतः विक्रम की दूसरी शताब्दीमें अवश्य ही ऐसी स्थिति हो गई थी जब उक्त दोनों विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, इसीसे कुन्दकुन्दने भी अपने ग्रन्थोंमें उनकी चर्चा की है। अतः कुन्दकुन्दका ऐसे समयके लगभग होना ही अधिक सम्भव प्रतीत होता है।

अब हम दूसरे भागके प्रथम मुद्दे पर विचार करेंगे, जिसे श्री प्रेमीजी और मुख्तार साहब जैसे जैन इतिहासज्ञोंने कुन्दकुन्दके समय निर्णयके लिये आधार भूत माना है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्तोंकी प्राप्ति कुन्दकुन्द पुरके पद्मनन्दिनको हुई। यह कुन्दकुन्दपुरके पद्मनन्दिन वही हैं जिनके सम्बन्धमें यहाँ विचार किया जा रहा है; क्योंकि कुन्दकुन्दपुरके साथ सम्बद्ध दूसरे पद्मनन्दिन नहीं है। कुन्दकुन्दपुरके कारण ही पद्मनन्दिन कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। अतः इन्द्रनन्दिने द्विविध सिद्धान्त ग्रन्थोंकी प्राप्ति होनेका उल्लेख उन्हींके सम्बन्धमें किया है और लिखा है कि उन्हींने षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ (ग्रन्थ-परिकर्मकर्ता) रचा। चूँकि वह परिकर्म नामका ग्रन्थ आदिके तीन खण्डों पर रचा गया था इस लिये उसे टीका समझा गया है। मगर इन्द्रनन्दिने उसका निर्देश टीका या व्याख्या शब्दसे नहीं किया, जब कि शामकुण्डाचार्यकी कृतिको पडति, तुम्बूलूराचार्यकी कृतिको व्याख्या और समन्तभद्रकी कृतिको टीका स्पष्ट रूपसे कहा है। अस्तु।

अब हम देखेंगे कि क्या कोई परिकर्म नामक ग्रन्थ षट्खण्डागमके तीन खण्डोंपर रचा गया था और क्या उसके कर्ता कुन्दकुन्द थे।

परिकर्म और उसके कर्तृत्व पर विचार

धवला टीकामें परिकर्म नामक ग्रन्थका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है, और उससे अनेक उद्धरण भी लिए गये हैं। यह परिकर्म किसके द्वारा रचा गया था इसका कोई निर्देश धवलामें नहीं है, और न उसे षट्खण्डागमका व्याख्या ग्रन्थ ही कहा है। किन्तु धवला टीकामें उसके उद्धरणोंका बाहुल्य देखकर यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यह परिकर्म इन्द्रनन्दिके द्वारा निर्दिष्ट परिकर्म ग्रन्थ तो नहीं है? इसके लिये धवलामें प्रदत्त परिकर्म सम्बन्धी उद्धरणोंका पर्यवेक्षण करना उचित होगा। उससे पहले यह बता देना उचित है कि परिकर्मका उल्लेख प्रथम खण्ड जीवट्टाणकी धवला टीकामें विशेष रूपसे पाया जाता है। इस खण्डके द्रव्य प्रमाणानुगम नामक अनुयोग द्वारमें जीवोंकी संख्याका कथन है। और उसके समर्थनमें परिकर्मके उद्धरण विशेष दिये गये हैं। उद्धरणोंके देखनेसे ऐसा प्रतिभास होता है कि परिकर्मका मुख्य विषय शायद गणित है जैसा कि उसके 'परिकर्म' नामसे प्रकट भी होता है। अस्तु, कुछ उद्धरण इस प्रकार हैं -

१ 'एण च एधं वक्खाणं 'जत्तियाणि दीवतागरूवाणि जव्वदीवछेदणाणि च रूवाहियाणित्ति परियम्मसुत्तेण सह विहज्जन्ति'—पु० ३, पृ० ३६। 'और यह व्याख्यान 'जितनी द्वीपों और सागरोंकी संख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने छेद हैं उसने राजुके अर्धच्छेद हैं; इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता।'

२ 'जं तं गणणासंखेज्जं तं परियम्मे वुत्तं'—पु० ३, पृ० १२४। 'वह जो गणना संख्यात है उसका कथन परिकर्ममें है।'

३ 'रज्जू सत्त गुणिदा जगसेदि, सा वगिदा जगपदरं, सेदीए गुणिद-जगपदरं घणलोगो होदिति' परियम्मसुत्तेण सव्वाहरियसम्मदेण विरोहप्पसं-गादो च।—पु० ४, पृ० १८४। 'रज्जुको सातसे गुणा करनेपर जगश्रेणी होती है। जगश्रेणीको जगश्रेणीसे गुणा करनेपर जगत्प्रतर होता है और जगत्प्रतरको जगत्प्रतरसे गुणा करनेपर घन लोक होता है' इस सर्व आचार्योंसे सम्मत परिकर्म सूत्रसे विरोधका प्रसंग भी आता है।'

४ 'जदि सुदणाणिस्स विसत्रो अणंतसंखा होदि तो जमुक्कस्ससंखेज्जं विसत्रो चोदसपुब्बिस्तेत्ति परियम्मे वुत्तं तं कधं घडदे?'—पु० ६, पृ० ५६।

यदि श्रुतज्ञानका विषय अनन्त संख्या है तो चौदह पूर्वीका विषय उत्कृष्ट संख्यात है ऐसा जो परिकर्ममें कहा है वह कैसे घटित होता है ?

५. एदे जोगाविभागिपडिच्छेदा य परियम्मे वगासमुट्टिदा त्ति परुविदा — पु० १०, पृ० ४८३ ।

परिकर्ममें इन योगोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंको वगै समुत्थित बतलाया है ।

६ 'अपदेसं शेव इंदिए गेज्जं' इति परमाणुणं गिरवयवत्तं परियम्मे तुत्त-
मिदि एासंक्खिज्जं, पदेसो एाम परमाणु, सो जग्घि परमाणुग्घि समवेद-
भावेण एत्थि सो परमाणु अपदेसओत्ति परियम्मे तुत्तो । तेण ए गिरवयवत्तं
त्ततो गम्मदे—पु० १३, पृ० १८ ।

'परमाणु अपदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं होता' इस प्रकार परमाणुओंका निरवयवपना परिकर्ममें कहा है ।' ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिये क्यों कि प्रदेशका अर्थ परमाणु है । वह जिस परमाणुमें समवेत भावसे नहीं है वह परमाणु अपदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा है । अतः परमाणु निरवयव है यह बात परिकर्मसे नहीं जानी जाती ।

उक्त उद्धरणोंसे प्रकट होता है कि परिकर्मका प्रधान प्रतिपाद्य विषय शायद् सैद्धान्तिक गणित है क्योंकि ऊपर जितने भी उद्धरण है वे सब क्षेत्रादि विषयक गणनासे सम्बद्ध है । उसीके प्रसंगसे ज्ञानोंकी भी उसमें चर्चा है और वह महत्वपूर्ण प्रतीत होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि परिकर्ममें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों प्रमाणोंका वर्णन है ।

'अपदेसं शेव इंदिए गेज्जं' से द्रव्य विषयक चर्चाका संकेत मिलता है । तथा उससे ऐसा भी आभास होता है कि परिकर्ममें गाथायें भी होनी चाहिये क्योंकि यह गाथाका अंश प्रतीत होता है ।

वीरसेन स्वामीने उसे सर्वाचार्य सम्मत बतलाया है । इसका मतलब यह है कि अन्य ग्रन्थोंमें भी उसके उद्धरण प्रमाण रूपसे उद्धृत किये गये होंगे । किन्तु उपलब्ध साहित्यमें धरलाके सिवाय अन्यत्र परिकर्मका नाम तक नहीं है । हो सकता है कि वीरसेन स्वामीके सम्मुख षट्खण्डागमकी जो टीकाएँ वर्तमान थीं, उन सबमें परिकर्मको प्रमाण रूपसे उद्धृत किया गया होगा । शायद् इसीसे उसे 'सर्वाचार्य सम्मत' कहा है ।

किन्तु परिकर्म षट्खण्डागमका टीका ग्रन्थ है इसका कोई निर्देश धरलामें नहीं है । बल्कि कई उद्धरणोंमें उसका उल्लेख 'परिकर्म सूत्र' नामसे किया

है। जिससे यही आभास होता है कि वह कोई स्वतंत्र ग्रन्थ है। किन्तु कुछ निर्देश ऐसे भी मिलते हैं जिसे इसके विपरीत भावना व्यक्त होती है। इसके लिये वेदना खण्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकारके सूत्र नम्बर २०८ की ध्वला दृश्य है। सूत्रमें कहा गया है कि एक कम जघन्य असंख्यातकी वृद्धिसे संख्यात भाग वृद्धि होती है। इसकी ध्वलामें लिखा है कि एक कम जघन्य असंख्यात कहनेसे उत्कृष्ट संख्यातका ग्रहण करना चाहिए। इसपर शंका की गई है कि सीधेसे उत्कृष्ट संख्यात न कहकर और सूत्रको बढ़ा करके 'एक कम जघन्य असंख्यात' क्यों कहा? तो उत्तर दिया गया है कि उत्कृष्ट संख्यातके प्रमाणके साथ संख्यात भागवृद्धिका प्रमाण बतलानेके लिए बैसा कहा गया है। इससे आगे ध्वलाकारने लिखा है—

‘परिक्रमादो उक्कस्स संखेज्जयस्स पमाणमवगदमिदि ए पच्चवट्टाणं कादुं जुत्तं तस्स सुत्तत्ताभावादो। एदस्स णिस्सेसस्स आइरियाणुग्गाहेण पदविगिण्ययस्स एदम्हादो पुधत्ताविरोहादो वा ए तदो उक्कस्स संखेज्जयस्स पमाणसिद्धीः— (पु० १२, पृ० १५४)।

अर्थात् 'यदि कहा जाये कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो ऐसा प्रत्यवस्थान करना भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्रताका अभाव है। अथवा आचार्यके अनुग्रहसे पदरूपसे निकले हुए इस समस्त परिकर्मके चूँकि उससे पृथक् होनेका विरोध है इसलिए भी उससे उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण सिद्ध नहीं होता।

उक्त कथनमें प्रथम तो परिकर्मके सूत्र होनेका निषेध किया है। दूसरे इसके उससे (पट्खण्डागमसे) भिन्न होनेका विरोध किया है। किन्तु परिकर्म उससे भिन्न क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण उक्त कथनसे नहीं होता। वे कौन आचार्य थे जिनके अनुग्रहसे परिकर्मकी निष्पत्ति हुई, तथा 'पदविनिर्गत' शब्दसे ध्वलाकारका क्या अभिप्राय है इत्यादि बातें अस्पष्ट ही रह जाती हैं। किन्तु फिर भी इतना तो उक्त कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिकर्मका पट्खण्डागमके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता तो सूत्र २०८ की उक्त ध्वलामें यह क्यों कहा जाता कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण तो परिकर्मसे अवगत है तब यहाँ उत्कृष्ट संख्यात न कहकर एक कम जघन्य असंख्यात क्यों कहा? और क्यों उसका इससे भिन्न होनेका विरोध किया।

इसी तरहकी एक चर्चा जीवद्वाणके द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके सूत्र ५२ की ध्वला टीकामें भी है। सूत्रमें लक्ष्यपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण क्षेत्रकी

अपेक्षा जगत श्रेणीके असंख्यातवें भाग बतलाकर यह भी बतलाया है कि जगतश्रेणिके असंख्यातवें भागरूप श्रेणी असंख्यात करोड़ योजन प्रमाण होती है। इसपर धवलामें यह शंका की गई है कि इसके कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर दिया गया है कि इस सूत्रसे इस बातका ज्ञान नहीं हो सकता था कि जगत्श्रेणिके असंख्यातवें भागरूप श्रेणीका प्रमाण असंख्यात करोड़ योजन है। इसपर पुनः शंका की गई है कि परिकर्मसे इस बातका ज्ञान हो जाता है। तब फिर सूत्रमें ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी। इसके उत्तरमें कहा गया है कि इस सूत्रके बलसे परिकर्मकी प्रवृत्ति हुई है।

इस उद्धरणसे बराबर ऐसा लगता है कि परिकर्म षट्खण्डागम का व्याख्या ग्रन्थ है। और भी देखिये —

खुदाबन्धके कालानुगम अनुयोग द्वारमें बादर पृथिवी कायिक आदि जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति बतलानेके लिये एक सूत्र आता है—‘उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥७७॥’ अर्थात् अधिकसे अधिक कर्मस्थिति प्रमाण कालतक एक जीव बादर पृथिवी कायिक आदिमें रहता है।

इस सूत्रकी धवलामें लिखा है - ‘सूत्रमें जो ‘कम्मट्ठिदी’ शब्द आया है उससे सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम मात्र कालका ग्रहण करना चाहिये। फिर लिखा है—किन्हीं आचार्योंका ऐसा कहना है कि सत्तर सागरोपम कोड़ा-कोड़ीको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर बादर पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण होता है किन्तु उनकी ‘कर्मस्थिति’ यह संज्ञा कार्यमें कारणके उपचारसे ही सिद्ध होती है। आगे लिखा है—

‘एदं वक्खाण मरिथत्ति कधं णव्वदे ? कम्मट्ठिदिमावलियाए असंखेज्जदि-भागेण गुणिदे बादरट्ठिदि होदित्ति परयम्मवयणएणहाणुववत्तीदो । तत्थ सामयणेण बादरट्ठिदि होदित्ति जद्वि उचं तो वि पुढविकायादीणं बादरारणं पत्तेयकार्याट्ठिदी घेतत्वा, असंखेज्जासंखेज्जाओ ओसप्पिणी-उत्सप्पिणीओत्ति सुत्तम्मि बादरट्ठिदी परूवणादो’—पु. ७. पृ. १४५ ।

‘शङ्का—ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना ?

समाधान—‘कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर बादरस्थिति होती है’ परिकर्मके ऐसे बचनकी अन्यथा उपपत्ति बन नहीं सकती है। वहां (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यसे ‘बादरस्थिति होती है’ ऐसा कहा है तथापि प्रत्येक बादर पृथिवीकायादिकी कायस्थिति ग्रहण करना

चाहिये । क्योंकि सूत्रमें (षट्खं०) वादरस्थितिका कथन असंख्यातासंख्यात् अवसर्पिणी उत्सर्पिणी प्रमाण किया है ।

उक्त उद्धरणमें जो खुदाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शङ्का की गई है कि ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मका इस प्रकारका कथन बन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है ।

जीवट्टाणके कालानुगमकी धवला टीकामें (पु० ४, पृ० ४०३) भी उक्त चर्चा प्रकारान्तरसे आई है । उसमें लिखा है —

‘कोई आचार्य ‘कर्मस्थितिसे वादरस्थिति परिकर्ममें उत्पन्न हुई है’ इसलिये कार्यमें कारणका उपचार करके वादरस्थितिकी ही कर्मस्थिति संज्ञा मानते हैं । किन्तु यह घटित नहीं होता क्योंकि गौण और मुख्यमें से मुख्यका ही ज्ञान होता है, ऐसा न्याय है ।’

खुदाबन्धमें भी उक्त चर्चा ‘उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥७७॥’ सूत्र की व्याख्या में आई है और जीवट्टाणके कालानुगममें भी उक्कस्सेण कम्मट्ठिदी ॥१४४॥ सूत्र की व्याख्यामें आई है । उस चर्चासे प्रकट होता है कि परिकर्ममें वर्णित वादरस्थिति कर्मस्थिति से उत्पन्न हुई है । अर्थात् षट्खण्डागम के उक्त दोनों खण्डोंमें आगत सूत्रके ‘कर्मस्थिति’ पदसे ही परिकर्मगत वादरस्थिति उत्पन्न हुई है । अतः यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि षट्खण्डागमके सूत्रोंके आधार-पर ही परिकर्मकी रचना हुई है । किन्तु एक उद्धरणसे षट्खण्डागमसे परिकर्ममें कुछ मतभेद भी प्रतीत होता है ।

उक्त चर्चा जीवट्टाण के कालानुगम में एक जीवकी अपेक्षा वादर एकेन्द्रियकी उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की धवलामें भी आई है । लिखा है—

‘कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणाकरने पर वादरस्थिति उत्पन्न हुई है’ परिकर्मके इस बचनके साथ यह सूत्र विरुद्ध पड़ता है इसलिये इस सूत्रको अवक्षिप्तताका प्रसंग नहीं आता । किन्तु परिकर्मका बचन सूत्रानुसारी नहीं है इसलिये परिकर्मको ही अवक्षिप्तताका प्रसंग आता है ।’ (पु० ४, पृ० ३६०) । किन्तु यहां जो परिकर्मके बचनको सूत्रानुसारी नहीं होनेके कारण अवक्षिप्तताका प्रसंग दिया है उसका परिहार खुदाबन्धकी धवलाके उक्त उद्धरणके अन्तमें वीरसेन स्वामीने स्वयं कर दिया है । उन्होंने लिखा है —

‘वहाँ (परिकर्ममें) यद्यपि सामान्यसे ‘कायस्थिति’ होती है ऐसा कहा है । तथापि पृथिवीकायादि वादरोंमें से प्रत्येककी कायस्थिति लेनी चाहिये क्योंकि सूत्र (षट्खं०) में असंख्यात उत्सर्पिणी अबसर्पिणी प्रमाण वादर कायस्थिति कही है । अर्थात् परिकर्ममें जो कायस्थिति कही है वह पृथिवी कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की है । और जीवद्वाराणके कालानुगम अनुयोग द्वारके सूत्र ११२ में जो वादर स्थिति कही है वह वादर एकेन्द्रिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है ।’

धवलामें परिकर्मके एक उद्धरणको लेकर एक चर्चा और भी है जो इस प्रकार है—

शंका—‘जितनी द्वीप और सागरों की संख्या है तथा जितने जम्बूद्वीपके अर्द्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजुके अर्द्धच्छेद होते हैं ।’ परिकर्मके इस कथनके साथ यह उपर्युक्त व्याख्यान क्यों नहीं विरोधको प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त व्याख्यान भले ही परिकर्मके साथ विरोध को प्राप्त होता हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता । इस कारणसे इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये, परिकर्मको नहीं; क्योंकि वह सूत्र-विरुद्ध है । और जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है ।’ (पु० ४, पृ० १५६) ।

उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मको सूत्र विरुद्ध व्याख्यान कहा है उससे भी उसके षट्खण्डागम सूत्रोंका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता है । प्रश्न केवल सूत्र विरुद्धताका रह जाता है । किन्तु जीवद्वाराणके ही द्रव्य प्रमाणानुगम अनुयोग द्वारकी धवलामें उक्त सूत्र विरुद्धताका परिहार भी किया है । लिखा है—

‘यह व्याख्यान’ जितनी द्वीपों और सागरों की संख्या है और जम्बूद्वीपके रूपाधिक जितने अर्द्धच्छेद हैं’ इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको प्राप्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे अधिक रूपाधिक नहीं लिया किन्तु रूपोंसे अधिक रूपाधिक लिया है । (प्र० ३, पृ० ३६१)

उक्त उद्धरणोंसे बराबर यह प्रकट होता है कि षट्खण्डागमके सूत्र परिकर्मके आधार थे । किन्तु वह उनका केवल व्याख्यात्मक ग्रन्थ ही नहीं था । यही बात इन्द्रनन्दिने भी कही है । उन्होंने लिखा है कि षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा । उपर जो व्याख्या विषयक उद्धरण दिये हैं वे प्रायः जीवद्वाराण और सुहाबन्ध की धवलाके हैं, और ये दोनों

षट्खण्डागमके प्रथम दो खण्ड हैं। अतः इन्द्रनन्दिका उक्त कथन बिल्कुल प्रामाणिक प्रतीत होता है। पूरी ध्वलामें परिकर्म विषयक २६ उल्लेख हैं जिनमें से १८ उल्लेख जीवट्टाणमें और तीन उल्लेख खुदाबन्धमें हैं। प्रश्न शेष रहता है उसके कर्तृत्वका।

वीरसेन स्वामीने तो इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा। केवल इन्द्रनन्दिके कथनानुसार कुन्दकुन्द पुरके पद्मनन्दि उसके रचयिता थे। हम देख चुके हैं कि इन्द्रनन्दिने परिकर्मके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसका समर्थन परिकर्मके उद्धरणोंसे भी होता है, अतः परिकर्मके कर्तृत्वके विषयमें भी इन्द्रनन्दिका कथन यथार्थ ही होना चाहिये। समयसार और प्रवचनसारके रचयिता कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्यके द्वारा परिकर्म जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका रचा जाना सर्वथा उचित है। क्योंकि कुन्दकुन्दके उपलब्ध ग्रन्थोंसे तो उनके द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग विषयक पाण्डित्यका ही बोध होता है। करणानुयोगका विषय छूटसा ही जाता है। और कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्य करणानुयोगके विषयमें मूक रहे यह कैसे संभव हो सकता है। अतः परिकर्म कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये। परिकर्मके एक उद्धरणसे भी इसके समर्थनमें साहाय्य मिलता है। वह उद्धरण इस प्रकार है—

‘अपदेसं शेष इंदिए गेज्मं’ इति परमाणुणं णिरवयवत्तं परियम्भे भग्गिद-
मिदि ।’ उक्त उद्धरणमें ‘अपदेसं शेष इंदिए गेज्मं’ किसी गाथाके पूर्वार्द्धका भाग होना चाहिए। ‘अपदेसं’ से पहलेका पद उद्धरणमें छोड़ दिया गया है। उक्त गाथांशका ‘शेष इंदिए गेज्मं’ पद कुन्दकुन्दके नियमसारकी २६ वीं गाथामें भी इसी प्रकार पाया जाता है।

अंतादि अत्तमज्जं अत्तंतं शेष इंदिए गेज्मं ।

जं दच्चं अविभागी तं परिमाणुं वियाणीहि ॥

परिकर्ममें भी परमाणुके स्वरूप वर्णनमें उक्त अंश आया है और नियम-
सारमें भी। अन्तर इतना ही है कि ‘अन्तादि अंतमज्जं अत्तंतं’ पद उसमें नहीं है केवल ‘अपदेसं’ है और अपदेससे पहलेका कुछ भाग छोड़ दिया गया है, पूरा उद्धृत नहीं किया गया। इससे परिकर्म गत उक्त गाथा कुन्दकुन्दकी ही कृति प्रतीत होती है। अपने पक्षके समर्थनमें हम एक और भी प्रमाण उपस्थित करते हैं।

तिलोयपण्यति ग्रन्थसे परिचित विद्वानोंसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि तिलोयपण्यतिमें कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारकी अनेकों गाथाएँ ज्योंकी त्यों अपना ली गई हैं। वे गाथायें तिलोयपण्यतिसे उक्त ग्रन्थोंमें नहीं ली गई किन्तु उक्त ग्रन्थोंसे ही तिलोयपण्यतिमें ली गई हैं। यह बात जयध्वलाकी तथा तिलोयपण्यतिकी प्रस्तावनामें तथा अनेकान्त वर्ष २ कि० १ में प्रकाशित 'कुन्दकुन्द और यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौन' शीर्षक सुख्तार साहबके लेखमें युक्तिपूर्वक सिद्ध की गई है।

ति० प० के प्रथम अधिकारकी गाथा १५ से १०१ में परमाणुका स्वरूप बतलाया है। उन गाथाओंके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकारको परमाणुके सम्बन्धमें जो भी गाथायें ग्रन्थान्तरोंमें मिली उन सबको उन्होंने एकत्र कर दिया है। उनमेंसे गाथा १५, १७ और १०१, क्रमसे पञ्चास्तिकायकी ७५ वीं ८१ वीं और ७८ वीं गाथा हैं। अन्तिम चरणमें मामूली पाठ भेद है। शेष गाथाओंमेंसे एक गाथा इस प्रकार है—

अंतादिमज्ज हीणं अपदेसं इदिण्हि ण हु गेज्जं ।

जं दव्वं अविमत्तं तं परमाणु कर्हति जिण्णा ॥ ६८ ॥

इस गाथाके पूर्वाद्धका अन्तिम भाग परिकर्मवाले उद्धरणसे मिलता है। ति० प० में अन्य ग्रंथोंसे ली गई गाथाओंमें मामूली पाठभेद प्रायः पाया जाता है। अतः इसमें भी 'शेष इदिण्हि गेज्जं' के स्थानमें 'इदिण्हि ण हु गेज्जं' पाठ पाया जाता है। न उसके शब्दोंमें अन्तर है और न अर्थमें, अन्तर है शब्दोंके हेरफेर मात्रका, जो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसके पहले 'अपदेसं' पदका पाया जाना, जो परिकर्मवाले गाथांशमें है। उस गाथांशके पहले 'अंतादिमज्जहीणं' पद जोड़ दीजिये, गाथाका पूर्वाद्ध पूरा हो जाता है। इसमें नियमसारवाली गाथाका 'अंतादि अंतमज्जं अत्ततं' को संक्षिप्त करके 'अंतादिमज्जहीणं' बना दिया गया है और 'अपदेसं' उसमें और रख दिया गया है। हमें लगता है कि ति० प० में यह गाथा परिकर्मसे उसी प्रकार ली गई होनी चाहिये जिस प्रकार पञ्चास्तिकायसे ३ गाथायें ली गई हैं। और पञ्चास्तिकायकी तरह ही परिकर्म भी कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये यह बात नियमसारकी गाथाके साथ परिकर्मोंक गाथांशके मिलानसे प्रमाणित होती है।

अतः परिकर्मके अस्तित्व, और पट्खण्डागमके आद्य भाग पर उसके रचे जानेकी तरह ही उसके कुन्दकुन्दकृत होनेका इन्द्रनन्दिका कथन विशुद्ध

बधार्थ प्रतीत होता है। और इसलिए कुन्दकुन्दके समय निर्धारणका वह एक प्रमाणिक आधार हो सकता है।

शेष दो मुद्दे

शेष दोनों मुद्दे तो ऐसी स्थितिमें नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके समयका निर्धारण किया जा सके; क्योंकि कुन्दकुन्दके किसी ग्रन्थसे इस प्रकारका कोई संकेत नहीं मिलता कि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है। कुन्दकुन्दके पूर्व टीकाकार अमृतचन्द्रसूरि भी इस विषयमें मूक हैं। १२ वीं शताब्दीके टीकाकार जयसेन जिस पञ्चास्तिकायको शिवकुमार महाराजके लिए बनाया कहते हैं, उसीके अन्तमें कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये मैंने पञ्चास्तिकायको रचा। अतः शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्दकुन्दका समय निर्णय किया जा सके।

इसी तरह कुरलके कर्तृत्वकी बात भी सन्देहास्पद है। कुरलके कर्ता एलाचार्य हो सकते हैं। मगर कुन्दकुन्दका नाम एलाचार्य था यह सिद्ध नहीं होता। और जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कर्तृत्वको आधार बनाकर कुरलको ईसाकी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कहते हैं तब तो कुरलके आधारपर कुन्दकुन्दके समय निर्धारणके बजाय कुन्दकुन्दके आधारपर कुरलका समय निर्धारित करनेकी बात आ जाती है। अतः दोनों मुद्दे विशेष कार्यकर नहीं हैं। इन सबमें कुन्दकुन्दके समयका निर्णय करनेमें श्रुतावतार विषयक परिकर्म ही एक ठोस आधार प्रतीत होता है।

किन्तु डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके इस कथनको कि कुन्दकुन्दने षट्खण्डागमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई कारणोंसे मान्य नहीं किया है। उन्होंने उसके जो कारण बतलाये वह इस प्रकार हैं—

१ इस प्रकारकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

२ धवला जयधवलामें भी उसका कोई संकेत मुझे प्राप्त नहीं हो सका।

३ उत्तर कालीन साहित्यमें भी इस टीकाका कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं आया।

४ अनेक ग्रन्थोंमें इस बातका कोई उल्लेख नहीं है कि कुन्दकुन्दने षट्खण्डागम पर कोई टीका लिखी थी। इससे प्रतीत होता है कि यह बात आम तौरसे प्रसिद्ध नहीं थी।

५ तथा विबुध श्रीधर तकने अपने श्रुतावतारमें इन्द्रनन्दिके कथनको स्वीकार नहीं किया। उसने अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ परम्परासे कुन्दकुन्दको प्राप्त हुए और उनसे पढ़कर कुन्दकीर्तिने षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचा। इस तरहसे बात दोनोंके बीचमें रह जाती है और इसका निर्णय होना कठिन है; क्योंकि अन्यत्रसे इसका समर्थन नहीं होता। जहाँ तक कुन्दकुन्दका प्रश्न है मुझे (उपाध्येको) उसमें संदेह है; क्योंकि मैंने उन्हें एक व्याख्याकारकी अपेक्षा सिद्धान्त विवेचक ही अधिक पाया है।' इन कारणोंसे डा० उपाध्येने इन्द्रनन्दिके कथनको मान्य नहीं किया। किन्तु उक्त कारण विशेष जोरदार नहीं हैं।

प्रथम तो इन्द्रनन्दिने यह नहीं लिखा कि कुन्दकुन्दने कोई टीका लिखी थी। प्रत्युत परिकर्म नामका ग्रंथ लिखा और वह षट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर लिखा। यह हम ऊपर देख चुके हैं कि षट्खण्डागमके जीवट्टाणकी धवलामें परिकर्म विषयक उल्लेखोंकी बहुतायत है, और खुदाबन्धकी धवलामें भी उसके उल्लेख मिलते हैं। उन उल्लेखोंसे यह भी प्रकट होता है कि परिकर्मका आधार षट्खण्डागमके सूत्र हैं। किन्तु जैसा कि डा० उपाध्येका कुन्दकुन्दके विषयमें अभिमत है, परिकर्म मात्र टीका ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थकार कुन्दकुन्दके कर्तृत्वकी छाप उसके पदपद पर अंकित है।

विबुध श्रीधरने इन्द्रनन्दिका अनुसरण करते हुए भी जो बीचमें एक कुन्दकीर्तिकी कल्पना कर डाली है वह एकदम निराधार है; क्योंकि कुन्दकुन्दके शिष्य किसी कुन्दकीर्तिका कहीं संकेत तक भी नहीं है। विबुध श्रीधरके श्रुतावतारमें इस तरहकी इतिहासविरुद्ध अनेक बातें हैं। जब कि इन्द्रनन्दिका कथन बहुत कुछ सन्तुलित और साधार है। जैसा कि परिकर्म विषयक उसके उल्लेखसे स्पष्ट है। डा० उपाध्येके पत्रसे हमें यह जानकर हर्ष हुआ कि उन्होंने जब अपनी उक्त प्रस्तावना लिखी थी तब धवलाका प्रकाशन नहीं हुआ था। उसके प्रकाशमें आने पर उनके उक्त मतमें परिवर्तन हो गया है।

प्रो० हीरालालजीने भी इन्द्रनन्दिके उल्लेखको साधार माना है उन्होंने षट्खण्डागम पु० १ की प्रस्तावनामें लिखा है —

‘षट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धसे भी पड़ता है। इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें कहा है कि जब कर्मप्राभृत और कषाय प्राभृत दोनों पुस्तकारूढ हो चुके तब कोयडकुन्दपुरमें पञ्चनन्दि मुनिने,

जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपाटीसे मिला था, उन छह खण्डोंमेंसे प्रथम तीन खण्डों पर परिकर्म नामक बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका ग्रन्थ रचा। पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रुतावतारमें कोण्डकुन्दपुरका उल्लेख होनेसे इसमें सन्देह नहीं रहता कि यहाँ उन्हींसे अभिप्राय है।

अब हम देखेंगे कि श्रुतावतार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द का कौनसा समय निर्धारित होता है।

तिलोयपयणति, हरिवंशपुराण, भवला, जयभवला, आदि पुराण, उत्तर पुराण, श्रुतावतार और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तिमें भगवान् महावीरके पश्चात् हुए अंग पूर्ववेता आचार्योंकी तालिका काल गणनाके साथ दी है। तदनुसार भगवान् महावीरके पश्चात् ६२ वर्षमें तीन केवली हुए, फिर सौ वर्षोंमें पाँच श्रुतकेवली हुए, फिर एकसौ तिरासी वर्षोंमें ग्यारह एकादशांग और दस पूर्वोके धारी हुए। फिर २२० वर्षोंमें पाँच एकादशांगके वेत्ता हुए। फिर १५ वर्षोंमें चार आचारांगधारि क्रमसे हुए। इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचार्य परम्परा दी है जिसमें अन्तिम व्यक्ति लोहाचार्य हुए।

किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमें जो महावीर भगवानके पश्चात् हुए अंगविदाचार्योंकी काल गणना दी है, वह ऊपर्युक्त काल गणनासे विशिष्टता को लिये हुए है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचार्यका काल पृथक् २ बतलाया है। दूसरे, पाँच एकादशांग धारियों और ४ आचारांगधारियोंका काल २२० वर्ष बतलाया है। तदनुसार भगवान् महावीरके निर्वाणसे लोहाचार्य तकका काल ५६५ वर्ष ही होता है। अतः शेष ११८ वर्षोंमें अर्हद्बलि, माघनन्दि, धरसेन, पुष्पदन्त और भूतबलीको गिनाया है। इस तरहसे इस पट्टावलीमें भी भगवान् महावीरके पश्चात्से ६८३ वर्ष पर्यन्तकी गुरु परम्परा दी है किन्तु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिलित कर लिया है। यह पुष्पदन्त भूतबली वही हैं जिन्होंने षट्खण्डागमकी रचना की थी।

इस पट्टावलीमें पुष्पदन्त और भूतबलीका समय ३० + २० = ५० वर्ष बतलाया है तदनुसार वीरनिर्वाण सं० ६८३ (वि० सं० २१३) के लगभग षट्खण्डागमकी रचना हो चुकी थी। अतः षट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्मकी रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अचर्य ही इससे पहले नहीं हो सकते। अतः उनके समयकी पूर्वावधि वि० सं० २१३ निर्धारित होती है।

श्रुतावतारके अनुसार कुन्दकुन्द षट्खण्डागम पर ग्रन्थ लिखनेवाले प्रथम व्यक्ति थे। उनके पश्चात् ही शामकुण्ड, आदिने अपनी टीकाएँ लिखीं थीं। अतः कुन्दकुन्द उक्त पूर्वावधिसे अधिक समय पश्चात् नहीं होने चाहिये। इस प्रसंगमें विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत उस श्लोकको नहीं भुलाया जा सकता जिसमें वीर निर्वाणसे ७७० वर्षोंके पश्चात् उमास्वामी और कुन्दकुन्दका होना लिखा है। श्लोक इस प्रकार है—

वर्षे सत शते चैव सतत्या च विस्मृतौ ।

उमास्वामिमुनिर्जातः कुन्दकुन्दस्तथैव च ॥

इस श्लोकमें मुख्य रूपसे उमास्वामीका समय बतलाया है। अतः वीर निर्वाण ७७० में (वि० सं० ३००) उमास्वामी हुए। कुन्दकुन्द चूँकि उमास्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है। किन्तु शिलालेखोंसे यह प्रमाणित है कुन्दकुन्द उमास्वामीसे पहले हुए हैं और कुन्दकुन्दके अन्वय या वंशमें उमास्वामी हुए हैं। किन्तु कुन्दकुन्द और उमास्वामीके मध्यमें किसी अन्य आचार्यका नाम नहीं है। अतः दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल संभव प्रतीत नहीं होता। तथा नंदिसंघकी पट्टावलीमें तो कुन्दकुन्दके पश्चात् ही उमास्वामीका आचार्य पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उमास्वामी कुन्दकुन्दके शिष्य थे। किन्तु यदि शिष्य न भी हों तौ भी दोनोंके बीचमें अधिक समयका अंतराल होना संभव प्रतीत नहीं होता; क्योंकि जब कुन्दकुन्द वि० सं० २१३ से पूर्व नहीं हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उमास्वामी वि० सं० ३०० में हुए तो दोनोंको लगभग समकालीन ही समझना चाहिये। क्योंकि वि० सं० २१३ से ३०० तकके ८७ वर्षके समयमें दोनों हुए हैं। उक्त श्लोकमें जिस ढङ्गसे उमास्वामीका समय बतलाया गया है उसे देखते हुए तथा उसके साथ ही अन्य बातोंको भी दृष्टिमें रखनेसे वि० सं० ३०० या वी० नि० सं० ७७० उमास्वामीके समयकी अन्तिम मर्यादा ही समुचित प्रतीत होती है। मुस्तार साहबने इसीकी पुष्टिकी है।

ऐसी स्थितिमें यही मानना उचित प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्द वी० नि० सं० ६८३ के पश्चात् तुरन्त ही हुए हैं। अतः उनका समय विक्रमकी तीसरी शताब्दीका पूर्वार्ध अथवा ईसाकी दूसरी शताब्दीका उत्तरार्ध ही समुचित प्रतीत होता है। श्री प्रेमीजी मुस्तार साहब तथा प्रो० हीरालालजी

आदिको भी वही समय मान्य है और डा० उपाध्ये भी उससे सहमत प्रतीत होते हैं। डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दका समय ईस्वीका प्रारम्भकाल माना है। प्रो० हीरालालजी इस प्रारम्भ कालकी व्याख्या लगभग प्रथम दो शताब्दियोंके भीतरका समय करते हैं; जो उक्त समयके ही अनुकूल है।

कुन्दकुन्द और यतिवृषभ—उक्त प्रकारसे इन्दनन्दिके कथनका एक अंश तो ठीक प्रमाणित होता है क्योंकि कुन्दकुन्दको षट्खण्डागमकी प्राप्ति होने और उस पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचनेकी बात सिद्ध होती है। और जहां तक गुणधरकृत कसाय पाहुबकी गाथाओंके कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी बात है वहां तक भी ठीक है क्योंकि गुणधराचार्य हमें धरसेनसे अर्वाचीन प्रतीत नहीं होते। किन्तु गुणधराचार्यके गाथासूत्रों पर रचित यतिवृषभके चूर्णिसूत्रोंके भी कुन्दकुन्दको प्राप्त होनेकी बात विचारणीय है।

१ डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दके विषयमें ऊहापोह करनेके पश्चात् जो निष्कर्ष निकाला है वह इस प्रकार है। वह लिखते हैं—‘कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें की गई इस लम्बी चर्चाके प्रकाशमें, जिसमें हमने उपलब्ध परम्पराओंकी पूरी तरहसे छान बिन करने तथा विभिन्न दृष्टिकोणोंसे समस्याका मूल्य आंकनेके पश्चात् केवल संभावनाओंको समझनेका प्रयत्न किया है— हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीका उत्तरार्ध और ईस्वी सन्की प्रथम शताब्दीका पूर्वार्ध बतलाती है। कुन्दकुन्दसे पूर्व षट्खण्डागमकी समाप्तिकी सम्भावना उन्हें ईसाकी दूसरी शताब्दीके मध्यके पश्चात् रखती है। मर्कराके ताम्रपत्रसे उनकी अन्तिम कालावधि तीसरी शताब्दीका मध्य होना चाहिये। चर्चित मर्यादाओंके प्रकाशमें, ये सम्भावनाएँ—कि कुन्दकुन्द पल्लववंशी राजा शिवस्कन्दके समकालीन थे और यदि कुछ और निश्चित आधारों पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे तो उन्होंने कुरलको रचा था, सूचित करती हैं कि उपर बतलाये गये विस्तृत प्रमाणोंके प्रकाशमें कुन्दकुन्दके समयकी मर्यादा ईसाकी प्रथम दो शताब्दियाँ होनी चाहिये। उपलब्ध सामग्रीके इस विस्तृत पर्यवेक्षणके पश्चात् मैं विश्वास करता हूँ कि कुन्दकुन्दका समय ईस्वी सन्का प्रारम्भ है।—प्रव० प्रस्ता० पृ० २२।

२—षट्सूत्रं, पु० १, प्रस्ता० पृ० ३१।

वर्तमान तिलोय^१ पण्यति उसमें दी गई राज्य काल गणनाके आधारसे विक्रमकी छठी शताब्दीसे पूर्वकी रचना प्रमाणित नहीं होती। यदि उसका यह वर्तमान रूप यतिवृषभकृत ही है तो यतिवृषभ विक्रमकी छठी शताब्दीके विद्वान सिद्ध होते हैं और इस तरह वे कुन्दकुन्दसे तीन शताब्दी पश्चात् हुए हैं।

किन्तु जयधवलामें^२ और श्रुतावतारमें यतिवृषभको आर्यमंगु और नागहस्तिका शिष्य बतलाया है। उन्हींसे गुणधररचित गाथा सूत्रोंको पढ़कर यतिवृषभने उनपर चूर्णिसूत्र रचे थे। दिगम्बर परंपरामें इस नामके आचार्योंका अन्यत्र कोई उल्लेख नहीं मिलता। हां, श्वेताम्बरीय नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें आर्यमंगु और आर्य नागहस्तिका नाम मिलता है। किन्तु उसके अनुसार वे दोनों समकालीन नहीं थे। उनके बीचमें लगभग दो शताब्दियोंका अन्तर था। श्वेताम्बर पट्टावलीके अनुसार आर्यमंगु वा० नि० सं० ४७० में और नागहस्ति वा० नि० सं० ६२०-६८० में हुए। किन्तु मथुरासे प्राप्त कुषाण कालीन शिलालेख नं० ५४ में आर्य नागहस्ति और मंगुहस्तिका उल्लेख है और उस पर कुषाण सम्वत् ५४ अङ्कित है जो वीरनि सं० ६५६ होता है। यह समय पट्टावलीसे भी मिल जाता है। अतः नागहस्ति ६५६-४७०=१८६ वि० सं० में विद्यमान थे। इसी समयके लगभग षट्खण्डागमकी रचना हुई। उस समय तक महाकर्म प्रकृति प्राभृत वर्तमान था। उसीके लोपके भयसे धरसेनाचार्यने पुष्पदन्त भूतबलिको बुलवाकर उसे पढ़ाया था। नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें नागहस्तिको भी 'कम्मपयडिप्रधान' लिखा है। और यतिवृषभने भी अपने चूर्णिसूत्रोंमें 'एसा कम्मपयडीसु' लिखकर उसी महाकर्म प्रकृति प्राभृतका निर्देश किया है जो बतलाता है कि यतिवृषभ भी उससे परिचित थे। अतः चूर्णिसूत्रकार यतिवृषभ विक्रमकी दूसरी शताब्दीके उत्तरार्धमें हुए इन्हीं नागहस्तिके

१ देखो, जयधला भा० १, की प्रस्तावना, तिलोयपण्यति भा० २, में उसकी प्रस्तावना तथा 'जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश' में 'तिलोयपण्यति और यतिवृषभ' शीर्षक लेख तथा 'जैन साहित्य और इतिहासमें-लोक विभाम और तिलोयपण्यति' शीर्षक लेख।

२—'पुणों तेसि दोएहं पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरमुहकमल विणिग्गयाणाम्पयं समं सोऊण जयिवसहभडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णीसुत्तं कयं।' कसायपाहुइ भा० १, पृ० ८८। श्रुतावतार श्लो० १५५-१५६।

शिष्य होने चाहिये । ऐसी अवस्थामें कुन्दकुन्द उनके लघु समकालीन ठहरते हैं । अतः उन्हें चूर्णिसूत्रोंकी प्राप्ति होना संभव है ।

किन्तु चूर्णिसूत्रोंपर रचित उच्चारणा वृत्तिका कुन्दकुन्दके सामने उपस्थित होना संभव नहीं है । फिर भी इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेखका कुन्दकुन्दके उक्त निर्धारित समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कुन्दकुन्दके द्वारा उस पर कोई ग्रंथ रचना करनेका उल्लेख नहीं है ।

मूलसंघ और कुन्दकुन्दांशु—भगवान महावीरके समयमें जैनसाधु सम्प्रदाय निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध था । इसीसे बौद्ध त्रिपिटकोंमें महावीर को 'निगंठ नाट पुत्त' लिखा मिलता है । अशोकके शिलालेखोंमें भी 'निगंठ' शब्दसे ही उसका निर्देश किया गया है ।

किन्तु धारवाड़ जिलेसे प्राप्त कदम्बवंसी नरेश शिवसृगेशवर्माके शिलालेख (६८) में श्वेत पट महाश्रमण संघ और निर्ग्रन्थ महाश्रमण संघका पृथक् पृथक् निर्देश है । इससे प्रकट है कि ईसाकी ४-५वीं शताब्दीमें मूल निर्ग्रन्थ नाम दिगम्बर सम्प्रदायको प्राप्त हो चुका था ।

इसके साथ ही गंगवंशी नरेश माधव वर्मा द्वितीय (ई० सन् ४०० के लगभग) और उसके पुत्र अघिनार्तके शिलालेखों (नं० ६० और ६४) में मूलसंघका उल्लेख मिलता है । चूँकि जैन परम्पराका प्राचीन मूल नाम निर्ग्रन्थ दिगम्बर परम्पराको प्राप्त हुआ था इसलिये वही मूल संघके नामसे अभिहित किया गया ।

वटकेराचार्य रचित मूलाचार भी मूल संघसे सम्बद्ध है । अतः मूलाचार की रचनासे पूर्व मूलसंघ शब्दका व्यवहार प्रवर्तित हो चुका था । तभी तो उसका आचार मूलाचार कहा गया । मूलाचारका निर्देश यतिवृषभकी तिलोय-पण्णतिमें है । और तिलीयपण्णति चूँकि ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके अन्तिम चरणके लगभग निष्पन्न हो चुकी थी । अतः मूलाचार चौथी शताब्दीके अन्त तकमें अवश्य रचा जा चुका होगा और मूल संघ नामका व्यवहार उससे भी पहले प्रवर्तित हो चुका था ।

इस तरह हम देखते हैं कि कुन्दकुन्दसे दो शताब्दी पश्चात्के उल्लेख मूलसंघ सम्बन्धी मिलते हैं । अतः इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि ईसाकी चतुर्थ शताब्दीमें मूल संघ नामकी स्थापना अवश्य हो चुकी थी । इसकी स्थापनामें कुन्दकुन्दका प्रत्यक्ष हाथ भले ही न रहा हो किन्तु उसकी

नीव हमें उन्हींके हाथोंके द्वारा रखी प्रतीत होती है क्योंकि वे ही प्रथम दिगम्बराचार्य हैं जिन्होंने अपने प्राभृतीमें स्पष्ट रूपसे वख और खी मुक्तिका निषेध किया है और ये ही दो बातें मूल हैं जिन्हें अपना देनेके कारण दिगम्बर परम्पराको मूलसंघ नाम दिया गया ।

कुन्दकुन्दान्वयका प्राचीन उल्लेख मर्कराके जिस ताम्रपत्रमें हैं डा० गुलाब चन्द्र जीने उसके जाली होनेकी बात कही है । इसीसे हमने उसकी चर्चा ही नहीं की । किन्तु मर्कराका यह ताम्रपत्र शिला लेख नं० १४ से बिल्कुल मिलता हुआ है । शिला लेख १४ में कोङ्गणि वर्मा ने जिस मूल संघके प्रमुख चन्द्र-नन्दि आचार्यको भूमिदान दिया है उसीको दान देनेका उल्लेख मर्कराके ताम्रपत्रमें भी है । किन्तु इसमें चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा भी दी है और उन्हें देशियगण कुन्दकुन्दान्वयका बतलाया है । नं० १४ लेखका अनुमानित समय ईसवीकी पाँचवीं शताब्दीका प्रथम चरण है और मर्कराके ताम्रपत्रमें अंकित समयके अनुसार उसका समय ई० ४६६ होता है । कोङ्गणि वर्माके पुत्र दुर्विनातका समय ४८० ई० से ५२० ई० के बीच बैठता है । अतः मर्कराके ताम्रपत्रमें अंकित समयमें कोङ्गणिवर्मा वर्तमान था । और उन्होंने जिस चन्द्र-नन्दिको दान दिया, वे भी वर्तमान होना चाहिये । ताम्रपत्रमें अंकित तिथि वगैरहमें भूल हो सकती है और कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगणका प्रयोग भी पीछेका हो सकता है किन्तु ताम्रपत्रमें दत्त चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा जाली प्रतीत नहीं होती उसका आधार अवश्य ही कोई पूर्व उल्लेख होना चाहिये ।

चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा इस प्रकार है—गुणचन्द्र-अभयनन्दि-शील-भद्र-जयनन्दि-गुणनन्दि-चन्द्रनन्दि । इसमें नन्धन्त नाम ही अधिक हैं और कुन्दकुन्दका मूल नाम भी पद्मनन्दि था । अतः यदि उक्त गुरु परम्पराके साथ कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख भी रहा हो तो असंभव नहीं है । हाँ, जैसा कि डा० गुलाबचन्द्र जी ने लिखा है, यह ताम्रपत्र पीछेसे पुनः अंकित किया गया है । यदि यह ठीक हो तो उस समय कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगण जोड़ दिया गया हो यह संभव हो सकता है ।

कुन्दकुन्दके उत्तर कालीन प्रभावको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रारम्भसे ही दि० जैन परम्परा पर प्रभाव रहा है । और इसलिये यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि कुन्दकुन्दान्वयकी स्थापना

उन्हींके कुन्दकुन्द नाम परसे हुई हो, उसमें स्थानका नाम तो आ ही जाता है ।

कौंगुणीवर्मा अविनीतका पुत्र दुर्विनीत पूज्यपाद स्वामीका शिष्य था और पूज्यपादने अपनी सर्वार्थ सिद्धिमें कुन्दकुन्दकी चारसअखुवेक्त्वासे कुछ गाथाएँ उद्धृत की हैं । उस अनुप्रेक्षाके अन्तमें ग्रन्थकारने अपना नाम कुन्दकुन्द दिया है । कुन्दकुन्दके पश्चात् पूज्यपाद आचार्यको सर्वार्थ सिद्धिमें ही श्रेताम्बरीय मान्यताओंपर आक्रमण किया गया मिलता है । कुन्दकुन्दने तो केवल साधुओंके वखधारण और स्त्री मुक्तिके विरोधमें ही लिखा है किन्तु पूज्यपादने केवलीके कवलाहारवाली तीसरी बातको भी उसमें सम्मिलित कर लिया है ।

अतः पूज्यपादके शिष्य दुर्विनीतके पिता कौंगुणि वर्माके शिला लेखमें कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख होना संभव है । ऐसी स्थितिमें यदि ताम्रपत्रमें अंकित कुन्दकुन्दान्वयके छै आचार्योंका समय सौ वर्ष भी मान लिया जाये तो कहना होगा कि ईसाकी चौथी शताब्दीके मध्यमें कुन्दकुन्दान्वय प्रवर्तित हो चुका था । यह हम पीछे देख चुके हैं कि ऐतिहासिक आधारों पर मूल संघकी स्थापनाका उद्गम भी ईसाकी चतुर्थ शताब्दीमें पहुंचता है । और इस तरह मूल संघ तथा कुन्दकुन्दान्वयकी प्रवृत्ति लगभग समकालीन ही प्रमाणित होती हैं । और इन दोनोंके उद्गमके मूलमें आचार्य कुन्दकुन्द ही परिलक्षित होते हैं । इस पृष्ठ भूमिमें उत्तर कालमें कुन्दकुन्दको जो महत्त्व मिला उसका कारण स्पष्ट हो जाता है ।

कुन्दकुन्दके ग्रन्थ

महत्ता—उपलब्ध दि० जैनसाहित्यमें कालक्रमकी दृष्टिसे कसायपाहुड और षट्खण्डागम सूत्रोंके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य रचित साहित्यका ही नम्बर आता है । इस दृष्टिसे उक्त दोनों आगमिक सूत्र ग्रन्थोंको बाद कर दिया जाये तो दि० जैन परम्परामें कुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य ही आद्य साहित्य ठहरता है । फिर कसायपाहुड और षट्खण्डागममें उन विषयोंकी कोई चर्चा नहीं है जिन विषयोंकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित उपलब्ध साहित्यमें है । अतः उनके साहित्यका महत्त्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह जैन परम्पराका एतद् विषयक आद्य साहित्य ठहरता है । उत्तर कालमें जैन परम्परामें द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्त्व और आचार विषयक जो विचारधारा प्रवाहित हुई और ग्रन्थकारोंने अनेक ग्रन्थोंमें जो इन विषयोंको परलक्षित

और पुष्पित किया उनका मूल कुन्दकुन्द रचित साहित्य ही है। अतः वैदिक धर्ममें उपनिषदोंको जो स्थान प्राप्त है वही स्थान दि० जैन परम्परामें कुन्दकुन्दके साहित्यका है। उनके प्राभृतोंको यदि जैन उपनिषद् कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

डा० उपाध्येने लिखा है कि शायद वेदान्तियोंके प्रस्थानत्रयीकी समानताके आधार पर कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारको नाटकत्रय या प्राभृतत्रय कहते हैं। यह बतलाता है कि ये तीनों ग्रन्थ जैनोंके लिये उतने ही पवित्र और मान्य हैं जितने वेदान्तियोंके लिये उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता हैं।

अध्यात्मके तो कुन्दकुन्द एकमात्र पुरस्कर्ता हैं। समयसारके द्वारा उन्होंने आत्मतत्त्वका जो निरूपण किया है वह समस्त जैन वाङ्मयमें अनुपम है। उसके दर्शन अन्यत्र नहीं होते। इसीसे अध्यात्म प्रेमी जैन साग्न्याधिक भेद-भावको छोड़कर समयसारके अध्यात्मरसका पान करते आते हैं।

अतः कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान जैन तत्त्वज्ञानके अभ्यासियोंके लिये खास तौरसे पठनीय और मननीय हैं।

भगवान् महावीरके उपदेशका माध्यम अर्धमागधी भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत भाषाका ही एक रूप है। कसायपाहुडके गाथा सूत्र और षट्खण्डागमके सूत्र भी प्राकृत भाषामें हैं। कुन्दकुन्दने भी प्राकृत भाषामें ही अपने ग्रन्थ रचे हैं। तबतक जैन वाङ्मयमें संस्कृत भाषाका प्रवेश नहीं हुआ था।

कुन्दकुन्दके प्रायः सभी ग्रन्थ 'पाहुड' कहे जाते हैं। कुञ्जको उन्होंने स्वयं इस नामसे अभिहित किया है यथा—समयपाहुड, चरित्तपाहुड, भाव पाहुड। पाहुडका संस्कृत रूप 'प्राभृत' होता है। प्राभृतका अर्थ है—भेंट। इसी अर्थको लक्ष्यमें रखकर जयसेनने अपनी टीकामें समय प्राभृतका अर्थ इस प्रकार किया है—'जैसे देवदत्त नामका कोई व्यक्ति राजाका दर्शन करनेके लिए कोई सारभूत वस्तु राजाको देता है उसे प्राभृत (भेंट) कहते हैं। वैसे ही परमात्माके आराधक पुरुषके लिए निर्दोष परमात्मा रूपी राजाका दर्शन करनेके लिए यह शास्त्र भी 'प्राभृत' है। किन्तु यह अर्थ तो लौकिक अर्थ है।

१. प्रवचनसारकी प्रस्ता०, पृ० १।

२. 'यथा कोऽपि देवदत्तः राजदर्शनार्थं किञ्चित् सारभूतं वस्तु राजे ददाति तत् प्राभृतं भवत्येते । तथा परमात्मारोधकपुरुषस्य निर्दोषिरमात्मराजदर्शनार्थमिदमपि शास्त्रं प्राभृतम् ।'—समय प्राभृत टी०

प्राभृतका आगमिक अर्थ यतिवृषभने अपने चूर्ण सूत्रोंमें इस प्रकार किया है—
 'जम्हा पदेहि पुदं (फुडं) तम्हा पाहुडं' (कसायपाहुड भा १. पृ० ३८६) ।
 जो पदोंसे स्फुट हो उसे पाहुड कहते हैं । जयधवलामें वीरसेन स्वामीने
 प्राभृतका अर्थ इस प्रकार किया है—'जो प्रकृष्ट अर्थात् तीर्थङ्करके द्वारा
 'प्राभृत' अर्थात् प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है । अथवा जिनका
 विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचार्योंके द्वारा जो धारण किया गया है अथवा
 व्याख्यान किया गया है, अथवा परम्परा रूपसे लाया गया है वह
 प्राभृत' है ।

अतः 'प्राभृत' शब्द इस बातका सूचक है कि जिस ग्रन्थके साथ वह
 संयुक्त है वह ग्रन्थ द्वादशांगवाणीसे सम्बद्ध है; क्योंकि गणधरके द्वारा रचित
 अंगों और पूर्वोंमेंसे पूर्वोंमें प्राभृत नामक अवान्तर अधिकार होते थे । बारह
 अंगोंमें सबसे विशाल और महत्वपूर्ण अंग दृष्टिवाद था । दृष्टिवाद अंगके ही
 अन्तर्गत चौदह पूर्व थे । पूर्वोंका महत्त्व सर्वोपरि था । पूर्वविद् कहनेसे अंगोंका
 ज्ञान उनमें समाविष्ट माना जाता था किन्तु अंगविद् कहनेसे पूर्वोंका ज्ञान
 समाविष्ट नहीं माना जाता था । अतः पूर्वविद् और श्रुतकेवली शब्द एकार्थ-
 वाची थे । वेदान्त खण्डके कृति अनुयोगद्वारके आदिमें जो मंगल सूत्र हैं उनमें
 दस पूर्वियों तकको नमस्कार किया है किन्तु अंगविद्को नमस्कार नहीं किया ।
 उनही पूर्वोंके अन्तिमवेत्ता श्रुतकेवलि भद्रबाहु थे जो दक्षिणापथको चले गये
 थे । उनके अभावमें पाटली पुत्रमें जो प्रथमवाचना हुई उसमें ग्यारह अंग तो
 संकलित हो सके किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहुके सिवाय बारहवाँ अंगका कोई
 जानकार दूसरा था ही नहीं । इसलिए वह संकलित ही नहीं हो सका । फलतः
 श्वेताम्बर परम्परामें पूर्वोंका लोप होगया ।

श्वेताम्बरोंकी तरह दिग्म्बरोंने कभी भी अंगोंको संकलित करनेका प्रयत्न
 नहीं किया । इसका एक विशिष्ट कारण है । दिग्म्बर परम्परामें अंगज्ञानका
 उत्तराधिकार गुरु शिष्यके रूपमें प्रवाहित होता रहा । गुरु अपना उत्तराधिकार
 जिसको सौंप जाता था वही उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति माना जाता था ।

१. 'प्रकृष्टेन तीर्थकरेण प्राभृतं प्रस्थापितं इति प्राभृतम् । प्रकृष्टैराचार्यै
 र्धिआचित्तवद्विराभृतं धारितं व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभृतम् ।'—कसा०
 पा०, भा० १, पृ० ३२५ ।

६८३ वर्षकी अंगविदोंकी परम्परा यही बतलाती है। अतः मुनियोंके संघको एकत्र करके वाचना करनेका प्रयत्न ही दिगम्बर परम्परामें नहीं उठा। इसीसे क्रमसे ज्ञानका लोप होता चला गया। और अंग ज्ञान अन्त तक रहा जबकि पूर्वोका ज्ञान बहुत पहले लुप्त होगया। फिर भी अन्तमें जो बचा वह पूर्वोका ही अवशेष बचा। कषायपाहुड और षट्खण्डागम दोनों क्रमसे पञ्चम और दूसरे पूर्वसे सम्बद्ध हैं।

उन्हीं पूर्वोका यत्किञ्चित् अवशिष्टांश कुन्दकुन्दको भी अवश्य प्राप्त हुआ जो समय पाहुडके रूपमें निबद्ध हुआ। समय पाहुडमें जिस तत्त्वका प्रतिपादन है वह जैन वाङ्मयमें अन्यत्र कहीं मिलता ही नहीं। उसे कुन्दकुन्दने श्रुतकेवली कथित कहा है और वह श्रुतकेवली भद्रबाहु हैं जिनका जयकार कुन्दकुन्दने बोधप्राभृतके अन्तमें किया है। अतः कुन्दकुन्दकी रचनाएँ भी एक तरहसे उननी ही मान्य और प्रामाणिक हैं जितने उक्त दोनों सिद्धान्त ग्रन्थ हैं।

किन्तु कुन्दकुन्दका साहित्य जैन तत्त्वज्ञानके प्राथमिक अभ्यासियोंके लिये उपयोगी नहीं है। ऐसे उच्चकोटिके साहित्यमें पारिभाषिक शब्दोंकी बहुतायत होना स्वाभाविक है और पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषाओंका न होना भी स्वाभाविक है; क्योंकि उनकी रचना प्राथमिक अभ्यासियोंके लिये नहीं, अपि तु अभ्यस्तोंके लिए की गई है।

फिर कुन्दकुन्दने अपने उपदेश प्रधान षट्प्राभृतोंमें जो उपदेश दिया है उस उपदेशके प्रधान लक्ष्य हैं श्रमण-जैनसाधु। भावप्राभृत, लिंगप्राभृत, सूत्र-प्राभृत और मोक्षप्राभृत तो उन्हींसे सम्बद्ध चर्चाओंसे भरे हुए हैं। प्रवचनसार नियमसार और समयसारकी रचना भी प्रधानरूपसे श्रमणों और आमस्यपदके अभिलाषियोंको ही लक्ष्यमें रखकर की गई है। अतः जिनकी दृष्टि सम्यक् है वे ही कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंका ठीक रहस्य समझनेके अधिकारी हैं। उनके कथनमें जो नय दृष्टियाँ हैं उनको समझे बिना उनके कथनको नहीं समझा जा सकता। और उभय नयदृष्टियोंको समझकर भी उभयनय दृष्टियोंके पारस्परिक विरोधको मिटानेवाले स्याद्वादको लक्ष्यमें रखे बिना ज्ञाता अपनेको मध्यस्थ नहीं रख सकता। अतः कुन्दकुन्दके ग्रन्थ रचनाशैली और वस्तुप्रतिपादन शैलीकी दृष्टिसे सरल और सुगम होते हुए भी गहन हैं। आगे उनके ग्रन्थोंका परिचय दिया जाता है।

कहा जाता है कि कुन्दकुन्दने ८४ पाहुडोंकी रचना की थी। कुड़के नाम भी सुने जाते हैं किन्तु इस कथनमें वास्तविक तथ्य कितना है यह कहना

शक्य नहीं है। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमेंसे कुछको तो निश्चित रूपसे कुन्द-कुन्द कृत माना जाता है किन्तु कुछके सम्बन्धमें विवाद है। जिन ग्रन्थोंको निश्चित रूपसे कुन्दकुन्दकृत माना जाता है उनको दो भागोंमें बाँटा जा सकता है। एक भागमें पञ्चास्तिकाप, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार आते हैं और दूसरे भागमें अन्य प्राभृतादि आते हैं। पहला भाग कुन्दकुन्दके जैन-तत्त्वज्ञान विषयक प्रौढ़ पाण्डित्यसे परिपूर्ण है और दूसरा भाग सरल एवं उपदेश प्रधान आचरणमूलक तत्त्वचिन्तनको लिए हुए हैं। पहले भागमें दार्शनिक एवं तत्त्वचिन्तक कुन्दकुन्दाचार्यके दर्शन होते हैं और दूसरे भागमें श्रमणाधिपति आचार्य कुन्दकुन्दके दर्शन होते हैं।

उनकी शैली प्रसन्न सरल एवं गम्भीर है। उनकी एक एक गाथा एक एक अनमोल रत्न है। गम्भीरसे गम्भीर विषयका प्रतिपादन वे इतनी सरलतासे करते हैं कि पाठकको उसे हृदयंगम करनेमें कठिनाई नहीं होती। उनके उपदेश माताके दूधके समान पवित्र एवं निर्दोष हैं और आलोचना परमहितोपदेशी गुरुकी शिक्षा है। पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थसिद्धिको प्रारम्भ करते हुए एक निर्ग्रन्थाचार्यके जो विशेषण दिये हैं—‘परहितप्रतिपादनैककार्य और युक्त्यागम कुशल, वे दोनों विशेषण कुंदकुंदमें पूरी तरहसे घटित होते हैं। पहला भाग उनकी युक्ति और आगममें कुशलताकी छापसे अंकित है दूसरा भाग परहितप्रतिपादनतासे। किन्तु समयसारमें तो उनकी दोनों विशेषताएँ पद-पद पर छाई हुई हैं। कुन्दकुन्दके दोनों गुणोंका निखार समयप्राभृतमें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। निश्चय और व्यवहारका जो सामञ्जस्य उसमें बतलाया गया है वह उनकी युक्ति और आगमकी कुशलताका अपूर्व उदाहरण है तथा उसके द्वारा जो परमार्थकी सिद्धि बतलाई गई है वह उनके परहित प्रतिपादनके कार्यका ही चमत्कार है। उस अपूर्व तत्त्वके दर्शन अन्यत्र नहीं होते।

सचमुचमें कुंदकुंदका साहित्य हमारे लिए उतना ही महान् है जितना भगवान महावीरकी दिव्यवाणी और गौतम गणधरके द्वारा रचित द्वादशांग।

सबसे प्रथम हम उनके उस साहित्यका परिचय कराते हैं जिसके कुन्दकुन्द रचित होनेमें सन्देह अथवा विवाद है।

१ परिकर्म—इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें लिखा है कि कुंदकुंदपुरके पञ्चनन्दि ने षट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्म नामका ग्रंथ रचा। धवला टीकामें

परिकर्मके अनेक उद्धरण मिलते हैं। कुन्दकुन्दके समयकी चर्चा करते हुए उसके कतिपय उद्धरण पीछे उद्धृत किये गये हैं और यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि परिकर्म कुन्दकुन्द रचित होना चाहिये। यह ग्रन्थ करणानु-योगका एक अपूर्व ग्रन्थ होना चाहिये। वीरसेन स्वामीके सन्मुख यह उपस्थित था और संभवतया इन्द्रनन्दिने भी इसे देखा था। इस तरह विक्रमकी १०-११वीं शताब्दी तक उसके अस्तित्वका पता चलता है। उसके प्रकाशमें आनेपर कुन्दकुन्दकी युक्त्यागम कुशलतामें चार चाँद लग जायेंगे।

५. मूलाचार—मूलाचार नामक ग्रन्थ वसुनन्दि विरचित संस्कृत टीकाके साथ माणिकचन्द्र जैन ग्रंथमाला बम्बईसे दो भागोंमें प्रकाशित हुआ है। टीकाकारने इसे बट्टकेराचार्यकी कृति बतलाया है। किन्तु ग्रंथकी अन्तिम पुष्पिकामें उसे कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत लिखा है। यथा—“इति मूलाचार विवृतौ द्वादशोऽध्यायः। कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूलाचाराख्यविवृतिः। कृतिरियं वसुनन्दिनः श्री श्रमणस्य।”

डा० उपाध्येने प्र० सा० की अपनी प्रस्तावनामें लिखा है कि मुझे दक्षिण भारतसे मूलाचारकी कुछ प्रतियाँ देखनेको मिली हैं जो बिना किसी मिलावटके असली प्रतीत होती हैं, उनमें ग्रन्थ कर्ताका नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया है। श्री जुगल किशोरजी मुख्तारका भी झुकाव इसी ओर है। उन्होंने लिखा है कि सम्भव है कुन्दकुन्दके प्रवर्तकत्व गुणको लेकर ही उनके लिए ‘बट्टकेर’ जैसे शब्दका प्रयोग किया गया हो। पं० हीरालाल जी सिद्धान्त शास्त्रांने भी ‘बट्टकेराचार्य’ का ‘वर्तकएलाचार्य’ अर्थ कल्पना करते हुए मूलाचारको कुन्दकुन्दकी कृति बतलाया है। पं० परमानन्दजीने भी मूलाचारकी गायत्राओंका मिलान कुन्दकुन्दके अन्य ग्रन्थोंके साथ करके यही निष्कर्ष निकाला है।

किन्तु श्री नाथूरामजी प्रेमी बट्टकेरको मूलाचारका कर्ता मानते हैं। उनका कहना है कि वेट्टगेरि या वेट्टकेरी नामके कुछ ग्राम तथा स्थान पाये जाते हैं। मूलाचारके कर्ता उन्हींमेंसे किसी बट्टगेरि या बट्टकेरि ग्रामके रहने वाले होंगे और उसपरसे कोरडकुन्दादिकी तरह वेट्टकेरि कहलाने लगे होंगे।

इस तरह इसके सम्बन्धमें विभिन्न मत हैं। बट्टकेराचार्य नामके किसी आचार्य

१. जै० सा० और इति० पर वि० प्र०, पृ० १००। २—अनेकान्त, वर्ष १२ कि० ११, पृ० ३३२। ३—अनेकान्त ३ वर्ष, कि० ३। ४ जैन सि० भास्कर, भाग १२, कि० १।

का कहींसे कोई पता नहीं चलता। साथ ही कुंदकुंदके लिये उनके प्रसिद्ध नामों को छोड़कर इस प्रकारके नये नामका प्रयोग किया जाना भी बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। किन्तु मूलाचार एक प्राचीन ग्रंथ है। तिलोपपण्यत्तिमें उसका उल्लेख मिलता है। तथा जैसे कुन्दकुन्दके प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय और समयसारकी अनेक गाथाएँ ति० प० में संगृहीत हैं वैसे ही मूलाचारकी भी कतिपय गाथाएँ संगृहीत हैं। अतः मूलाचार यदि कुन्दकुन्द कृत हो तो कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि स्वाभाविक जैसा ही है; क्योंकि मूलसंघके मूल आचार्य कुन्दकुन्दके द्वारा मूलाचार नामक ग्रन्थका रचा जाना उचित और संभव प्रतीत होता है। यदि टीकाकार वसुनन्दिने अपनी टीकामें उसके रचयिताका नाम बटकेराचार्य न दिया होता तो मूलाचारको कुन्दकुन्द कृत माननेमें शायद कोई विवाद ही पैदा न हुआ होता। किन्तु दूसरे नामके रहते हुए सबल प्रमाणोंके बिना मूलाचारको कुंदकुंदका नहीं कहा जा सकता।

३ रयणसार—मा० प्र० माला बम्बईसे प्रकाशित पटप्राभृतादि संग्रहमें यह ग्रन्थ मूल रूपमें प्रकाशित हो चुका है। इसके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें जो राय दी है वह इस प्रकार है—‘रयणसार ग्रन्थका रूप हमें बहुत बुरी दशामें मिलता है। दो प्रतियोंके तुलनात्मक अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि गाथाओंकी संख्या तथा क्रम निश्चित नहीं है। यदि अन्य प्रतियाँ एकत्र की जायें तो उनकी संख्या और क्रममें और भी भेद वृद्धि होना संभव है। उसमें विचारोंकी पुनरुक्ति है और व्यवस्थितपना सन्तोषजनक नहीं है। और इसका कारण उसमें अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावट हो सकती है। उसके मध्यमें एक दोहा तथा लगभग आधा दर्जन पद्य अपभ्रंश भाषामें हैं। कुन्दकुन्दके ग्रंथोंमें ऐसा नहीं पाया जाता। अतः जिस स्थितिमें रयणसार वर्तमान है, उसे कुन्दकुन्दका नहीं माना जा सकता। यह संभव है कि रयणसारका आधारभूत रूप कुन्दकुन्द रचित हो। फिर भी उस परिणामके पोषक कुछ प्रमाण तो उपस्थित करने ही होंगे। कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो कुन्दकुन्दके कर्तृत्वके विहकुल अनुरूप नहीं हैं। पुष्पिकामें कुन्दकुन्दका नाम नहीं है। कुछ पद्य अपभ्रंशमें हैं जो कुंदकुंदके ग्रंथोंके लिये असाधारण बात है। इसमें संदेह नहीं कि उसमें बहुतसे विचार कुंदकुंदके अनुरूप हैं किंतु उसमें कुछ सामाजिक तत्व भी हैं जो कुंदकुंदके ग्रंथोंमें नहीं मिलते। उसमें गण, गच्छ, संघ वगैरहका उल्लेख है। कुंदकुंदके ग्रंथोंमें उपमा पाई जाती है किंतु रयणसारमें उनकी बहुतायत है। अतः डा० उपाध्येने लिखा है कि

जब तक कुछ अधिक प्रमाण प्रकाशमें नहीं आते तब तक रयणसारका कुन्दकुन्द रचित माना जाना विचाराधीन ही रहेगा ।

हमने भी उक्त कारणोंसे इस संग्रहमें रयणसारको सम्मिलित नहीं किया है ।

४ दशभक्ति—'प्रभाचन्द्रने सिद्धभक्तिकी संस्कृत टीकामें लिखा है कि संस्कृतकी सब भक्तियों पूज्यपाद स्वामीकृत हैं और प्राकृतकी सब भक्तियों कुन्दकुन्दाचार्य कृत हैं । यहाँ हमारा प्रयोजन केवल प्राकृत भक्तियोंसे है । ये भक्तियों पञ्चनमस्कार मंत्र और चत्तारि दण्डकसे प्रारम्भ होती हैं ।

१ पहली भक्ति—सिद्ध भक्ति है । इसमें बारह गाथाओंके द्वारा सिद्धोंका स्तवन किया गया है । यों तो अपने शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है तथापि जिस पर्यायसे उन्होंने सिद्ध दशाको प्राप्त किया उसकी अपेक्षासे सिद्धोंमें भेद कल्पना करके उनका स्तवन किया गया है । यथा तीर्थङ्कर सिद्ध, अतीर्थङ्कर सिद्ध, जलसिद्ध, थलसिद्ध, आकाशसिद्ध, इत्यादि ।

२ श्रुत भक्ति—इसमें ग्यारह गाथाओंके द्वारा द्वादशोंका स्तवन किया गया है । बारहवें अंगके अनेक भेद हैं जिनमें १४ पूर्व भी हैं । उन पूर्वोंमें वस्तु नामक अनेक अधिकार तथा प्राभृत नामक अवान्तर अधिकार होते हैं । इसमें प्रत्येक पूर्वके अन्तर्गत वस्तु और प्राभृत नामक अधिकारोंकी संख्या भी बतलाई है । इस दृष्टिसे यह भक्ति महत्त्वपूर्ण है ।

३ चारित्र्य भक्ति—इसमें अनुष्टुप् छन्दमें दस प्राकृत पद्य हैं । प्रारम्भ भगवान महावीरकी बन्धनासे होता है जिन्होंने सब जीवोंके लिये सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यातके भेदसे पाँच प्रकारके चारित्रका कथन किया है । आगे साधुओंके २८ मूल गुणों और उत्तर गुणोंको बतलाया है ।

४ योगि भक्ति—इसमें २३ गाथाएँ हैं । उनके द्वारा निर्ग्रन्थ साधुओंका गुणकीर्तन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है । दो से लेकर चौदह तक संख्यावाले गुणोंके द्वारा साधुसम्बन्धी सभी विशेषताएँ उससे ज्ञात हो जाती हैं । यथा, दो दोषोंसे रहित, तीन दण्डोंसे विरत, चार कषायोंका मथन करने-

१ 'संस्कृताः सर्वा भक्तयः पूज्यपाद स्वामिकृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यकृताः ।—दश भक्ति पृ० ६ (शोलापुर संस्करण) ।

वाले, पाँच इन्द्रियोंके जयी, इत्यादि । आगे साधुके विविध आसनों, उपवासों और तपोंका कथन है । फिर ऋद्धियोंका कथन है । इस प्रकार साधुओंको नमस्कार करते हुए उनकी विशेषताओंका कथन किया है । उसके पढ़नेसे जैन साधुका सच्चा स्वरूप आँखोंके सामने आ जाता है ।

५ आचार्य भक्ति—इसमें दस गाथाओंके द्वारा आचार्य परमेष्ठीकी स्तुति की गई है । इसके पाठसे ज्ञात होता है कि जैनाचार्य कितने महान होते थे—पृथ्वीकी तरह क्षमाशील, स्वच्छ जलकी तरह निर्मल, वायुकी तरह असंग, आकाशकी तरह निर्लिप्त और सागरकी तरह गम्भीर ।

६ निर्वाण भक्ति इसे निर्वाणकाण्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके हिन्दी पद्यानुवादका नाम निर्वाणकाण्ड है । इसमें चौबीस तीर्थङ्करोंके तथा अन्य विशिष्ट पुरुषोंके निर्वाण स्थानोंके नामोल्लेख पूर्वक उन्हें नमस्कार किया गया है । इसमें २७ गाथाएँ हैं । जिनमें आजके प्रायः सभी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रोंका नाम आ जाता है । उनमें कुछ अतिशय क्षेत्र भी हैं । कुछ ऐसे तीर्थ क्षेत्रोंके नाम भी हैं जिन्हें भुला दिया गया है ।

७ पंचपरमेष्ठी भक्ति—इसमें सात पद्य हैं जिनमेंसे आदिके छः पद्य सृनिवर्णी छन्दमें हैं और अन्तमें एक गाथा है । आरम्भके पाँच पद्योंमें क्रमसे अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पंचपरमेष्ठीका गुणानुवाद है । छठे पद्यमें पंचपरमेष्ठीकी बन्दनाका फल बतलाया है । और अन्तिम गाथाके द्वारा उनके नमस्कारके फलस्वरूप भव भवमें सुख प्राप्तिकी कामना की गई है ।

८ तीर्थङ्कर भक्ति—इसमें चौबीस तीर्थङ्करोंकी स्तुति की गई है । इसमें आठ गाथाएँ हैं ।

इस तरह प्राकृत पद्यात्मक भक्तियों आठ हैं । नन्दीश्वर भक्ति और शान्ति भक्ति केवल गद्यमें हैं । उनको सम्मिलित कर देनेसे दस भक्तियों हो जाती हैं । प्रत्येक भक्तिके अन्तमें गद्यात्मक भक्ति भी है । डा० उपाध्येका विचार है कि गद्य भाग बहुत प्राचीन होना चाहिये । सम्भवतया आचार्य कुन्दकुन्दने उन्हींके ऊपरसे पद्यात्मक भक्तियोंको रचा हो । यही तीर्थङ्कर भक्ति चूँकि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी मान्य है अतः वह विशेष प्राचीन हो सकती है ।

५ दंसणपाहुड—जैसा कि इसके नामसे व्यक्त होता है इसमें सम्यग्दर्शनका महत्त्व ३६ गाथाओंके द्वारा बतलाया गया है । दूसरी गाथामें कहा है कि

धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है अतः जो सम्यग्दर्शनसे हीन है उसे नमस्कार नहीं करना चाहिये । गाथा तीनमें सम्यग्दर्शनसे भ्रष्टको भ्रष्ट कहा है और उसे मोक्षकी प्राप्तिका निषेध किया है । गाथा पाँचमें कहा है कि सम्यग्दर्शनसे रहित प्राणी लाखों करोड़ों वर्षों तक घोर तप भी करें, फिर भी उन्हें बोधि लाभ नहीं होता । इस तरह अनेक प्रकारोंसे सम्यग्दर्शनका महत्त्व और स्वरूप बतलाया है ।

चरित्त पाहुड—इसमें ४४ गाथाओंके द्वारा चारित्रिका कथन किया गया है । गाथा ५ में चारित्रिके दो भेद किये हैं—सम्यक्त्व चरण और संयम चरण । निःशक्ति आदि गुणोंसे विशिष्ट निर्दोष सम्यक्त्वके पालन करनेको सम्यक्त्वचरण चारित्र कहते हैं (गा० ८) । संयम चरणके दो भेद किये हैं—सागर और अनगर । सागर अथवा श्रावक धर्मके भेद रूपसे ग्यारह प्रतिमाओंके नाम मात्र गिनाये हैं (गा० २१) । तथा आगे पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिखाव्रतोंको सागर संयम चरण बतलाया है । पाँच अणुव्रत तो प्रसिद्ध ही हैं । दिशा विदिशाका प्रमाण, अनर्थ दण्ड त्याग और भोगोपभोग परिमाण ये तीन गुणव्रत बतलाये हैं (गा० २४) । और सामयिक, प्रोषध, अतिथिपूजा तथा संलेखना ये चार शिखाव्रत बतलाये हैं (गा० २५) । तत्त्वार्थ सूत्रमें भोगोपभोग परिमाणको शिखा व्रतोंमें गिनाया है और संलेखनाको पृथक् रखा है । तथा देशविरति नामका एक गुणव्रत बतलाया है । रत्नकरंडश्रावकाचारमें गुणव्रत तो चरित्त पाहुडकी तरह ही बतलाये हैं । किन्तु शिखा व्रतोंमें देशव्रतको सम्मिलित करके संलेखनाको तत्त्वार्थ सूत्र की तरह पृथक् रखा है । चरित्त पाहुडमें श्रावक धर्मका प्राचीन रूप मिलता है । यद्यपि वह अति संक्षिप्त है ।

आगे अनगर धर्मका कथन है । गाथा ३१ से ३५ तक अहिंसादि पाँचों व्रतोंकी पाँच पाँच भावनाएँ बतलाई हैं जो तत्त्वार्थ सूत्रमें बतलाई गई भावनाओंका पूर्व रूप प्रतीत होती हैं ।

सुत्त पाहुड—इसमें २७ गाथाएँ हैं । प्रारम्भमें बतलाया है कि जो अरहंतके द्वारा अर्थ रूपसे भाषित और गणधरके द्वारा प्रथित हो उसे सूत्र (द्वादशांगवाणी) कहते हैं । सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्पराके द्वारा प्रवर्तित मार्गसे जानना चाहिये । जैसे सूत्र अर्थात् धानोसे रहित सुई खो जाती है वैसे ही सूत्रको न जाननेवाला भी नष्ट हो जाता है ।

आगे मुनिके लिये बहुत ही हितकर उपदेश दिया गया है। लिखा है—
उत्कृष्ट चरित्रका पालन करनेवाला भी मुनि स्वच्छन्द विचरण करता है तो
मिथ्यात्वमें गिर जाता है (गा० ६)। गा० १० में कहा है कि नग्न रहना
और करपुटमें भोजन करना यही एक मोक्षका मार्ग है शेष सब अमार्ग हैं।
आगे लिखा है कि साधु बालकी नोकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखता
(गा० १७)। इस पाहुडमें स्त्रीको प्रव्रज्याका और साधुओंके वस्त्रधारणका निषेध
किया गया है (गा० २३-२६)।

बोधपाहुड—इसमें ६२ गाथाएँ हैं। और आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा,
दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अर्हन्त और प्रव्रज्याका स्वरूप
समझाया है। प्रारम्भिक गाथामें कहा है कि जिनमार्गमें जिनेन्द्रने जैसा कहा
है, सब जनोंके बोधके लिए मैं संक्षेपमें कहता हूँ।

इसमें प्रव्रज्या अर्थात् मुनिचर्याका स्वरूप बहुत ही उत्तम रूपसे बतलाया
है। इसी पाहुडके अन्तमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य बतलाया है
और उनका जयकार किया है।

भावपाहुड—इसमें १६३ गाथाओंके द्वारा भावकी महत्ता प्रदर्शित करते
हुए भावको ही गुण और दोषका कारण बतलाया है। लिखा है कि भावकी
विशुद्धिके लिये ही बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है। जिसका अभ्यन्तर
शुद्ध नहीं है उसका बाह्य त्याग व्यर्थ है ॥ ३ ॥ करोड़ों जन्म पर्यन्त तपस्या
करने पर भी भावरहितकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ जो भावसे मुनि नहीं
हैं ऐसी द्रव्यलिंगी मुनि, तीनों लोकोंमें परमाणु बराबर भी ऐसी जगह नहीं
है जहाँ उसने जन्म-मरण न किया हो ॥ ३३ ॥ भावसे ही लिंगी होता है
द्रव्यमात्रसे कोई लिंगी नहीं होता। अतः भावको धारण कर, कोरे द्रव्यलिंगसे
कुछ भी होनेवाला नहीं है ॥ ४८ ॥ भ्रम्यसेनने ग्यारह अंग चौदह पूर्वोंको पढ़
डाला फिर भी वह भावसे मुनि नहीं हो सका ॥ ५२ ॥ और शिवभूति मुनि
विशुद्ध भावके कारण 'तुषमास' शब्दका उच्चारणका करते-करते केवल ज्ञानी
हो गया ॥ ५३ ॥ जो शरीरादि बाह्य परिग्रहोंको और माया कषाय आदि
अन्तरङ्ग परिग्रहोंको छोड़कर आत्मामें लीन होता है वह भावलिंगी साधु है
॥ ५६ ॥ शरीरसे तो सब नारकी और सभी तिर्यञ्च नंगे रहते हैं। किन्तु उनके
परिणाम अशुद्ध होते हैं अतः वे भावमुनि नहीं हैं ॥ ६७ ॥ पूरा प्राभृत इसी
प्रकारके सदुपदेशोंसे भरा है।

मोक्षपाहुड—इसकी गाथा संख्या १०६ है। इसका प्रारम्भ करते हुए कहा है कि जिसने परद्रव्यको त्यागकर और कर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय आत्माको पा लिया उस शुद्ध देवको नमस्कार करके परम योगियोंके उत्तम परमात्मापदको कहूँगा, जिसे जानकर योगी अनुपम निर्वाणको प्राप्त करते हैं (१-३) आत्माके तीन भेद हैं—परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा। बहिरात्माको छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ४ ॥ जो पर द्रव्यमें रत है वह अनेक प्रकारके कर्मबन्धनोंसे बद्ध होता है और जो उससे विरत है वह कर्मबन्धनोंसे छूट जाता है, यही संक्षेपमें बन्ध और मोक्षका उपदेश जिनेन्द्रदेवने दिया है ॥ १३ ॥ इस प्रकार इस पाहुडमें मोक्षके कारण रूपसे परमात्माके ध्यानकी आवश्यकता और महत्ता बतलाई है।

उक्त छै प्राभृतों पर ही श्रुतसागरने संस्कृत टीका रची है।

शीलपाहुड—इसमें ४० गाथाएँ हैं। जिनके द्वारा शीलका महत्त्व बतलाया है। लिखा है शीलका ज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं है, परन्तु शीलके बिना विषयवासनासे ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ जो ज्ञान पाकर भी विषयोंमें रत रहते हैं वे मूढ़ चारों गतियोंमें भटकते हैं और जो ज्ञानको पाकर विषयोंसे विरक्त रहते हैं वे उस भ्रमणको काट डालते हैं ॥ ८ ॥ जो शीलसे रहित हैं उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है ॥ १५ ॥ शील विषयोंका शत्रु है और मोक्षका सोपान है ॥ २० ॥ इस प्रकार सुन्दर शब्दोंमें शीलका माहात्म्य बतलाया है।

लिंगपाहुड—इसमें २२ गाथाएँ हैं। इसका पूरा नाम श्रमण लिंगपाहुड है जैसा कि इसकी प्रथम गाथामें कहा है। जैन श्रमणके लिंगको लक्ष्य करके इसमें उसके निषिद्ध आचरणोंपर आपत्ति की गई है। लिखा है—जो पापी जिनेन्द्रदेवोंके लिंगको धारण करके उसका उपहास कराता है वह लिंगियोंके लिंगको नष्ट करता है ॥ ३ ॥ जो भोजनका लिप्सु है वह श्रमण नहीं है ॥ १२ ॥ जो महिला वर्ग पर राग करता है, गृहस्थ शिष्य पर अनुराग रखता है वह श्रमण नहीं है। जो दुराचारिणी स्त्रीके घर आहार करता है और शरीरका पोषण करता है वह श्रमण नहीं है ॥ २१ ॥

ये पाहुड अष्टपाहुड' नामसे एक साथ प्रकाशित हुए हैं और चूँकि श्रुतसागरकी टीका प्रारम्भके छै पाहुडों पर ही है इसलिए वे षट्प्राभृत नामसे एक

१. अष्टपाहुड हिन्दी टीकाके साथ कई स्थानोंसे प्रकाशित हुआ है।

साथ प्रकाशित हुए हैं। किन्तु यथार्थमें ये आठो पाहुंड पृथक्-पृथक् हैं। उन्हें ग्रंथकारने एक ग्रंथके रूपमें नहीं रचा है। प्रत्येक पाहुंडका नाम अलग-अलग है जो उसमें वर्णित विषयके अनुरूप है।

वारस अणुवेदना—इसमें ११ गाथाओंके द्वारा बारह भावनाओंका वर्णन है। तत्त्वार्थ सूत्रमें जो बारह अनुप्रेक्षाओंका क्रम है उससे इसके क्रममें अन्तर है। यथा—अध्रुव १, अशरण २, एकत्व ३, अन्यत्व ४, संसार ५, लोक ६, अशुचित्व ७, आस्रव ८, संवर ९, निर्जरा १०, धर्म ११ और बोधि १२। धर्मभावनाका वर्णन करते हुए श्रावकधर्मको ग्यारह प्रकारका बतलाया है और मुनिधर्मको उत्तम क्षमादिरूप दस प्रकारका बतलाया है तथा दसो धर्मोंका स्वरूप भी बतलाया है। इसमेंसे संसार भावनाकी पाँच गाथाएँ जिस क्रमसे वे हैं उसी क्रमसे सर्वार्थसिद्धि टीकामें पंच परावर्तनके स्वरूपके प्रसंगमें उद्धृत हैं। इसकी अन्तिम गाथामें कुन्दकुन्दका नाम भी आता है।

नियमसार—इस ग्रन्थ पर पद्मप्रभ मलधारीदेवकी संस्कृत टीका है। उसके अनुसार इसमें १८७ गाथाएँ हैं। ग्रन्थकारने इस ग्रन्थमें उन तीन रत्नोंका कथन किया है जो 'नियमेण' मोक्षका मार्ग है। वे रत्न हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र। आस्र, आगम और तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। गा० ५-८ में आस्र और आगमका स्वरूप बतलाकर ग्रन्थकार ने तत्त्वोंका कथन किया है। जीवका कथन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके द्वारा किया गया है (गा० १०-१६)। आगे छे द्रव्यों और पाँच अस्तिकायों का कथन है। व्यवहारनयसे पाँच महाव्रत, पाँच समितियाँ और तीन गुप्ति ये व्यवहार चारित्र है। गा० ५६-६८ में इनका वर्णन करते हुए अन्तमें निश्चयनय के दृष्टिकोणको रखा गया है। आगे प्रतिक्रमण (८३-९४ गा०), प्रत्याख्यान (गा० ९५-१०६), आलोचना (गा० १०७-१२), कायोत्सर्ग (गा० ११६-२३), सामायिक (गा० १२४-३३), और परमभक्ति (गा० १३४-१४०) इन छे आवश्यकोंका कथन किया गया है। निश्चयनयसे 'अवसस्स कम्म आवस्सयं' यह जो आवश्यककी परिभाषा दी गई है वह एकदम मौलिक है। इन आवश्यकोंके अभ्याससे सर्वज्ञताकी प्राप्तिपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होती है। निश्चयनयसे सर्वज्ञ केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे सबको जानता है।

१. षट्प्राभृतादिसंग्रह मा० दि० जैन ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है।

इस प्रसंगमें दर्शन और ज्ञानकी महत्त्वपूर्ण चर्चा है। यथार्थमें नियमसारका वर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

पद्म प्रभदेवने इस ग्रन्थको १२ श्रुत स्कन्धोंमें विभक्त किया है। किन्तु यह विभाग ग्रन्थके अनुरूप नहीं है। ग्रन्थकारने ग्रन्थको एक रूपमें ही निर्मित किया है। मूल ग्रन्थको पढ़नेसे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होती है।

गाथा १७ के अन्तमें 'लोचविभागेषु णिहितं' पद आता है। कुछ 'विद्वानोंका विचार है कि कुन्दकुन्दने सर्वनन्दिके लोक-विभागका निर्देश किया है। किन्तु सर्वनन्दिके लोकविभागका जो संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है उसमें वह चर्चा नहीं है। अतः नियमसारका उक्त उल्लेख किसी ग्रन्थ विशेष परक नहीं है। मुस्तार' सा० तथा डा० उपाध्ये'का भी यही मत है।

पंचत्थिय' संग्रह या पञ्चास्तिकाय—इस ग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकारने 'समय' को कहनेकी प्रतिज्ञा की है और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशके समवायको समय कहा है। इन पाँच द्रव्योंको पञ्चास्तिकाय कहते हैं। इन्हींका इसमें विशेष रूपसे कथन है। कथनका आरम्भ संज्ञा और द्रव्यसे होता है। द्रव्य पर्याय और गुणका पारस्परिक सम्बन्ध (गा० १२-१३) बताते हुए सप्तभंगीका भी नाम निर्देश किया है (गा० १४)। आगे प्रत्येक द्रव्यका क्रमसे कथन है। वृहों द्रव्योंके कथनके पश्चात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानके और सम्यक् चारित्रको मोक्षका मार्ग बतलाते हुए सम्यग्दर्शनके प्रसंगसे सात तत्त्वोंका कथन है। अन्तमें निश्चयनयसे मोक्षका मार्ग बड़ी सुन्दर रीतिसे बतलाया है।

पञ्चास्तिकायकी दो संस्कृत टीकाएँ हैं। एकके कर्ता अमृतचन्द्र हैं और दूसरीके कर्ता जयसेन। अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार पञ्चास्तिकायकी

१—जै० सा० ३०, पृ० ११। २—अनेकान्त वर्ष २, कि० १, पृ० ११।

३—प्रव० सा० प्रस्ता०, पृ० ४२।

४—इसका दूसरा संस्करण अमृतचन्द्र और जयसेनकी संस्कृत टीकाओं तथा एक भाषा टीकाके साथ रायचन्द्र शास्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। प्रो० चक्रवर्तीके अंग्रेजी अनुवाद और प्रस्तावनाके साथ मूल ग्रन्थ आरारसे १९२० में प्रकाशित हुआ है। एक संस्करण सुरतसे प्रकाशित हुआ है जिसमें जयसेनकी टीकाका हिन्दी अनुवाद है। तथा एक संस्करण अमृतचन्द्रकी टीका और उसके हिन्दी अनुवादके साथ सेंट्री ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है।

गाथा संख्या १७३ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार १८१ है। अमृतचन्द्रने ग्रन्थको दो श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित किया है, उनके पूर्वमें एक पीठिका भाग है और अन्तमें चूलिका है। यह विभाग ग्रन्थके अनुकूल है।

अमृतचन्द्रने कुछ गाथाओंको सिद्धान्तसूत्र कहा है और ग्रन्थके नामके अन्तमें 'संग्रह' पद भी है। इस परसे डा० उपाध्येने यह संभावना की है कि कुन्दकुन्दने इस ग्रन्थमें परम्परागत गाथाओंका संग्रह किया है।

प्रवचनसार—अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संख्या २७५ है और वह तीन श्रुतस्कन्धोंमें विभाजित है। प्रथम श्रुतस्कन्धमें ज्ञानतत्त्वकी चर्चा है और उसमें ६२ गाथाएँ हैं। दूसरे श्रुतस्कन्धमें ज्ञेयतत्त्वकी चर्चा है और उसमें १०८ गाथाएँ हैं। तथा तीसरे श्रुतस्कन्धमें चारित्र तत्त्वका कथन है और उसमें ७५ गाथाएँ हैं। दूसरे टीकाकार जयसेनके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संख्या ३११ है। तथा उसके अनुसार प्रथम अधिकारमें १०१, दूसरेमें ११३ और तीसरेमें ६७ गाथाएँ हैं।

कुन्दकुन्दकी यह कृति उनकी तत्त्वज्ञता, दार्शनिकता एवं आचार प्रवणतासे ओत प्रोत है। इसकी स्वाध्यायसे उनकी विद्वत्ता, तार्किकता और आचारनिष्ठाका यथार्थरूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें जैन तत्त्वज्ञानका यथार्थरूप और यथार्थ उद्देश बहुत ही सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया गया है। यह सचमुचमें 'प्रवचन' का सारभूत ग्रन्थ है।

इसके प्रथम अधिकारमें इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुखको हेय बतलाकर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखको उपादेय बतलाया है और अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकी सिद्धि करते हुए बड़ी ही सुन्दर और हृदयग्राही युक्तिके द्वारा आत्माकी सर्वज्ञताको सिद्ध किया है। इसी तरह दूसरे अधिकारमें जो द्रव्योंकी चर्चाकी है वह पञ्चास्तिकायसे विरिष्ट ही नहीं, मौलिक भी है। उसमें द्रव्यके सत्, उत्पादद्रव्ययप्रौढ्यात्मक और गुणपर्यायात्मक रूप लक्षणोंका प्रतिपादन तथा समन्वय, आत्माके कर्तृत्वाकर्तृत्वका विचार तथा कालाणुके अप्रदेशित्वका कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जैन द्रव्यानुयोग और चरणानुयोगका मुकुटमणि कहे जानेके योग्य यह ग्रन्थ है।

समयपाहुड—अमृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार समयपाहुडकी गाथा संख्या ४१५ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार ४३६ है।

अमृतचन्द्रने पूरे ग्रन्थको नौ अंकोंमें विभाजित किया है। उनके पहले 'पूर्वरंग' है और अन्तमें 'परिशिष्ट' है। अमृतचन्द्रने समयसारको नाटकका रूप दिया है। उसके अनुसार यह संसार एक रंगमंच है और उसपर जीव तथा अजीव रूपी नट आस्रव आदिका पार्ट अदा करते हैं। ग्रन्थका अंकोंमें विभाजन, उसके पूर्वभागको पूर्वरंग नाम दिया जाना, संस्कृत नाटकोंकी तरह अंकोंके आदिमें 'प्रविशति' तथा अन्तमें 'निष्कान्तः' पदोंका प्रयोग आदि बातें समयसारको नाटकके रूपमें ही पाठकके सामने उपस्थित करती हैं। इससे पाठकको समयसारके समझनेमें पूरी सहायता मिलती है।

यह ग्रन्थ जैन अध्यात्मका सुकुटमणि है। इसके विषयका प्रतिपादक दूसरा ग्रन्थ अखिल जैन वाङ्मयमें नहीं है। इसमें शुद्ध आत्मतत्त्वका प्रतिपादन है। इसीसे इसके प्रारम्भमें सिद्धोंको नमस्कार किया गया है। आगे गा० २ में समयके दो भेद किये हैं—स्वसमय और परसमय। जो जीव अपने दर्शनज्ञान चारित्ररूप स्वभावमें स्थित हो वह स्वसमय है और जो पुद्गलकर्मोंकी दशाको अपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी गाथा में कहा है कि एकत्वको प्राप्त वस्तु ही लोकमें सुन्दर होती है अतः जीवके बन्धकी कथासे विसंवाद पैदा होता है ॥ चौथीमें कहा है कि काम भोग सम्बन्धी बन्धकी कथा तो सब लोगोंकी सुनी हुई है, परिचयमें आई हुई है अतएव अनुभूत है। किन्तु बन्धसे भिन्न आत्माका एकत्व न कभी सुना, न कभी परिचयमें आया और न अनुभूत है अतः वह सुलभ नहीं है। उसी एकत्व-विभक्त आत्माका कथन निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है किन्तु निश्चयनयको भूतार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है। अपनी बातको स्पष्ट करनेके लिये ग्रन्थकारने उदाहरणोंका प्रयोग बहुतायतसे किया है और विषयको सरलतासे समझानेका पूरा प्रयत्न किया है।

इसमें जीवाजीवाधिकार १, कर्तृकर्माधिकार २, पुण्य-पापाधिकार ३, आस्रवाधिकार ४, संवर अधिकार ५, निर्जरा अधिकार ६, बन्ध अधिकार ७, मोक्ष अधिकार ८, और सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार नामक अधिकार हैं। गाथा १३ में कहा है कि—'भूतार्थनयसे जाने गये जीव अजीव, पुण्य पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा बन्ध और मोक्ष सम्बन्ध हैं। तदनुसार ही इस ग्रन्थमें भूतार्थनयसे उक्त तत्त्वोंका विवेचन किया गया है।

१—प्रथम जीवाजीवाधिकारमें जीव और अजीवके भेदको दर्शाते हुए दोनोंके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसमें बतलाया है कि जीवके

वर्ष, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं हैं और न वह शब्द रूप ही है। उसका लक्षण केतना है। उसका कोई नियत आकार भी नहीं है। और इन्द्रियादिके उसका ग्रहण नहीं होता। किन्तु आत्माको न जाननेवाले आत्मासे भिन्न पर भावोंको भी संयोग सम्बन्धके कारण आत्मा समझ लेते हैं। कोई राग द्वेषको, कोई कर्मको, कोई कर्मफलको कोई शरीरको तो कोई अध्यवसानादि रूप भावोंको जीव कहते हैं। किन्तु ये सब जीव नहीं हैं; क्योंकि ये सब तो कर्मरूप पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भाव हैं या पुद्गल द्रव्य रूप हैं। इसी तरह जो जीवस्थानों गुणस्थानों आदिको जीवका कहा जाता है वह भी व्यवहारसे कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारका आश्रय लिए बिना परमार्थका कथन करना शक्य नहीं। अतः इन सब आगन्तुक भावोंमें ममत्व बुद्धिको हटाकर ज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं तो एक उपयोग मात्र शुद्ध दर्शन ज्ञानमय हूँ। उसके सिवाय अन्य परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है।

२—दूसरे कर्तृकर्माधिकारमें बतझाया है कि यद्यपि जीव और अजीव दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं तथापि जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल कर्मवर्गणाएँ स्वयं कर्मरूप परिणत हो जाती हैं और पुद्गल कर्मके उदयका निमित्त पाकर जीव भी परिणमन करता है। तौ भी जीव व पुद्गलका परस्परमें कर्ता-कर्मपना नहीं है, क्योंकि न तो जीव पुद्गल कर्मके किसी गुणका उत्पादक है और न पुद्गल जीवके किसी गुणका उत्पादक है। केवल अन्योन्य निमित्तसे दोनोंका परिणमन होता है। इस कारणसे जीव सदा अपने भावोंका कर्ता है, वह पुद्गल कर्मकृत सब भावोंका कर्ता नहीं है ॥८०-८२॥

इसी निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धके कारण व्यवहार नयसे जीवको पुद्गल कर्म का और पुद्गल कर्मोंको जीवके भावोंका कर्ता कह दिया जाता है। किन्तु निश्चयनयसे जीव पुद्गल कर्मोंका न कर्ता है और न भोक्ता है। अब रहे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि। इन सभीको आचार्य कुंदकुंदने जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका कहा है। उपयोगरूप जो मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान है वह तो जीव है। और पौद्गलिक कर्मरूप मिथ्यात्व आदि अजीव हैं ॥८७-८८॥

आत्मा जब अज्ञानादिरूप परिणमन करता है तो रागद्वेषरूप भावोंको करता है और उन भावोंका आप करता होता है। किन्तु ये अज्ञानादिरूप भाव बिना पुद्गल कर्मोंके निमित्तके नहीं होते। परन्तु अज्ञानी परके और आत्माके भेद को न जानता हुआ क्रोधको अपना मानता है। ऐसा माननेसे वह अज्ञानी

अपने विकार सहित चैतन्य परिणामका कर्ता होता है और क्रोधादि उसका कर्म होता है। इस प्रकार अज्ञानसे कर्म होता है ॥१५॥ किन्तु जो इस भेदको जानकर क्रोधादिमें आत्मभाव नहीं करता वह पर ब्रह्मका कर्ता नहीं होता।

३—तीसरे पुण्य-पाप-धिकारमें पापकी तरह पुण्यको भी हेय बतलाया है। लिखा है—सोनेकी बेड़ी भी बाँधती है और लोहेकी बेड़ी भी बाँधती है। इसी तरह शुभकर्म भी जीवको बाँधता है और अशुभकर्म भी बाँधता है ॥१४६॥ अतः शुभाशुभ कर्मोंसे राग मत करो उनका संसर्ग मत करो ॥१४७॥ जैसे कोई पुरुष किसी पुरुषको कुशील जानकर उसका संसर्ग छोड़ देता है वैसे ही अपने स्वभावमें रत ज्ञानी कर्म प्रकृतियोंके बुरे स्वभावको जानकर उनका संसर्ग छोड़ देते हैं ॥१४८-१४९॥ रागी जीव कर्मोंको बाँधता है और विरागी कर्मोंसे छूट जाता है। अतः चाहे शुभकर्म हो या अशुभ कर्म हो किसी कर्ममें राग मत करो ॥१५०॥ जो परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्माका अनुभव नहीं करते, वे जीव अज्ञानसे पुण्यकी हचड़ा करते हैं और संसारका कारण होते हुए भी उसे मोक्षका कारण मानते हैं ॥१५४॥

४—चौथे आत्मवाधिकारमें बतलाया है कि जीवके राग-द्वेष और मोहरूप भाव आत्म भाव हैं। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कार्मण्य वर्गशास्त्रोंका जीवमें आत्मत्व होता है ॥१६४-१६५॥ रागादि अज्ञानमय परिणाम हैं। अज्ञानमय परिणाम अज्ञानी जीवके होते हैं। ज्ञानीके परिणाम ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानमय परिणाम होने पर अज्ञानमय परिणाम रुक जाते हैं। अतः ज्ञानी जीवके कर्मोंका आत्मत्व नहीं होता। इसलिए बन्ध भी नहीं होता।

५—संवराधिकारमें संवर तत्त्वका कथन है। रागादि भावोंके निरोधको संवर कहते हैं। रागादि भावोंका निरोध होनेपर कर्मोंका आना भी रुक जाता है। संवरका उपाय भेद विज्ञान है। उपयोग तो ज्ञानस्वरूप है और क्रोधादि भाव जड़ हैं। अतः न उपयोगमें क्रोधादि भाव और कर्म नोकर्म हैं, और न क्रोधादि भावोंमें तथा कर्म नोकर्ममें उपयोग है। इस प्रकार हनमें परमार्थसे अत्यन्त भेद है। इस भेदको जानना ही भेद विज्ञान है ॥१८०-१८३॥ भेद विज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। शुद्धात्माकी उपलब्धिसे अण्ववसानोंका अभाव होता है। अण्ववसानोंका अभाव होनेसे आत्मविकारोंका निरोध होता है। और उसके होने पर कर्मोंका निरोध होता है। कर्मके अभावमें नोकर्मका भी निरोध होता है। और नोकर्मका निरोध होनेसे संसारका निरोध होता है ॥१९०-१९२॥

६—निर्जराधिकारमें बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव जो इन्द्रियोंके द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्योंका उपभोग करता है वह सब निर्जराका कारण है ॥१६३॥ जैसे वैद्य विष खाकर भी नहीं मरता वैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगता है किन्तु कर्मोंसे नहीं बँधता ॥१६५॥ क्योंकि सम्यग्दृष्टि जानता है कि यह राग पुद्गल कर्म हैं। मेरे अनुभवमें जो रागरूप आस्वाद होता है यह उसके विपाकका फल है। अतः वह मेरा भाव नहीं है। मैं तो शुद्ध ज्ञायक भाव रूप हूँ ॥१६६॥ इस तरह सम्यग्दृष्टि ज्ञायक स्वभाव आत्माको जानता हुआ कर्मके उदयको कर्मका विपाक जानकर छोड़ देता है। यह निर्जरा तत्त्वका निश्चयनयसे वेदन है।

७—बन्धाधिकारमें एक दृष्टान्तके द्वारा बन्धका कारण स्पष्ट किया है। लिखा है—जैसे कोई मल्ल शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमिमें खड़ा होकर तलवारसे केले आदिके पेड़ोंको काटता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त हो जाता है। यहाँ उसके शरीरमें जो स्नेह (तेल) लगा है उसीके कारण उसका शरीर धूलसे लिप्त हुआ है। इसी तरह अज्ञानी जीव जो रागादि करता हुआ कर्मोंसे बँधता है सो उसके उपयोगमें जो रागभाव है वह कर्मबन्धका कारण है। जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपमें ही मग्न रहता है वह कर्मसे नहीं बँधता।

८—मोक्षाधिकारमें बतलाया है कि जैसे कोई पुरुष चिरकालसे बन्धनमें पड़ा हुआ इस बातको जानता है कि मैं इतने समयसे बँधा पड़ा हूँ किन्तु उस बन्धनको काटनेका प्रयत्न नहीं करता तो वह बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता। वैसेही कर्मके बन्धनके स्वरूपको जाननेसे कर्मसे छूटकारा नहीं होता। जो रागादिको दूर करके शुद्ध होता है वही मोक्ष प्राप्त करता है ॥२८६-२९०॥ जो कर्मबन्धनके स्वभाव और आत्म स्वभावको जानकर बन्धसे विरत होता है वही कर्मोंसे मुक्त होता है ॥ २९३ ॥ अर्थात् आत्मा और बन्धके स्वभावको भिन्न भिन्न जानकर बन्धको छोड़ना और आत्माको ग्रहण करना ही मोक्षका उपाय है ॥ २९५ ॥ अब प्रश्न होता है कि आत्माको कैसे ग्रहण करना चाहिये? तो इसका उत्तर प्रज्ञाद्वारा ऐसा ग्रहण करना चाहिये कि जो यह चेतन आत्मा है वही मैं हूँ। शेष सब भाव मुझसे पर हैं। इत्यादि कथन किया है।

९—सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकारमें एक तरहसे उँपसंहार रूपमें पूर्वोंका बातोंका ही कथन किया गया है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका विषय शुद्ध आत्म तत्त्व है। वह शुद्ध आत्म तत्त्व सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। न वह किसीका कार्य है और न वह किसीका कारण है। उसका पर द्रव्यके

साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीसे आत्मा और परद्रव्यमें कर्ता-कर्म भाव भी नहीं है। इसी कारण आत्मा परद्रव्यका भोक्ता भी नहीं है। अज्ञानवश ही अज्ञानी जीव आत्माको परद्रव्यका कर्ता और भोक्ता मानता है।

आगे कहा है कि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयको जानना मात्र है। ज्ञेयको जानने मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता। ज्ञेयको जानकर उसे अच्छा बुरा मान जो आत्मा रागद्वेष करता है यह तो अज्ञान है। अन्तमें पन्द्रह गाथाओंके द्वारा (गा० ३६०-४०४) ज्ञेयसे ज्ञानको भिन्न बतलाते हुए अन्तमें कहा है कि यतः जीव सदा जानता है अतः वही ज्ञायक है और ज्ञान ज्ञायकसे अभिन्न होता है ॥४०३॥ तथा ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही द्वादशांग सूत्र रूप है और प्रव्रज्या भी ज्ञान ही है ॥ ४०४ ॥ अन्तमें कहा है कि लिंग भी मोक्षका मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान और चारित्र्य ही मोक्षका मार्ग है। उसीमें अपनेको लगाना चाहिये ॥ ४११ ॥

—:❀:—

कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित जैनतत्त्व-ज्ञान

१ सत्ता, द्रव्य-गुण-पर्याय

सत्ताका अर्थ है अस्तित्व-मौजूदगी। अस्तित्व ही सब विचारोंका मूल है। वस्तुके अस्तित्वका निश्चय हो जानेपर ही उसके सम्बन्धमें आगे विचार किया जाता है अतः वस्तुविचारका प्रारम्भ सत्तासे किया जाता है।

जगतमें जो कुछ है, वह द्रव्य हो या गुण हो या पर्याय हो, सबसे पहले सत् है उसके पश्चात् ही वह अन्य कुछ है। जो सत् नहीं है वह कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु सत् है। सत्के भावको ही सत्ता या अस्तित्व कहते हैं। सत्ताके दो रूप हैं—एक सत्ता सामान्य और एक सत्ता विशेष। सत्ता सामान्य को महासत्ता कहते हैं और सत्ताविशेषको अवान्तर सत्ता कहते हैं। महासत्ताको सादरयास्तित्व भी कहते हैं और अवान्तर सत्ताको स्वरूपास्तित्व भी कहते हैं। जैसे घट रूपसे सब घट समान हैं क्योंकि सभी घटोंमें घट घट इत्याकारक प्रत्यय और शब्दव्यवहार होता है वैसे ही सत्तरूपसे सभी पदार्थ समान हैं। जब किसी विवक्षित वस्तुमें वर्तमान सत् या अस्तित्व धर्मको सामान्यरूपमें कहा या जाना जाता है तो उसे महासत्ता या सादरयास्तित्व कहते हैं और जब उसी

सत् धर्मको विवक्षित वस्तुके ही विशेष धर्मके रूपमें कहा या जाना जाता है तो उसे अवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व कहते हैं ।

इसका आशय यह नहीं है कि एक वस्तुमें महासत्ता और अवान्तर सत्ता नामकी दो सत्ता होती हैं । प्रत्येक वस्तुकी सत्ता जुदी-जुदी है और प्रत्येक वस्तुमें एक ही सत्ता रहती है । द्रव्यदृष्टिसे वस्तुको देखनेसे वही सत्ता महासत्ता के रूपमें दृष्टिगोचर होती है और पर्याय दृष्टिसे देखनेसे वही सत्ता अवान्तर सत्ताके रूपमें दृष्टिगोचर होती है । जैसे एक राजाको अपना काम करानेके लिए किसी एक आदमीकी आवश्यकता है । जो भी आदमी पहुँचता है उससे वह अपना काम करा लेता है । उसके बाद उसे देवदत्त नामके आदमीकी आवश्यकता होती है । उसके समक्षमें जब पहला काम करनेवाला आदमी पहुँचता है तो उससे काम कराना वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह आदमी भी आदमी तो अवश्य है मगर वह देवदत्त नामका आदमी नहीं है । अतः अवान्तर सत्ता महासत्ताकी प्रतिपक्षी है और महासत्ता अवान्तर सत्ताकी प्रतिपक्षी है । जब वस्तुको महासत्ताकी अपेक्षासे 'सत्' कहा जाता है उस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तु अभावरूप है और जिस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तुको सत् कहा जाता है उस समय महासत्ताकी अपेक्षा वह अभावरूप है । अतः द्रव्यदृष्टिसे महासत्ता सत्ता है और अवान्तर सत्ता असत्ता है और पर्यायदृष्टिसे अवान्तर सत्ता सत्ता है और महासत्ता असत्ता है ।

आचार्य कुंदकुंदने सत्ताका यही स्वरूप पञ्जास्तिकायमें इस प्रकार बतलाया है ।

सत्ता सब्पदत्था सविस्सरुवा अग्रंतपजाया ।

भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥८॥

अर्थ—सत्ता सब पदार्थोंमें रहती है, समस्त पदार्थोंके समस्त रूपोंमें रहती है, समस्त पदार्थोंकी अनन्तपर्यायोंमें रहती है, उत्पाद व्यय प्रौब्यात्मक है, एक है और सप्रतिपक्षा है ।

सत्ताका प्रतिपक्षी तो असत्ता ही हो सकती है । किन्तु असत्ताका अर्थ तुच्छ अभाव नहीं लेना चाहिये । जैन सिद्धान्तमें जो सत् है वही दृष्टिभेदसे असत् कहा जाता है । अतः महासत्ताकी दृष्टिमें अवान्तर सत्ता असत्ता है महासत्ता सर्वपदार्थस्थिता है तो अवान्तर सत्ता एक पदार्थस्थिता है क्योंकि प्रतिनियत पदार्थकी सत्ता प्रतिनियत पदार्थमें ही रहती है । महासत्ता विश्वरूपा है तो अवान्तर सत्ता एकरूपा है । महासत्ता अनन्तपर्याया है तो अवान्तर

सत्ता एक पर्याया है। महासत्ता उत्पाद व्यय ध्रौब्यात्मक रूप त्रिलक्षणा हैं तो अवान्तर सत्ता अत्रिलक्षणा है। महासत्ता एक है तो अवान्तर सत्ता अनेक है।

इस तरह अगतमें जो कुछ सत् है वह किसी अपेक्षासे असत् भी है। न कोई वस्तु सर्वथा सत् है और न कोई वस्तु सर्वथा असत् है। किन्तु प्रत्येक वस्तु सदसदात्मक है। वस्तुका अस्तित्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं है कि वह अपने स्वरूपको अपनाये हुए है किन्तु इस बात पर भी निर्भर है कि अपने सिवाय वह संसारभरकी अन्य वस्तुओंके स्वरूपोंको नहीं अपनाये हुए हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो किसी भी वस्तुका कोई प्रतिनियत स्वरूप नहीं रह सकता और ऐसा होने पर सब वस्तुएँ सबरूप हो जायेंगी।

आचार्य कुन्दकुन्दने सत्ताको सप्रतिपक्षा बतलाकर वस्तुविज्ञानका यही रहस्य उद्घाटित किया है। उसीका दार्शनिक दृष्टिसे उपपादन आचार्य श्री समन्त-भद्रने आत्ममीमांसा कारिका ६ आदिसे किया है और उस पर अष्टसहस्रीके रचयिता विद्यानन्दने उसे स्पष्ट किया है।

पञ्चास्तिकायकी उक्त गाथाको लेकर ही पं० राजमल्ल ने १६ वीं शताब्दीमें पञ्चाध्यायी ग्रंथ रचा है जिसमें सत्ता द्रव्यगुण पर्यायका विवेचन बहुत सुन्दर है।

द्रव्य

आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारमें गाथा संख्या तीनके द्वारा तथा पञ्चास्तिकायमें गाथा संख्या १० के द्वारा द्रव्यका लक्षण इस प्रकार कहा है—

दव्वं सत्तकखणियं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुतं ।

गुणपजयासयं वा जं तं भयणंति सव्वणह्णं ॥१०॥ पञ्चा०

जिसका लक्षण सत् है वह द्रव्य है। जो उत्पाद व्यय और ध्रौब्यसे युक्त है वह द्रव्य है। तथा जो गुण और पर्यायका आश्रय है वह द्रव्य है।

तत्त्वार्थ सूत्रके पांचवे अध्यायमें उमास्वामी ने कुन्दकुन्दकी उक्त गाथाके अनुरूप ही द्रव्यका लक्षण किया है—सद्द्रव्यलक्षणम् । उत्पादव्ययध्रौब्य-युक्तं सत् । गुणपर्ययवद्द्रव्यम् ॥

उमास्वामीने उत्पाद व्यय और ध्रौब्यसे युक्तको सत् कहा है और सत्को द्रव्य कहा है। कुन्दकुन्दने द्रव्यको ही सत् और उत्पाद व्यय ध्रौब्यात्मक कहा है। इन दोनों कथनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि सत्ता और द्रव्य

भिन्न भिन्न नहीं हैं। इसलिये उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक सत् है ऐसा कहनेसे भी द्रव्य ही तद्रूप सिद्ध होता है।

पञ्चास्ति० गा० ६ में कुन्दकुन्दाचार्याने द्रव्यको सत्तासे अनन्यभूत लिखा है। तथा प्रवचनसार (गा० २। १३-१४) में लिखा है कि यदि द्रव्य सत्स्वरूप नहीं है और सत्तासे जुदा है तो वह नियमसे असत् ठहरता है। इसलिये द्रव्य स्वयं सत् है। जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वस्तुरूपसे उन्हें भिन्न कहते हैं। सत्ता और द्रव्यके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं हैं; क्योंकि गुण और गुणिके प्रदेश जुदे जुदे नहीं होते। जैसे जो शुक्ल गुणके प्रदेश हैं वे ही प्रदेश वस्त्रके हैं इसलिये उन दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं है। वैसे ही सत्ता गुणके जो प्रदेश हैं वे ही प्रदेश गुणी द्रव्यके हैं। इसलिये सत्ता और द्रव्यमें प्रदेश भेद नहीं है। किन्तु फिर भी सत्ता और द्रव्य सर्वथा एक नहीं हैं, उनमें कथञ्चित् भेद भी है। क्योंकि जो द्रव्यका स्वरूप है वही स्वरूप सत्ताका नहीं है और जो सत्ताका स्वरूप है वही द्रव्यका स्वरूप नहीं है। सत्ता चूँकि एक गुण है अतः वह द्रव्यके आश्रित है और स्वयं निर्गुण है। किन्तु द्रव्य किसीका आश्रित नहीं है वह तो सत्ता जैसे अनन्त गुणोंका आश्रय है। इस तरह गुण और गुणिके भेदसे दोनोंमें भेद है किन्तु उनमें प्रदेश भेद नहीं है। जो द्रव्य है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। अतः द्रव्यका गुण रूप और गुणका द्रव्य रूप न होना ही उन दोनोंमें भेद व्यवहारका कारण है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि द्रव्यके अभावको गुण और गुणके अभावको द्रव्य कहते हैं; क्योंकि जैसे सोनेका विनाश होने पर सोनेके गुणोंका विनाश हो जाता है और सोनेके गुणोंका विनाश होने पर सोनेका विनाश हो जाता है वैसे ही द्रव्यके अभावमें गुणका अभाव हो जायेगा और गुणके अभावमें द्रव्यका अभाव हो जायेगा (प्रवचनसार, २। १७)।

द्रव्यके बिना गुण नहीं रह सकते और गुणके बिना द्रव्य नहीं रह सकता। अतः नाम, लक्षण आदिके भेदसे द्रव्य और गुणमें भेद होने पर भी दोनोंका अस्तित्व एक ही है अतः वस्तुत्वरूपसे दोनों अभिन्न हैं (पञ्चा० गा० १३)। सारांश यह है कि द्रव्यसे भिन्न न गुणका कोई अस्तित्व है और न पर्यायका अस्तित्व है। जैसे सोनेसे भिन्न न पीलापना है और न कुण्डलादि हैं। अतः द्रव्यसे उसका गुण और पर्याय भिन्न नहीं हैं। चूँकि सत्ता द्रव्यका स्वरूप-भूत अस्तित्व नामक गुण है अतः वह द्रव्यसे भिन्न कैसे हो सकती है। इसलिये द्रव्य स्वयं सत्स्वरूप है।

आशय यह है कि सब द्रव्य स्वतःसिद्ध हैं क्योंकि वे अनादि और अनन्त हैं। जो अनादि और अनन्त होता है वह किसी साधनके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। अतः गुण पर्यायरूप अपने स्वभावको ही मूल साधनके रूपमें लेकर द्रव्य स्वयं ही अनादि सिद्ध है। वह किसी अन्य द्रव्यसे उत्पन्न नहीं हुआ। जो द्रव्यसे उत्पन्न होता है वह द्रव्य नहीं होता, पर्याय होती है। जैसे मनुष्य पर्याय अथवा द्वयणुक आदि पर्याय। किन्तु द्रव्य तो अनादि अनन्त होता है (प्रब० सा० २६)। वह सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता है अतः वह सदा सत् है।

उत्पाद व्यय ध्रौव्य—किन्तु द्रव्यका स्वभाव उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप है। अर्थात् उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप त्रैलक्ष्य वर्तमान रहता है। ये तीनों परस्पर में अविनाभावी हैं। व्यय अथवा विनाशके बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पादके बिना व्यय नहीं होता, ध्रौव्यके बिना उत्पाद व्यय नहीं होते और न उत्पाद व्ययके बिना ध्रौव्य रहता है। इसलिये जो उत्तर पर्यायका उत्पन्न है वही पूर्व पर्यायका व्यय है, जो पूर्व पर्यायका व्यय है वही उत्तर पर्यायका उत्पाद है। इसी तरह जो उत्पाद-व्यय है वही ध्रौव्य है और जो ध्रौव्य है वही उत्पाद व्यय है। इस सत्यको एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

कुम्भपर्यायकी उत्पत्ति ही मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश है क्योंकि कुम्भकी उत्पत्ति पिण्डरूपका विनाश हुए बिना नहीं हो सकती। मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति है। कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्डपर्यायका विनाश ही मिट्टीकी स्थिति है। तथा मिट्टीकी स्थिति ही कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्ड पर्यायका विनाश है।

यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य भिन्न भिन्न हो जायेंगे। और ऐसा होने पर बड़ी गड़बड़ उपस्थित होगी जिसका खुलासा इस प्रकार है—मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका नाश हुए बिना घड़ा उत्पन्न नहीं होता। यदि केवल उत्पाद ही माना जाये और व्यय को न माना जाये तो घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। और जैसे बिना व्ययके घड़ा उत्पन्न नहीं हो सका वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यदि मिट्टीके बिना भी घड़ा उत्पन्न होता है तो यह तो असत्का उत्पाद हुआ। यदि असत् भी उत्पन्न हो सकता है तो गधेकी सींग, आकाशके फूल जैसी असंभव वस्तु भी उत्पन्न होने लगेंगी।

तथा यदि केवल व्यय ही माना जायेगा तो वस्तुका व्यय ही नहीं हो

सकेगा क्योंकि उत्पादके बिना व्यय नहीं होता—घड़ेके उत्पन्न होनेसे ही मिट्टीकी पियूष पर्यायका विनाश होता है। फिर भी यदि बिना उत्पादके व्ययको माना जायगा तो सत्का नाश हो जायगा। और ऐसी स्थितिमें सभी सत् पदार्थ नष्ट हो जायेंगे। तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल ध्रौव्यको माननेसे मिट्टी आदि सभी पदार्थ ठहर नहीं सकेंगे क्योंकि बिना पर्यायके द्रव्य नहीं रह सकता। तथा क्षणिक पर्याय नित्य हो जायेंगी। इसलिये प्रति समय पूर्व पर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और वस्तुत्वका ध्रौव्य इन तीनों का एकतासे ही द्रव्यकी सत्ता कायम रह सकती है (प्रव० २।८)।

यदि द्रव्यका द्रव्यरूपसे ही उत्पाद, द्रव्यरूपसे ही व्यय और द्रव्यरूपसे ही ध्रौव्य माना जाये तो उत्पाद व्यय और ध्रौव्य एक साथ नहीं बन सकते। किन्तु ऐसा नहीं माना जाता। पर्याय रूपसे ही उत्पाद व्यय ध्रौव्य माना गया है। जैसे, जिस क्षणमें घट पर्यायकी उत्पत्ति होती है उसी क्षणमें मिट्टी-पना स्थिर रहता है। उसका न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। इसी प्रकार सब द्रव्योंमें आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय है वही समय पूर्व पर्यायके विनाशका है और इन दोनों अवस्थाओंमें द्रव्यत्व ध्रुव रहता है।

इस तरह द्रव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और अन्य पर्याय नष्ट होती है किन्तु वह द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है (प्रव० २।११)। यद्यपि उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोंमें होते हैं किन्तु वे पर्याय द्रव्यकी ही हैं इसलिये द्रव्य ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहा जाता है (प्र० सा० २।९)। जैसे द्रव्य और गुणमें अभेद है वैसे ही द्रव्य और उसकी पर्यायमें भी अभेद है। जैसे द्रव्यके बिना गुण नहीं होता और गुणके बिना द्रव्य नहीं होता, अतः द्रव्य और गुणका अस्तित्व भिन्न भिन्न नहीं है। वैसे ही पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता और न द्रव्य रहित पर्याय होती है। अतः दोनोंको अभिन्न कहा है। (प्रज्ञा० १२-१३ गा०)। किन्तु गुण सहभावी होते हैं, द्रव्यकी प्रत्येक अवस्थामें उसके साथ रहते हैं और पर्याय क्रम भावी होती हैं, द्रव्यकी अवस्थामें उसके साथ नहीं रहती। उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है। इसलिये गुणोंको नित्य और पर्यायको अनित्य कहते हैं। और द्रव्य गुण-पर्यायात्मक होता है इसलिए द्रव्य नित्यानित्य कहा जाता है। द्रव्यार्थिक नयसे द्रव्य नित्य है और पर्यायार्थिकसे द्रव्य अनित्य है।

आशय यह है कि वस्तु न केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है।

किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। अतः वस्तुको देखनेके लिए भी दो दृष्टियाँ आवश्यक हैं। उनमेंसे एक दृष्टिका नाम द्रव्यार्थिक है और दूसरी दृष्टिका नाम पर्यायार्थिक है। जो पर्यायार्थिकदृष्टिको बन्द करके केवल द्रव्यार्थिक दृष्टिसे वस्तुको देखता है उसे वस्तुके केवल एक अभेदरूप नित्य द्रव्यत्वका ही भाव होता है। और जो द्रव्यार्थिक दृष्टिको बन्द करके पर्यायार्थिक दृष्टिसे वस्तुको देखता है उसे केवल प्रतिक्षण विनाशशील पर्यायका ही प्रतिभास होता है। किन्तु जो दोनों दृष्टियोंको खुली रखकर वस्तुको देखता है उसे वस्तुके उभयरूपोंका प्रतिभास होता है।

इस तरह द्रव्य सत् है, गुणपर्यायवाला है और उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक है। द्रव्यके इन तीनों लक्षणोंमेंसे एकके कहनेपर शेष दो उसीमें समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यदि कहा जाये कि द्रव्य सत् होता है, तो सत् कहनेसे गुणपर्यायवाला और 'उत्पादव्यय ध्रौव्यात्मक' दोनों ही लक्षण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि सत् नित्यानित्यात्मक होता है अतः नित्य भावमें ध्रौव्यका तथा अनित्य स्वभावमें उत्पादव्ययका समावेश होता है। तथा गुण नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती हैं। अतः नित्य अथवा ध्रौव्यमें गुणोंका और अनित्य अथवा उत्पाद व्ययमें पर्यायका समावेश होता है।

इसी तरह द्रव्य गुणवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य ध्रौव्य युक्त है यह स्वयं व्यक्त हो जाता है क्योंकि गुण ध्रुव-स्थायी होते हैं। तथा द्रव्य पर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पाद व्ययशील है यह स्वयं व्यक्त हो जाता है क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील होती है। अतः तीनों लक्षण प्रकारान्तरसे द्रव्यके एक ही स्वरूपको बतलाते हैं। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्द ने तीन लक्षणोंके द्वारा द्रव्यके स्वरूपका विश्लेषण किया है, जो बतलाता है कि जैनदर्शनमें एक ही मूल पदार्थ है और वह है द्रव्य। वह अनन्त गुणोंका एक अखण्ड पिण्ड होनेसे गुणात्मक है। गुणोंसे भिन्न द्रव्यका और द्रव्यसे भिन्न गुणोंका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है। वे गुण परिणमनशील हैं। गुणोंका समूहरूप द्रव्य स्वयं एक गुणसे अन्य गुणरूप परिणमन करता है अतः द्रव्य केवल गुणात्मक ही नहीं है पर्याय रूप भी है।

पर्यायके भेद—अमृतचन्द्र सूरिने (प्रव० सा० गा० २।२ की टीका में) पर्यायके दो भेद किये हैं—गुणपर्याय और द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्योंके मेलसे जो एक पर्याय निष्पन्न होती है वह द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्यायके भी दो भेद हैं समान जातीय और असमान जातीय। परमाणुओंके मेलसे जो द्रव्य एक आदि पर्याय निष्पन्न होती है वह समान जातीय द्रव्य पर्याय है और जीव

तथा पुद्गलके मेलसे जो मनुष्यादि पर्याय निष्पन्न होती है वह असमान जातीय द्रव्य पर्याय है। गुण पर्यायके भी दो भेद हैं—स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। प्रत्येक द्रव्यमें रहनेवाले अगुरुलघुगुणोंके निमित्तसे जो उस द्रव्यमें पद्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन हुआ करता है वह स्वभाव गुण पर्याय है। और अन्य द्रव्यके संयोगसे जो गुणोंमें परिणमन होता है वह विभाव गुण पर्याय है। इस तरह पर्यायोंके भेदके कारण ही इस जगतमें वैचित्र्यके दर्शन होते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसार (गा० १५) में पर्यायके दो भेद किये हैं—विभावपर्याय और स्वभाव पर्याय। अन्य निरपेक्ष परिणमनको स्वभाव पर्याय कहते हैं और अन्य सापेक्ष परिणमनको विभाव पर्याय कहते हैं। जीव और पुद्गलके सिवाय अन्य चार द्रव्योंमें विभाव पर्याय नहीं है। तथा जीव और पुद्गलमें स्वभाव और विभाव दोनों हैं। उनमेंसे सिद्ध जीवोंमें तो स्वभाव पर्याय ही है और संसारी जीवोंमें विभावकी मुख्यता है। पुद्गल परमाणुमें स्वभाव पर्याय है तथा स्कन्धमें विभाव पर्याय ही है। क्योंकि परमाणुके गुण स्वाभाविक हैं और स्कन्धके गुण वैभाविक हैं। परमाणुका परिणाम अन्य निरपेक्ष होता है और स्कन्धरूप परिणमन अन्य सापेक्ष होता है।

द्रव्यके भेद

द्रव्यके मूल भेद दो हैं—जीव और अजीव। चैतन्य उपयोगमय द्रव्यको जीव द्रव्य कहते हैं। और अचेतन—जड़ द्रव्योंको अजीव कहते हैं। (प्र० सा० गा० २।३५)। गुणोंके भेदसे ही द्रव्योंमें भेद होता है। गुण ही द्रव्यके लिङ्ग अथवा चिन्ह हैं। गुणोंसे ही द्रव्यका स्वरूप जाना जाता है। वे गुण दो प्रकारके हैं—मूर्तिक और अमूर्तिक। मूर्तिक द्रव्यके गुण मूर्तिक होते हैं और अमूर्तिक द्रव्योंके गुण अमूर्तिक होते हैं। मूर्तिक द्रव्य केवल एक है उसे पुद्गल कहते हैं और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पाँच द्रव्य अमूर्तिक हैं (गा० ३६)।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पुद्गल द्रव्यके विशेष गुण हैं जो सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूलसे स्थूल पृथिवी तकमें रहते हैं। ये इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं। शब्द गुण नहीं है किन्तु पुद्गल द्रव्यकी ही पर्याय है। अतः वह भी मूर्तिक है और इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है (गा० ४०) -

अमूर्तिक द्रव्योंमें आकाश द्रव्यका विशेष गुण सब द्रव्योंको अवगाहदान है। धर्म द्रव्यका विशेषगुण गतिमान जीवों और पुद्गलोंको गमनमें कारण होना

है। अधर्म द्रव्यका विशेषगुण स्थितिमें सहकारिपना है। काल द्रव्यका विशेष गुण वर्तना है और आत्माका विशेषगुण उपयोग है। ये संक्षेपसे अमूर्ति द्रव्योंके गुण हैं (गा० ४१-४२)

जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशके प्रदेश संख्यातीत हैं। किन्तु काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है (गा० ४३)। आकाश तो लोक और अलोकमें व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य केवल लोकमें व्याप्त हैं; क्योंकि जीव और पुद्गल द्रव्य लोकमें ही रहते हैं। इसीसे काल द्रव्य भी लोकमें ही है। सारांश यह है कि अन्य कोई द्रव्य लोकसे बाहर नहीं है (गा० ४४)। परमाणु अप्रदेशी है उसके द्वितीयादि प्रदेश नहीं हैं किन्तु प्रदेशकी उत्पत्ति परमाणुके ही निमित्तसे होती है क्योंकि एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं (गा० ४५)। कालाणु भी अप्रदेशी है उसके भी द्वितीयादि प्रदेश नहीं हैं। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। कालाणु द्रव्यकी पर्यायका नाम समय है। मन्दगतिसे गमन करता हुआ पुद्गल परमाणु कालाणुसे व्याप्त एक आकाश प्रदेशको जितनी देरमें लांघता है उसे समय कहते हैं। वह समय कालाणुकी पर्याय है। कालाणु पुद्गल परमाणुके गमनमें सहकारी होता है। यदि काल द्रव्यको अणुरूप न माना जाये तो समयरूप पर्याय नहीं बन सकती (गा० ४६-४७)।

इस तरह द्रव्यके भेदोंका यह संक्षिप्त परिचय प्रवचनसारसे दिया गया है। इन छे द्रव्योंमेंसे आकाश, धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल ये चार द्रव्य तो अवगाह, गति, स्थिति और परिवर्तन के सहायक मात्र होनेसे लोक व्यवस्थाके नियामक मात्र हैं। उनकी स्थिति मकान, मार्ग और दिन रात की तरह है। जो न किसीका स्वागत करते हैं और न अवरोध। फिर भी मानव जीवनकी व्यवस्थामें उनसे सहायता मिलती है।

इस संसाररूपी रङ्गमञ्चके सूत्रधार तो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं। इन्हींके क्रियाकलापोंने संसाररूपी रंगमंच पर ऐसे अभिनयका विस्तार कर रखा है, जिसका न आदि है और न अन्त है। जो दर्शक उस अभिनयको देखते देखते थककर परेशान हो जाते हैं वे उसकी वास्तविकताकी खोजमें जुट जाते हैं और उसके रहस्यका भेदन करके अपनेको उससे मुक्त करनेके उपायोंमें संलग्न हो जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द उन्हीं मुमुक्षुओंमेंसे थे। अतः उनके ग्रन्थोंमें जीव और पुद्गल द्रव्यके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है, वही मुख्य रूपसे पठन और मनन करनेके योग्य है। अतः उसीका यहाँ विवेचन करनेका प्रयत्न किया जाता है।

जीवका स्वरूप—आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसार (२।५५) तथा पञ्चास्त्रिकाय (गा० ३०) में 'जीव' शब्दकी व्युत्पत्तिके द्वारा उसका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है - 'जो बल, इन्द्रिय, आयु और श्वासोच्छ्वास इन चार प्राणोंसे वर्तमान कालमें जीता है, भूतकालमें जिया था और भविष्य कालमें जिएगा वह जीव है।' 'पञ्चा० गा० २७ में उन्होंने उस जीवको चेतयिता, उपयोग विशिष्ट, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, शरीर प्रमाण, अमूर्तिक किन्तु कर्मसे संयुक्त बतलाया है।

आगे एक गाथा (१०६) में लिखा है कि जीव दो प्रकारके हैं—संसारी और मुक्त। दोनों ही प्रकारके जीव चेतनात्मक और उपयोग लक्षणवाले होते हैं। किन्तु संसारी शरीर सहित होते हैं और मुक्त शरीर रहित होते हैं। पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय, शंख आदि द्वीन्द्रिय, यूका आदि त्रीन्द्रिय, डांस आदि चतुरिन्द्रिय, और मनुष्य आदि पञ्चेन्द्रिय, ये संसारी जीवके भेद हैं। ये भेद इन्द्रियकी अपेक्षासे हैं। चार प्रकारके देव, कर्मभूमिज और भोगभूमिज मनुष्य, बहुत तरहके तिर्यञ्च तथा नारकी, ये गतिकी अपेक्षा संसारी जीवोंके भेद हैं। (पञ्चा० गा० ११०-११८)

उक्त भेदोंमें जो एकेन्द्रियादिको तथा पृथ्वीकायिक आदिको जीव कहा है सो न तो इन्द्रियों ही जीव हैं और न काय ही जीव है। किन्तु उनमें जो ज्ञान है उसे ही जीव कहते हैं। जो सबको जानता देखता है, सुखकी इच्छा करता है दुःखसे डरता है, अच्छे और बुरे कामोंको करता है और उनका फल भोगता है वह जीव है (पञ्चा० गा० १२१-१२२)।

उस जीवमें न तो रस है, न रूप है, न गंध है और न स्पर्श गुण है। तथा वह शब्द रूप भी नहीं है। अतएव वह अव्यक्त है। उसका गुण चेतना है। उसे इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है। (पञ्चा० गा० १२७)।

किन्तु संसार दशमें वर्तमान कोई जीव अपने स्वभावमें स्थित नहीं है। संसरमाण अर्थात् चारों गतियोंमें भटकते हुए जीवकी क्रियाका नाम ही तो संसार है (प्रव० २।२८)। संसारमें वर्तमान जीव रागद्वेष रूप परिणामोंको करता है। परिणामोंसे कर्मोंका बन्धन होता है। उस कर्मके उदयवश उसे नरकादि गतियोंमें जन्म लेना होता है। जन्म लेनेसे उसे शरीर मिलता है। शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं। उन इन्द्रियोंके द्वारा वह विषयोंको ग्रहण करता है।

उससे रागद्वेष उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह जीव संसारमें भटकता रहता है (पञ्चा० गा० १२८-१३०)।

जीवके संसारमें भटकनेकी इस प्रक्रिया और उसकी समाप्तिके कारणों की खोजके फलस्वरूप जैन दर्शनमें सात तत्त्व माने गये हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। उसमें पुण्य पापको सम्मिलित करनेसे उनकी संख्या नौ होजाती है। इन्हीं नौका यथार्थ ज्ञानमूलक श्रद्धान होने पर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है।

२ अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ—

आचार्य कुन्दकुन्दने (प्रव० सा० १-८७) में द्रव्य गुण और पर्यायोंको अर्थ कहा है। तथा गुण और पर्यायोंकी आत्माको द्रव्य कहा है। और प्रवचनसार गा० २-१ में अर्थको द्रव्यमय और द्रव्यको गुणपर्यायमय बतलाकर द्रव्य गुण और पर्यायको अर्थ क्यों कहा है, इसका समर्थन किया है। किन्तु, पञ्चास्तिकाय (गा० १०८) में जीव, अजीव, पुण्य पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष को अर्थ कहा है। नियमसार (गा० ६) में नाना गुणपर्यायोंसे संयुक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और अकाशको तत्त्वार्थ कहा है। तथा दर्शन प्राभृतमें (गा० १६) छै द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और साततत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है। इसका यह मतलब हुआ कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ और तत्त्वार्थ एकार्थक हैं तथापि उनमें दृष्टि भेद भी है। जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये छै द्रव्य कहे जाते हैं, इनमेंसे कालको पृथक् कर देनेसे शेष पाँच को अस्तिकाय कहते हैं। इसी तरह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये नौ पदार्थ कहे जाते हैं। इनमें से पुण्य और पाप को पृथक् कर देनेसे शेष सात तत्त्व कहे जाते हैं। इन्हींके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यग्दर्शन ही मोक्ष का मूलकारण है। अतः कुन्दकुन्दने अपने समयसार पञ्चास्तिकाय नियमसार और प्रवचनसारमें तत्त्वों, पदार्थों और द्रव्योंका ही विशेष रूपसे कथन किया है।

३ निश्चयनय और व्यवहारनय—

आचार्य कुन्दकुन्दने समय प्राभृतमें तत्त्वोंका निरूपण दो दृष्टियोंसे किया है। वे दो दृष्टियाँ हैं—व्यवहारनय और निश्चयनय। पञ्चास्तिकायमें मोक्षमार्गका कथन भी इन दोनों दृष्टियोंसे किया गया है और नियम सारमें नियमका कथन भी निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है। वस्तुतत्त्वके निरूपण में इन दोनों दृष्टियों को जो तो उत्तरकालीन सभी ग्रंथकारोंने मान्य किया है किन्तु व्यक्त रूपमें उनका निदर्शन अध्यात्म प्रधान ग्रन्थोंमें ही मिलता है।

तत्त्वार्थ सूत्रमें लोकाकाशोऽवगाहः (५।१२) सूत्र के द्वारा सब द्रव्योंका अवगाह लोकाकाशमें बतलाया है । किन्तु सर्वार्थसिद्धि टीकामें पूज्यपादने और तत्त्वार्थ वार्तिकमें अकलंक देवने उक्त सूत्रका व्याख्यान करते हुए कहा है कि यह कथन व्यवहारनयसे किया है । एवंभूतनयसे तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित हैं कोई किसीके आधार नहीं है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इन दोनों महान् ग्रन्थकारोंने एवंभूतनयका निश्चयनयके रूपमें उल्लेख किया है । और आचार्य विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक पृ० १५३ में 'निश्चयनय एवंभूतो' लिखकर दोनोंको एक बतलाया है । किन्तु अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थ-वार्तिकमें 'शुद्धनय' का भी उल्लेख किया है ।

असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥५-८॥ इस सूत्रकी व्याख्यामें अकलंकदेवने लिखा है कि व्यवहारनयसे अनादि कालसे कर्मोंके बन्धनसे बँधा होनेके कारण संसारी जीव सावयव है अतः वह असंख्यात प्रदेशी है । किन्तु शुद्धनयकी अपेक्षा उपयोगस्वभाव आत्मा अप्रदेशी है । इसी तरह अष्टसहस्री पृ० १३५ में आचार्य विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि आत्मा निश्चयनयसे स्व-प्रदेश नियत है और व्यवहारनयसे स्वशरीर व्यापी है । सारांश यह है कि वस्तु तत्त्वके निरूपणके दोनों प्रकारोंको सभी जैन दार्शनिकोंने भी अपनाया है । अतः कुन्दकुन्दाचार्यने जो वस्तु तत्त्वका निरूपण दो प्रकारसे किया है वे दोनों प्रकार सर्वसम्मत हैं । उनमें कोई मतभेद नहीं है ।

किन्तु श्वेताम्बर साहित्यमें इस रूपसे निश्चयका कथन नहीं मिलता । जिन-भद्रगणि क्षमाभ्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्य ३५८हं गा० में लिखा है—'लोक व्यवहारमें तत्पर व्यवहारनय भ्रमरको काला कहता है और परमार्थमें तत्पर निश्चयनय कहता है कि भ्रमर पञ्चवर्णवाला है' । इस तरहसे व्यवहारनय और निश्चयनय उन्हें मान्य हैं । किन्तु निश्चयनयसे जीव सिद्धसमान शुद्ध है इस कथनका यशोविजय उपाध्यायने अपने नयरहस्यमें खण्डन किया है । और इस निश्चयनयको दिग्म्बरोंका बतलाया है, तथा उसे उन्मार्गका कारण बतलाया है । यथा—

“सिद्धो निश्चयतो जीव इत्युक्तं यद्दिग्म्बरैः ।

निराकृतं तदेतेन यन्नयेऽन्येऽन्यथा प्रथा ॥४८॥

तेनादौ निश्चयोद्ग्राहो नम्नानामपहस्तितः ।

रसायनीकृतविषप्रायोऽसौ न जगद्धितः ॥५०॥

उन्मार्गकारणं पापं (पा) परस्थाने हि देशना ।

बालादेर्नान्ययोग्यं च वचो भेषजवद्दहितम् ॥५१॥

ये सीदन्ति क्रियाभ्यासे ज्ञानमात्राभिमानिनः ।

निश्चयान्निश्चयं नैते जानन्तीति श्रुते स्मृतम् ॥२२॥

यशोविजयजी उस समय हुये थे जब आगरेमें पं० बनारसीदास समयसारके रसिया हो चुके थे और उनके द्वारा प्रवर्तित समयसार तत्त्व जिज्ञासुओंको आकृष्ट कर रहा था । शायद इसीसे उन्होंने निश्चयनयको उन्मार्गाका कारण कहा है ।

सिद्धसेनकृत सन्मति तर्कमें नयोंका बहुत सुन्दर और विस्तृत वर्णन है । किन्तु वहाँ निश्चयनयका नाम तक नहीं है । बस, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकका ही कथन है । लिखा है, न केवल द्रव्यार्थिकनयको स्वीकार करनेसे संसार बनता है । और न केवल पर्यायार्थिक नयको स्वीकार करनेसे संसार बनता है क्योंकि द्रव्यार्थिकनय नित्यवादी हैं और पर्यायार्थिकनय अनित्यतावादी हैं । नित्यपक्षमें भी सुख दुःखका संप्रयोग नहीं बनता और अनित्य पक्षमें भी । योगके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है और कषायके निमित्तसे स्थितिबन्ध होता है । आत्माको कूटस्थ नित्य माननेसे तथा ज्ञानिक माननेसे कर्मबन्ध होना संभव नहीं है । (गा० १७-१६) । इस तरह उन्होंने द्रव्यैकान्तवाद और पर्यायैकान्तवादका निराकरण किया है । अतः श्वेताम्बर परम्परामें कुन्दकुन्द प्रतिपादित निश्चय और व्यवहारनयकी परम्पराके दर्शन नहीं होते । हाँ, उपाध्याय यशोविजयजीके समयमें एक भोजसागर हुए हैं जो श्वेताम्बर परम्पराके तपोगच्छ के थे । उन्होंने द्रव्यानुयोगतर्कणा नामका ग्रन्थ रचा है । उसमें आलापपद्धतिमें जो नयोंका विवेचन है उसका संकलन किया है । और लिखा है कि यद्यपि दिग्गम्बर देवसेनके कथनमें और हम श्वेताम्बरोंके कथनमें कोई भेद नहीं है तथापि देवसेनने मन्द बुद्धियोंको ठगनेका प्रयत्न किया है क्योंकि नय तो सात ही कहे गये हैं । अस्तु, इससे प्रतीत होता है कि निश्चय और व्यवहारकी दिग्गम्बर परम्परा सम्मत कथनी श्वेताम्बर सम्प्रदायमें रुचिकर नहीं रही है ।

४ निश्चय और व्यवहारके भेद प्रभेद—

कुन्दकुन्द स्वामीने यद्यपि प्रवचनसारमें एक स्थान पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयोंका निर्देश किया है किन्तु अन्यत्र व्यवहार और निश्चय नयका ही उल्लेख किया है तथा निश्चयको शुद्ध नय भी कहा है फलतः व्यवहार नय अशुद्ध नय है । इनके भेद-प्रभेदोंका कोई उल्लेख उनके साहित्यमें नहीं मिलता । आचार्य अमृतचन्द्रकी टीकाओंमें भी उन भेदप्रभेदोंका कोई निर्देश नहीं है । प्रवचनसारकी टीकाके अन्तमें उन्होंने बहुतसे नयोंका कथन किया है किन्तु उनमें निश्चयनय और व्यवहारनयके भेद प्रभेदरूप नय नहीं हैं । हाँ, जयसेनाचार्यने समयसारकी 'व्यहारो भूयत्थो' आदि गाथाकी टीकामें व्यवहार नयके भूतार्थ और अभूतार्थ तथा निश्चय-

नयके शुद्ध और अशुद्ध भेद किये हैं। तथा समय-प्राभृत गा० ७ में जो 'व्यवहार-नयसे ज्ञानके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य कहे जाते हैं' ऐसा कथन है वहीं उससे सद्भूत व्यवहारनयका कथन बतलाया है। तथा अन्यत्र कहा है कि अशुद्ध निश्चय नयसे आत्मा रागादिभावोंका कर्ता है और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे द्रव्य कर्मोंका कर्ता है। समयसारकी टीकामें एक जगह उन्होंने लिखा है 'सिद्धान्तादि शास्त्रोंमें अशुद्ध पर्यायार्थिक नयसे अभ्यन्तर रागादिको और बहिरंग शरीर के वर्णादिको जीव कहा है। किन्तु इस अध्यात्म शास्त्रमें शुद्ध निश्चयनयसे उनका निषेध किया है।'।

समय प्राभृत गा० ५७ में कहा है कि वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त पर्यायोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध पानी की तरह है किन्तु वे भाव जीवके नहीं है क्योंकि जीवमें उपयोग गुण अधिक है। इसकी टीकामें जयसेनाचार्यने यह शंका उठाई है कि वर्ण आदि तो बहिरंग हैं उनके साथ जीवका व्यवहाररूपसे दूध पानीकी तरह सम्बन्ध भले ही हो, किन्तु रागादि तो अभ्यन्तर हैं अतः उनका कथन तो अशुद्ध निश्चय नयसे होना चाहिये, व्यवहार नयसे नहीं। इसका समाधान करते हुए जयसेनाचार्यने कहा है कि द्रव्यकर्म बन्धकी अपेक्षासे जो असद्भूत व्यवहार है, उससे तारतम्य बतलानेके लिए रागादिको अशुद्ध निश्चय नयसे जीवका कहा है। वास्तवमें तो शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरकालमें निश्चयनयके शुद्ध अशुद्ध आदि और व्यवहारके सद्भूत असद्भूत आदि भेदोंकी सृष्टि क्यों हुई ?

यह सब भेद व्यवहार अमृत चन्द्रकी टीकामें नहीं है। लघुनय चक्र और आलाप पद्धतिमें ही इन भेद-प्रभेदोंका कथन है। और आलाप पद्धतिके पश्चात् रचे गये द्रव्य संग्रहमें भी इन भेदों द्वारा सात तत्त्वोंका कथन किया गया है। जयसेन तो इसके भी पश्चात् हुए हैं।

असलमें तो वस्तु विचारके क्षेत्रमें मूलनय दो ही हैं—एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। इन्हींके सात भेद तत्त्वार्थ सूत्रमें बतलाये हैं। सिद्धसेनके सन्मति तर्कमें भी मूल नयके रूपमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकको ही बतलाया है। अकलंकदेवने भी अपने ग्रन्थोंमें इन्हीं नयोंका प्रतिपादन किया है। समन्त भद्राचार्यने आसमीमांसा (कारिका १०७) में नयके साथ उपनयका भी निर्देश किया है और उसकी व्याख्या करते हुए अकलंकदेवने संग्रह आदि-को नय और उनके भेद प्रभेदोंको उपनय कहा है। किन्तु आसमीमांसा कारिका

१०४ की अष्टशतीमें अकलंकदेवने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि मूल नयों की शुद्धि और अशुद्धि की अपेक्षासे नयोंके बहुतसे भेद होते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दने अष्ट सहस्रीमें कहा है कि मूलनय द्रव्यार्थिक हैं और उसकी शुद्धि की अपेक्षा संग्रहनय है क्योंकि वह समस्त उपाधियोंसे रहित शुद्ध सन्मात्र तत्त्वको विषय करता है। अतः सम्यक् एकत्व रूपसे सबका संग्रह करनेके कारण उसे संग्रह कहते हैं और अशुद्धि की अपेक्षा व्यवहार नय है क्योंकि वह संग्रह नयके द्वारा गृहीत पदार्थोंका विधिपूर्वक भेद करता है तथा द्रव्यत्व आदि विशेषण रूपसे स्वतः अशुद्ध वस्तुको स्वीकार करता है।

उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि संग्रह नय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। फिर भी अशुद्ध नयके रूपमें व्यवहार नयको तो अध्यात्म शास्त्रमें अपना लिया गया किन्तु शुद्धनयके रूपमें संग्रह नयको नहीं अपनाया गया। इसका कारण यह है कि अध्यात्म शास्त्रके शुद्धनय की दृष्टिमें और संग्रह नयकी दृष्टिमें अन्तर है। शुद्धनय परभावसे भिन्न निर्विकल्प वस्तु स्वभावका प्राप्ति है और संग्रहनय विभिन्न वस्तुओंमें वर्तमान एकत्वकी दृष्टिसे सबका संग्रह करता है। जैसे सन्मात्रके द्वारा सब सत्पदार्थोंका ग्रहण करना, द्रव्यत्वरूपसे सब द्रव्योंको एक रूपसे ग्रहण करना। किन्तु शुद्ध नय किसी को किसीसे नहीं मिलाता। अतः संग्रहनयकी शुद्धता निश्चय नयकी शुद्धतासे भिन्न प्रकारकी है। इसी तरह नाम साम्य होनेपर भी अध्यात्मके व्यवहार नय और इतर व्यवहार नयमें भी अन्तर है।

यह नहीं भूलना चाहिये कि जैसे निश्चयनय द्रव्यार्थिकनयका स्थानापन्न है वैसे ही अध्यात्म क्षेत्रमें व्यवहारनय पर्यायार्थिकनयका स्थानापन्न है। किन्तु अध्यात्म क्षेत्रसे बाहर अर्थात् दार्शनिक क्षेत्रमें जो व्यवहारनय है वह द्रव्यार्थिक नयका ही भेद है। और वहाँ पर्यायार्थिक नयके भेद उससे भिन्न हैं। अध्यात्ममें तो अबद्ध, असृष्ट, अविशिष्ट, असंयुक्त वस्तु स्वरूपके सिवाय जो कुछ भी कथन है वह सब व्यवहारनयमें गभित है। सारांश यह है कि वस्तुका जितना भी विश्लेषण है वह चाहे द्रव्य परक हो अथवा पर्यायपरक, वह सब व्यवहार नयके अन्तर्भूत है। इसीसे आलाप पद्धतिमें कहा है—

शिञ्जयव्यवहारण्या मूलिम भेदा शयान सव्याणं ।

शिञ्जयसाहणैः पञ्च दव्वरिथयं मुगाह ॥

‘सब नयोंके मूल भेद निश्चयनय और व्यवहारनय हैं। और निश्चयके साधनमें हेतु पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक हैं।

किन्तु इन्हीं आलाप पद्धतिकारने अपने नयचक्रमें कहा है—

दो चैव मूलमणया भणिया दन्वथ पजयत्थगया ।
अरणं असंखसंखा ते तब्भेया मुणेषव्वा ॥११॥

अर्थात् मूलनय दो ही कहे है एक द्रव्याधिक और एक पर्यायाधिक । शेष संख्यात असंख्यात उन्हींके भेद जानने चाहिये ।

प्रातः स्मरणीय गुरुवर्थ स्व० पं० गोपालदासजी वरैयाने अपने जैन सिद्धांत दर्पण (पृ० २५) में नयोका विवेचन करते हुए नयके मूलभेद दो बतलाये हैं निश्चयनय और व्यवहारनय । तथा व्यवहारनयको ही उपनयका कहा है । और निश्चयका लक्षण भूतार्थ और व्यवहारका लक्षण अभूतार्थ कहा है । तथा उनको स्पष्ट करते हुए लिखा है—जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना यह निश्चयनयका विषय है और एक पदार्थको परके निमित्तसे व्यवहार समघनार्थ अय रूप कहना व्यवहारनयका विषय है ।

आगे गुरुजीने निश्चयनयके दो भेद किये हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक तथा द्रव्याधिक और पर्यायाधिकके भी दो भेद किये हैं—अध्यात्म द्रव्याधिक और अध्यात्म पर्यायाधिक, शास्त्रीय द्रव्याधिक और शास्त्रीय पर्यायाधिक । अध्यात्म द्रव्याधिकके दस भेद और अध्यात्म पर्यायाधिकके छह भेद बतलाये हैं । तथा नैगम संग्रह व्यवहारनयको शास्त्रीय द्रव्याधिकके भेद और ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूतनयोको शास्त्रीय पर्यायाधिकके भेद कहा है । ये सब भेद वे ही हैं जो आलाप पद्धतिमें कहे हैं । किन्तु आलाप पद्धतिमें न तो निश्चयनयके द्रव्याधिक पर्यायाधिक भेद किये है और न द्रव्याधिक और पर्यायाधिकके अध्यात्म और शास्त्रीय भेद किये हैं । यद्यपि द्रव्याधिकके दस भेद और पर्यायाधिकके छे भेद आत्माकी ही विविध दशाओंका कथन करते हैं इसीलिये गुरुजीने उन्हें अध्यात्मनयोंमें सम्मिलित कर लिया जान पड़ता है । किन्तु आलाप पद्धतिकारकी दृष्टिसे ये भेद भी मूलनय द्रव्याधिक और पर्यायाधिकके हैं । किन्तु ये भेद निश्चयके साधनमें हेतु होते हैं । क्योंकि ऊपरवाली गाथामें द्रव्याधिक और पर्यायाधिकको निश्चयके साधनमें हेतु कहा है । और कुन्दकुन्दाचार्य तथा अमृतचन्द्र सुरिके मतानुसार जो निश्चयका साधक है वह सब व्यवहार है । अतः शुद्ध अध्यात्म दृष्टिसे वे सब व्यवहारके अन्तर्गत ही आते हैं । इसीसे देवसेनाचार्यने आलाप पद्धतिके अन्तमें 'पुरण्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते' लिखकर अध्यात्म दृष्टिसे नयोका पृथक् कथन किया है । और निश्चयनयके शुद्ध और अशुद्ध दो भेद किये हैं और व्यवहारनयके सद्भूत तथा

असद्भूत भेद करके प्रत्येकके उपचरित और अनुपचरितकी अपेक्षा दो भेद किये हैं। बस, इतने ही नय अध्यात्म सम्मत हैं। शेष सब नय शास्त्रीय हैं। जयसेनाचार्यने समयसारकी अपनी टीकामें इन्हीं नयोंका प्रयोग किया है। किन्तु ये विभाजन उत्तर कालीन ही ज्ञात होता है। कुन्दकुन्दके अध्यात्ममें दो ही नय हैं—निश्चय और व्यवहार। उनका निश्चय शुद्ध ही हैं। जो अशुद्ध है वह सब व्यवहार हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि निश्चय और व्यवहारमें भेद करनेकी आवश्यकता क्यों हुई।

कुन्दकुन्दके शुद्ध अध्यात्मके अनुसार आत्मा सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र स्वरूप है, यह भी व्यवहारनयका कथन है। और आत्मा रूप रस गन्ध-स्पर्श गुण वाला है यह भी व्यवहारनयका कथन है। किन्तु इन दोनों कथनोंमें आकाश पातालका अन्तर है। सम्यग्दर्शन आदि आत्माके ही स्वाभाविक गुण हैं, तीन कालोंमें भी वे आत्माके सिवाय अन्यके गुण नहीं है। किन्तु रूप रसादि तो पुद्गलके गुण हैं तीनों कालोंमें भी वे आत्माके गुण नहीं हो सकते। फिर भी चूंकि आत्मा अनादिकालसे कमोंसे बद्ध है इसलिए उन्हें उपचारसे आत्माका गुण कहते हैं। इन दोनों कथनोंको एक ही श्रेणीमें नहीं रखा जा सकता था। अतः प्रथम कथनको व्यवहारनयके क्षेत्रसे निकालकर अशुद्धनयकी श्रेणीमें रखा गया। और यह स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार है।

अब प्रश्न यह होता है कि जिस द्रव्यका जो स्वाभाविक रूप है उसी रूपको उसका कहना व्यवहार क्यों है? जो जिस रूप है उसको उसी रूप कहने पर भी द्रव्यकी अखण्डताको गहरी चर्चा पहुँचती है। सुनने वालेको ऐसा लगता है कि द्रव्य स्वतः सिद्ध, अनादि निधन और निर्विकल्प रूप न होकर, परतः सिद्ध सादिसान्त और भेद रूप है। किन्तु वास्तवमें तो द्रव्य इससे बिल्कुल विपरीत हैं। अतः उक्त कथन भी आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण नहीं करता इसलिये वह भूतार्थ नहीं अभूतार्थ है और इसलिये व्यवहार है। किन्तु इस अभूतार्थ कथनके बिना आत्माके भूतार्थ स्वरूपको नहीं पहचाना जा सकता। अतः व्यवहार होते हुए भी वह निश्चयका साधक माना जाता है। उक्त कथनमें 'व्यवहारसंभेद करणं व्यवहारः' व्यवहार नयका यह लक्षण घटित होता है। क्योंकि उक्त कथन अखण्ड वस्तुका खण्ड खण्ड करके प्रतिपादन करता है।

समयसार गा० ६० की टीकामें अमृतचन्द्र सूरिने कहा है कि गंध, रस, स्पर्श, रूप शरीर, संस्थान, संहनन, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्द्धक, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, वन्ध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति वन्ध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, व्यवहार नयसे ही जीवके कहे जाते हैं किन्तु निश्चय से ये जीवके नहीं हैं क्योंकि इनके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। और इन सबका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध इसलिये नहीं है कि मुक्त अवस्थामें जीवमें इनमेंसे कोई भी भाव नहीं रहता। अतः जिन भावोंका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है उनको जीवका कहना भी व्यवहार नय है। किन्तु उनमेंसे भी कुछ भाव ऐसे हैं जो जीवसे विशेष निकटता रखते हैं। जैसे राग द्वेष मोह। क्योंकि वे जीव के भाव रूप हैं। अतः उक्त सब भावोंको जीवका कहते समय पर सम्बन्ध आदिकी तारतम्यताकी दृष्टिसे व्यवहार नयके भी भेद कर लिये गए हैं। जिससे जीवके साथ उसकी वास्तविक स्थितिका ज्ञान हो सके। जयसेनाचार्यने 'जीव रागादि भावोंका कर्ता है, इसे अशुद्ध निश्चय नय कहा है और 'जीवके सम्यग्दर्शनादि गुण है' इसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय बतलाया है। किन्तु आलाप पद्धतिकारने अशुद्ध निश्चय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयके उदाहरणोंमें केवल विवक्षाका ही अन्तर रखा है। जीव में केवल ज्ञानादि गुण हैं यह अशुद्ध निश्चय नय है। और जीवके केवल ज्ञानादि गुण है यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। पहले में अभेद दृष्टि है और दूसरेमें भेद दृष्टि। हमें आलाप पद्धतिकारकी दृष्टि समुचित प्रतीत होता है क्योंकि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नयसे अशुद्ध निश्चय नयका दर्जा उँचा होना चाहिये।

अमृतचन्द्र जीके कथनानुसार जिन गुणोंका आत्माके साथ तादात्म्य संबन्ध हैं, निश्चय नयसे वे ही आत्माके हैं। अतः उन गुणरूप आत्माको कहना निश्चय नय या शुद्धनय है और उन गुणोंको आत्माका कहना अशुद्ध कहा जाना चाहिये। गुण गुणोंमें भेद डालने रूप अशुद्धि ही निश्चय नयके लिए पर्याप्त है। पर निमित्तसे होनेवाली अशुद्धताका समावेश अशुद्ध निश्चयमें नहीं होना चाहिये। किन्तु बृहद्द्रव्य संग्रह (गा० ८) की टीकामें ब्रह्मदेव जीने भी अशुद्ध निश्चय नयसे जीव को रागादि भावोंका कर्ता बतलाया है। वहाँ उन्होंने अशुद्ध निश्चयका अर्थ करते हुए लिखा है 'कर्मकी उपाधिसे उत्पन्न होनेके कारण उसे अशुद्ध कहते हैं और उस समय तपाये हुए लोहेकी गोलेकी तरह तन्मय

होनेके कारण उसे निश्चय कहते हैं। इस प्रकार दोनोंके मेलसे अशुद्ध निश्चय कहा जाता है।

यहां ब्रह्मदेवजीने निश्चयकी जो उपपत्ति दी है वह चितको नहीं लगती। औपाधिक भावसे तन्मय हुआ जीव निश्चयनयकी सीमासे बाहर ही है। फिर भी इसे अशुद्ध निश्चय क्यों कहा गया है। इसके लिए रागद्वेषके कर्तृत्वके सम्बन्धमें विचार करना होगा।

समयसार गा० १० आदिमें कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि जीवके न तो राग है, न द्वेष है और न मोह है क्योंकि ये सब पुद्गलके परिणाम हैं। किन्तु कर्तृकर्मअधिकार (गा० १३६-१४०) में कहा है कि यदि जीवके कर्मके सहभावसे रागादि परिणाम होते हैं, ऐसा मानते हो तो जीव और कर्म दोनोंके ही रागादि परिणाम होने चाहिये, किन्तु रागादि परिणाम तो अकेले जीवके होते हैं। अतः कर्मोद्धारूप निमित्तके बिना ही रागादि परिणाम जीवके हैं।

इसके पूर्व गा० १२३-१२५ में सांख्यमतको लक्ष्यमें रखकर कहा है— 'जीव स्वयं कर्मसे नहीं बंधा है और न स्वयं क्रोधादिरूप परिणामन करता है'। यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणामी ठहरता है। और जीवके स्वयं क्रोधादि रूपसे परिणामन न करनेपर या तो संसारका अभाव प्राप्त होता है या सांख्य मतका प्रसंग आता है (सांख्य मतमें जीवको सर्वथा अपरिणामी माना है)। यदि पौद्गलिक कर्म क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणामन कराता है तो जो पौद्गलिक कर्म स्वयं क्रोध रूप परिणाम नहीं होता वह जीवका क्रोधरूप परिणामन कैसे करा सकता है ? यदि तेरी ऐसी मति है कि आत्मा स्वयं क्रोधरूप परिणामन करता है तो क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणामाता है ऐसा कहना मिथ्या है। अतः क्रोधमें उपयुक्त आत्मा ही क्रोध है, मानमें उपयुक्त आत्मा ही मान है, मायामें उपयुक्त आत्मा ही माया है और लोभमें उपयुक्त आत्मा ही लोभ है।'

ऊपर रागद्वेष मोहको जीवका नहीं बतलाया किन्तु पुद्गलका परिणाम बतलाया है और बादको कहा है कि रागादि परिणाम चूंकि जीवके होते हैं पुद्गलके नहीं होते इसलिए उनका कर्ता जीव है। यदि नय दृष्टिपर ध्यान न दिया जाये तो ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होते हैं। किन्तु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है।

शुद्ध जीवके रागद्वेष मोह नहीं होते अतः यह निश्चित है कि वे जीवके नहीं हैं। किन्तु अशुद्ध दशामें रागद्वेष मोहरूप जीव ही परिणमन करता है, पुद्गलका परिणमन रागादिरूप नहीं होता और जो परिणमन करता है वही कर्ता कहा जाता है। चूंकि जीव ही रागादिरूप परिणमन करता है इस लिये वही रागादि भावोंका कर्ता है। और रागादि भाव उसीके परिणाम कह जाते हैं।

प्रवचन सारके ज्ञेयाधिकारमें (गा० ८१) कुन्दकुन्द स्वामीने यह शंका उठाई है कि पुद्गल परमाणु तो मूर्तिक है उसमें स्पर्शादि गुण पाये जाते हैं अतः पुद्गलका पुद्गलके साथ बन्ध होता है आत्मा तो अमूर्तिक है, स्पर्शादि गुणवाला नहीं है वह कर्मसे कैसे बंधता है ? इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जैसे आत्मा रूपादि गुणोंसे रहित होने पर भी रूपादि द्रव्योंको और गुणोंको जानता है, वैसे ही रूपादि रहित होने पर भी रूपाि कर्मोंसे बंधता है। आगे लिखा है कि 'पुद्गलोंका बन्ध स्पर्श आदि गुणोंके द्वारा होता है और जीवका बन्ध रागादिके द्वारा होता है। आत्मा सप्रदेशी है वह आत्मा मोह रागद्वेषसे अविष्ट होकर कर्मरूपी रजसे श्लिष्ट होता है इसीको आगममें बन्ध कहा है। अरहन्त देवने निश्चयनयसे यह जीवके बन्धका कथन किया है। व्यवहारनयका कथन इससे भिन्न है।'

इसी गाथा ६७ की टीकामें असृतचन्द्र सूरिने कहा है कि राग परिणामोंका आत्म ही कर्ता, उपादाता और हाता (छोड़ने वाला) है यह शुद्ध द्रव्यका निरूपण करने वाला निश्चयनय है। और पुद्गल परिणामोंका कर्ता हाता आदि आत्मा है यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है।' इसकी टीकामें जयसेनाचार्यने लिखा है कि 'रागादिका ही आत्मा कर्ता और मोक्ता है यह निश्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निश्चयनय द्रव्यकर्म बन्धका कथन करने वाले असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे शुद्ध द्रव्य का निरूपण करता है। विवक्षित निश्चयनयकी अपेक्षा इसे अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं।' इस कथनके प्रकाशमें ब्रह्मदेवजीके कथनको देखनेसे उसकी यथार्थता समझमें आजाती है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उस अपेक्षाको यदि दृष्टिसे ओझल कर दिया जाये और उस अपेक्षिक कथनको ही ऐकान्तिक सत्य मान लिया जाये तो मनुष्य सत्यसे भटक जाता है। अतः अन्य कथनोंके साथ संगति बैठकर ही प्रत्येक कथनकी यथार्थताको जाना जा सकता है। इस लिये व्यवहार और निश्चयके भेद प्रभेदोंको समझनेके

साथ ही साथ यह नहीं भुला देना चाहिये कि निश्चयनचक्र के कथनके मूलमें शुद्ध आत्मोपलब्धिकी भावना निहित है तथा व्यवहारनय जो कहता है वह सर्वथा मिथ्या नहीं है। केवल शुद्धात्मोपलब्धिकी दृष्टिसे ही मिथ्या है।

सांख्य मतकी प्रक्रिया—कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमें कई जगह लिखा है कि ऐसा माननेसे सांख्य मतका प्रसंग आ जायेगा। अतः समयसारके पाठकको सांख्य मतकी प्रक्रिया भी जानना चाहिये।

सांख्य दो मूल तत्त्व मानता है—एक प्रकृति या प्रधान और दूसरा पुरुष या आत्मा। इनमेंसे प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तथा प्रकृति परिणामी है और प्रकृतिसे सर्वथा भिन्न और स्वतन्त्र पुरुष कूटस्थ नित्य है—अर्थात् अपरिणामी है। सांख्य मानता है कि आत्मा स्वभावसे शुद्ध ही है। अपरिणामी होनेसे वह संसार दशामें भी विकृत नहीं होता। वह संसार तथा मोक्ष, दोनों दशाओंमें एक सा सहज शुद्ध रहता है। उसपर पुण्य-पापका किसी भी तरहका असर नहीं पड़ता। सांख्य मतके अनुसार संसार और मोक्ष प्रकृतिका होता है क्योंकि प्रकृति परिणामी है अतः उसमें विभिन्न अवस्थायें होना सम्भव है। सांख्य कारिकामें लिखा है—

तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित् ।

संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥६२॥

‘अतः न कोई बंधता है। न कोई छूटता है और न कोई संसारमें भटकता है। नानाश्रया प्रकृति ही संसारमें भटकती है, बंधती है और मुक्त होती है।’

आत्मा न तो बद्ध है और न मुक्त। बन्ध और मोक्ष प्रकृतिके होते हैं और प्रकृतिके समीपमें सदा विद्यमान आत्मामें उनका आरोप होता है। जैसे आकाशमें उड़ने वाला पक्षी, स्वच्छ पानीमें उड़ता दिखाई देता है वैसे ही प्रकृतिके बन्ध और मोक्ष पुरुषमें व्यवहृत होते हैं क्योंकि उनका परस्परमें विशिष्ट साम्बन्ध है। तथा सांख्य मतमें बुद्धि भी प्रकृतिजन्य है। वही ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, सुख दुःख, पुण्यपाप आदि भावोंका आधार है। जब बुद्धि अहंकार आदि रूप प्रपञ्च पुनः प्रकृतिमें लिप्त जाता है तब प्रकृतिका मोक्ष होता है और उपचारसे पुरुष भी मुक्त कहा जाता है।

सारांश यह है कि सांख्य-योग दर्शन, सुख, दुःख, ज्ञान-अज्ञान, इच्छा-द्वेष, आदि भाव पुरुषमें न मानकर सात्त्विक बुद्धि तत्त्वमें मानता है। और उसकी पुरुषमें पड़नेवाली छायाको ही आरोपित संसार कहता है। अतः जब

मुक्ति दशामें सात्विक बुद्धि अपने भावोंके साथ अपने मूलकारण प्रकृतिमें विलय होता है तो पुरुषमें आरोपित सुख दुःख, इच्छा द्वेष आदि भावोंका और कर्तृत्वकी छायाका भी अभाव हो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है। इस तरह सांख्य दर्शनने पुरुषको कूटस्थ नित्य—अपरिणामी माननेके कारण उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बन्ध मोक्ष आदि अवस्थाओंको उपचरित माना है। उसके बिना पुरुषकी कूटस्थ नित्यता सुरक्षित नहीं रहती।

किन्तु जैनदर्शन परिणामी नित्यताके सिद्धान्तका पक्षपाती है। उसमें सांख्यकी तरह केवल जड़ प्रकृतिको ही परिणामी नहीं माना, वह आत्म द्रव्यको भी परिणामी नित्य मानता है। उसका आत्म तत्त्व शरीर परिमाण वाला होनेके कारण संकोच विस्तारशील है। चींटीकी आत्माका परिमाण चींटीके शरीर बराबर है। जब वह चींटीके शरीरको छोड़कर हाथीके शरीरमें जन्म लेता तो उसका परिमाण हाथीके शरीरके बराबर होता है। इस तरह शरीरके संकोच विस्तारके अनुसार संसारी जीवका भी संकोच विस्तार होता है। मुक्त हो जाने पर संकोच विस्तार वाली बात समाप्त हो जाती है क्योंकि शरीरका और कर्मोंका सम्बन्ध छूट जाता है। अतः आत्मा अन्तके शरीरसे कुछ न्यून आकारको लिए सदा स्वाभाविक परिणमनसे परिणत हुआ करता है।

तथा जैनदर्शनमें ज्ञान सुख वगैरह जीवके स्वाभाविक गुण माने गये हैं। और बन्ध तथा मोक्ष भी आरोपित नहीं हैं वास्तविक हैं। जो ऐसा मानते हैं कि संसार दशामें भी जीव सिद्धके समान शुद्ध है कर्मसे अबद्ध और अस्पष्ट है। वे सांख्यमतावलम्बी हैं जैनमतावलम्बी नहीं हैं। अबद्ध अस्पष्ट आत्माका अनुभव करना भिन्न बात है और आत्माको वास्तवमें अबद्ध-अस्पष्ट मानना भिन्न बात है। जैन अप्यात्मशास्त्रका एकमात्र लक्ष्य शुद्ध आत्म स्वरूपकी प्रतीतिके द्वारा उसकी उपलब्धि कराना है न कि सांख्यकी कूटस्थ नित्य आत्माका तरह उसे सर्वथा अबद्ध और मुक्त बतलाना। किन्तु निश्चय दृष्टिसे किए गए कथनमें सांख्य मतकी कलक आ जाना सम्भव है। और यदि उस कथनको आगे पीछेके साथ मिलाकर न पढ़ा जाये तो उससे भ्रम हो सकता है।

उदाहरणके लिए अमृतचन्द्र सूरिका एक कलश नीचे दिया जाता है—

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये-

वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-

चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥४४॥

अर्थ—इस अनादि महा अविवेक पूर्ण नाटकमें वर्णादिमान् पुद्गल ही नाचता फिरता है, अन्य कोई नहीं; क्योंकि यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारोंसे विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति स्वरूप है।

यह कथन पीछे उद्धृत सांख्यकारिकाके कथनके ही अनुरूप है; क्योंकि इसमें कहा गया है कि जीव तो 'शुद्ध चैतन्य धातुमय है अतः पुद्गल ही संसारमें भटकता फिरता है'। सांख्यका तो यह सिद्धान्त ही है। किन्तु इस कलशको इसके पहले और पीछेके कलशके साथ मिलाकर पढ़नेसे वह भ्रम दूर हो जाता है। आगेके कलशमें कहा है कि इस प्रकार ज्ञानरूपी आरेको चचानेके चतुर्थ द्वारा जबतक जीव और अजीव विघटित नहीं हो जाते' इत्यादि।

समयसारके बन्धाधिकारमें कुन्दकुन्द स्वामीने दृष्टान्त पूर्वक बन्धका कथन करते हुए कहा है 'कि जैसे कोई पुरुष शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमिमें शस्त्राभ्यास करता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त हो जाता है। जैसे ही मिथ्यादृष्टि जो रागादिरूप उपयोग करता है उसके कारण वह कर्मरजसे लिप्त हो जाता है।' अतः जैन सिद्धान्तमें बन्ध और मोक्ष सांख्यकी तरह उपचार मात्र नहीं हैं, किन्तु वास्तविक हैं। मगर वास्तविक होते हुए भी अग्रान्तक होनेसे बन्ध हेय है; उपादेय नहीं है।

सांख्य आत्माको सर्वथा अकर्ता मानता है। समयसारमें भी आत्माको पर द्रव्यका अकर्ता बतलाया है। गाथा ३२१ आदिमें कहा है कि लौकिक जन विष्णुको जगतका कर्ता मानते हैं उसी तरह यदि अमण (जैन साधु) आत्माको षट्कायका कर्ता मानते हैं तो दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रहता। अतः आत्माको परका कर्ता मानना मिथ्यात्व है। आत्मा अपने भावोंका कर्ता है।

आगे जो एकान्तसे कर्मको कर्ता और आत्माको सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनके निराकरण करनेके लिए कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—

यदि सब कुछ कर्म ही करते हैं और आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो चूँकि स्त्रीवेद कर्मके उदयसे पुरुषकी अभिलाषा होती है और पुरुषवेद कर्मके उदयसे स्त्रीकी अभिलाषा होती है। अतः स्त्री पुरुषसे और पुरुष स्त्रीसे रमण करने पर भी व्यभिचारके दोषी नहीं कहे जायेंगे। और ऐसी स्थितिमें कोई जीव व्यभिचारी नहीं कहा जा सकेगा क्यों कि कर्म ही कर्मकी अभिलाषा करता है। इसी तरह परघात नामक कर्म दूसरेका घात करता है, आत्मा तो अकर्ता है अतः कोई घात करने पर भी घातक नहीं कहलायेगा; क्योंकि कर्म दर्मका घात करता है। यह दोष बतलाकर कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो अमण

इस प्रकार सांख्य मतका उपदेश करते हैं, उनके मतानुसार जो कुछ करती है वह प्रकृति करती है। आत्मा तो अकर्ता है ॥ ६४० ॥

इस प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीने अध्यात्मका उपदेश देते हुए अपने पाठकको बराबर इस बातसे सावधान किया है कि वह एकान्त वादके चक्रमे पढ़कर मार्ग-अष्ट न हो। अतः समयसारके पाठको सांख्यमत को भी समझना जरूरी है जिससे वह शुद्ध अध्यात्म और सांख्यवादके अन्तरको दृष्टिमें रखकर विचार कर सके।

५ अध्यात्म और शास्त्रीय नयोमें अन्तरका कारण—

१ शास्त्रीय दृष्टि कोण—यह हम लिख आये हैं कि निश्चयनय और व्यवहारनयके द्वारा वस्तुनिरूपण अध्यात्मविषयक ग्रन्थोंमें ही विशेष रूपसे पाया जाता है। तथा आलाप पद्धतिकारने नयोका विवेचन करके 'पुनरप्यध्यात्म-भाषया नया उच्यन्ते' लिखकर जो अध्यात्म दृष्टिसे नयोका अलगसे विवेचन किया है और गुरुवर्य गोपालदास जीने तदनुसार नयोके शास्त्रीय और अध्यात्म दो भेद किये हैं, ये सब बातें इस बात को बतलाती हैं कि वस्तु-विवेचनकी शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है। यदि ऐसा न होता तो ग्रन्थकारोंको नयोके ये दो भेद ही न करने पड़ते, और दोनों नयोके भेद-प्रभेदोंमें इतना अन्तर न होता और न दोनोंका क्षेत्र ही जुदा जुदा होता। शास्त्रीय द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथा उनके नैगमादि सात भेदोंकी उपयोगिता शास्त्रीय वस्तुविवेचनमें है। इसी तरह निश्चय और व्यवहारकी उपयोगिता अध्यात्ममें है। और इसका कारण यह है कि वस्तु विवेचनकी शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है। शास्त्रीय दृष्टि वस्तुका विरलेषण करके उसकी तह तक पहुँचनेकी चेष्टा करती है। उसकी दृष्टिमें निमित्त कारणके व्यापारका भी उतना ही मूल्य है जितना उपादान कारणके व्यापारका। और पर संयोग जन्य अवस्था भी उतनी ही यथार्थ है जितनी स्वाभाविक अवस्था। जैसे उपादान कारणके बिना कार्य नहीं होता वैसे ही निमित्त कारणके बिना भी कार्य नहीं होता। अतः कार्यकी उत्पत्तिमें दोनोंका सम व्यापार है। जैसे मिट्टीके बिना घट उत्पन्न नहीं होता वैसे ही कुम्हार चक्र आदिके बिना भी घट उत्पन्न नहीं होता। ऐसी स्थितिमें वास्तविक स्थितिका विरलेषण करने-वाली शास्त्रीय दृष्टि किसी एकके पक्षमें अपना फैसला कैसे दे सकती है। इसी तरह मोक्ष जितना यथार्थ है संसार भी उतना ही यथार्थ है और संसार जितना यथार्थ है उसके कारण कलाप भी उतने ही यथार्थ हैं। संसार दशा न केवल

जीवकी अशुद्ध दशाका परिणाम है और न केवल पुद्गलकी अशुद्ध दशाका परिणाम है। किन्तु जीव और पुद्गलके मेलसे उत्पन्न हुई अशुद्ध दशाका परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे जितना सत्य जीवका अस्तित्व है और जितना सत्य पुद्गलका अस्तित्व है उतना ही सत्य उन दोनोंका मेल और संयोगज विकार भी है। वह सांख्यकी तरह पुरुषमें आरोपित नहीं है किन्तु प्रकृति और पुरुषके संयोगजन्य बन्धका परिणाम है। अतः शास्त्रीय दृष्टिसे जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा पुण्य, पाप और मोक्ष सभी यथार्थ और वस्तुभूत हैं। अतः सर्भाका यथार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। और वूँ कि उसकी दृष्टिमें कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है जितना उपादान कारण, अतः आत्म प्रतीतिमें निमित्तभूत देव, शास्त्र और गुरु वगैरहका श्रद्धान भी सम्यग्दर्शन है। उसमें गुणस्थान भी हैं मार्गणास्थान भी हैं, सभी हैं। शास्त्रीय दृष्टिको किसी वस्तु विशेषके साथ कोई पक्षपात नहीं है। वह वस्तु स्वरूपका विश्लेषण किसीके हित अहितको दृष्टिमें रखकर नहीं करती।

सर्वार्थ सिद्धि और तत्त्वार्थ वार्तिकमें नयोंका विवेचन करते हुए शब्द नयके विवेचन पर यह आपत्ति उठाई है कि इससे तो लोक और शास्त्र दोनोंका विरोध होता है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया है—रहो विरोध, यहाँ तत्त्वकी भीमांसा की जाती है, तत्त्व भीमांसा करते समय मित्र और शत्रुका विचार नहीं किया जाता। ठीक यही शास्त्रीय दृष्टिकी स्थिति है, जो प्रायः समस्त जैन शास्त्रोंमें दृष्टिगोचर होती है और शास्त्रार्थी विद्वान् लोग जिससे सुपरिचित हैं। किन्तु अभ्यात्म दृष्टि आत्म तत्त्वकी मुख्यतासे ही वस्तु तत्त्वका विवेचन करती है।

२ आध्यात्मिक दृष्टिकोण—शास्त्रीय दृष्टिके सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी है। उसके द्वारा आत्मतत्त्वको लक्ष्यमें रखकर वस्तुका विचार किया जाता है। जो आत्माके आश्रित हो उसे अभ्यात्म कहते हैं। जैसे वेदान्ती ब्रह्मको केन्द्रमें रखकर जगत्के स्वरूपका विचार करते हैं वैसे ही अभ्यात्मदृष्टि आत्माको केन्द्रमें रखकर विचार करती है। जैसे वेदान्तमें ब्रह्म ही परमार्थ सत् है और जगत् मिथ्या है, वैसे ही अभ्यात्मविचारणामें एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत् है और उसकी अन्य सब दशाएं व्यवहारसत्य है। इसीसे जैसे शास्त्रीय क्षेत्रमें वस्तुतत्त्वका विवेचन द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोंके द्वारा किया जाता है वैसे ही अभ्यात्ममें निश्चयनय और व्यवहारनयके द्वारा आत्मतत्त्वका विवेचन

किया जाता है। और निश्चय दृष्टिको परमार्थ और व्यवहार दृष्टिको अपरमार्थ माना जाता है, क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्माके यथार्थ शुद्ध स्वरूपको दिखलाती है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध अवस्थाको दिखलाती है। अध्यात्मों मुमुक्षु शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है उसकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम उसे उस दृष्टिकी आवश्यकता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करा सकनेमें समर्थ है। ऐसी दृष्टि निश्चय दृष्टि है, अतः मुमुक्षुके लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे आत्माके अशुद्ध स्वरूपका दर्शन होता है वह व्यवहार दृष्टि उसके लिये कार्यकारी नहीं है अतः वह अभूतार्थ कही जाती है। इसीसे आचार्य कुन्दकुन्दने समयप्राभृतके प्रारम्भमें 'व्यवहारोऽभूदत्यो भूदत्यो देसिदो य सुद्विगयो' लिखकर व्यवहार नयको अभूतार्थ और शुद्धनय अर्थात् निश्चयनयको भूतार्थ कहा है।

इसकी व्याख्या करते हुये अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है कि 'व्यवहार नय अभूतार्थ है क्योंकि वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थका कथन करता है'। इसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा है कि 'काँचइसे कलुषित हुए गदले जलको काँचइ और जलका भेद न कर सकने वाले अधिकांश मनुष्य तो मैला ही अनुभव करते हैं। किन्तु कुछ मनुष्य अपने हाथसे डाली गई निर्मलीके प्रभावसे जल और मैलके भेदको जानकर उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं। उसी तरह प्रबल कर्मरूपी मलके द्वारा जिसका स्वाभाविक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है ऐसे आत्माका अनुभव करने वाला व्यवहारसे विमोहितमति अविवेकी पुरुष आत्माको नाना पर्यायरूप अनुभव करता है किन्तु भूतार्थदर्शी मनुष्य शुद्धनयके द्वारा आत्मा और कर्मका भेद जानकर ज्ञायकभावस्वभाव आत्माका ही अनुभव करता है। यहाँ शुद्धनय निर्मलीके समान है। अतः जो शुद्धनयका आश्रय करता है वही सम्यक् दृष्टा होनेके कारण सम्यग्दृष्टी है किन्तु जो व्यवहार नयका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टी नहीं है। अतः कर्मसे भिन्न आत्माका अनुभव करने वालोंके लिये व्यवहारनयका अनुसरण करना योग्य नहीं है।'

इस व्याख्यासे अध्यात्ममें निश्चयनयको भूतार्थ और व्यवहारनयको अभूतार्थ माननेका तथा एकको उपादेय और दूसरेको हेय कहनेका क्या हेतु है, यह स्पष्ट हो जाता है।

निश्चयनय शुद्धरूपका दर्शन करता है इसलिये उसे शुद्धनय भी कहते हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार (गा० १४) में शुद्धनयका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि - 'जो आत्माको अबद्ध, असृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, और

असंयुक्त जानता है उसे शुद्धनय जानो। इसकी व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्र सुरिने लिखा है—‘शिव्य पूरुता है कि अबद्ध, असृष्ट, आदिरूप आत्माकी अनुभूति कैसे होती है। उसका समाधान यह है कि बद्ध, सृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ है अतः उनसे रहित आत्माकी अनुभूति हो सकती है। इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं। जैसे जलमें डूबे हुए कमलिनीके पत्तोंका जलमें डूबी हुई अवस्थाको देखते हुए उनका जलसे सृष्ट होना भूतार्थ है। फिर भी जब हम कमलिनीके पत्तोंके स्वभावको लक्ष्यमें रखकर देखते हैं तो उनका जलसे सृष्टपना अभूतार्थ है; क्योंकि कमलिनीका पत्र जलसे सदा असृष्ट ही रहता है। इसी तरह आत्माकी अनादि पुद्गलकर्मोंसे बद्ध और असृष्ट अवस्थाका जब अनुभव करते हैं तो आत्माका बद्धपना और सृष्टपना भूतार्थ है। किन्तु जब आत्माके स्वभावका अनुभवन करते हैं तो बद्ध-सृष्टपना अभूतार्थ है।’

आशय यह है कि आत्मा दो रूप हैं एक स्वाभाविक और एक वैभाविक। स्वाभाविकरूप वास्तविक होनेसे भूतार्थ है और वैभाविक रूप औपधिक या औपचारिक होनेसे अभूतार्थ है। भूतार्थग्राही निश्चयनय है और अभूतार्थ-ग्राही व्यवहारनय है। जैसे मिट्टिके घड़ेको मिट्टीका घड़ा कहना निश्चय है और चूँकि उसमें घी भरा है इसलिये घीके संयोगसे उसे घीका घड़ा कहना व्यवहार है। जब उस घड़ेके साथ घीसे संयुक्त अवस्थाको देखते हैं तो घीका व्यवहार भूतार्थ है किन्तु जब उसके स्वाभाविक मिट्टी रूपको देखते हैं तो वह अभूतार्थ है।

इसी तरह आत्मा अनादिकालसे कर्मपुद्गलोंसे बद्ध और सृष्ट होनेसे बद्ध और सृष्ट प्रतीत होता है, कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर नारक आदि पर्यायोंमें भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है, अविभागी प्रतिच्छेदोंमें हानि वृद्धि होनेके कारण अनियत रूप प्रतीत होता है, दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट प्रतीत होता है तथा कर्मके निमित्तसे होनेवाले रागद्वेष मोह रूप परिणामोंसे संयुक्त प्रतीत होता है। इस तरह व्यवहार नयसे आत्मा बद्ध, सृष्ट, अन्य रूप, अनियत, विशिष्ट और संयुक्त प्रतीत होता है। व्यवहार नयकी दृष्टिसे ये सब प्रतीतियाँ भूतार्थ हैं किन्तु व्यवहार नयके द्वारा ज्ञायक स्वभाव रूप आत्माको नहीं जाना जा सकता और उसके जाने बिना आत्माको नहीं जाना जा सकता। अतः व्यवहार नयके प्रतिपक्षी शुद्धनयके द्वारा आत्माके असाधारण ज्ञायक भावको लक्ष्यमें रखने पर उक्त सब भाव अभूतार्थ हैं।

सारांश यह है कि पर द्रव्यके संयोगसे अशुद्धता होती है। उसमें मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, केवल पर द्रव्यके संयोगसे अवस्था मलिन

हो जाती है। द्रव्य दृष्टिसे तो द्रव्य वहीका वही है किन्तु यदि पर्याय दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी तरह आत्माका स्वभाव ज्ञायक मात्र है किन्तु उसकी अवस्था पुद्गल कर्मके निमित्तसे रागादिरूप मलिन हो रही है। यदि पर्याय दृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देती है। किन्तु यदि द्रव्य दृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायक रूप तो ज्ञायक रूप ही है वह जड़ रूप नहीं हो गया है। अतः द्रव्य दृष्टिमें अशुद्धता गौण है, व्यवहार है, अभृतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचरित है। और द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है।

आशय यह है कि शुद्धता और अशुद्धता दोनों वास्तविक हैं, किन्तु अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है, जब कि शुद्धता स्वभावभूत है। इतना ही दोनोंमें अन्तर है। जो नय अशुद्ध दशाका अनुभव कराता है उसे हेय इसलिये कहा है कि अशुद्ध नयका विषय संसार है और संसार दुःखमय है। यदि आत्मा पर द्रव्यसे भिन्न हो तो संसार मिटकर दुःख भी मिट जाये। अतः दुःखको मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश है। अशुद्धनयको असत्यार्थ कहनेसे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि अशुद्धता सर्वथा अवास्तविक है। किन्तु उसे आगन्तुक मानकर हेय समझना ही उचित है। अतः स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अशुद्ध दर्शा अशुद्धनय उपयोगी नहीं है, शुद्धनय ही उपयोगी है। इसलिये आत्मार्थको शुद्धनयका आलम्बन लेना ही श्रेयस्कर है। स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर शुद्धनयका भी अवलम्बन छूट जाता है।

प्रवचन सार (गा० २।६०) की टीकामें अमृत चन्द्र सूरिने शुद्धद्रव्यके निरूपकको निश्चयनय और अशुद्ध द्रव्यके निरूपकको व्यवहारनय बतलाया है और आगे लिखा है—

‘उभावप्येतौ स्तः शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्रादुपात्तः साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वात् निश्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनयः ।’

अर्थात्—हैं दोनों ही नय वस्तुभूत, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु यहाँ साधकतम होनेसे निश्चयनयका प्रहण किया है क्योंकि साध्य शुद्ध आत्मा है अतः द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे निश्चयनय ही उसमें साधकतम हैं। अशुद्ध स्वरूपका प्रकाशक व्यवहारनय उसमें साधकतम नहीं है।

अतः चूँकि अशुद्ध दशा वास्तविक है इसलिये उसका दर्शक अथवा मरूपक व्यवहारनय भी वास्तविक है। किन्तु शुद्ध दशा जैसी वास्तविक है अशुद्ध दशा उस रूपमें वास्तविक नहीं है; क्योंकि शुद्ध दशा वस्तुकी स्वाभाविक अवस्था है, अतएव स्थायी और यथार्थ है। किन्तु अशुद्धदशा परद्रव्यके संयोगसे होती है, अतः आगन्तुक होनेसे अस्थायी और अयथार्थ है। इसीलिये उसका दर्शक व्यवहारनय अभूतार्थ कहा जाता है। ऐसे नयका शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिमें परम्परया उपभोग भले ही हो, किन्तु साधकतमपना नहीं है। इसीलिये वह हेय है। किन्तु सभी अवस्थाओंमें सभीके लिये वह हेय नहीं है, निचली अवस्थामें स्थित जीवोंके लिये वही उपयोगी होता है।

६ व्यवहारनय भी उपादेय है—

समय प्राभृत (गा० १२) में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—जो परम-भावदर्शी हैं उनके लिये तो शुद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय ही जानने योग्य है किन्तु जो अपरमभावमें स्थित हैं वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करने योग्य हैं।

अमृत चन्द्रजीकी टीकाके आधार पर पं० जयचन्द्रजीने परम भावदर्शी का अर्थ किया है—‘जे शुद्धनयताई पहुँच श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान् भये’। और जो श्रद्धा तथा ज्ञानके और चारित्रके पूर्ण भावको नहीं पहुँचे हैं, साधक अवस्थामें स्थित हैं उन पुरुषोंको अपरम भावोंमें स्थित कहा है।

गाथा १२ के ‘अपरमे द्विदा भावे’ का अर्थ करते हुए जयसेनाचार्यने लिखा है—‘अपरमे अशुद्धे असंयतसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सराग सम्यग्दृष्टिलक्षणो शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणो वा ठिदा स्थिताः।’

अर्थात् सातवें गुणस्थान तकके जीव अपेक्षा भेदसे अपरम भावमें स्थित हैं। और उनके लिये व्यवहारनयसे उपदेश करना योग्य है। समयसारकी आत्मख्याति वचनिकाके प्रारम्भमें पं० जयचन्द्रजीने भी यही बात लिखी है। उन्होंने लिखा है—

‘बहुरि ऐसा जानना—जो स्वरूप की प्राप्ति दोष प्रकार है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होय करि श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन होगा। सो यह तौ अविरत सम्यग्दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्तीके भी होय है। तहाँ बाह्य व्यवहार तौ अविरत रूप ही रहै। तहाँ बाह्य व्यवहारका आलम्बन है ही। अर अन्तरंग सर्वनयनः

पक्षपात रहित अनेकान्त तत्त्वार्थकी श्रद्धा होय है। बहुरि जब संयमधरि प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि होय अर जहाँ ताह साक्षात् शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़ै, तहाँ शुभरूप व्यवहारका ही अवलंबन हैं। बहुरि दूजा साक्षात् शुद्धोपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवमें शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति होय, तामें व्यवहारका भी आलम्बन नहीं, अर शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं। जातैं आप साक्षात् शुद्धोपयोगरूप भया तब नयका आलम्बन काहेका ? नयका आलम्बन तौ जेतै राग अंश था तेतैहि था। ऐसैं अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछै पहलैतौ श्रद्धामें नयपक्ष मिटै है। पीछैं साक्षात् वीतराग होय तब चारित्र सम्बन्धी पक्षपात मिटै है। ऐसा नहीं, जो साक्षात् वीतराग तौ भया नाहीं अर शुभ व्यवहारकूँ छोडि स्वच्छन्द प्रमादी होय प्रवर्तै। ऐसा होय तौ नय विभागमें समझा नाही, उलटा मिथ्यात्व ही दृढ़ भया।'

उक्त गाथा १२ के ऊपर श्रीकानजी स्वामीने अपने प्रवचनमें भी साधक अवस्थामें व्यवहारको प्रयोजनीभूत बतलाया है। उन्होंने कहा है - 'जो शुद्धनय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा ज्ञान-चारित्ररूप हो गये हैं उनके लिये शुद्धनय ही प्रयोजन भूत है क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रह गया है। किन्तु जिसने पूर्ण निर्मलकी श्रद्धाकी है और जो साधकदशारूप मध्यम भावका अनुभव करता है उसे रागको दूर करके क्रमशः आंशिक स्थिरताको बढ़ानेका व्यवहार प्रयोजनभूत है। × × × जो पूर्ण चारित्र दशाको प्राप्त नहीं हुए, मध्यदशा (चौथेसे छठे गुण स्थान तक) में वर्तमान हैं वे जब स्वरूपमें स्थिर नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावरूप व्यवहार होता है। × × × तत्त्वकी यथार्थ प्रतीति होने पर अन्तरंगमें जो आंशिक स्थिरता प्रकट होती है उसे आवककी पाँचवी भूमिका कहते हैं। शुद्ध दृष्टिके बलसे तीन कर्पायोंकी चौकड़ीका अभाव करके अन्तरंगमें चारित्रकी विशेष स्थिरता प्रकट करनेवाली मुनि दशा छठे गुण स्थानमें होती है। और उससे विशेष स्थिरता, एकाग्रता, निर्विकल्प ध्यान दशा सातवें (अप्रमत्त) गुणस्थानमें मुनिके होती है। उस समय बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होता, मैं अनुभव करता हूँ, आनन्द लेता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं होता, वह तो अन्तरङ्गमें स्वरूप अखण्ड आनन्द अनुभव करते हैं। वे जब सविकल्प दशामें होते हैं तब (छठे गुण स्थानमें) तत्त्वका मनन, शिष्यको उपदेश देना, शास्त्रोंकी रचना करना इत्यादि शुभ व्यवहार तथा आहारादि सम्बन्धी विकल्प बीचमें आ जाता है।' (समय० प्रव०, १ भा० पृष्ठ ३४१)

उक्त सब व्याख्यानोंसे यह स्पष्ट है कि शुद्धोपयोगकी दशामें जो नहीं पहुँचे हैं, दूसरे शब्दोंमें जो श्रेणीमें स्थित नहीं हैं ऐसे सातवें गुणस्थान पर्यन्त जीव अपरम भावमें स्थित लिए गये हैं। उनके लिए व्यवहार नयसे उपदेश करना योग्य है। किन्तु जो व्यवहारकी सीमाका अतिक्रमण करके परम भावमें स्थित हैं उनके लिये तो एक मात्र शुद्धनय ही प्रयोजनीभूत है।

इस कालमें तो इस क्षेत्रमें सातवें गुणस्थानसे ऊपर कोई जीव पहुँच ही नहीं सकता। अतः इस भरत क्षेत्रमें जितने मनुष्य हैं वे सभी अपरम भावमें स्थित हैं अतः उनके लिये तो व्यवहारनय ही प्रयोजनीभूत है। अतः कुन्दकुन्द स्वामीके आदेशानुसार वे सब व्यवहारनय द्वारा ही उपदेश करनेके योग्य हैं, उसीसे उनका कल्याण हो सकता है।

७ व्यवहार नयकी भूतार्थता और उपादेयता—

समयसार गाथा १३ में कहा है कि भूतार्थनयसे जाने गये मौ तत्त्व सम्यग्दर्शन है। इस गाथाकी टीकामें अमृतचन्द्रने लिखा है—‘कि इन नौ तत्त्वोंको यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीव और पुद्गलकी अनादि बन्ध पर्यायका अनुभवन करनेसे ये सभी भूतार्थ हैं। और एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करने पर ये सभी अभूतार्थ हैं। इसी तरह अन्तर्दृष्टिसे देखने पर जीव तो ज्ञायक भावरूप है। जीवके विकारका कारण अजीव है। पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये सब अकेले जीवके विकार नहीं हैं। किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण उत्पन्न हुए हैं। इन नौ तत्त्वोंको जब जीव स्वभावको छोड़कर स्व और परके निमित्तसे होनेवाली एक द्रव्यकी पर्याय रूपसे अनुभव करते हैं तो ये भूतार्थ हैं। और जब जीवके कमी न चिकने वाले स्वभावकी अपेक्षा देखते हैं तो ये अभूतार्थ हैं’।

आगे और लिखा है कि—एकस्वरूपसे प्रकाशमान आत्माके जाननेके उपायभूत जो प्रमाण नय निश्चय हैं वे भी भूतार्थ और अभूतार्थ हैं। प्रमाता प्रमेयके भेदका अनुभव करते हुए प्रमाण भूतार्थ हैं, और जीव स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ है। द्रव्यार्थिक पर्यायाधिक नय भी द्रव्य और पर्यायका भेद रूप अनुभवन करनेपर भूतार्थ है और शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ है।

सारांश यह है कि अपने अपने विषयकी दृष्टिसे सभी व्यवहार भूतार्थ है किन्तु शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवके अनुभवनकी दृष्टिसे सब अभूतार्थ हैं। अतः साधक अवस्थामें व्यवहार भी भूतार्थ और उपादेय है।

८ व्यवहार निश्चयका साधन है—

गाथा १२ की उत्थानिकामें श्री कानजीकिं स्वामीके प्रवचनोंमें भी लिखा है—
‘सम्यग्ज्ञान होते ही जीव पूर्ण निर्मल नहीं हो जाता। बीचमें विकल्प आते हैं। इसलिये पूर्ण निर्मलता प्रकट करनेकी भावना करना, स्थिरताकी वृद्धि करना इत्यादि जो व्यवहार—साधक भाव हैं वह पूर्ण होनेके पहले न रहे ऐसा नहीं होता। परमार्थको लक्ष्यमें लेना सो निश्चय और उस तक पहुँचनेकी अन्तरंगकी भावनारूप जो प्रयत्न सो व्यवहार है ! (पृ० ३४० समयसार प्रवचन भा० १।)

अतः निश्चय और व्यवहारमें साध्य साधन भाव हैं। पञ्चास्तिकायकी टीकामें अमृतचन्द्र सूरीने भी इस बातको स्वीकार किया है। गाथा १६० में आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि धर्म आदिका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, अंगों और पूर्वोक्त ज्ञान तथा तपमें चेष्टारूप सम्यक् चारित्र यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसकी टीकामें अमृत चन्द्रने कहा है—‘निश्चय मोक्ष मार्गके साधन रूपसे यह पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष मार्गका कथन है’। तथा आगे लिखा है—‘स्व और पर कारण रूप पर्यायाश्रित तथा साध्य साधनके भेद भावको लियेहुए जो व्यवहारनय है, यह उस व्यवहारनयका आश्रय लेकर मोक्षमार्गका कथन है। जैसे स्वर्णपाषाण प्रदीप्त अग्निके संयोगसे शुद्ध स्वर्ण हो जाता है वैसे ही यह व्यवहार मोक्षमार्ग अन्तर्दृष्टिवाले जीवको उपर उतरकी परम रमणीक शुद्ध भूमिकाओंमें विश्रान्तिकी निष्पत्ति करता हुआ स्वयंलिद्ध स्वभाव रूपसे परिणामन करते हुए निश्चय मोक्ष मार्गका साधन होता है।’ गाथा १६१ की टीकामें कहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्गके साध्यभावरूपसे निश्चय मोक्षमार्गका यह कथन है। इस गाथामें आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रसे समाहित तद्रूप हुआ जो आत्मा है, निश्चयनयसे वही मोक्षमार्ग है। न वह कुछ करता है और न अन्यका त्याग करता है।’

इसकी टीकामें श्री अमृतचन्द्र सूरीने लिखा है कि—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप आत्मा ही निश्चयसे मोक्षमार्ग है क्योंकि वह नियमसे जीवके स्वभावमें स्थिर चारित्र रूप है। यह जीव जिस किसी तरह अनादि-कालीन अज्ञानके हटनेपर व्यवहार मोक्ष मार्गको अपनाता है तब तत्त्वार्थका अश्रद्धान, अंगपूर्वगत अज्ञान और तपको न करने रूप प्रवृत्तिको त्यागकर तत्त्वार्थका श्रद्धान, अंगपूर्वका ज्ञान और तपमें चेष्टाको ग्रहण करता है। इस तरह अब तक जिसे ग्रहण किया था उसे छोड़ता है और जिसे छोड़ रखा था उसे ग्रहण करता है। और इस प्रकार भेद भावरूप व्यवहारको

अपनाता है। पश्चात् अपने अभिप्रायमें उसको दूर करनेका भाव रखकर जिस कालमें यह आत्मा विशिष्ट भावनाके सौष्टव वश अपने स्वभावभूत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके साथ अंगांगी भावरूप परिणतिके द्वारा तदात्मक होकर त्याग और उपादानके विकल्पसे शून्य होनेके कारण भेद-व्यवहारको समाप्त करके सुस्थिर होता है उस समय यही आत्मा जीव स्वभावमें नियत चारित्ररूप होनेसे निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। अतः निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गमें साध्य साधन भाव पूरी तरहसे घटित होता है।'

सारांश यह है कि निश्चय साध्य है और व्यवहार उसका साधन है। साधनके बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी ऊँचे महलकी छतपर सीढ़ीके डंडों पर पैर रखे बिना नहीं पहुँचा जा सकता वैसे ही प्रारम्भमें व्यवहारका अवलम्बन लिये बिना निश्चयकी प्राप्ति संभव नहीं है। किन्तु व्यवहारके द्वारा निश्चयकी प्राप्ति तभी होगी जब निश्चयकी ओर लक्ष्य होगा। और जैसे मनुष्य सीढ़ी पर पैर इसलिये रखता है कि उसे छोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जाये। यदि कोई सीढ़ीको ही पकड़कर बैठ जाये और उसके द्वारा महलपर चढ़नेकी बात भुला बैठे तो वह त्रिकालमें भी महलपर नहीं पहुँच सकता। उसी तरह यदि कोई निश्चय लक्ष्यको भुलाकर व्यवहारको ही साध्य मानकर उसीमें रम जाता है तो उसका व्यवहार निश्चयका साधक नहीं है। जो साधक निश्चयपर लक्ष्य रखकर उसीकी प्राप्तिके लिये तन्मय होता हुआ अन्यगति न होनेसे व्यवहारको अपनाता है वह उसे उपादेय समझकर नहीं अपनाता, हेय समझकर ही अपनाता है। ऐसा ही व्यवहार निश्चयका साधन होता है। ऐसा साधक ज्यों ज्यों निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है त्यों त्यों अशुद्ध परिणति रूप भेदमूलक व्यवहार छूटता जाता है और ज्यों ज्यों वह छूटता जाता है त्यों त्यों साधक निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है। जो व्यवहारको अपनाकर उसीमें रम जाता है वह साधक ही नहीं है। सच्चे साधककी दृष्टिसे एक क्षणके लिये भी निश्चयका लक्ष्य ओझल नहीं होता। और वह व्यवहारको उसी तरह अपनाता है जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पतिके पास जानेके लिये किसी सदाचारी परपुरुषके साथ यात्रा करना स्वीकार करती है। उसका मन धात्रा करते हुए भी अपने पतिमें ही रहता है। वह सदा यही सोचती रहती है कब पर पुरुषका सङ्ग छूटे। वह उस संगको एक क्षणके लिये भी प्राद्य नहीं मानती। किन्तु लाचार होकर ही उसे स्वीकार करना पड़ा है क्योंकि उसके बिना वह अपने पतिके पास नहीं पहुँच सकती थी। इसीसे अमृतचन्द्र सूरीने व्यवहारको

निश्चयका साधन बतलाकर भी पूर्वपदमें स्थित जनोंके भी व्यवहारके हस्तावलम्बन रूप होने पर खेद ही प्रकट किया है—

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक् पदव्या-
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलम्बः ।

६ पुण्य-पाप और शुभोपयोग—

समयसारके पुण्य—पापाधिकारकी पहली ही गाथामें कुन्दकुन्दने कहा है—अशुभ कर्म कुशील और शुभकर्म सुशील हैं । किन्तु जो कर्म जीवको संसारमें प्रवेश कराता है वह सुशील कैसे है ?

आगे उन्होंने लिखा है—जैसे सोनेकी सांकल भी जीवको बाँधती है और लोहेकी सांकल भी जीवको बाँधती है इसी तरहसे शुभ और अशुभ कर्म भी जीवको बाँधते हैं । अतः कुशीलोंकी संगति मत करो, उनसे राग मत करो ।

इस तरह यद्यपि पुण्यको सोनेकी सांकलकी और पापको लोहेकी सांकलकी उपमा देकर दोनोंके अन्तरको स्पष्ट कर दिया है । किन्तु चूँकि दोनों ही बन्ध स्वरूप होनेसे संसारके कारण हैं अतः दोनोंको ही त्याज्य बतलाया है । इसी तरह प्रवचनसारमें भी शुभोपयोगकी तथा उससे होने वाले पुण्य कर्मकी बुराई की है और उसे त्याज्य बतलाया है । यह वस्तुस्थिति है । किन्तु जिनकी दृष्टि लोहे और सोनेके भेदपर ही अटकी हुई है और जो उसके बन्धनरूप परिणामकी ओरसे बेखबर हैं उन्हें पुण्य पापको एक ही पलकेमें रखना नापसन्द है । उनकी दृष्टिमें सोना कीमती वस्तु है भले ही वह भी भार स्वरूप हो ।

किन्तु जो दूरदर्शी हैं उन्हें पुण्य पापकी समता इसलिये पसन्द नहीं है कि दोनोंको समान जानकर जो लोग पुण्यमें लगे हुए हैं वे भी पुण्य करना छोड़ देंगे । किन्तु जगदुद्धारक आचार्योंने पुण्य पापको समान इसलिये नहीं बतलाया कि लोग पुण्य छोड़कर पापमें लग जायें । जो ऐसा कर सकते हैं वे इस उपदेशके अपात्र हैं । यह उपदेश उनके लिये है जो पापको छोड़कर पुण्यमें लगे हैं । उनसे पापकी तरह पुण्यको भी छुड़वाकर उस स्थितिमें पहुँचा देना उनका लक्ष्य है जहाँ पुण्य और पापके बन्धनसे छुटकारा मिल सके । यही अध्यात्मका लक्ष्य है ।

प्रवचनसारका प्रारम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने उपयोगके तीन भेद किये हैं अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग । गाथा ११, १२ में प्रत्येकका फल बतलाया है—‘धर्म रूप परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त

होता है तो मोक्ष सुखको पाता है और यदि शुभोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्ग सुख पाता है। किन्तु अशुभोपयोगसे युक्त आत्मा कुमनुष्य, तिर्यञ्च और नारकी होता हुआ संसारमें परिभ्रमण करता है तथा अत्यन्त दुःख उठाता है। इन फलोंसे तीनोंकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि शुद्धोपयोगीकी तरह शुभोपयोगवालेको भी धर्म परिणत आत्माके रूपमें स्वीकार किया है। और अमृतचन्द्रने भी 'यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते' लिखकर शुभोपयोगरूप परिणतिको भी धर्ममें ही सम्मिलित किया है, अशुभोपयोगकी तरह उसे अधर्म नहीं कहा। चूँकि अशुभोपयोगमें चारित्रका लेश भी नहीं है अतः उसे अत्यन्त हेय कहा है। किन्तु शुभोपयोगवालेको 'कथंचिद्विरुद्धकार्यकारिचारित्रः' कहा है। अर्थात् उसका आचरण यद्यपि चारित्रकी सीमामें आता है किन्तु वह कथंचित् विरुद्ध कार्यकारी है।

आगे गाथा ६६ में बतलाया है — 'जो देवता, यति और गुरुकी पूजामें, दानमें, शीलमें और उपवास वगैरह करनेमें अनुरागी है वह आत्मा शुभोपयोगी है। और उसका फल इन्द्रिय सुख है।' आगे इन्द्रिय सुखको बुराई बतलाते हुए शुभोपयोग और अशुभोपयोगमें तथा उनके फल पुण्य और पापमें कोई अन्तर नहीं बतलाया है। और गाथा ७७ में तो यहाँ तक लिख दिया है कि जो 'पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है' ऐसा नहीं मानता वह व्यक्ति मोहमें पड़कर इस भयानक अपार संसारमें भटकता रहता है।'

इसकी टीकामें अमृतचन्द्र सूत्रिने लिखा है कि—'उक्त प्रकारसे शुभोपयोग और अशुभोपयोगके युगलकी तरह तथा सुख और दुःखके युगलकी तरह यथार्थ में पुण्य और पापका युगल नहीं बनता; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही आत्माके धर्म नहीं है। किन्तु जो सोने और लोहेकी बेड़ीकी तरह इन दोनोंमें भेद मानता है और पुण्य अहमिन्द्र आदि सम्पदाका कारण है ऐसा मानकर धर्मानुराग करता है, शुद्धोपयोग रूप शक्तिका तिरस्कार करनेवाला वह व्यक्ति चित्तके सरागी होनेके कारण संसारमें दुःख ही उठाता है।'

अमृतचन्द्राचार्य ने शुभोपयोग और अशुभोपयोगके भेदको तो स्वीकार किया किन्तु पुण्य और पापके भेदको स्वीकार नहीं किया; क्योंकि पुण्य पापमें भेद मानकर पुण्य संचयमें लगनेवाला व्यक्ति शुभोपयोगके यथार्थ उद्देश्यसे भटककर शुद्धोपयोगको अपनानेकी ओर नहीं बढ़ता और पुण्यको ही उपादेय मानकर शुभोपयोगमें ही रस जाता है। अशुभोपयोगकी तरह मुमुक्षुके लिये

येसा शुभोपयोग भी हेय है। अशुभोपयोगको छोड़कर शुभोपयोगमें लगना तभी कार्यकारी है जब लक्ष्यमें शुद्धोपयोग हो।

इसीलिये आगे गाथा ७६ में कहा है—जो पाप पूर्ण आरम्भको छोड़कर शुभ आचरणमें लगा है वह यदि राग द्वेष मोहको नहीं छोड़ता तो वह शुद्धात्माको प्राप्त नहीं कर सकता। किन्तु इस सम्बन्धमें एक बात और भी उल्लेखनीय है।

१० कुन्दकुन्दने ग्रन्थ रचना श्रमणोंको लक्ष्यमें रखकर की है—

कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके अभ्यासियोंको यह बात नहीं भुला देना चाहिये कि कुन्दकुन्द स्वामीने ग्रन्थ रचना मुख्य रूपसे श्रमणोंको लक्ष्यमें रखकर की है। इसका मतलब यह नहीं है कि श्रावकोंको उनके ग्रन्थ नहीं पढ़ने चाहियें। किन्तु पढ़ते समय इस दृष्टिकोणको यदि सामने रखा जाये तो बहुतसी भ्रान्तियाँ दूर हो सकती हैं। नीचे हम अपने कथनके समर्थनमें कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं।

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने पाँचवीं गाथामें कहा है कि 'उन अर्हन्त सिद्ध आदि पञ्च परमेष्ठियोंके विशुद्ध दर्शन और विशुद्धज्ञान जहाँ प्रधान हैं ऐसे आश्रमको पाकरके मैं साम्यभावको धारण करता हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।'

इस कथनके द्वारा वह अपने व्याजसे पञ्चपरमेष्ठियोंके ज्ञान-दर्शनप्रधान आश्रममें रहने वाले श्रमणोंको साम्यभावरूप वीतराग चारित्रको धारण करनेकी प्रेरणा करते हैं और अन्त तक उसीको उपादेय बतलाते हैं जिससे वे उस आश्रमको पाकर भी शुभोपयोग रूप प्रवृत्तिमें ही न रम जायें। पाठक जानते हैं कि साम्यभावरूप वीतराग चारित्रकी प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सावद्य-योगका त्याग कर देते हैं। उन्हींका मोह दूर करनेके लिये अशुभोपयोगकी तरह शुभोपयोगको भी छोड़नेकी प्रेरणा कुन्दकुन्द स्वामीने की है। इसीसे गाथा ७६ की उत्थानिकामें अमृतचन्द्राचार्यने लिखा है—'यदि सर्वसावद्ययोगका त्याग करके मैंने चारित्रको धारण भी किया फिर भी यदि शुभोपयोगके चक्करमें पड़कर मोह आदिका उन्मूलन न करूँ तो शुद्धात्माकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। ऐसा सोचकर पूरीतरह से सन्नद्ध हो जाता है।'

तथा उसी ७६ गाथाकी टीकामें कहा है—'जो समस्त सावद्ययोगके त्याग-रूप परमसामयिक चारित्रको धारण करके भी शुभोपयोग वृत्तिरूपी दुराचारिणी

स्त्रीके चक्करमें पड़ जाता है और मोहकी सेनाको नहीं जीतता, महा संकट उसके अति निकट है, वह निर्मल आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ?

प्रवचनसारके ज्ञानाधिकारकी अन्तिम दो गाथाओंमें तो कुन्दकुन्दने श्रमणोंका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है—‘जो मुनि अवस्थामें उक्त पदार्थोंका श्रद्धान नहीं करता वह श्रमण नहीं है’ और जो मोहकी दृष्टिका घात कर चुका है, आगममें कुशल है, विराग चरित्रके प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण है और धर्म स्वरूप है ॥६१-६२॥

इन गाथाओंसे हमारे कथनकी पूर्णतया पुष्टि हो जाती है। अब प्रवचन-सारके ज्ञेयाधिकारको लीजिए। उसमें प्रारम्भकी ३४ गाथाओंमें द्रव्य सामान्यका निरूपण है। ३४ वीं गाथामें उक्त कथन का उपसंहार करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं—कर्ता, करण, कर्म और कर्मका फल ये चारों आत्म रूप ही है ऐसा निश्चय करनेवाला श्रमण यदि अन्यरूप परिणामन नहीं करता तो शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है।

इस उपसंहार गाथासे भी स्पष्ट है कि ज्ञेयाधिकारका कथन भी श्रमणको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। आगे द्रव्यका विशेष कथन करके अन्तमें पुनः श्रमणका उल्लेख आता है कि वह किसका ध्यान करता है। तीसरे अधिकारमें तो श्रमण धर्मका ही वर्णन है। अतः प्रवचनसारका कथन श्रमणको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। अब समयसारको लीजिये—

समयसारमें विषय प्रतिपादनका आरम्भ गाथा ६ से होता है। उसमें कहा है कि जो ज्ञायक भाव है वह न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त है। प्रमत्त और अप्रमत्त भावके निषेधसे ही ज्ञायकभावका या शुद्ध आत्माका कथन क्यों किया गया। श्रमण अथवा मुनि प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती ही तो होते हैं। अतः जो श्रमण है अथवा श्रमण होनेके अभिलाषी हैं उन्हें यह बतलाना है कि प्रमत्त या अप्रमत्त दशा ज्ञायक भावसे भिन्न है, ज्ञायक भाव तो न प्रमत्त है और न अप्रमत्त। इस पहली गाथासे ही ग्रन्थकारकी दृष्टिकी अभिव्यक्ति हो जाती है।

वास्तवमें तो जिस भेद विज्ञानको सम्यक्त्व अथवा सम्यक्त्वका कारण बतलाया है अन्तसे आखिर तक समयसारमें उसीका कथन है। तब प्रश्न हो सकता है कि भेद विज्ञानके बिना तो सम्यक्त्व नहीं होता और सम्यक्त्वके बिना चारित्र्य नहीं होता। तब सम्यक्त्वकी मुनियोंको लक्ष्य करके भेद विज्ञानका कथन करनेकी आवश्यकता क्या थी? इसका उत्तर यह है कि आत्माके सिवाय

अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है यह सामान्य भेद विज्ञान दृष्टिवाला सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। दूसरे शब्दोंमें जो आत्म दृष्टि है अर्थात् जिसकी दृष्टि आत्मा पर है वह सम्यग्दृष्टि है। किन्तु आत्मदृष्टि होकर भी अव्यवसानादि रूप भावोंको यदि अपना मानता है तो उसका सम्यक्त्व पूर्ण नहीं है। अतः सराग सम्यग्दृष्टिको वीतराग सम्यग्दृष्टि और सराग चारित्र्यमें स्थितको वीतराग चारित्र्यमें स्थित करनेके लिये ही यह सब प्रयत्न है। इसीलिये उसका प्रारम्भ 'एवि होदि अपमत्तो ए पमत्तो' से किया गया है।

कुन्दकुन्दके प्राभृतोंको ले लीजिये। सूत्र प्राभृत, लिंग प्राभृत, भाव-प्राभृत और मोक्ष प्राभृत मुनियोंकी ही शिक्षा और दीक्षासे श्रोत प्रोत हैं। चारित्र्य प्राभृत और बोध प्राभृतमें भी उनके ही चारित्र्य तथा प्रव्रज्याका विशेष कथन है। असलमें निवृत्ति प्रधान मोक्षमार्गावलम्बी जैन धर्ममें सदासे मुनि धर्मका ही महत्त्व रहा है। वही आदर्श मार्ग माना गया है। गृहस्थ धर्म तो अपवाद मार्ग है। उसकी उपयोगिता भी तभी मानी गई है जब वह मुनि-धर्म धारण करनेमें सहायक हो। इसीसे कुन्दकुन्द स्वामीने चारित्र्य प्राभृतमें गृहस्थ धर्मका वर्णन दो चार गाथाओंमें कर दिया है।

अतः उनकी रचनाएँ प्राथमकालिकोंके लिये नहीं हैं। जिन्हें देव गुरु शास्त्रके स्वरूपका भान नहीं, सात तत्त्वोंसे जो अपरिचित हैं, गुणस्थान, मार्गणा स्थान और जीव स्थानोंका जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना, कर्म-बन्धकी प्रक्रियासे जो अनजान है। नयोंका जिन्हें बोध नहीं है, ऐसे लोग भी यदि समयसारके निश्चय और व्यवहार कथनमें उतरते हैं तो उससे स्वयं उनका ही अकल्याण है। यह तो संसार, शरीर और भोगोंसे अन्तःकरणसे विरक्त और पञ्चपरमेष्ठीको अनन्य शरण रूपसे भजनेवाले उन तात्त्विक पथके पाथिकोंके लिये है जिनको न व्यवहारका पक्ष है और न निश्चयका। क्योंकि समयसार पक्षातीत है ऐसा स्वयं कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है।

११ चारित्र्य—

आचार्य कुन्दकुन्दने 'दंसणमूलो धम्मो' लिखकर सम्यग्दर्शनको धर्मका मूल बतलाया है और 'चारित्तं खलु धम्मो' लिखकर चारित्र्यको धर्म बतलाया है।

उन्होंने अपने चरित्त पाहुडमें चारित्र्यके दो भेद किये हैं—एक सम्यक्त्व चरण चारित्र्य और एक संयमचरणचारित्र्य। मोक्षकी प्राप्तिके लिए निःशङ्कित आदि गुणोंसे युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनका सम्यग्ज्ञान पूर्वक पालन करना सम्यक-

त्व चरण चारित्र है। यह सम्यक्त्व चरण चारित्र वात्सल्य, विनय, अनुकम्पा, दानवृत्ति, मोक्षमार्गके गुणोंकी प्रशंसा, उपगूहन, रक्षण, आर्जव आदि भावोंसे पहचाना जाता है (चा० प्रा० १०-११)।

इस सम्यक्त्वचरणचारित्र भेदको स्वरूपाचरण चारित्रका पूर्वस्म कहना उचित होगा। सम्यक्त्वचरण चारित्र ही स्वरूपाचरण चारित्रके रूपमें परिवर्तित हुआ जान पड़ता है। यही संयमचरणचारित्रका मूल है। संयमचरणचारित्र सागर और अनगारके भेदसे दो प्रकारका है। दार्शनिक आदि ग्यारह प्रतिमाएँ सागर चारित्रके भेद हैं। इससे ग्यारह प्रतिमाओंकी परम्परा बहुत प्राचीन सिद्ध होती है। कुन्दकुन्दाचार्यने उनका स्वरूप नहीं बतलाया। केवल पाँच अष्टव्रतों तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतोंके नाम बतलाये हैं। श्रावकका मूल धर्म ये बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाएँ रही हैं। अष्टव्रतोंके भेदोंमें तो कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। किन्तु गुणव्रत और शिक्षाव्रतके भेदोंमें अन्तर पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्यने दिशा-त्रिदिश प्रमाण, अनर्थदण्ड त्याग, और भोगोपभोग परिमाणको गुणव्रत कहा है तथा सामायिक, प्रोषध, अतिथिपूजा और सल्लेखनाको शिक्षाव्रत कहा है। तत्त्वाथ सूत्रमें दिग्ब्रत, देशव्रत और अनर्थदण्डविरतिव्रतको गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसंविभागव्रतको शालव्रत कहा है। तथा सल्लेखनाका पृथक्से ग्रहण किया है। रत्नकरंड श्रावकाचारमें गुणव्रत तो कुन्दकुन्दाचार्यके अनुसार बतलाये हैं किन्तु शिक्षाव्रतोंमें देशव्रत, सामायिक, प्रोषध और वैयानृष्यको रखा है। तथा सल्लेखनाका पृथक्से ग्रहण किया है। फिर भी रविपेणाचार्यके पद्मचरितमें तथा अन्य भी कुछ ग्रन्थोंमें कुन्दकुन्दाचार्यका ही अनुसरण किया गया है। इस तरह कुन्दकुन्दाचार्यने गृहस्थधर्मके मूलभूत व्रतोंके नाम मात्र गिनाये हैं।

अनगार अथवा मुनिधर्मके विषयमें ही उन्होंने विशेष कहा है। प्रवचन-सारका अन्तिम भाग मुनिधर्मसे ही सम्बद्ध है। उसमें उन्होंने दीक्षा लेनेकी विधिसे लेकर सभी आवश्यक बातोंका कथन कर दिया है। उसीमें मुनियोंके २८ मूलगुण बतलाये हैं। और साधुके योग्य उपधि आदिका भी कथन करते हुए उत्सर्ग और अपवादमें सामंजस्य बैठानेका भी उपदेश दिया है। कुन्दकुन्द स्वामीने अपने ग्रन्थोंमें जैम साधुके लिए जितना उपदेश दिया है उतना किसी अन्य ग्रन्थकारने नहीं दिया। उन्होंने उनकी आलोचना भी खूब कर की है और उसके द्वारा सच्चे जैन साधुका वास्तविक रूप कैसा होना चाहिये, यह उनके सामने रख दिया है।

प्रवचनसारके तीसरे चारित्र्याधिकार में श्रमणका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—श्रमण शत्रु मित्रमें, सुख दुःखमें, प्रशंसा निन्दामें, लोष्ट कांचनमें और जीवन मरणमें समदृष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमका ज्ञाता नहीं है उसे स्व-परका ज्ञान नहीं है और जिसे स्व-परका ज्ञान नहीं है वह कर्मोंका चयन कैसे कर सकता है ॥३३॥ साधुकी आँख आगम है। जिसकी दृष्टि—श्रद्धान आगम मूलक नहीं है उसके संयम नहीं है और जिसके संयम नहीं है वह श्रमण कैसे है? ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमोंका ज्ञाता होते हुए भी जिसका शरीरादि-में अणु मात्र भी ममत्व है वह मुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥

इसी तरह सूत्र प्राभृत, भाव प्राभृत और मोक्ष प्राभृत आदि प्रायः सभी प्राभृत साधुसम्बन्धी शिक्षाओं और आलोचनाओंसे भरे हुए हैं। सूत्र प्राभृत में लिखा है—जिस मुनिका चरित उत्कृष्ट है, वह भी यदि स्वच्छन्द विहारी है तो पाप पङ्कमें गिर जाता है ॥ ६ ॥ जिन शासनमें वस्त्रधारी तीर्थङ्कर भी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। एक नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं ॥२४॥

किन्तु नंगा हो जानेसे ही श्रमण बन्दनीय नहीं होता। भाव प्राभृतमें लिखा है—‘भाव रहित नग्नता व्यर्थ है। अतः भावसे नग्न होना चाहिये। जिन लिंगधारी बाहू मुनिने अभ्यन्तरके दोषसे दगडक नगरको जला डाला। वह रौरव नरकमें गये ॥४६॥ दर्शन ज्ञान और आचरणसे अष्ट द्वीपायन मुनि अनन्त संसार पथके पथिक बन गये ॥५०॥ जो इन्द्रिय सुखके लिये आकुल द्रव्य श्रमण होते हैं वे भव वृत्तको नहीं काट सकते। जो भावसे श्रमण होते हैं वे ही ध्यानरूपी कुठारसे भवरूपी वृत्तको छेदते हैं ॥१२०॥

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो भेद किये हैं—शुभोपयोगी और शुद्धो-पयोगी। दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, शिष्योंका पोषण करना, जिन पूजाका उपदेश देना यह शुभोपयोगी मुनियोंकी प्रवृत्तियाँ हैं ॥४८॥ श्रमण संघका उपकार करना, आदर विनय करना, शुभोपयोगी श्रमणके लिए उचित है, किन्तु काय विराधना नहीं होनी चाहिये।

मुनिके शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी भेद करनेसे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द स्वामीको वीतराग चारित्र्यकी तरह सराग चारित्र्य भी मान्य है तथा यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है। शुभोपयोग व्यवहार है और शुद्धोपयोग निरचय है। अतः व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है यह स्पष्ट है। किन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्मुख होना चाहिये। अस्तु,

समयसार और नियमसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने पडावश्यकका कथन किया है वह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साधारणतया आवश्यकका अर्थ यही समझा जाता है कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। किन्तु वास्तवमें आवश्यकका ऐसा अर्थ नहीं है।

जो मुनि अन्यके वशमें नहीं है उसे 'अवश' कहते हैं और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं। अतः जो मुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका कर्म आवश्यक नहीं है। जो पर भावको छोड़कर निर्मल आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [नि० सा० १४१-१४६]। जो आवश्यकसे भ्रष्ट है वह चारित्रसे भ्रष्ट है। वचनात्मक पाठरूप जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानदि है वह तो स्वाध्याय है। निश्चय प्रतिक्रमणादि तो ध्यानरूप होते हैं। किन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि करनेमें असमर्थ होता है अतः वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी श्रद्धामें उन्हें ही रखता है। अस्तु।

बोध प्राभृतके अन्तमें जिनदीलाका स्वरूप सतरह गाथाओंसे बताते हुए कहा है कि साधुको शून्य घरमें, वृत्तके नीचे, उद्यानमें, श्मशानमें, पर्वतकी गुफामें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और वसतिकामें रहना चाहिये। उत्तम और मध्यम घरोंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये और धनी और दरिद्रका भेद नहीं करना चाहिये। जहाँ पशु, स्त्री और नपुंसकोंका निवास हो वहाँ नहीं रहना चाहिये। तिल तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। स्त्री, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये और सदा स्वाध्याय और ध्यानमें लगे रहना चाहिये।

असलमें श्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति है। और निर्वाणकी प्राप्ति शुद्धोपयोगके विना नहीं हो सकती। और शुद्धोपयोग आत्मभावके सिवाय पर भावमें रंचमात्र भी आत्मभावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकता।

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रको ही धर्म कहा है। और धर्मको साम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और लोभसे रहित आत्मपरिणामको साम्यभाव कहा है। अतः मोहको दूर करना श्रमणका प्रधान कर्तव्य है। इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपण किया है।
आत्मनिरूपण—

कुन्दकुन्द स्वामीने निश्चनयय और व्यवहार नयसे आत्माका जो वर्णन समयसारमें किया है वह अपूर्व है, आत्म स्वरूपका वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं

पाया जाता। उन्होंने मोक्ष प्राच्यतमें आत्माके तीन भेद किये हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। और बहिरात्माको छोड़कर अन्तरात्माके द्वारा परमात्माका ध्यान करनेका उपदेश दिया है। जो शरीरको ही आत्मा मानता है, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त है और उन्हींमें ममत्व भाव रखता है वह बहिरात्मा है। और जो शरीरसे भिन्न तथा रागद्वेष और मोह जन्यभावोंसे अलस आत्माको ही आत्मा मानता है वह भेद विज्ञानी अन्तरात्मा है। तथा कर्म कलंकसे मुक्त आत्मा परमात्मा है।

समयसारमें उन्होंने आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण करते हुए कहा है कि समयसारका बोध न होनेसे यह जीव कर्म और नोकर्ममें 'वह मैं हूँ या वे मेरे हैं' ऐसी बुद्धि रखता है। और जब तक उसकी ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक वह जीव अज्ञानी कहलाता है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीरादि मैं हूँ अथवा वे मेरे हैं और मैं इनका हूँ। परन्तु शरीरादि जड़ हैं और आत्मा चेतन है। वे दोनों एक कैसे हो सकते हैं। क्योंकि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है और जड़ उपयोगसे रहित होता है।

इस प्रकार जीवको शरीरसे भिन्न बतलाने पर शिष्य पूछता है—भगवन् ! यदि शरीर जीव नहीं है तो तीर्थकरकी जो शरीरपरक स्तुतियाँ की जाती हैं कि आपका रूप बड़ा मनोहर है, आदि, वे सब मिथ्या हो जायेंगी। तब आचार्य उत्तर देते हैं कि व्यवहार नयसे जीव और शरीरका संयोग सम्बन्ध होनेसे जीव और शरीरमें कथंचित् एकत्व मान लिया जाता है और इसलिए व्यवहार नयसे शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो सकती है। किन्तु निश्चय नयसे तो शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न हैं इसलिए शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं हो सकती आत्माकी स्तुतिसे ही आत्माकी स्तुति होती है।

आगे अर्जावाधिकारमें उन औपाधिक भावोंको भी अर्जाव बतलाया है जो संसारी जीवमें तो पाये जाते हैं किन्तु शुद्ध जीवमें नहीं पाये जाते हैं। लिखा है—आत्मके शुद्ध स्वरूपसे अनजान कोई व्यक्ति अध्यवसानको, कोई कर्मोंको कोई अध्यवसानोंमें तीव्र मन्द अनुभागको, कोई नोकर्मको, कोई कर्मोंके उदयको, कोई कर्मोंके अनुभागको, और कोई जीव और कर्मोंको आत्मा मानते हैं किन्तु ऐसा माननेवाले परमार्थवादी नहीं है। ये सब भाव तो पुद्गल द्रव्यके परिणामनसे उत्पन्न होते हैं ऐसा केवली जिनने कहा है। उन्हें जीव कैसे कहा जा सकता है (गा० ३६-४४)। ये अध्यवसानादि भाव जीव हैं ऐसा जो कथन शास्त्रोंमें पाया जाता है वह तो व्यवहार नयका कथन है। आत्मा तो

रस, रूप, गन्ध और स्पर्शसे रहित है। वह इन्द्रियोंके अगोचर है। उसका चेतना गुण है। (गा० ४६)। जीवके तो न वर्ण है, न रस है, न गंध है, न रूप है, न रस है, न संस्थान और संहतन हैं, न शरीर है, न राग द्वेष और मोह हैं न कर्म और नो कर्म है, न योगस्थान अनुभाग स्थान और उदय स्थान हैं, न जीव स्थान और गुण स्थान हैं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं। (गा० ५०-५५)। वर्णसे लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव व्यवहार नयसे जीवके हैं, निश्चय नयसे नहीं। इनके साथ जीवका जल और दूधकी तरह एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध है किन्तु वे सब जीवके नहीं हैं क्योंकि जीवमें उन सबसे अधिक एक उपयोग नामका गुण है जो उन सयमें नहीं पाया जाता (गा० ५६-५७)। यदि उन सब भावोंको जीव माना जायेगा, जो कि जब हैं तो जीवमें और अजीवमें कोई भेद ही न रहेगा। (गा० ६२)

इसी तरह जो एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदि, तथा वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त आदि भेद हैं ये सब नाम कर्मकी प्रकृतियां हैं। इन सबके योगसे जो जीव समाप्त होते हैं वे सब जीव कैसे कहे जा सकते हैं (६५-६६)। इसी तरह मोहर्नाय कर्मके निमित्तसे जो गुणस्थान कहे गये हैं उन्हें भी जीव कैसे कहा जा सकता है। (६८)

सारांश यह कि जिनका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, संयोग सम्बन्ध है उन सब भावोंसे भिन्न ज्ञान-दर्शन उपयोग वाला जीव है। इस तरहसे कुन्दकुन्दाचार्यने जीवके सम्बन्धमें फैले हुए मतिविभ्रमोंका निरास करके जीवके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसको जानकर ज्ञानी आत्माके अन्तःकरणमें यह दृढ़ प्रतीति हो जाती है कि 'मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय सदा अरूपी हूँ। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है (गा० ३८)।' यही दृढ़ प्रतीति मोक्षका सोपान है। इसी पर आरूढ़ होनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता है।

आत्मा और ज्ञानमें अभेद—

समयसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि—व्यवहार नयसे ज्ञानी (आत्मा) के चारित्र, दर्शन और ज्ञान कहे जाते हैं। किन्तु निश्चय नयसे न ज्ञान है न दर्शन है और न चारित्र है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक मात्र है। इस कथनका आशय यह है कि यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे आत्मा और उसके ज्ञानादि गुणोंमें भेद किया जाता है किन्तु निश्चय दृष्टिसे तो जो ज्ञाता है वही आत्मा है। इसीसे उन्होंने प्रवचनसार (१, ३५) में कहा है

जो जानता है वही ज्ञान है, ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञाता नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणामन करता है।

नैयायिक-वैशेषिक आदि दार्शनिक आत्माको व्यापक मानते हैं। कुन्द-कुन्दाचार्यने भी ज्ञानके द्वारा आत्माके व्यापकत्वको बतलाते हुए लिखा है—
आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। तथा लोक और अलोक सभी ज्ञेय हैं अतः; ज्ञान सर्वगत है। और चूँकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है अतः आत्मा भी सर्वगत है। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दने आत्मा और ज्ञानका अभेद बतलाते हुए आत्माके सर्वगतत्व तथा सर्वज्ञत्वको सिद्ध किया है।

स्वपर प्रकाशकता—

नियम सार (गा० १६०) में आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि केवलीके ज्ञान और दर्शन दोनों साथ रहते हैं जैसे सूर्यमें ताप और प्रकाश साथ साथ रहते हैं।

जैन सिद्धान्तके अभ्यासियोंको यह बात ज्ञात है कि बीरसेन स्वामीने धवला टीकामें अन्तर्मुख चित्रप्रकाशको दर्शन और वहिर्मुख चित्रप्रकाशको ज्ञान कहा है। दर्शन और ज्ञानका यह आगमिक स्वरूप अवश्य ही प्राचीन होना चाहिये। संभवतया उसीको लक्ष्यमें रखकर कुन्दकुन्दाचार्यने नियमसारमें नीचे लिखी चर्चा उठाई है।

शङ्का—केवली भगवान केवल लोकालोकको ही जानते हैं आत्माको नहीं जानते, यदि ऐसा कोई कहे तो क्या दोष है ? (गा० १६६)।

समाधान—ज्ञान जीवका स्वरूप है इसलिये आत्मा आत्माको जानता है। यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता वह आत्मासे भिन्न ठहरेगा। अतः आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसलिये ज्ञान और दर्शन दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं ॥ १७०-१७१ ॥

ज्ञान और दर्शनकी उक्त चर्चा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। स्वाध्याय प्रेमियोंसे यह बात अज्ञात नहीं है कि छद्मस्थ जीवोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है किन्तु केवलीके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। श्वेताम्बर परम्परामें केवलीके भी ज्ञान और दर्शन क्रमसे माने गये हैं। किन्तु आचार्य सिद्ध सेनने अपने सम्मति तर्क नामक ग्रन्थमें क्रमोपयोगवाद और अक्रमोपयोगवाद दोनोंका खण्डन किया है, और कहा है कि केवलीके दर्शन और ज्ञानमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा है—जब दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म एक साथ स्य होते हैं तो दर्शन और ज्ञानमें कौन पहले और कौन पीछे होगा। अतः

दोनोंही एक साथ उत्पन्न होते हैं। और वास्तवमें दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं है (सन्मति०, का० २, गा० ६)। इससे पहले इस प्रकरणको आरम्भ करते हुए सिद्धसेनाचार्यने लिखा है—‘मनःपर्ययज्ञान तक ही दर्शन और ज्ञानमें अन्तर है। किन्तु केवल ज्ञान अवस्थामें दर्शन और ज्ञान समान हैं।’ का०२, गा०३।

आचार्य कुन्दकुन्दने भी ज्ञान और दर्शन दोनोंको स्वपर प्रकाशक बतलाकर प्रकारान्तरसे वही बात कही है। किन्तु कुन्दकुन्दाचार्यने दोनोंको स्वपर प्रकाशक बतलाकर भी केवलीके दोनोंकी सत्ता स्वीकार की है। परन्तु तार्किक सिद्धसेनने तर्कके आधार पर दोनोंको एक ही सिद्ध किया है जो उचित प्रतीत होता है; क्योंकि जब दर्शन और ज्ञान दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं तो दोनोंमें केवल नाम मात्रका ही अन्तर रह जाता है। परन्तु दर्शनावरण कर्मके चयसे दर्शन प्रकट होता है और ज्ञानावरण कर्मका चय होनेपर ज्ञान प्रकट होता है अतः दोनों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है।

सर्वज्ञताकी व्याख्या—

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रथम ज्ञानाधिकारमें शुद्धोपयोगका फल बतलाते हुए आत्माके सर्वज्ञ होनेकी चर्चा विस्तारसे की है। लिखा है— शुद्धोपयोगी आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मरूपी रजका दूर करके स्वयं ही ज्ञेयभूत पदार्थोंके अन्तको प्राप्त करता है ॥ १५ ॥ अर्थात् सबको जान लेता है। आगेकी गाथामें उसे लघ्वस्वभाव और ‘सर्वज्ञ’ कहा है। अर्थात् उसने अपने स्वभावको प्राप्त कर लिया है और वह सर्वज्ञ है। इसके दो मतलब निकलते हैं एक जो अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ होता है दूसरा, सर्वज्ञता आत्मस्वभावरूप ही है। आत्मस्वभावसे वह भिन्न नहीं है।

इसके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्यने यह चर्चा उठाई है कि बिना इन्द्रियोंके भी ज्ञान और सुख होते हैं। उन्होंने लिखा है—चूँकि घातिकर्म नष्ट हो गये हैं अतः उसका तेज अर्थात् ज्ञान विकसित हो गया है और साथ ही अनन्तशक्ति भी प्रकट हो गई है अतः इन्द्रियातीत होकर वह स्वयं ज्ञान और सुखरूप परिणमन करता है ॥ १६ ॥

आगे लिखा है—केवलज्ञानीके शारीरिक सुख दुःख नहीं होते क्योंकि अतीन्द्रियपना प्रकट हो चुका है ॥२०॥ इतनी भूमिकाके पश्चात् कुन्दकुन्दाचार्य ने सर्वज्ञताकी व्याख्या की है—आत्माके केवल ज्ञानरूप परिणमन करते ही सब द्रव्य और सब पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती हैं अतः वह उन्हें अवग्रह ईहा

आदि के द्वारा नहीं जानता ॥२१॥ वह तो स्वयं ही सदाके लिये इन्द्रियातीत ज्ञानरूप हो गया है और इन्द्रियोंमें जो रूप रस आदिको जाननेकी विशेषता है वह विशेषता स्वयं उसमें वर्तमान है, अतः किञ्चित् मात्र भी वस्तु उसके परोक्ष नहीं है ॥२२॥

इस तरह सर्वज्ञ केवल ज्ञानीको सब द्रव्य पर्यायोंका ज्ञाता बतलाकर आचार्य कुन्दकुन्दने, आगे उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है, तथा ज्ञेय लोकालोक है अतः अपने ज्ञानरूपसे आत्मा लोकालोकव्यापी है। समयसारमें कुन्दकुन्दाचार्यने लिखा है कि लोग विष्णुको जगतका कर्ता मानते हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि यह ब्रह्माण्ड विष्णुके उदरमें समाया है। गीतामें आया है कि जब श्रीकृष्ण युद्धविरत अर्जुनको युद्धके लिये तैयार नहीं कर सके तो उन्होंने अर्जुनको अपना विराटरूप दिखलाया। उस विराटरूपमें सचराचर जगत विष्णुके उदरमें समाया हुआ अर्जुनने देखा। कुन्दकुन्द शायद विष्णुके उसी विराटरूपकी कल्पनाको सामने रखकर कहते हैं—‘भगवान् ऋषभदेव ज्ञानमय हैं और ज्ञानमय होनेसे सब लोकालोकमें व्याप्त हैं। अतएव जगतमें जितने पदार्थ हैं वे उनके ज्ञानके विषय होनेसे भगवान् ऋषभदेवके अन्तर्गत कहे जाते हैं ॥ २६ ॥ क्योंकि ज्ञान आत्मा है और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। अतः जितना ज्ञानका विस्तार है उतना ही आत्माका विस्तार है, क्योंकि न आत्माके बिना ज्ञान रह सकता है और न ज्ञानके बिना आत्मा रह सकता है।

इस तरह ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण और ज्ञेयोंको ज्ञानगत बतलानेसे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि शायद ज्ञान ज्ञेयोंके पास जाता है या ज्ञेय ज्ञानके पास आते हैं। इस भ्रमका निवारण करनेके लिए आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

ज्ञानी ज्ञानस्वभाव है और पदार्थ ज्ञेयस्वभाव हैं। जैसे चक्षु रूपको जानती है किन्तु न तो चक्षु रूपके पास जाती है और रूप चक्षुके पास जाता है वैसे ही न तो ज्ञान ज्ञेयके पास जाता है और न ज्ञेय ज्ञानके पास जाता है। ज्ञेय अपने स्थान पर रहते हुए ज्ञेयरूप परिणामन करता रहता है और ज्ञान ज्ञानरूप परिणत होता है। इस तरह ज्ञान अशेष अतीन्द्रिय जगतको जानता रहता है। जैसे दूधके मध्यमें रखा हुआ नीलम अपनी किरणोंसे उस दूधको नीला बना देता है वैसे ही ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंमें रहता है ॥२०॥

आगे लिखा है—द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायों भी केवल ज्ञानमें वर्तमानकी तरह प्रतिभासित होती हैं ॥ ३७ ॥ यदि केवल ज्ञान

अतीत और अनागत पर्यायोंको नहीं जानता तो कौन उसे दिव्यज्ञान कहेगा ॥३६॥ जो ज्ञान अप्रदेशी सप्रदेशीको, मूर्त अमूर्तको, अतीत और अनागत पर्यायोंको जानता है, उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ॥ ४१ ॥ जो ज्ञान पूरी तरहसे वर्तमान, अतीत, अनागत, विचित्र विषय सब पदार्थोंको एक साथ जानता है उस ज्ञानको ज्ञायिक कहा है ॥ ४७ ॥ जो तीनों लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ती पदार्थोंको एक साथ नहीं जानता, वह पर्यायसहित एक द्रव्यको नहीं जान सकता ॥४८॥ और जो अनन्त पर्यायसहित एक द्रव्यको नहीं जानता वह समस्त अनन्त द्रव्योंको कैसे जान सकता है ॥४९॥ जिनेन्द्रदेवका ज्ञान त्रिकालवर्ती सर्वत्र विद्यमान विषय और विचित्र पदार्थोंको एकसाथ जानता है, ज्ञानका यह माहात्म्य आश्चर्यजनक है ॥५१॥

ज्ञायिक अतीन्द्रिय केवलज्ञानकी उक्त व्याख्यामे यह स्पष्ट है कि केवलज्ञान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है—वर्तमानकी तरह ही वह अतीत और अनागत पर्यायोंको भी जानता है। एक द्रव्यमें जितनी अतीत अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय तथा व्यञ्जनपर्याय होती है वह सब मिलकर एक द्रव्य होता है। अतः उन सबको जाने बिना एक द्रव्यका पूरा ज्ञान नहीं होता। पूर्ण ज्ञाता वही है जो उन सबको जानता है। तथा सत्का सर्वथा विनाश नहीं होता और असत्की उत्पत्ति नहीं होती, यह वस्तु नियम है। अतः द्रव्यद्वैतस्य अतीत और अनागत पर्यायें भी सत् हैं और जो सत् है वह सब ज्ञेय है अतः पूर्णदर्शाके ज्ञानका विषय है।

सभी जैन शास्त्रोंमें केवलज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञकी यही व्याख्या पाई जाती है। पट् खण्डागमके वर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें कहा है—

‘सद् भयवं उपपण्णणाणदरिसी सदेवासुरमाणसस्स लोणस्स आगदिं गदिं चयणोववादं बंधं मोक्खं इड्ढिं ट्ठिदिं जुदिं अणुभागं तवकं कलं माणो माणसियं भुत्तं कदं पडिसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं सव्वलोए सव्वजिंवे सव्वभावे सःमं सम्मं जाणदि पस्सदि विहरदि सि ॥८२॥

अर्थ—स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञानदर्शनसे युक्त भगवान् देवलोक असुरलोक और मनुष्यलोककी आगति (अन्य गतिसे इच्छित गतिमें आना), गति (इच्छित गतिसे अन्यगतिमें जाना), चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, स्थिति (आयु) युति (संयोग), अनुभाग, तर्क, कला, मन, मानसिक (विचार) मुक्त (राज्य और महाव्रतादिका पालन करना), कृत, प्रतिसेवित

आदिकर्म (अर्थपर्याय और व्यञ्जनरूपसे सब द्रव्योंकी आदिको), अरहःकर्म (शुद्ध द्रव्याधिक नयके विषय रूपसे सब द्रव्योंकी अनादिता), सब लोकों, सब जीवों और सब भावोंको सम्यक् प्रकारसे एक साथ जानते देखते हुए विहार करते हैं ।

इस सिद्धान्तसूत्रसे भी उक्त कथनका ही समर्थन और स्पष्टीकरण होता है । अतः यह स्पष्ट है सर्वज्ञ क्या जानता है ? इसका यथार्थ उत्तर है 'सर्वज्ञ क्या नहीं जानता । उक्त व्याख्याके अनुसार सर्वज्ञ शब्दका व्यवहार केवल औपचारिक नहीं है किन्तु यथार्थ है ।

आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है—

नियमसार (गा० १५६) में कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि निश्चयनयसे केवली आत्माको जानता देखता है और व्यवहारनयमे सबको जानता है । यह पहले बतला आये हैं कि निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका प्ररूपक है और अध्यात्म में आत्मद्रव्यकी ही प्रधानता है अतः यथार्थमें केवली आत्मदर्शी ही होता है । किन्तु उसके आत्मदर्शित्वका विश्लेषण सर्वदर्शित्व ही है क्योंकि जो सबको नहीं जानता है वह एक आत्माको भी नहीं जानता और जो एक आत्माको जानता है वही सबको जानता है । अस्तु,

इस तरह कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने ग्रन्थोंमें जिन विशेष मन्तव्योंकी चर्चा की है, उनका यहाँ संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है । उनके ये मन्तव्य जैन सिद्धान्त और जैनदर्शनके आधारभूत हैं । अतः विशेष रूपसे मननीय और चिन्तनीय हैं । उनको हृदयंत किये बिना जैनाचार और विचारको सम्यक् रूपसे नहीं समझा जा सकता ।

विषय-सूची

१—सम्यग्दर्शन अधिकार पृ० १-६	आत्मा और ज्ञानमें भेद नहीं है	१०
सम्यग्दर्शनका स्वरूप	वर्तमानकी तरह अतीत और अनागत	
अट्टारह दोष	पर्यायों भी ज्ञानमें प्रतिभासित	११
आप्तका स्वरूप	अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा	१२
आगमका स्वरूप	जो सबको नहीं जानता वह एक	
आगमका महत्त्व	को भी नहीं जानता	११
सम्यग्दर्शन के दोष	जो एकको नहीं जानता वह सबको	
” के आठ अंग	भी नहीं जानता	१२
” की उत्पत्तिमें निमित्त	केवल ज्ञानका माहात्म्य	१३
” का माहात्म्य	केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता	१३
२—ज्ञान-अधिकार पृ० ६-१६	निश्चय और व्यवहारसे केवल	
उपयोगके भेद	ज्ञानका विषय	१३
ज्ञानोपयोगके भेद	केवलज्ञान और केवलदर्शन एक	
दर्शनोपयोगके भेद	साथ होते हैं	१४
आत्मा सब पदार्थोंको प्रत्यक्ष	केवल ज्ञान और केवल दर्शनके	
जानता है	भेदाभेदका विचार	११
आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान	इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता	१५
सर्वगत है	इन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है	१६
आत्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें	परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण	११
दोष	प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुखरूप है	११
ज्ञानकी तरह आत्मा भी सर्वगत है		
आत्मा और ज्ञानमें भेदाभेद	३-ज्ञेय अधिकार पृ० १७ से ४६ तक	
ज्ञान पदार्थोंको कैसे जानता है	सत्ताका स्वरूप	१७
व्यवहारसे ज्ञान पदार्थोंमें रहता है	सत्ता और द्रव्यमें अभेद	१८
और पदार्थ ज्ञानमें रहते हैं	द्रव्यके लक्षण	१९
केवल ज्ञानी केवल जानता है	द्रव्यके उत्पाद त्रय धौत्यात्मक	
श्रुत केबलीका स्वरूप	होनेमें कारण	१९

उत्पाद त्रय-ध्रौट्यका परस्परमें		गति की अपेक्षा जीवके भेद	२८
अविनाभाव	१८	जीवका एक गतिसे दूसरी गतिमें	
उत्पाद आदिका द्रव्यसे अभेद	१६	गमन	”
उत्पाद आदिमें लक्षणभेद नहीं है	”	इन्द्रिय और कायसे जीव भिन्न है	२६
द्रव्य और पर्यायमें अभेद	”	संसारी जीवका स्वरूप	”
द्रव्य और गुणमें अभेद	२०	जीव और उसके प्राण	३०
सत्ता और द्रव्यके अभेदमें युक्ति	”	जीवका स्वाभाविक प्रमाण	”
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण	”	जीव शरीरके बराबर है	”
अतद्भावका उदाहरण	”	चेतनाके तीन भेद और उनका	
सत्ता और द्रव्यमें गुणगुणीभाव	२१	स्वरूप	३१
सप्तभगीका स्वरूप	”	शुभोपयोग और अशुभोपयोग का	
द्रव्यके भेद	२२	कार्य	३२
छै द्रव्योंके नाम	”	शुभोपयोगका स्वरूप	”
गुणोंके भेदसे द्रव्योंमें भेद	”	अशुभोपयोगका ”	”
मूर्त और अमूर्त गुणोंका लक्षण	२३	जीवके पाँच भाव	”
मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण	”	जीव औदयिकादि भावोंका कर्ता है	३३
अमूर्तद्रव्योंके गुण	”	द्रव्य कर्म औदयिकादि भावोंका	
पाँच अस्तिकाय	२४	कर्ता है	”
प्रदेशका लक्षण	”	उक्त विषयमें शंका-समाधान	”
बहुप्रदेशी और एकप्रदेशी द्रव्य	”	यदि कर्म कर्मका और आत्मा	
छै द्रव्योंके प्रदेशोंकी संख्या	”	आत्माका कर्ता हैं तो आत्मा कर्म	
लोक-अलोकका भेद	२५	का फल कैसे भोगता है, इत्यादि	
लोकका स्वरूप	”	शंकाका समाधान	३४
द्रव्योंका अवस्थान	”	कर्तृत्व और भोक्तृत्वका उपसंहार	३५
सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य	२६	जीवके प्रभुत्व गुणका कथन	”
जीवके भेद	”	पुद्गलके भेद	३६
संसारी जीवके भेद	”	स्कन्धके छै भेद	”
एकेन्द्रिय जीव	२७	अन्य प्रकारसे पुद्गलके भेद और	
दो इन्द्रिय जीव	”	उनका स्वरूप	३७
तीन्द्रिय जीव	२८	परमाणुके भेद	”
चौ इन्द्रिय जीव	”	” का स्वरूप	”
पञ्चन्द्रिय जीव	”	” में गुण	३८

स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय	३८	पुण्य और पापका स्वरूप	५१
परमाणुओंसे स्कन्ध कैसे बनता है	३६	कर्म मूलिक है	”
परमाणुमें स्निग्ध और रूक्ष गुणों का परिणामन	”	पुण्यात्मिकके कारण	५२
किस प्रकारके स्निग्ध-रूक्षगुण बन्ध में कारण होते हैं	”	प्रशस्तरागका स्वरूप	”
आत्मा और कर्मके बन्धके विषयमें शङ्का और उसका समाधान	४०	अनुकर्मका स्वरूप	”
पुद्गल, जीव और उभय बन्धका स्वरूप	४१	चित्तकल्पताका स्वरूप	”
धर्म द्रव्यका स्वरूप	”	पापात्मिकके कारण	”
अधर्म द्रव्यका स्वरूप	”	संवरका व्याख्यान	५३
धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके सदभावमें युक्ति	४२	निर्जराका ”	”
आकाश द्रव्यका स्वरूप	”	बन्धके कारण	५४
आकाशको गति और स्थितिका कारण माननेमें दोष	४४	जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है	५५
काल द्रव्यका स्वरूप	४५	परिणाम ही बन्ध और मोक्षके कारण हैं	५६
काल द्रव्यकी सिद्धि	४६	अशुभ बन्धके कारण	”
निश्चय काल द्रव्य	”	शुभ बन्ध के कारण	”
४ नौ पदार्थ अधिकार पृ० ४७-५७	”	मोक्षका व्याख्यान	”
जीव पदार्थ	४७	५ चारित्र अधिकार पृ० ५५-७४	”
जीवके प्राण	”	मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञा	५७
जीव शब्दकी व्युत्पत्ति	”	रत्नत्रयका स्वरूप	५८
प्राण पौद्गलिक हैं	”	चारित्रिके भेद	”
पुनः पुनः प्राण धारण करनेका कारण	४८	सम्यक्चरण चारित्रिका स्वरूप	”
उससे छूटनेका उपाय	”	” महत्त्व	”
जीवका पर्याय	”	” की पहचान	५९
शुद्ध जीवका स्वरूप	४८-५०	संयम चरण चारित्रिके भेद	”
अजीव पदार्थ	५०	सागर चारित्रिके ११ भेद	”
अजीवका स्वरूप	”	श्रावकके बारह व्रत	”
		पांच अणुव्रत	६०
		तीन गुण व्रत	”
		चार शिक्षाव्रत	”
		अनगर संयम चरण चारित्र	६१
		पंचेन्द्रिय संवर	”
		पांच महाव्रत	”

प्रथम महाव्रतका स्वरूप	६१	कटुक वचन सहनेका	६८
दूसरे महाव्रतका	६१	क्षमा गुणकी प्रशंसा	६९
तीसरे महाव्रतका	६२	क्षमा गुणको पालनेका उपदेश	७०
चौथे महाव्रतका	६२	उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश	७१
पाँचवें महाव्रतका	६२	बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह	७२
इन्हें महाव्रत कहनेका कारण	६३	प्रकारकी क्रियाओंको पालनेका उपदेश	७३
अहिंसाव्रतकी भावना	६३	जिन लिंगकी भावनाका उपदेश	७४
सत्यव्रतकी भावना	६३	जिन धर्मकी भावनाका	७५
अदत्तविरतिव्रतकी भावना	६४	धर्मका स्वरूप	७६
अब्रह्मविरतिव्रतकी	६४	पुण्य धर्म नहीं है	७७
परिग्रह त्यागव्रत	६४	भावके बिना सब निरर्थक है	७८
पाँच समिति	६४	श्रुत ज्ञानकी भावनाका उपदेश	७९
हृद्यां समितिका स्वरूप	६५	निश्चय प्रतिक्रमण	८०-८४
भाषा समिति	६५	प्रत्याख्यान	८४-८६
पुष्पा समिति	६५	आलोचना	८६
आदान निक्षेपण	६५	आलोचनाका लक्षण	८७
प्रतिष्ठापन समितिका स्वरूप	६५	आलुंङ्गनका	८८
मनोगुप्ति	६५	अविकृतिकरणका स्वरूप	८९
वचन गुप्ति	६५	भावशुद्धिका	९०
काय गुप्ति	६५	निश्चय प्रायश्चित्त	९१
निश्चय मनोगुप्ति और वचन गुप्ति	६६	कार्योंको जीतनेका उपाय	९२
निश्चय काय गुप्ति	६६	कार्यात्सर्गका स्वरूप	९३
बाईस परीपहोंका सहनेका उपदेश	६६	परमसमाधि	९४
भावनाओंको भानेका उपदेश	६६	सामायिक संयम किसके स्थायी	९५-९०
सप्त तत्त्व आदिके चिन्तनका उपदेश	६६	होता है	९५-९०
ब्रह्मचर्य पालनका उपदेश	६६	परम भक्ति	९०
इड्यालीस दोष सहित भोजनका	६६	योगका स्वरूप	९१
निषेध	६७	निश्चय आवश्यक	९२
सचित्त त्यागका उपदेश	६७	आवश्यक निर्युक्तिका अर्थ	९३
विनय पालनका	६७	आवश्यक करनेका उपदेश	९४
वैद्यावृत्तिका	६७	वचनात्मक प्रतिक्रमणादि	९५
आलोचना	६८	स्वाध्याय है	९६

ध्यानात्मक प्रतिक्रमणादि करनेका उपदेश	८४	अट्टाईस मूल गुण	६८
६ बोध प्राभृत अधिकार पृष्ठ	८५-९६	दीक्षाचार्य और निर्यापकाचार्य	,,
मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञा जानने योग्य ११ वस्तु	८५	द्विज संयमको जोड़नेकी विधि	६६
आयतनका स्वरूप	,,	संयमके भंगसे बचनेका उपदेश	,,
सिद्धायतनका स्वरूप	८६	छेदका स्वरूप	१००
चैत्यग्रहका स्वरूप	,,	जीव मरे या जिये, अयतनाचारी	,,
जिन प्रतिमा ,,	,,	हिंसक ही है	,,
सिद्ध प्रतिमाका स्वरूप	८७	परिग्रह अन्तरंग छेदका कारण है	१०१
दर्शनका स्वरूप	,,	अनिषिद्ध परिग्रह	,,
जिनविम्बका स्वरूप	,,	उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक है	१०२
जिन मुद्राका ,,	८८	अपवादरूप परिग्रह	,,
ज्ञानका ,,	,,	श्रमणको कैसा होना चाहिये	,,
देवका ,,	८९	युक्त आहार विहार	,,
धर्म, प्रव्रज्या और देवका स्वरूप	,,	युक्ताहारका स्वरूप	१०३
तीर्थका ,,	,,	उत्सर्ग और अपवादमें एक रूपता	,,
अर्हन्तका ,,	८९-९०	श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये	१०४
अर्हन्तका गुणस्थान और अतिशय	९०	आगम ही साधुके नेत्र है	१०५
चौदह मार्गणा	९१	आगमरूपी नेत्रसे सब दिखाई देता है	,,
छे पर्यासियाँ	,,	आगमके बिना संयम नहीं	,,
दस प्राण	,,	आगम ज्ञान आदिके बिना मोक्ष नहीं	,,
अर्हन्तका शरीर	,,	ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर	,,
,, का भाव	९२	परिग्रहीको मोक्ष नहीं	,,
साधुओंके रहने योग्य स्थान	,,	श्रमणका स्वरूप	,,
प्रव्रज्याका स्वरूप	९३-९६	श्रमणके दो भेद	१०७
भद्रबाहु श्रुतकेवलीका जयकार	९६	शुभोपयोगी श्रमणका स्वरूप	,,
७ आमण्य अधिकार पृष्ठ ९७-११३		शुभोपयोगी श्रमणकी प्रवृत्ति	,,
आमण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या करना चाहिये	९७	संयमकी विरोधी प्रवृत्ति	१०८
श्रमणका द्रव्य लिंग और भावलिंग ,,		श्रमणको अज्ञानी जनोंसे बोलनेका निषेध	१०९
		पात्रभेदसे शुभोपयोगके फलमें भेद ,,	

कुपात्र दानका फल	११०	शिवभूतिका	१२४
कुपात्रका लक्षण	”	भावलिंगकी सार्थकता	”
मुनियोंके सत्कारकी विधि	१११	भावरहित द्रव्य लिंगकी निरर्थकता	”
श्रमणाभासका स्वरूप	”	भावलिंगी साधुका स्वरूप	”
सच्चे श्रमणको नहीं मानने		भावलिंगी साधुकी भावना	१२६
वाजेकी निन्दा	”	शुद्धात्म भावनाका उपदेश	”
अरनेमे गुणाधिक श्रमणसे बिनय		शुद्धात्म भावनाका फल	”
चाहनेवाले श्रमणकी निन्दा	११२	भावकी महत्ताका वर्णन	१२७
स्वयं गुणोंमें अधिक होनेपर हीन	”	भावके बिना नग्नता व्यर्थ है	”
गुणी श्रमणकी विनय करनेमें दोष	”	भाव पूर्वक ही द्रव्य लिंग	१२८
लौकिक जनोंकी संगतिका निषेध	”	भावके तीन भेद	”
लौकिक जनका लक्षण	”	सोलह कारण भावनासे तीर्थङ्कर	
उत्तम संगतिका उपदेश	११३	प्रकृतिका बन्ध	१२९
श्रमणाभासोंकी दशा	”	भाव श्रमणको ही सुखकी प्राप्ति	१३०
किसका श्रमण्य पूर्ण है	”	भाव श्रमणोंको नमस्कार	”
शुद्धोपयोगी श्रमण	”	६ श्रमण्य अधिकार	१३१-१३६
शुद्धोपयोगकी महिमा	”	सूत्रका स्वरूप	१३१
८ श्रमण्य भाव अधिकार ११४-१३०		सूत्रको जानकर मोक्ष मार्गमें	
भावका महत्व	११४	लक्षणका उपदेश	”
भाव रहितकी दुर्गतिका वर्णन ११५-१२०		दिग्गम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है	१३२
द्रव्य श्रमणको दुर्गतिका वर्णन	१२०	वन्दनीय मुनि	१३३
शरीरमें रोगादि	१२१	इच्छाकारके योग्य	”
मुक्त कौन है	१२३	साधुका आचरण	१३४
बाहुबलीका उदाहरण	”	परिग्रही साधुकी निन्दा	”
मधुरापाग मुनिका उदाहरण	”	लिंगके भेद	१३५
वशिष्ट	”	स्त्रीका लिंग	”
भावका महत्व	१२३	वस्त्रधारीको मोक्षका निषेध	”
बाहुमुनिका उदाहरण	”	स्त्रीको प्रज्ज्याया निषेध	”
दीपायन मुनिका	१२४	१० बारह अनुप्रेक्षा	१३६-१५३
शिवकुमार मुनिका	”	मंगला चरण	१३६
शुभव्यसेनका	१२५	बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम	”

अधुव अनुप्रेक्षा	१३८	१२ मोक्ष अधिकार पृ० १७६-१८२	
अशरण अनुप्रेक्षा	१३८	मंगलाचरण और प्रतिज्ञा	१७६
एकत्व	१३६	आत्माके तीम भेद और उनका	
अन्यत्व	१४०	स्वरूप	१७७
संसार	"	सिद्ध परमात्माका स्वरूप	"
लोक	१४४	परमात्माके ध्यानका उपदेश	"
अशुचित्व	"	बहिरात्माकी प्रवृत्ति	१७८
आश्रव	१४५	निर्वाणको कौन प्राप्त करता है	"
संवर	१४८	बन्ध और मोक्षका कारण	१७६
निर्जरा	१४६	परद्रव्य और स्वद्रव्यके रागका	
धर्म	"	फल	१७६
बोधि	१५३	परद्रव्यका स्वरूप	"
११ भक्ति अधिकार पृ० १५४-१७६		स्वद्रव्यका स्वरूप	१८०
तीर्थङ्कर भक्ति	१५४	स्वद्रव्यके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति	"
सिद्ध भक्ति	१५६	आत्माके परमात्मा होनेमें दृष्टान्त	१८१
श्रुत भक्ति	१५६	तपके द्वारा स्वर्गका मिलना भी	
बारह अंगोंके नाम	"	उत्तम है	"
पूर्वोंमें वस्तु नामक अधिकार	"	आत्माका ध्यान करनेका उपदेश	"
वस्तुमें प्राभृत्तोंकी संख्या	१६०	ध्यान कैसे करना चाहिये	१८२
चौदहपूर्वोंमें वस्तुओं और		मौन पूर्वक ध्यान करनेमें हेतु	"
प्राभृत्तोंकी संख्या	"	योगी लोक व्यवहारसे विरत क्यों	
चारित्र्य भक्ति	"	होता है	"
चारित्र्यके पाँच भेद	१६१	ध्यान करनेकी प्रेरणा	१८३
मुनियोंके मूल और उत्तर गुण	"	आराधकका लक्षण और आराध-	
योगि भक्ति	१६२	नाका फल	"
ऋद्धियोंके नामोल्लेख पूर्वक उनके		आत्मा ही केवल ज्ञान है	"
धारी योगियोंकी बन्दना	१६५	रत्नत्रयका आराधक आत्माका ही	
आचार्य भक्ति	१६८	आराधक है	"
निर्वाण भक्ति	१७०	अभेद रत्नत्रयका स्वरूप	१८४
पंचगुरु भक्ति	१७४	भेद रत्नत्रयका स्वरूप	"
		मोक्षको कौन प्राप्त करता है	१८५

जिन मुद्राही मोक्षका कारण है	१८५	आचार्य अज्ञानीको समझाते हैं	१९८
परमात्माके ध्यानसे कर्मनिवृत्ति	"	अज्ञानीकी आशाका और उसका	
जो कहते हैं कि यह ध्यानयोगका		उत्तर	"
समय नहीं है, उनको उत्तर	१८६	निश्चय स्तुति	१९९
आजकलभी जीवमोक्ष प्राप्त करते हैं	१८७	प्रत्याख्यानका स्वरूप	२००
कुछ जीवोंके लिये मोक्षका निषेध	"	निर्ममत्वका स्वरूप	"
मोक्षका पात्र व्यक्ति	"	जीवके सम्बन्धमें विभिन्न	
आत्माको जानना कठिन है	१८८	मायन्ताएँ	२०१
आत्मज्ञानके बिना सब क्रिया		अध्यवसान आदि पौद्गलिक हैं	२०२
व्यर्थ है	१८९	व्यवहार नयका उदाहरण	२०२
आत्मा ही शरण है	१९१	जीवका स्वरूप और उसका खुलासा	२०३
मोक्षका स्वरूप	"	व्यवहार और निश्चयमें अविरोध	२०४
समय प्राभूत पृ० १६३ से २६६ तक		जीव समास जीव नहीं है	२०५
नमस्कार पूर्वक प्रतिज्ञा	१९३	गुणस्थान जीव नहीं हैं	२०६
स्व समय और पर समयका स्वरूप	"	जीवके कर्मबन्ध कैसे होता है	"
स्व समयकी श्रृंखला	"	बन्धका निरोध कब होता है	"
एकत्वकी दुर्लभता	"	जानने मात्रसे बन्धका निरोध	"
एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा	१९४	आसवोंसे निवृत्तिका उपाय	"
वह शुद्ध आत्मा कौन है	"	आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान	"
व्यवहारकी आवश्यकता क्यों	"	ज्ञानी पररूप परिणामन नहीं करता,	
श्रुत केवलीका स्वरूप	१९५	पुद्गल कर्मोंका जीवके साथ कर्ता	
व्यवहार और निश्चय	"	कर्मभाव नहीं है	२०८
व्यवहार और निश्चयके पात्र	"	जीव और पुद्गलका परस्परमें	
शुद्धनयसे ही सम्यक्त्व	१९६	निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र है	"
शुद्धनयका स्वरूप	"	निश्चयसे आत्मा अपनेही भावोंका	
जो आत्माको देखता है वह जिन-		कर्ता होता है	२०९
शासनको देखता है	"	और व्यवहार से	"
दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मरूप ही हैं	"	व्यवहारमें दूषण	"
दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण	१९७	दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों हैं	"
आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है	"	मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता आत्मा	२१०
ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह	"	अज्ञानसे कर्मोंकी उत्पत्ति	२११
		ज्ञानसे कर्मोंकी उत्पत्ति नहीं	"

व्यवहारसे आत्मा घटपटादिका कर्ता है	२१२	कर्म स्वयं ही बन्ध रूप है	२२३
उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है	”	कर्म मोक्षके कारणोंके विनाशक हैं	”
अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है	”	आश्रवका स्वरूप	२२४
कोई द्रव्य परभावको नहीं करता	२१३	ज्ञानीके आश्रवका अभाव	”
अतः आत्मा पुद्गल कर्मोंका कर्ता नहीं है	”	राग, द्वेष मोह ही आश्रव हैं	”
आत्माको पुद्गल कर्मोंका कर्ता कहना उपचार मात्र है	”	ज्ञानीके द्रव्याश्रवका अभाव	२२५
व्यवहारनयका वस्तु	२१४	ज्ञानी निराश्रव क्यों है ?	”
जीव और प्रत्यय एक नहीं हैं	”	ज्ञानगुणका परिणामन बन्धका कारण	”
पुद्गल द्रव्य परिणामी है	२१५	सम्यग्दृष्टीको अबंधक कहनेका कारण	२२६
जीव भी परिणामी है	२१६	दृष्टान्त द्वारा समर्थन	”
ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावोंका कर्ता है	”	भेद विज्ञानका अभिनन्दन	२२७
ज्ञानीके ज्ञानमय और अज्ञानीके अज्ञानमय भाव होनेमें हेतु	२१७	भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की उपलब्धि	२२८
जीव स्वयं अज्ञानमय भावोंमें हेतु है	”	शुद्धात्मा की उपलब्धिसे संवर	”
पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न	२१८	संवरका क्रम	२२९
जीवका परिणाम पुद्गलसे भिन्न	२१९	भाव निर्जराका स्वरूप	२३०
समयसार पञ्चातिक्रान्त है	२१९	ज्ञानकी सामर्थ्य	”
पञ्चातिक्रान्तका स्वरूप	”	सम्यग्दृष्टीका भाव	२३१
कर्मोंमें शुभ अशुभ भेद निरर्थक है	२२०	रागी सम्यग्दृष्टी नहीं है	”
शुभाशुभ कर्म बन्धके कारण हैं	”	ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा नहीं	२३४
अतः दोनों त्याज्य हैं	”	शंखके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके बन्धका अभाव बतलाते हैं	२३५
दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२२१	निःशंकित गुणका स्वरूप	२३६
आगम द्वारा समर्थन	”	निःकांचित	”
ज्ञान ही मोक्षका कारण है	२२२	निर्विचिकित्सा	२३७
पुण्य संसारका कारण है	”	अमूढ़ दृष्टी	”
मोक्षका कारण	”	उपगूहन	”
विद्वानों और यतियोंमें भेद	”	स्थितिकरणा	”
कर्म मोक्षके कारणोंकी ढाँकता है	”	वास्तव्य गुणका स्वरूप	२३७
		प्रभावना का स्वरूप	२३८

बन्धके कारण	२३८	अपराधका स्वरूप	२५३
सम्यग्दृष्टीके बन्ध नहीं होता	२३९	दृष्टान्त द्वारा आत्माके अकर्तापने	
मिथ्यादृष्टिके भाव और उनका निराकरण	२४०	का कथन	२५३
दुःख सुख भी स्वकर्मोंदयसे	२४१	अज्ञान की महिमा	"
उक्त मिथ्याभाव बन्धका कारण है	२४२	अज्ञानी भोक्ता है	२५४
हिंसाका भाव ही हिंसा है	"	ज्ञानी भोक्ता नहीं है	२५५
यही बात असत्यादिके सम्बन्धमें	"	आत्माको परका कर्ता मानने	
बाल्य वस्तु बन्धका कारण नहीं	२४३	वाला मिथ्यादृष्टि	२५६
अध्ययमानके नामान्तर	२४४	भावकर्मका कर्ता जीव है	"
व्यवहारका आश्रय तो अभव्य भी लेता है	"	आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है	२५७
अभव्य ग्यारह अंगका पाठी	"	र्चाणकवादका निषेध	२५८
होकर भी अज्ञानी	"	व्यवहारमें कर्ता-कर्म भिन्न हैं	
व्यवहार और निश्चयका स्वरूप	२४५	किन्तु निश्चयमें दोनों एक हैं	२६०
रागादिका कारण	"	दृष्टान्त पूर्वक व्यवहार और	
ज्ञानी रागादिका कर्ता नहीं	२४६	निश्चयका कथन	२६१
अज्ञानी रागादिका कर्ता	"	सम्यग्दृष्टीका पर द्रव्योंमें राग	
सम्यग्ज्ञानी रागादिका अकर्ता	"	न होनेका कारण	२६२
कैसे है ?	"	एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंको	
द्रव्य और भावमें निमित्त	"	उत्पन्न नहीं करता	२६३
नैमित्तिकपनेका समर्थन	२४७	प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और	
जानने मात्रसे मोक्ष नहीं	२४८	आलोचनाका स्वरूप	२६५
बन्धका छेदन करनेसे मोक्ष	२४९	ज्ञान सब वस्तुओंसे भिन्न हैं	२६६
आत्मा और बन्धके पृथक् होनेका साधन	"	केवल द्रव्यलिंग मोक्षका	
आत्मा और बन्धको अलग करनेसे लाभ	२५०	कारण नहीं	२६८
प्रज्ञा द्वारा आत्माको ग्रहण करनेका उपाय	"	दर्शनज्ञान चारित्र ही मोक्षका मार्ग "	
दृष्टान्त द्वारा समर्थन	२५१	लिंगके मोही समयसारको	
		नहीं जानते	२६९
		लिंगके सम्बन्धमें व्यवहार	
		और निश्चयका मत	"
		समयसार ग्रन्थका महत्त्व	"

श्री कुन्दकुन्द प्राभृतसंग्रह

१. सम्यग्दर्शन अधिकार

काऊण णमोयारं जिणवर उसहस्स वड्डुमाणस्स ।

दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेण ॥ [द० प्रा० १]

जिनवर श्रेष्ठ भगवान् वर्धमानको अथवा प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव और अन्तिम तीर्थङ्कर वर्धमान स्वामीको नमस्कार करके क्रमानुसार संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका स्वरूप कहूँगा ।

सम्यग्दर्शन का स्वरूप

छद्द्व एव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिहिट्ठा ।

सद्दहइ ताण रुवं सो सद्विट्ठी मुणेयव्वो ॥ [द० प्रा० १६]

छै द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्व जिनवर भगवानने कहे हैं । जो उनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दर्शी जानना चाहिये ।

जीवादिसद्दहणं सम्मत्तं जिणवरेहिं पयणत्तं ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ [द० प्रा० २०]

जिनवर भगवानने जीव आदि पदार्थोंके श्रद्धानको व्यवहारनय से सम्यग्दर्शन कहा है । किन्तु निश्चयनयसे आत्मा ही सम्यग्दर्शन है । ३

भूयत्थेणाभिग्गदा जीवाजीवा य पुण्य पावं च ।

आसव संवर णिज्जर बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥ [समय० १३]

भूतार्थ अर्थात् निश्चयनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्षको सम्यग्दर्शन कहते हैं । अर्थात् इन जीवादि नौ तत्त्वोंको निश्चयनयसे जानना ही सम्यग्दर्शन है ।

हिंसारहिण्ण धम्मो अट्टारह दोस वज्जिए देवे ।

निग्गंथे पव्वयणे सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥ [मो० प्रा० ६०]

हिंसा रहित धर्ममें, अट्टारह दोषोंसे रहित देवमें और निर्ग्रन्थ प्रवचनमें श्रद्धान करना सम्यक्त्व है ।

अज्ञागमतच्चारणं सदृहणादो हवेइ सम्मत्तं ।

ववगयअसेसदोसो मयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥ [नि० मा० ५]

आप्त, आगम और तत्वोंके श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता है । तथा समस्त दोषोंसे रहित और समस्त गुणमय आप्त होता है ।

अट्टारह दोष

दुह-जण्ह-भीरु-रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू ।

सेदं खेद मदो रह विणिहय शिद्धा जणुव्वेगो ॥ [नि० मा० ६]

भूख, प्यास, भय, रोष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्वेग, ये अट्टारह दोष हैं ।

आप्त का स्वरूप

णिस्संगदोसरहिओ केवलणाणाइ-परमविभवजुदो ।

सो परमप्पा उच्चइ तव्विवरीओ ए परमप्पा ॥ [नि० मा० ७]

जो समस्त दोषोंसे रहित है और केवलज्ञान आदि परम पंश्रयसे सहित है उसे ही परमात्मा (आप्त) कहते हैं । इससे जो विपरीत है वह परमात्मा नहीं है ।

आगम का स्वरूप

तस्स मुहग्गदवयणं पुव्वावरदोसविरहियं सुद्धं ।

आगममिदि परिकरहियं तेण दु कहिया हवति तच्चत्था ॥ [नि० मा० ८]

उस परमात्माके मुखसे निकले हुए वचन, पूर्वापर दोषसे रहित और शुद्ध होते हैं । उसीको आगम कहते हैं । और उस आगमके द्वारा कहे हुए पदार्थोंको तत्त्वार्थ कहते हैं ।

आगम का महत्त्व

जिणवयण ओसहमिणं विसयमुहविरेयणं अमियभूयं ।

जर-मरण-वाहिहरणं खयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ [द० प्रा० १७]

यह जिन भगवानका वचन विषय सुखका विरेचन करनेवाली औपधि

है। तथा बुढ़ापा, मृत्यु आदि रोगोंको हरने और सब दुःखोंका नाश करनेके लिए अमृतके समान है।

सम्यग्दर्शन के दोष

एवं न्चिय णा ऊण य सव्वे मिच्छत्तदोससंकाई ।

परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥ [चा० प्रा० ६]

इस प्रकार जानकर, मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाले शंका आदि सब दोषोंको, मन ध्यान कायसे दूर करो; क्योंकि जिन भगवानने उन्हें सम्यक्त्वके मल कहा है।

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्ग

णिस्संकिंय णिक्कंसिय णिव्विदिगिंछ्हा अमूढदिट्ठी य ।

उवगृहण टिदिकरणं वच्छल्ल पहावणा अट्ठ ॥ [चा० प्रा० ७]

निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगृहण, स्थिति-करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यग्दर्शनके आठ अङ्ग हैं, जो शंका आदि दोषोंके दूर होनेसे प्रकट होते हैं।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें निमित्त

सम्मत्तम्म णिामन्नं जिणमुत्तं तस्स जाणया पुरिमा ।

अंतरहेयो भणिदा दंसणमोहम्म स्वयपहुदी ॥ [नि० ५३]

जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित आगम और उमके ज्ञाता पुरुष सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त हैं और दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, क्षयोपशम और उपशम अन्तरंग कारण हैं।

सम्यग्दर्शनका माहात्म्य

सम्मत्तविरहिया णं सुट्ठु वि उग्गं तवं चरंता णं ।

ए लहंति बोहिलाहं अवि वासमहम्मसकोडीहिं ॥ [द० प्रा० ५]

सम्यग्दर्शनसे रहित मनुष्य भले प्रकारसे कठोर तपश्चरण भी करें तो भी हजार करोड़ वर्षों में भी उन्हें सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती।

सम्मत्तसलिलपववहो णिच्चं हिय^१यम्मि पवट्टए जम्म ।

कम्मं वालुयवरणं वंधुच्चिय णासए तम्म ॥ [द० प्रा० ७]

जिसके हृदयमें सदा सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह बहता रहता है उसका पूर्वमें बाँधा हुआ भी कर्मरूपी रेतका आवरण नष्ट हो जाता है ।

जह मूलमिम विण्ट्रे दुमस्स परिवार णत्थि परिवव्वी ।

तह जिण्णदंसणभट्टा मूलविण्ट्रा ण सिज्जंति ॥ [द० प्रा० १०]

जैसे जड़के नष्ट हो जानेपर वृक्षके शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारकी वृद्धि नहीं होती; वैसे ही जो जिनमतके श्रद्धानसे भ्रष्ट हैं उनका मूलधर्म ही नष्ट हो गया है । उन्हें मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

जह मूलाआं खंधो साहा परिवार बहुगुणो होइ ।

तह जिण्णदंसणमूलो णिदिट्ठो मांक्खमग्गस्स ॥ [द० प्रा० ११]

जैसे वृक्षकी जड़से शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारवाला तथा बहुगुणी स्कन्ध (तना) उत्पन्न होता है वैसे ही जिनधर्मके श्रद्धानको मोक्षमार्गका मूल कहा है ।

सम्मत्तरयणभट्टा जाणंता बहुविहाइं सत्थाइं ।

आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥ [द० प्रा० ४]

जो सम्यग्दर्शन रूपी रत्नसे रहित हैं वे अनेक प्रकारके शास्त्रोंको जानते हुए भी चार प्रकारकी आराधनासे रहित होनेके कारण नरकादि गतियोंमें ही भ्रमण करते रहते हैं ।

सम्म विणा सण्णाणं सच्चारित्तं ण होइ णियमेण ।

तो रयणत्तयमज्जे सम्मगुणुक्कट्टमिदि जिण्णुदिट्ठं ॥ [र०सा० ४७]

सम्यग्दर्शनके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र नियमसे नहीं होते । इसलिए रत्नत्रयके बीचमें सम्यक्त्व गुण ही उत्कृष्ट है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है ।

दंसणमुद्धो सुद्धो दंसणमुद्धो लहेइ णिव्वाणं ।

दंसणाविहीणपुरिसो न लहइ तं इच्छियं लाहं ॥ [मो० प्रा० ३६]

जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है वही शुद्ध है । सम्यग्दर्शनसे शुद्ध मनुष्य ही मोक्षको प्राप्त करता है । और जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे रहित है उसे इच्छित वस्तुका लाभ नहीं होता ।

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्जंति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्जंति ॥ [द० प्रा० ३]

जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं वे ही भ्रष्ट हैं । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट मनुष्य-
का निर्वाण नहीं होता । जो चरित्रसे भ्रष्ट हो जाते हैं वे मोक्ष चले जाते
हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ।

जीवविमुक्तो सवत्रो दंसणमुक्तो य होइ चलसवत्रो ।

सवत्रो लोयत्रपुजो लोउत्तरयम्मि चलसवत्रो ॥ [भा० प्रा० १४१]

लोकमें जीव रहित शरीरको मुर्दा कहते हैं । किन्तु जो सम्यग्दर्शन-
से रहित है वह चलता फिरता मुर्दा है । मुर्दा लोकमें अपूज्य माना
जाता है और चलता फिरता मुर्दा लोकोत्तर पुरुषोंमें अथवा परलोकमें
अपूज्य माना जाता है (क्योंकि उसे नीच गति में जन्म लेना पड़ता है) ।

जह तारयाण चंदो मयरात्रो मयउलाण सव्वाणं ।

अहित्रो तह सम्भत्तो रिसिसावयदुविहधम्ममाणं ॥ [भा० प्रा० १४२]

जैसे ताराओंमें चन्द्रमा प्रधान है और समस्त मृग कुलोंमें मृगराज
सिंह प्रधान है । वैसे ही मुनि और श्रावक सम्बन्धी दोनों प्रकारके धर्मों
में सम्यग्दर्शन ही प्रधान है ।

जह फणिरात्रो रेहइ^१ फणमणिमणिकिरणविफुरियं^२ ।

तह विमलदंसणधरो जिण^३ भत्तिपरायणो जीवो ॥ [भा० प्रा० १४३]

जैसे नागराज फणकी मणिओंके बीचमें स्थित माणिक्यकी किरणोंसे
शोभायमान होता है । वैसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनका धारी जिनेन्द्र भक्त
जीव जैन आगममें शोभित होता है ।

जह तारायणसहियं समहरविवं खमंडले विमले ।

भाइ यं तह वयविमलं जिणलिंगं दंसणविमुद्धं ॥ [भा० प्रा० १४४]

जैसे निर्मल आकाशमण्डलमें तारागणसे सहित चन्द्रमाका बिम्ब
शोभित होता है वैसे ही ब्रह्मसे निर्मल तथा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जिन
लिंग (निर्ग्रन्थ मुनिवेश) शोभित होता है ।

उपसंहार

इय णाउं गुणदोसं दंसणरयणं धरेह भावेण ।

सारं गुणरयणाणं सोवाणं पटम मोक्खम्म ॥ [भा० प्रा० १४५]

१. सोहइ ग । २. परिफुडियं ग, ऊ । ३. भत्ति पवयणो आ० ग ।
४. भावियतववयविमलं ग ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनके गुण और मिथ्यात्वके दोष जानकर सम्यग्दर्शन रूपी रत्नको भावपूर्वक धारण करो। यह समस्त गुणरूपी रत्नोंमें सारभूत है और मोक्ष रूपी महलकी पहली सीढ़ी है।

२. ज्ञान अधिकार

उपयोगके भेद

जीवो उच्यन्मोगमग्नो उच्यन्मोगो मण्डसणो होइ ।

मण्डसणो दुविहो सहावणणं विहावणणं ति ॥ [नि० सा० १०]

जीव उपयोगमय है और उपयोग ज्ञान और दर्शनरूप है। अर्थात् उपयोगके दो भेद हैं एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोगके दो भेद हैं स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान।

स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान

केवलमिदियररिहयं असहायं तं सहावणणं ति ।

मण्डसणो विवणं विहावणणं हवे दुविहं ॥ [नि० सा० ११]

मण्डसणं चउभेयं मदि-मुद-आही तहेव मणपणं ।

अणणणं तिवियणं मदियाइभेददो चेष ॥ [नि० सा० ११-१२]

इन्द्रिय आदि परद्रव्योंकी सहायताके बिना होनेवाला जो अतीन्द्रिय केवल ज्ञान है वह स्वभावज्ञान है। विभावज्ञानके दो भेद हैं—एक सम्यक् ज्ञान और एक मिथ्याज्ञान। सम्यक् ज्ञानके चार भेद हैं—मति, श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान। तथा मिथ्याज्ञानके तीन भेद हैं—कुमतिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान।

दर्शनोपयोगके भेद

तह दंमण उच्यन्मोगो ससहावेदरवियणदो दुविहो ।

केवलमिदियररिहयं असहायं तं सहावमिदि मण्डं ॥ [नि० सा० १३]

ज्ञानोपयोगकी तरह दर्शनोपयोगके भी दो भेद हैं—एक स्वभाव दर्शनोपयोग और एक विभाव दर्शनोपयोग। इन्द्रियोंकी सहायताके बिना होनेवाला जो असहाय केवल दर्शन है उसे स्वभाव दर्शनोपयोग कहा है।

चक्षु अचक्षु ओही तिरिण वि भणिदं विभावदिच्छित्ति ।

[नि० सा० १४]

चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और श्रवधिदर्शन इन तीनोंको विभाव दर्शनोपयोग कहा है।

आत्मा के सब पदार्थ प्रत्यक्ष हैं—

परिणमदो खलु गणं पञ्चक्खा सव्वदव्वपजाया ।

मो शेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ [प्रब० १, २१]

जब यह आत्मा केवलज्ञानरूप परिणमन करता है तो सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायें उसके प्रत्यक्ष होती हैं। वह उन द्रव्य और पर्यायोंको अवग्रह ईहा आदिके क्रमसे नहीं जानता।

आत्मा के कुछ भी परोक्ष नहीं है—

एत्थि परोक्खं किञ्चि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि गणजादस्स ॥ [प्रब० १, २२]

अपने सब प्रदेशोंमें समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे परिपूर्ण तथा इन्द्रिय व्यापारसे रहित और सर्वदा स्वयं ही ज्ञानरूप परिणमन करने वाले उस आत्माके कुछ भी परोक्ष नहीं है। अर्थात् आवरणकी दशामें यह आत्मा एक एक इन्द्रियके द्वारा स्पर्श रस आदि एक एक गुणको जानता है। किन्तु जाननेवाला तो आत्मा ही है उसीमें सबको जानने की शक्ति है। अतः जब वह ज्ञानावरण आदि आवरणोंको नष्ट करके स्वयं ही ज्ञानरूप हो जाता है तो उसके लिये कुछ भी परोक्ष नहीं रहता, वह सबको प्रत्यक्ष जानता है।

आगे आत्माको ज्ञान प्रमाण और ज्ञानको सर्वव्यापक बतलाते हैं—

आदा गणपमाणं गणं शेयप्पमाणमुद्दिट्ठं ।

शेयं लोयालयं तम्हा गणं तु सव्वगयं ॥ [प्रब० १, २३]

आत्माको ज्ञानके बराबर और ज्ञानको ज्ञेय पदार्थोंके बराबर

कहा है। तथा समस्त लोक और अलोक ज्ञेय (ज्ञानका विषय) हैं।
अतः ज्ञान सर्वव्यापक है।

आत्मा को ज्ञानप्रमाण न मानने में दोष—

शाण्डिल्यप्रमाणमादा ए हवदि जस्सेह तस्स सो आदा ।
हीणो वा अहिश्चो वा शाण्डादो हवदि धुवमेव ॥
हीणो यदि सो आदा तयशाण्डमचेदणं ए जाणादि ।
अहिश्चो वा शाण्डादो शाण्डेण विणा कहं शादि ॥

[प्रव० १, २४-२५]

जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानता, उसके मतानुसार आत्मा निश्चय ही या तो ज्ञानसे छोटा है या बड़ा है। यदि आत्मा ज्ञानसे छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जान सकेगा। और यदि आत्मा ज्ञानसे बड़ा है तो ज्ञानके बिना आत्मा पदार्थों को कैसे जानेगा।

ज्ञान की तरह आत्मा भी सर्वगत है—

सर्वगतो जिण्वसहो सर्वे वि य तगया जगदि अट्टा ।

शाण्डमयादो य जिणा विसयादो तस्म ते भणिदा ॥ [प्रव० १, २६]

ज्ञानमय होनेसे जिनश्रेष्ठ सर्वज्ञदेव सर्वव्यापी हैं। तथा उनके विषय होनेसे जगतके सभी पदार्थ उनमें वर्तमान हैं। अर्थात् सब पदार्थों को जाननेसे ज्ञानको सर्वगत कहा है। और भगवान् ज्ञानमय हैं इसलिये भगवान् भी सर्वगत हैं।

आत्मा और ज्ञान में भेद-अभेद—

शाण्डं अप्प त्ति मदं वट्टदि शाण्डं विणा ए अप्पाणं ।

तस्सा शाण्डं अप्पा अप्पा शाण्डं व अरणं वा ॥ [प्रव० १, २७]

ज्ञान आत्मा है अर्थात् ज्ञान और आत्मामें भेद नहीं है ऐसा माना गया है। क्योंकि ज्ञान आत्माको छोड़कर नहीं रहता। अतः ज्ञान आत्मा ही है। किन्तु आत्मा (अनन्तधर्मवाला होनेसे) ज्ञान गुण रूप भी है और अन्य रूपादिगुण रूप भी है।

आगे कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों को कैसे जानता है—

शाण्डो शाण्डसहावो अट्टा शेयप्पगा हि शाण्डिस्स ।

रूवाणि व चक्खूणं शेयणणोणोसु वट्टंति ॥ [प्रव० १, २८]

ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वभाव वाला है और पदार्थ उस ज्ञानीके ज्ञेय-स्वरूप (जानने योग्य) हैं । अतः जैसे चक्षु रूपी पदार्थोंके पास नहीं जाती और वे पदार्थ भी चक्षुके पास नहीं जाते । इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदार्थोंके पास जाता है और न वे पदार्थ ही आत्माके निकट आते हैं ।

ए पविट्रो णाविट्रो णाणी रोयेसु रुवमिव चक्खु ।

जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ [प्रव० १, २६]

जैसे चक्षु यद्यपि निश्चयसे रूपी पदार्थोंको छूता नहीं है फिर भी व्यवहारमें ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि चक्षु रूपी पदार्थोंको नहीं छूता । उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा निश्चयनयसे ज्ञेय पदार्थोंमें प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यवहारनयसे अप्रवेश नहीं करना हुआ, इन्द्रियोंकी सहायताके बिना समस्त जगतको सन्देह रहित जानता और देखता है ।

व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में कैसे रहता है, दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं—

रयणमिह इंदणीलं दुद्धज्भसियं जहा सभासाए ।

अभिभूय तं पि दुद्धं वट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥ [प्रव० १, ३०]

जैसे दूधमें रखी हुई इन्द्रनील मणि अपनी प्रभासे उम दूधको अपना सा नीला करके वर्तमान रहती है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थोंमें रहता है ।

आगे कहते हैं कि पदार्थ ज्ञान में रहते हैं—

जदि ते ण संति अट्टा णाणे णाणं ए होदि सव्वगयं ।

सव्वगयं वा एाणं कदं ए णाणट्टिया अट्टा ॥ [प्रव० १, ३१]

यदि वे ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें न हों तो ज्ञान सर्वव्यापक नहीं हो सकता । और यदि ज्ञान सर्वव्यापक है तो पदार्थ ज्ञानमें स्थित क्यों नहीं हैं । सारांश यह कि व्यवहारसे ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरे में मौजूद हैं ।

केवल ज्ञानी केवल जानता ही है—

गेएहदि रोव ए मुच्चदि ए परं परिणमदि केवली भगवं ।

पेक्खुदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥ [प्रव० १, ३२]

केवली भगवान परपदार्थोंको न तो ग्रहण करते हैं और न छोड़ते हैं, और न उनरूप परिणामन ही करते हैं। वे तो सब पदार्थोंको पूरी तरह से जानते और देखते हैं।

श्रुत केवली का स्वरूप

जो हि मुदेण विजाणादि अप्पाणं जाणणं महावेण ।

तं सुवकेवलीमिस्सिणो भणंति लोयप्पदीवधरा ॥ [प्रव० १, ३३]

जो श्रुतज्ञानरूप अपने सहज स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप आत्माको जानता है, उसे समस्त लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण श्रुत-केवली कहते हैं।

मुत्तं जिणोवादिट्ठं पोगालदव्वप्पगेहि वयणेहि ।

तं जाणणा हि णाणं मुत्तस्स य जाणणा मणिया ॥ [प्रव० १, ३४]

पुद्गलद्रव्यस्वरूप वचनोंके द्वारा जो जिन भगवानके द्वारा उपदेश किया हुआ है उसे सूत्र अथवा द्रव्य श्रुत कहते हैं। और उसके जाननेको श्रुतज्ञान कहते हैं। तथा व्यवहारसे उस सूत्ररूप द्रव्य श्रुतको भी श्रुतज्ञान कहा है। [आशय यह है कि एक केवली होते हैं और एक श्रुत-केवली होते हैं। केवलीके द्वारा उपदिष्ट और गणधरके द्वारा ग्रथित सूत्रोंको उपचारसे श्रुत कहते हैं और उसके ज्ञानको श्रुत ज्ञान कहते हैं। सम्पूर्ण द्वादशार्ग रूप श्रुतके ज्ञाताको श्रुतकेवली कहते हैं। श्रुत-केवली श्रुतके द्वारा आत्माको जानता है। और केवली परका सहायताके बिना स्व-परको जानता है]

आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं है—

जो जाणदि सो णाणं ण हवादि गाणेण जाणणो आदा ।

णाणं परिणमदि मयं अट्ठा णाणाट्ठिया मव्वे ॥ [प्रव० १, ३५]

जो जानता है वही ज्ञान है। ज्ञान गुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञायक नहीं होता। किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणामन करता है और सब ज्ञेय पदार्थ ज्ञानमें स्थित हैं।

तम्हा णाणं जीवो णेयं दव्वं तिधा समखादं ।

दव्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ [प्रव० १, ३६]

इमलिये आत्मा ही ज्ञान है और भूत भविष्यत् वर्तमानके भेदसे

अथवा उत्पाद द्रव्य और प्रौढ्यके भेदसे या द्रव्य गुण पर्यायके भेदसे तीन रूप कहा जाने वाला द्रव्य ज्ञेय है—ज्ञानका विषय है। तथा वह ज्ञेयद्रव्य आत्मद्रव्यरूप भी है और अन्य द्रव्यरूप भी है और परिणामी है। [आशय यह है कि ज्ञेयके दो प्रकार हैं एक स्व और एक पर। उनमेंसे पर तो केवल ज्ञेय ही है। किन्तु 'स्व' ज्ञेय रूप भी है और ज्ञानरूप भी है; क्योंकि आत्मा दीपककी तरह स्वपर प्रकाशक है, स्वयं अपनेको भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। ये दोनों ही परिणामी हैं। आत्म! ज्ञानरूप परिणमन करता है और पदार्थ ज्ञेयरूप परिणमन करते हैं]।

अतीत अनागत पर्यायें भी ज्ञानमें प्रतिभासित होती हैं—

तकालिगेव सव्वे सदसम्भूदा हि पज्जया तासि ।

वट्ठंते ते णाणं विसेसदो दव्वजादीणं ॥ [प्रव० १, ३७]

उन जीवादि द्रव्योंकी वे समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें वर्तमान पर्यायोंकी तरह ज्ञानमें पृथक् पृथक् वर्तमान रहती हैं।

जे रोव हि संजाया जे खलु णट्ठा भवीय पज्जाया ।

ते होति असम्भूदा पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥ [प्रव० १, ३८]

जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई हैं तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं उन सब पर्यायोंको असद्भूत कहते हैं। वे पर्याय भी केवलज्ञानमें प्रत्यक्ष हैं।

जदि पच्चक्खमजायं पज्जायं पलइयं च णाणस्स ।

ण हर्वाद वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परुवेति ॥ [प्रव० १, ३९]

यदि अनागत और अतीत पर्याय केवल ज्ञानके प्रत्यक्ष नहीं होती तो उम ज्ञानको दिव्य कौन कहता।

अत्थं अक्खणिवदिदं ईहापुव्वेहिं जे विजाणंति ।

तेसिं परोक्खभूदं णादुमसक्कं ति पणत्तं ॥ [प्रव० १-४०]

जो अल्पज्ञानी इन्द्रियगोचर पदार्थोंको ईहा आदि ज्ञानपूर्वक जानते हैं उनके लिये अतीत अनागत आदि परोक्षभूत पर्यायोंको जानना शक्य नहीं है, ऐसा कहा है।

ज्ञायिक अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा

अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पञ्चमजादं ।
पलयं गयं च जाणदि तं गाणमर्दिदियं भणियं ॥ [प्रव० १, ४१]

जो ज्ञान प्रदेशरहित परमाणु वगैरहको, प्रदेशसहित जीवादि द्रव्योंको, मूर्त और अमूर्त पदार्थोंको, तथा उनकी आगे होने वाली और नष्ट हुई पर्यायोंको जानता है उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ।

जं तक्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं ।
अत्थं विचित्तविसमं तं गाणं खाइयं भणियं ॥ [प्रव० १, ४७]

जो ज्ञान वर्तमान भूत और भावि तथा अनेक प्रकारके मूर्त अमूर्त, चेतन अचेतन आदि समस्त पदार्थोंको पूरी तरहसे एक साथ जानता है, उस ज्ञानको ज्ञायिक (कर्मोंके क्षयसे प्रकट होनेवाला) कहा है ।

जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता—

जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिककालिगे तिहुवणत्थे ।
णाटुं तस्स ण सक्कं सपञ्जयं दव्वमेणं वा ॥ [प्रव० १, ४८]

जो तीनों लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ती पदार्थोंको एक साथ नहीं जानता वह अनन्त पर्याय सहित एक द्रव्यको भी जाननेमें असमर्थ है । अर्थात् जो सब ज्ञेय पदार्थोंको नहीं जानता वह आत्माको नहीं जानता ।

जो एक को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता—

दव्वं अणंतपञ्जयमेगमणंताणि दव्वजादीणि ।
ण विजाणदि जदि जुगवं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥ [प्रव० १, ४९]

जो अनन्त पर्याय सहित एक आत्मद्रव्यको नहीं जानता, वह समस्त अनन्त द्रव्योंको एक साथ कैसे जान सकता है । अर्थात् जो आत्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता ।

क्रमसे जानने वाला ज्ञान सबको नहीं जान सकता—

उप्पज्जादि जदि गाणं कमसो अट्टे पडुच्च गाणिम्स ।
तं शेव हवदि णिच्चं ण खाइयं शेव सव्वगदं ॥ [प्रव० १, ५०]

यदि ज्ञानीका ज्ञान क्रमसे पदार्थोंका अवलम्बन लेकर उत्पन्न होता

है, अर्थात् जो ज्ञान एक एक पदार्थको लेकर क्रमसे जानता है वह ज्ञान न तो नित्य ही है, न क्षायिक है और न सबको जाननेवाला है ।

केवल ज्ञानका साहाय्य

तिक्कालणिच्चविसयं सयलं सव्वत्थं संभवं चित्तं ।

जुगवं जाणदि जोएहं अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥ [प्रव० १, ५१]

ज्ञानका साहाय्य तो देखो, जिनदेवका केवलज्ञान सदा तीनों कालोंमें और तीनों लोकोंमें होनेवाले नाना प्रकारके समस्त पदार्थोंको एक साथ जानता है ।

केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता—

एण वि परिणमदि ण गेएहदि उप्पज्जदि णेव तेसु अट्ठेसु ।

जाणएणवि ते आदा अबंधगो तेण पएणत्तो ॥ [प्रव० १, ५२]

केवलज्ञानी आत्मा उन पदार्थोंको जानते हुए भी न तो उनरूप परिणामन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है और न उनमें उत्पन्न होता है, इस कारणसे वह नवीन कर्मबन्धसे रहित कहा गया है । अर्थात् यद्यपि केवलज्ञानी सब पदार्थोंको जानता है फिर भी उनमें राग द्वेष नहीं करता, इसलिये मात्र जाननेसे उसके नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता ।

केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है

जं पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिदियं च पच्छएणं ।

सकलं सर्गं च इदरं तं णाणं हवदि पच्चक्खं ॥ [प्रव० १, ५४]

ज्ञाताका जो ज्ञान अमूर्त पदार्थोंको, मूर्तिक पदार्थोंमेंसे अतीन्द्रिय परमाणुओं वगैरहको तथा प्रच्छन्न पदार्थोंको और सब ही स्वज्ञेयोंको जानता है वही प्रत्यक्ष है ।

निश्चय और व्यवहार से केवल ज्ञानका विषय—

जाणदि पस्सदि सव्वं ववहारएणएण केवली भगवं ।

केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥ [नि०सा० १५८]

व्यवहारनयसे केवली भगवान् सबको जानते देखते हैं । और निश्चयनयसे केवलज्ञानी आत्माको जानते देखते हैं ।

केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है—

जुगवं वट्टइ णाणं केवलणाणिसस दंसणं च तहा ।

दिण्णयरपसायतापं जह वट्टइ तह मुणेयव्वं ॥ [नि० सा० १५६]

जैसे मूर्यमें प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वैसे ही केवल-
ज्ञानोंमें दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये ।

केवल ज्ञान और केवलदर्शन के भेदाभेद की चर्चा—

णाणं परप्पयासं दिट्ठी अप्पप्यामया चेव ।

अप्पा मपरपयासो होदि ति हि मण्णसे जदि हि ॥ [नि० सा० १६०]

ज्ञान परका प्रकाशक है और दर्शन आत्माका ही प्रकाशक है । तथा
आत्मा 'म्ब' का भी प्रकाशक है और परका भी प्रकाशक है, यदि ऐसा
मानते हो तो ।

णाणं परप्पयामं तइया णाणेण दंसणं भिण्णं ।

ण हवदि परदव्वगयं दंसणमिदि वण्णदं तम्हा ॥ [नि० सा० १६१]

यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक है तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं है, इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

अप्पा परप्पयासो तइया अप्पेण दंसणं भिण्णं ।

ण हवदि परदव्वगअो दंसणमिदि वण्णदं तम्हा ॥ [नि० सा० १६२]

यदि आत्मा पर प्रकाशक ही है तो आत्मासे दर्शन भिन्न ठहरा ।
किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दर्शन कहा है ।

णाणं परप्पयासं ववहारणयेण दंसणं तम्हा ।

अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दंसणं तम्हा ॥ [नि० सा० १६३]

व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक
है । व्यवहारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका
प्रकाशक है ।

णाणं अप्पपयासं शिच्छयणयएण दंसणं तम्हा ।

अप्पा अप्पपयासो शिच्छयणयएण दंसणं तम्हा ॥ [नि० सा० १६४]

निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा-
का प्रकाशक है । निश्चयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक है इसलिये
दर्शन भी आत्माका प्रकाशक है ।

अप्पसरुवं पेच्छदि लोयालयं ए केवली भगवं ।

जइ कोई भणइ एवं तस्स य किं दूसणं होइ ॥ [नि० सा० १६५]

उक्त स्थितिमें यदि कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान् आत्माके स्वरूपको देखते हैं, लोक सहित अलोकको नहीं देखते तो उसके इस कथनमें क्या दूषण है, अर्थात् कुछ भी दोष नहीं है ।

लोयालयं जाणइ अप्पाणं शेव केवली भयवं ।

जइ केइ भणइ एवं तस्स य किल दूसणं होई ॥ [नि० स० १६८]

यदि कोई ऐसा कहता है कि केवली भगवान् लोक-अलोकको जानते हैं और आत्माको नहीं जानते, तो उसका कथन सदाप है ।

क्योंकि—

णाणं जीवसरुवं तम्हा जाणेइ अप्पमं अप्पा ।

अप्पाणं एवि जाणदि अप्पादो होदि विदिदरित्तं ॥ [नि० सा० १६९]

ज्ञान जीवस्वरूप है इसलिए आत्मा आत्माको जानता है । यदि ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मासे भिन्न हो जायेगा ।

अप्पाणं विणु णाणं णाणं विणु अप्पमो ए संदेहो ।

तम्हा सपरपयासं णाणं तह दंसणं होदि ॥ [नि० सा० १७०]

इसलिए आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही स्व-पर प्रकाशक हैं ।

केवल ज्ञानोके बन्ध नहीं होता

जाणंतो पस्संतो ईहापुवं ए होइ केवलिणो ।

केवलिणाणी तम्हा तेण दु सोऽबंधमो भणिदो ॥ [नि० सा० १७१]

केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता । इसीसे वे केवलज्ञानी हैं और इसीसे उन्हें अबन्धक (बन्धरहित) कहा है ।

इन्द्रिय ज्ञानकी असमर्थता

जीवो सयं अमुत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं ।

ओगेहिहत्ता जोमं जाणदि वा तपण जाणादि ॥ [प्र० सा० १, ५५]

जीव स्वयं अमूर्तिक है । किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है । अतः

मूलिक इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके योग्य मूर्त पदार्थको अवग्रह पूर्वक जानता है अथवा कर्मका उदय होनेसे नहीं भी जानता ।

फासो रसो व गंधो वण्णो सद्दो य पुग्गला होति ।

अक्खवाणं ते अक्खवा जुगवं ते रोव गेण्हति ॥ [प्र० १, ५६]

स्पर्श, रस, गंध, रूप, और शब्द ये पौद्गलिक गुण क्रमसे पाँचों इन्द्रियोंके विषय हैं। किन्तु वे इन्द्रियाँ इन विषयोंको एक साथ नहीं ग्रहण करतीं।

इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है—

परदव्वं ते अक्खवा रोव सहावो ति अप्पणो भण्णिदा ।

उवल्लङ्गं तं हि कधं पच्चक्खं अप्पणो हदि ॥ [प्रव० १, ५७]

आत्माका जो ज्ञान दर्शन स्वरभाव है वह उन इन्द्रियोंमें नहीं है, इस लिए उन इन्द्रियोंको परद्रव्य कहा है। उन परद्रव्य इन्द्रियोंके द्वारा जाना गया पदार्थ आत्माका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है।

परोक्ष और प्रत्यक्षका लक्षण

जं परदो विण्णणं तं तु परोक्ख ति भण्णिदमट्टे सु ।

जदि केवलेण गादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥ [प्रव० १, ५८]

पदार्थोंका जो ज्ञान परकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कहा है। और जो परकी सहायताके बिना केवल जीवके द्वारा जाना जाता है वह प्रत्यक्ष है।

प्रत्यक्ष ज्ञान ही सुखरूप है

जादं मयं समरं गाणमणंतस्थवित्थडं विमलं ।

रहियं तु ओग्गहादिहिं सुहं ति एगंतियं भणियं ॥ [प्रव० १, ५९]

जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, सम्पूर्ण है, सब पदार्थोंमें फैला हुआ है, निर्मल है और अवग्रह ईहा आदिसे रहित है वही ज्ञान सर्वथा सुखरूप है।

जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।

खेदो तस्स ण भण्णिदो जग्हा घादी खयं जादा ॥ [प्रव० १, ६०]

जो यह केवल ज्ञान है वह सुखरूप है और उसका परिणमन भी उसी रूप होता है। केवलज्ञानमें इन्द्रियज्ञानकी तरह खेद नहीं होता, क्योंकि घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं।

३. ज्ञेय अधिकार

सत्ताका स्वरूप

सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा अग्रंतंपज्जायां ।

भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥ [पञ्चा० ८]

सत्ता एक है, वह सब पदार्थों में वर्तमान है, विश्वरूप है, अनन्त पर्यायवाली है, उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है और प्रतिपन्न सहित है। [आशय यह है कि सत्ताके दो प्रकार हैं—एक महासत्ता और एक अवान्तर सत्ता। समस्त पदार्थों में रहनेवाली सत्ताको महासत्ता कहते हैं। उक्त कथन महासत्ताका ही है। और प्रतिनियत वस्तुमें रहनेवाली सत्ताको अवान्तर सत्ता कहते हैं। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक वस्तुमें दो सत्ताएं रहती हैं। एक ही सत्ताको जब व्यापक दृष्टिकोणसे देखते हैं तो वह महा सत्ताके रूपमें प्रतीत होती है और उसीको जब संकुचित दृष्टिकोणसे देखते हैं तो वह अवान्तर सत्ताके रूपमें प्रतीत होती है। अतः महासत्ताकी अपेक्षासे अवान्तर सत्ता असत्ता है और अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे महासत्ता असत्ता है। इस तरह सत्ताका प्रतिपन्न असत्ता है। महासत्ता समस्त पदार्थोंमें समान रूपसे व्याप्त है, इसलिये वह 'सर्वपदस्था' है और अवान्तर सत्ता एक ही पदार्थमें रहती है अतः वह 'एक पदस्था' है। इस तरह सर्वपदार्थस्थिताका प्रतिपन्न एकपदार्थस्थितपना है। महासत्ता विश्वरूपा है और अवान्तर सत्ता एकरूपा है। अतः विश्वरूपाका प्रतिपन्न एकरूपपना है। महासत्ता अनन्त पर्याय वाली है क्योंकि अपनी अपनी पर्यायोंकी अपेक्षासे द्रव्योंकी अनन्त सत्ताएँ हैं, और अवान्तर सत्ता एक पर्यायवाली है क्योंकि एक द्रव्यकी विवक्षित एक पर्यायकी अपेक्षासे वह एक पर्यायरूप है। अतः अनन्तपर्यायाका प्रतिपन्न एक पर्यायपना है। महासत्ता उत्पाद आदि तीन लक्षणोंसे युक्त है। किन्तु अवान्तर सत्ता ऐसी नहीं है; क्योंकि जिसरूपसे उत्पाद है उसरूपसे उत्पाद ही है, जिस रूपसे व्यय है उस रूपसे व्यय ही है और जिस रूपसे ध्रौव्य है उस रूपसे ध्रौव्य ही है। इस कारण वस्तुका जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है उसमेंसे उत्पाद या व्यय या ध्रौव्यके उत्पाद आदि तीन तीन रूप नहीं होते। अतः त्रिलक्षणाका प्रतिपन्न अ-त्रिलक्षणा है। महासत्ता एक है और अवान्तरसत्ता अनेक है; अतः एक्का प्रतिपन्न अनेकपना

है। इस तरह सत्ता एक भी है और अनेक भी है, सर्व पदार्थोंमें भी रहनेवाली है और एक पदार्थमें भी रहनेवाली है, विश्वरूप भी है और एक रूप भी है, अनन्त पर्यायवाली भी है और एक पर्यायवाली भी है। उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा भी है और अ-त्रिलक्षणा भी है, और एक भी है, अनेक भी है]

सत्ता और द्रव्यमें अभेद

दविर्याद गच्छुदि ताई ताईं सम्भावपज्जयाईं जं ।

दविर्यं तं भरणंते अरणणभूदं तु सत्तादो ॥ [पञ्चा० ६]

जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य सत्तासे अभिन्न है।

तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण

द्ववं सल्लक्खणियं उत्पादव्ययधुवत्तमंजुत्तं ।

गुणपज्जयासयं वा जं तं भरणंति सव्वण्ह ॥ [पञ्चा० १०]

सर्वज्ञ देवने द्रव्यको सत्ता लक्षण वाला कहा है। अर्थात् जो सत् है वह द्रव्य है, अथवा जो उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे संयुक्त है वह द्रव्य है, अथवा जो गुण और पर्यायोंका आधार है वह द्रव्य है।

सत् होते हुए भी द्रव्यके उत्पाद व्ययध्रौव्यात्मक होनेमें कारण

सदवार्ट्टदं सहावे द्ववं दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेसु सो सहावो टिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ [प्रव० २, ७]

द्रव्यका अपने अर्थोंमें—गुण-पर्यायोंमें जो परिणामन है वह ध्रौव्य उत्पाद और विनाशसे सम्बद्ध है वही द्रव्यका स्वभाव है। और अपने उस स्वभावमें सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत् है। [आशय यह है कि परिणामन ही द्रव्यका स्वभाव है और परिणामनका मतलब है प्रति समय द्रव्यमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका होना। अपने इस स्वभावमें द्रव्य सदा अवस्थित है। इस स्वभावको वह कभी भी नहीं छोड़ता, अतः उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त होने पर भी द्रव्य सदा सत् है]।

उत्पाद व्यय ध्रौव्यका परस्परमें अविनाभाव

ए भवो भंगविहीणो भंगो वा एत्थि संभवविहीणो ।

उत्पादो वि य भंगो ए विराा धोव्वेण अत्थेण ॥ [प्रव० २, ८]

विना व्ययके उत्पाद नहीं होता और विना उत्पादके व्यय नहीं होता । तथा ध्रौव्य पदार्थके विना उत्पाद और व्यय नहीं होते । [इस कथनको दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं—जो घड़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका नाश है क्योंकि एक पर्यायकी उत्पत्ति अपनी पूर्व पर्यायके नाशसे होती है । जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है; क्योंकि वर्तमान पर्यायका अभाव उत्तर पर्यायके उत्पाद स्वरूप होता है । तथा जो घड़ेका उत्पाद और मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही मिट्टीकी ध्रुवता है, क्योंकि पर्यायके विना द्रव्यकी स्थिति नहीं देखी जाती । और जो मिट्टीकी ध्रुवता है वही घड़ेका उत्पाद और पिण्डका विनाश है, क्योंकि द्रव्यकी स्थिरताके विना पर्याय नहीं हो सकती । अतः ये तीनों परस्परमें सम्बद्ध हैं ।

उत्पाद आदिका द्रव्यसे अभेद

उत्पादद्रुदिभंगा विज्जते पज्जएसु पज्जाया ।

दव्वं हिं संति गियदं तम्हा दव्वं हवदि सव्वं ॥ [प्रब० २, ६]

उत्पाद व्यय और ध्रौव्य पर्यायोंमें होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती है । इसलिये यह निश्चय है कि उत्पाद आदि सब द्रव्यरूप ही हैं ।

उत्पाद आदि में एक क्षणका भी भेद नहीं है—

समवेदं खलु दव्वं संभवद्रुदिगणाससरिणदट्टे हिं ।

एक्कम्मि चेव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ॥ [प्रब० २, १०]

द्रव्य एक ही समयमें उत्पाद व्यय और ध्रौव्य नामक भावोंसे एकमेक है । अतः वे तीनों द्रव्यस्वरूप ही हैं ।

उप्पत्तीव विणासो दव्वस्स य गत्थि अत्थि सव्भावो ।

विगमुत्पादधुवत्तं करेति तस्सेव पज्जाया ॥ [पञ्चा० ११]

द्रव्यका उत्पाद अथवा विनाश नहीं होता, वह तो सत्स्वरूप है । किन्तु उसीकी पर्याय उत्पाद व्यय ध्रौव्यको करती हैं । अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे द्रव्यमें उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु पर्यायकी दृष्टिसे हैं ।

द्रव्य और पर्याय में अभेद

पज्जयविजुदं दव्वं दव्वविजुत्ता य पज्जया गत्थि ।

दोएहं अणणभूदं भावं समणा परूविति ॥ [पञ्चा० १२]

पर्यायरहित द्रव्य नहीं है और द्रव्यरहित पर्याय नहीं है। अतः महाश्रमण सर्वज्ञदेव भावको द्रव्य और पर्यायसे अभिन्न कहते हैं।

द्रव्य और गुणमें अभेद

द्वेषण विष्णो ण गुणा गुणोहिं दव्वं विष्णो ण संभवदि ।

अर्वादि रित्तो भावो दव्वगुणाणं हवदि तम्हा ॥ [पञ्चा० १२]

द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता। अतः भाव द्रव्य और गुणसे अभिन्न होता है।

सत्ता और द्रव्यके अभेदमें युक्ति

ण हवदि जादि सद्व्वं अस्सुव्वं हवदि तं क्हं दव्वं ।

हवदि पुणो अरणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ [प्रव० २, १३]

यदि द्रव्य सत् नहीं है तो निश्चय ही असत् है। ऐसी स्थितिमें वह द्रव्य कैसे हो सकता है और कैसे सत्तासे भिन्न हो सकता है? इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्स्वरूप है।

पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण

पविभत्तपदेसत्तं पुषत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।

अरणत्तमतम्भावां ण तम्भवं होदि कधमेगं ॥ [प्रव० २, १४]

भेदके दो प्रकार हैं—पृथक्त्व और अन्यत्व। प्रदेशोंके अलग-अलग होनेको पृथक्त्व कहते हैं ऐसा धीर भगवानका उपदेश है। और प्रदेशभेद न होकर संज्ञा आदिके भिन्न होनेको अन्यत्व कहते हैं। सत्ता और द्रव्यमें प्रदेशभेद नहीं है इसलिये उनमें पृथक्त्व तो नहीं है किन्तु सत्ता और द्रव्यके नाम लक्षण आदि भिन्न हैं। तब वे सर्वथा एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनमें अतद्भाव है।

अतद्भाव का उदाहरण

सद्व्वं सच्च गुणो सच्चेव य पज्जओ त्ति वित्थारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतम्भावो ॥ [प्रव० २, १५]

सत् द्रव्य है, सत् गुण है, सत् पर्याय है। यह सत्ताका विस्तार है। और एक द्रव्यमें जो सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, न वह अन्य गुण

है और न पर्याय है। तथा जो द्रव्य, अन्यगुण और पर्याय है वह सत्ता नहीं है। इस प्रकार जो परस्परमें एकका दूसरेमें अभाव है, वही अतद्भाव है और यही अन्यत्वका कारण है। सारांश यह है कि सत्ता और द्रव्यमें प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु नामादिभेद है। अतः सत्ता द्रव्यसे अभिन्न भी है और सिन्न भी है।

सत्ता और द्रव्य में गुणगुणी भाव

जो खलु द्रव्यसहायो परिणामो सो गुणो सदावसिद्धो ।

सदवट्टिदं सहावे द्रव्ये त्ति जिणोवदेसो यं ॥ [प्रव० २, १७]

द्रव्यका स्वभावभूत जो परिणाम है वही सत्ता नामक गुण है (क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका नाम परिणाम है और उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त को सत् कहते हैं।) तथा अपने स्वभावमें अवस्थित द्रव्य ही सत् है ऐसा जिन भगवानका उपदेश है।

सप्तभंगो

सिय अत्थि गत्थि उभयं अव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं ।

दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ [पञ्चा० १४]

अपेक्षा भेदसे द्रव्य सात भंगरूप होता है—किसी अपेक्षा द्रव्य है १, किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं है २, किसी अपेक्षा द्रव्य है भी और नहीं भी है ३, किसी अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य है ४, किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति अवक्तव्य है ५, किसी अपेक्षा द्रव्य नास्ति अवक्तव्यरूप है ६, और किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यरूप है ७।

अत्थि त्ति गत्थि त्ति य हवदि अव्वत्तव्वमिदि पुणो दव्वं ।

पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्टमएणं वा ॥ [प्रव० २, २३]

द्रव्य किसी पर्यायसे अस्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे नास्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे अवक्तव्य रूप है, किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्तिरूप है इसी तरह किसी एक पर्यायसे शेष तीन भंगोंमेंसे एक एक भंगरूप है।

[द्रव्य अनन्त धर्मोंका एक अखण्ड पिण्ड है। और शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है। इसलिये वक्ता वस्तुके अनन्त धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह वस्तु सर्वथा उस एक धर्मस्वरूप ही है। अतः यह कहना होगा कि उस वस्तुमें विबुद्धि धर्म की मुख्यता और शेष धर्मोंकी गौणता है।

इमीलिये गौण धर्मोंका द्योतक 'स्यान्' शब्द समस्त वाक्योंके साथ गुण रूपसे सम्बद्ध रहता है। 'स्यान्' शब्दका अभिप्राय 'कथंचिन्' या किसी अपेक्षासे है। जब हम किसी वस्तुको 'सन्' कहते हैं तो उस वस्तुके स्वरूपकी अपेक्षासे ही उसे सन् कहते हैं। अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षासे विश्वकी प्रत्येक वस्तु 'असन्' है। अतः संसारमें जो कुछ 'है' वह किसी अपेक्षासे नहीं भी है। सर्वथा सन् या सर्वथा असन् कोई वस्तु नहीं है। इमी अपेक्षावादका सूचक 'स्यान्' शब्द है। जो प्रत्येक वाक्यके साथ प्रयुक्त किया जाता है। यथा—'स्यान् सन्' 'स्यान् असन्'।

वस्तुके इन दोनों धर्मोंको मिलानेसे तीसरा भंग 'स्यान् सन् स्यान् असन्' बनता है। यदि कोई उक्त दोनों धर्मोंको एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता ऐसी दशामें वस्तुको 'अवाच्य' कहा जाता है। इस तरह 'स्यान् सन्', 'स्यान् असन्', 'स्यान् सदसन्', स्यादवक्तव्य ये चार भंग सप्तभंगीके मूल हैं। इन्हींमेंसे चतुर्थभंग स्यादवक्तव्यके साथ क्रमशः पहलें दूमरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पांचवा, छठा और सातवा भंग बनता है। संक्षेपमें यह सात भंगोंका परिचय है।]

द्रव्य के भेद

द्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवजोगमओ ।

पोगलदव्वप्पमुहं अचेदरा हवदि अण्जोवं ॥ [प्रव० २, ३५]

द्रव्यके दो भेद हैं—जीवद्रव्य और अजीव द्रव्य। उनमेंसे जीवद्रव्य चेतन और उपयोगमय है। पुद्गल आदि पांच अचेतन द्रव्य अजीव हैं।

छै द्रव्यों के नाम

जीवा पाग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं ।

तच्चत्था इदि भण्णदा गाणगुणवज्जण्हि संजुत्ता ॥ [नि० ६]

जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छै मूलतत्त्व हैं। ये अपने अपने अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित होते हैं।

गुणोंके भेदसे ही द्रव्योंमें भेद है—

लिंणोहिं जेहिं दव्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं ।

ते तब्भावविमिट्ठा मुत्तामुत्ता गुणा शेया ॥ [प्रव० २, ३८]

जिन चिन्होंसे अर्थान् विशेष धर्मोंसे जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य

जाने जाते हैं उन्हें गुण समझना चाहिये । [उन गुणोंके कारण ही द्रव्योंमें यह जीव द्रव्य है और यह अजीव द्रव्य है इत्यादि भेद प्रकट होता है । वे गुण भी तद्भावसे विशिष्ट होनेके कारण मूर्त और अमूर्तके भेदसे दो प्रकारके हैं । [आशय यह है कि जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव है वह वह द्रव्य उस उस स्वभावसे विशिष्ट है । इसलिये मूर्त द्रव्य अपने मूर्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है और अमूर्त द्रव्य अपने अमूर्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है । ऐसा होनेसे गुणोंमें भी दो भेद हो जाते हैं] ।

मूर्त और अमूर्त गुणोंका लक्षण .

मुक्ता इंदियगेष्मता पोग्गलदव्वप्पगा अण्णेगविधा ।

दव्वारणममुक्ताणं गुणा अमुक्ता मुणेदव्वा ॥ [प्रव० २, ३६]

मूर्त गुण इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेके योग्य होते हैं, तथा वे पुद्गल द्रव्यमें ही पाये जाते हैं और अनेक प्रकारके होते हैं । और अमूर्तिक द्रव्योंके गुणोंको अमूर्त जानना चाहिए ।

मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण

वरणरसगंधपासा विज्जंतं पोग्गलस्स सुहुमादो ।

पुटवीपरियंतस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥ [प्रव० २, ४०]

सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूल पृथिवी स्कन्ध पर्यन्त समस्त पुद्गल द्रव्योंमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्शगुण रहते हैं । अनेक प्रकारका जो शब्द है वह भी पौद्गलिक है ।

अमूर्त द्रव्योंके गुण

आगासस्सवगाहो धम्मद्वस्स गमणहेटुत्तं ।

धम्मेदरदव्वस्स तु गुणो पुणो ठाणकारणादा ॥

कालस्स वट्टणा से गुणोवञ्चो गो त्ति अप्पणो भण्णिदो ।

खेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ [प्रव० २, ४१-४२]

एक साथ सब द्रव्योंके साधारण अवगाहमें कारण होना आकाशका विशेष गुण है । एक साथ सब चलनेवाले जीव और पुद्गलोंके गमनमें कारण होना धर्म द्रव्यका विशेष गुण है । एक साथ सब ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें कारण होना अधर्म द्रव्यका विशेष गुण है । समस्त द्रव्योंकी प्रत्येक पर्यायके प्रतिसमय होनेमें कारण होना काल

द्रव्यका विशेष गुण है। चैतन्य परिणाम आत्माका विशेष गुण है। इस तरह संक्षेपसे अमूर्तिक द्रव्योंके विशेष गुण जानने चाहिये।

पाँच अस्तिकाय

एदे छद्दव्वाणि य कालं मोक्षूण अस्थिकाय त्ति ।

गिदिट्टा जिणसमये काया हु बहुप्पदेसत्तं ॥ [निय० २, ४८]

इन छै द्रव्योंमेंसे कालद्रव्यको छोड़कर शेष पाँच द्रव्योंको जिनागममें अस्तिकाय कहा है। बहुप्रदेशी द्रव्यको काय कहते हैं।

प्रदेशका लक्षण

आगासमणुणिविट्ठं आगासपदेससणया भणियं ।

सव्वेसिं न अणूणं सक्किदि तं देदुमवगासं ॥ [प्रव० २, ४८]

जितने आकाशको पुद्गलका एक परमाणु रोकता है, उतनेको प्रदेश या आकाश प्रदेश कहा है। वह आकाश प्रदेश शेष पाँच द्रव्योंके प्रदेशोंको तथा अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे परिणत हुए अनन्त परमाणु स्कन्धोंको स्थान देनेमें समर्थ है।

बहुप्रदेशीय और एकप्रदेशीय द्रव्य

जध ते णभप्पदेसा तधप्पदेसा हव्वंति संसाणं ।

अपदेशी परमाणू तेण पदेसुब्भवां भण्णिदो ॥ [प्रव० २, ४९]

जैसे आकाशके प्रदेश हैं वैसे ही शेष द्रव्योंके भी प्रदेश हैं। किन्तु परमाणु अप्रदेशी है उसके दो आदि प्रदेश नहीं हैं। परन्तु प्रदेशकी उत्पत्ति परमाणुके द्वारा कही है अर्थात् जितने आकाशको एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं।

छै द्रव्योंकी प्रदेश संख्या

संखेजासखेजाणंतपदेस हव्वंति मुत्तस्स ।

धम्माधम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥

लोयायासे ताव इदरस्स अयांतयं हवे देहो ।

कालस्स ण कायत्तं एमपदेशो हवे जम्हा ॥ [निय० ३५-३६]

सूर्त पुद्गल द्रव्यके संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेश होते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, एक जीव और लोकाकाश, इनमेंसे प्रत्येकके

असंख्यात प्रदेश होते हैं। अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश होते हैं। काल द्रव्य काय नहीं है क्योंकि उसके एक ही प्रदेश होता है।

लोक-आलोकका भेद

समवायान्नो पञ्चशहं समञ्चो चि जिणुत्तमेहि पणणत्तं ।

सो चेव हवदि लोअो ततो अमिअो अलोअो खं ॥ [पञ्चा० ३]

पाँचों अस्तिकायोंके समवायको जिनेन्द्रदेवने 'समय' कहा है। वही पञ्चास्तिकायरूप समय लोक है। उस लोकसे बाहर सब ओर जो अनन्त आकाश है, वह अलोक है।

लोकका स्वरूप

पोगलजीवणिवद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालड्डो ।

वट्टदि आगासे जो लोगो सो सव्वकाले तु ॥ [प्रव० २, ३६]

आकाशमें जितना क्षेत्र पुद्गल और जीव द्रव्यसे सम्बद्ध है और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्यसे सम्पन्न है अर्थात् आकाशके जितने भागमें सब द्रव्य अनादि कालसे वर्तमान हैं, उसे अतीतमें लोकाकाश कहते थे, वर्तमानमें लोकाकाश कहते हैं और भविष्यमें भी वह लोकाकाश कहा जायेगा। अर्थात् लोक-आलोकका यह भेद अनादि और अनन्त है।

द्रव्योंका अवस्थान

लोगालोगेसु णभो धम्माधम्महेहि आददो लोगो ।

सेसे पडुच्च कालो जीवा पुण पोगला सेसा ॥ [प्रव० २, ४४]

आकाशद्रव्य लोक और अलोकमें व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोककाशमें व्याप्त है। काल द्रव्यकी समय आदि पर्याय जीव और पुद्गलके परिणामनसे प्रकट होती है इसलिए काल द्रव्य भी लोकमें ही व्याप्त हैं। शेष वचे जीव और पुद्गल, वे भी लोकमें ही रहते हैं।

अणणोण्णां पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स ।

मेलंता वि य णिच्चं सगं सहावं ण विजहंति ॥ [पञ्चा० ७]

छहों द्रव्य परस्पर एक दूसरेमें प्रविष्ट होते हुए और एक दूसरेको स्थान प्रदान करते हुए तथा सदा मिले जुले रहते हुए भी अपने स्वभावको नहीं छोड़ते।

सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य

जीवा पोगलकाया सह सक्रियया हर्षत ए य सेमा ।

पोगलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणा दु ॥ [पञ्चा० ६८]

जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बाह्यनिमित्तकी सहायतासे क्रियावान हैं। शेष द्रव्य क्रियावान नहीं है। जीव तो पुद्गलका निमित्त पाकर क्रियावान होते हैं, और पुद्गल द्रव्यकालद्रव्यका निमित्त पाकर क्रियावान होते हैं।

जीवके भेद

जीवा संमारस्था णिवादा चेदणप्पगा दुविहा ।

उवश्रोगलकयणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥ [पञ्चा० १०६]

जीव दो प्रकारके होते हैं—संसारी और मुक्त। दोनों ही प्रकारके जीव चैतन्यस्वरूप और उपयोग लक्षणवाले होते हैं। किन्तु उनमेंसे संसारी जीव देह सहित होते हैं और मुक्त जीव देह रहित होते हैं।

संसारी जीवके भेद

माणुस्सा दुवियप्या कम्ममहीभोगभूमिसंजादा ।

सत्तविहा शेरइया णादवा पुडविभेएण ॥

चउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउवभेदा ।

एदेमि वित्थारं लोयविभागे सुणादव्वं ॥ [निय० १६-१७]

चार गतियोंकी अपेक्षा संसारी जीवके चार भेद हैं—मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च और देव। मनुष्योंके दो भेद हैं—कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए और भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। सात पृथिवियाँ हैं—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, और महातमःप्रभा, इन सात पृथिवियोंमें नारकी जीव रहते हैं। अतः सात पृथिवियोंके भेदसे नारक जीवोंके सात भेद हैं। तिर्यञ्चोंके चौदह भेद हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, वादर एकेन्द्रियपर्याप्तक, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, दो इन्द्रिय पर्याप्तक, दो इन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक, चौइन्द्रिय पर्याप्तक, चौइन्द्रिय अपर्याप्तक, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक, असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक, संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक, संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक। देवोंके चार भेद हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी। लोक विभागमेंइनका विस्तार जानना चाहिये।

पुटवी य उदगमगणी वाउवण्णफदि जीवसंसिदा काया ।

देतिं खलु मोहबहुलं फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥ [पञ्चा० ११०]

जीव सहित पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकायके बहुतसे भेद हैं । और ये काय अपने आश्रित जीवोंको मोहसे भरपूर स्पर्श विषयको देती है । अर्थात् इन पाँचों कायवाले जीवोंके एक स्पर्शको विषय करनेकी शक्ति रहती है और मोहका प्रबल उदय होनेसे ये केवल कर्मफल चेतनाका ही अनुभवन करते हैं ।

तित्थावरतणुजोगा अणिलाणलकाइया य तेसु तसा ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एहंदिया शेया ॥ [पञ्चा० १११]

इनमेंसे पृथिवीकायिक जलकायिक और वनस्पतिकायिक जीव स्थावरकायके सम्बन्धसे स्थावर हैं । और अग्निकायिक तथा वायुकायिक जीव त्रस हैं; क्योंकि वे गतिशील हैं । सभी जीव मनसे रहित एकेन्द्रिय जानने ।

एदे जीवणिकाया पञ्चविहा पुटविकाइयादीया ।

मणपरिणामविरहिदा जीवा एणंदिया भणिया ॥ [पञ्चा० ११२]

ये पाँचों प्रकारके पृथिवीकायिक आदि जीवोंके समूह मनके विकल्पोंसे रहित है और इन्हें एकेन्द्रिय कहा है ।

एकेन्द्रियोंमें जीवन हे

अडेसु पवड्ढंता गन्भस्था माणुसा य मुच्छगया ।

जारिसया तारिसया जीवा एणंदिया शेया ॥ [पञ्चा० ११३]

अण्डोंमें बढ़ते हुए और गर्भमें स्थित जीवों तथा मूर्छित मनुष्योंकी जैसी दशा होती है वैसी ही दशा एकेन्द्रियोंकी जानना । अर्थात् जैसे अण्ड वगैरहकी बढ़ती देखकर उनमें जीवका अस्तित्व जानते हैं, वैसे ही एकेन्द्रियोंमें भी जानना ।

दो इन्द्रिय जीव

संबुक्क मादुवाहा संखा सिप्पी अपादगा य किमी ।

जाणंति रसं फासं जे ते बेइंदिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११४]

शंडुक, मातृवाह, शंख, सीप, बिना पैरके कृमि लट वगैरह जो जीव स्पर्श और रसको जानते हैं, वे दो इन्द्रिय वाले हैं ।

त्रोन्द्रिय जीव

जूगागुं भीमक्कणपिपीलियाषिच्छ्रियादिया कीडा ।

जाणति रसं फासं गंधं तेइन्दिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११५]

जू, कुम्भी, खटमल, चिऊंटी और विच्छु आदि कीट स्पर्श, रस और गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीव हैं ।

चौइन्द्रिय जीव

उइंस-मसय-मक्खि-मधुकर-भमरा पतंगमादीया ।

रूप रसं च गंधं फासं पुण ते वि जाणति ॥ [पञ्चा० ११६]

डांस, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, भंवरा और पतंग वगैरह स्पर्श रस, गन्ध, और रूपको जानते हैं । अतः वे चौइन्द्रिय जीव हैं ।

पञ्चेन्द्रिय जीव

सुर-णर-णारय-तिरिया वण्ण-रस-फास-गंध-पइण्ह ।

जलचर-थलचर-ग्वचरा वलिया पंचेन्दिया जीवा ॥ [पञ्चा० ११७]

देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यञ्च स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दको जानते हैं । तिर्यञ्च, जलचर, थलचर और नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं । ये सब जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । इनमेंसे कुछ जीव मनोबलसे सहित होते हैं अर्थात् देव मनुष्य और नारकी तो मन सहित ही होते हैं । किन्तु तिर्यञ्च मनसहित भी होते हैं और मन रहित भी होत हैं ।

गति अपेक्षा जीव भेद

वेवा चउण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमिया ।

तिरिया बहुपयारा खेरइया पुढविभेयगदा ॥ [पञ्चा० ११८]

देव चार प्रकारके होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—कर्मभूमिया और भोगभूमिया । तिर्यञ्च बहुत प्रकारके हाते हैं और नारकी सात पृथिवियोंकी अपेक्षा सात प्रकारके होते हैं ।

एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म

खीणे पुव्वणिबद्धे गदिणामे आउसे य ते वि खलु ।

पापुण्णति य अण्णां गदिमाउस्सं सलेस्सवसा ॥ [पञ्चा० ११९]

पूर्व भवमें बाँधे हुये गतिनाम कर्म और आयुकर्मके क्रमसे फल देकर क्षीण हो जानेपर वे ही जीव अपनी अपनी लेश्याके वश अन्य गति और अन्य आयुको प्राप्त करते हैं। अर्थात् एक गतिकी आयु पूरी हो जानेपर अपने परिणामोंके अनुसार अन्य गतिकी आयु बाँध, मरण करके उम गतिमें जन्म लेते हैं। और इसी तरह जन्म लेते और मरते रहते हैं।

उपसंहार

एदे जीवणिकाया देहपवीचारमस्सिदा भणिदा ।

देहविहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वा य ॥ [पञ्चा० १२०]

ये सब जीव देह भोगसे सहित कहें हैं। जो शरीरसे रहित हैं वे सिद्ध जीव हैं। संसारी जीवोंके दो भेद हैं—भव्य और अभव्य। [जिन संसारी जीवोंमें अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी शक्ति है वे भव्य कहे जाते हैं। और जिनमें ऐसी शक्ति नहीं है वे अभव्य कहे जाते हैं]

ए हि इंदियाणि जीवा काया पुण क्खप्पयार पणत्ता ।

जं हव्वदि तेसु णाणं जीवो त्ति य तं परुवन्ति ॥ [पञ्चा० १२१]

इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं। छै प्रकारके जो पृथिवी आदि काय कहे हैं वे भी जीव नहीं हैं। किन्तु उन इन्द्रिय और शरीरोंमें जो ज्ञानवान है उसीको जीव कहते हैं।

जाणदि पस्सदि सव्वं इच्छदि सुक्खं विमेदि दुक्खादो ।

कुव्वदि हिदमहिदं वा भुज्जदि जीवो फलं तेसि ॥ [पञ्चा० १२२]

जीव सबको जानता और देखता है, सुखको चाहता है, दुःखसे डरता है, हित अथवा अहितको करता है और उनके फलको भोगता है।

१ जीव द्रव्य

संसारी जीव का स्वरूप

जीवो त्ति हव्वदि चेदा उपश्रोगविसेसिदो पडू कत्ता ।

भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ॥ [पञ्चा० २७]

वह जाव है, चेतयिता है, उपयोगसे विशिष्ट है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, अपने शरीर प्रमाण है, मूर्तिक नहीं है, किन्तु कर्मोंसे संयुक्त है।

जीवत्व गुण का व्याख्यान

पाशोहि चतुर्हि जीवादि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्वं ।

सो जीवो पाणा पुण बलभिंदियमाउ उस्सासो ॥ [पञ्चा० ३०]

जो चार प्राणोंके द्वारा वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जीवेगा और पूर्वकालमें जिया था वह जीव है। वे चार प्राण हैं—बल (कायबल, वचन बल, मनो बल), इन्द्रिय (स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र), आयु और आसोच्छ्वास।

जीवों का स्वाभाविक प्रमाण और भेद

अगुरुलहुगा अणंता तेहि अणंतेहि परिणदा सव्वे ।

देसंहि असंखादा सियलोगं सव्वमावणणा ॥ [पञ्चा० ३१]

केचिन्नु अणावणणा मिच्छादंसणकसायजांगजुदा ।

विजुदा य तेहि बहुगा सिद्धा संसारिणां जीवा ॥ [पञ्चा० ३२]

अनन्त अगुरुलघु गुण हैं। वे अनन्त अगुरुलघु गुण सब जीवोंमें पाये जाते हैं। यों तो प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है अर्थात् लोकाकारके बराबर है किन्तु उनमेंसे कुछ जीव (जो केवली अवस्थामें समुद्रात करते हैं) कुछ समयके लिये लोकके बराबर हो जाते हैं। और जो वैसे नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण ही रहते हैं। उन जीवोंमेंसे जो जीव अनादि कालसे मिथ्यादर्शन कषाय और योगोंसे युक्त हैं वे संसारी हैं और जो उनसे छूटकर शुद्ध हो गये हैं वे मुक्त जीव हैं। संसारी जीव भी बहुत हैं और मुक्त जीव भी बहुत हैं।

जीव शरीर के बराबर है

जह पउमरायरयणं खित्तं खीरे पभासयदि खीरं ।

तह देही देहत्थो सदेहमेत्तं पभासयदि ॥ [पञ्चा० ३३]

जैसे दूधमें रखा हुआ पद्मराग नामक रत्न दूधको अपनी प्रभासे प्रकाशित करता है। वैसे ही यह जीव शरीरमें रहता हुआ अपने शरीर मात्रको प्रकाशित करता है। [आशय यह है कि पद्मराग मणिको यदि दूधसे भरे हुये बरतनमें डाल दिया जाये तो दूध उसके रंगका होकर उसकी प्रभासे व्याप्त हो जाता है। अग्निके संयोगसे यदि दूध उबलकर बढ़ता है तो उसके साथ ही मणिकी कान्ति भी फैलती है और जब दूध

घट जाता है तब मणिकी प्रभा भी संकुचित हो जाती है। इसी प्रकार मंसारी जीव भी प्राप्त शरीरमें व्याप्त होकर रहता है। शरीरके बढ़ने पर जीवके प्रदेश भी फैल जाते हैं और शरीरके घटने पर जीवके प्रदेश संकुचित हो जाते हैं]

जीव चेतयिता है

कम्माणं फलमेक्यो एको कज्जं तु णाणमथ एको ।

चेदयदि जीवरासी चेदगभावेण तिविहेण ॥ [पञ्चा० ३८]

एक जीव राशि कर्मोंके फलका अनुभवन करती है। एक जीव राशि कर्मका अनुभवन करती है, और एक जीव राशि शुद्ध ज्ञानका अनुभवन करती है। इस तरह कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना रूप तीन चैतन्य भावोंसे युक्त जीवराशिका अनुभवन जुदा जुदा होता है।

सव्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कज्जजुदं ।

पाणित्तमदिक्कंता णाणं विदंत ते जीवा ॥ [पञ्चा० ३९]

जितने स्थावरकायिक जीव हैं वे सब कर्मफल चेतनाका अनुभवन करते हैं। त्रस जीव कर्मचेतनाका अनुभवन करते हैं। और जो दस प्रकारके प्राणों द्वारा जीवन मरणरूप प्राणपनेको लौंघ गये हैं, वे जीवन्मुक्त जीव ज्ञान चेतनाका अनुभवन करते हैं। [चेतनाका मतलब है अनुभवन करना। चेतनाके तीन भेद हैं—कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। स्थावर जीवोंकी चेतना कर्मफल चेतना है; क्योंकि कर्मोंके उदयसे उनकी चैतन्य शक्ति एकदम हीन हो गई है। इसलिये वे कुछ भी कार्य करनेमें असमर्थ हुए केवल सुख दुःख रूप कर्मफलको भोगते हैं। त्रस जीवोंके कर्म चेतना है, क्योंकि यद्यपि त्रस जीव भी कर्मोंके उदयके कारण चैतन्य शक्तिसे अत्यन्त हीन होते हैं फिर भी वीर्यान्तराय कर्मका कुछ विशेष क्षयोपशम होनेसे वे कर्मफलको भोगनेके लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न भी करते हैं। और घातिया कर्म नष्ट हो जानेसे जिन जीवोंके चैतन्यशक्ति विकसित हो जाती है वे ज्ञानचेतनासे युक्त होते हैं]।

उपयोग गुणका व्याख्यान

अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाणदंसणं भणित्थो ।

सोवि सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ [प्रब० २, ६३]

जीव उपयोग स्वरूप है। और उपयोग जानने देखने रूप कहा है।
जीवका वह उपयोग भी शुभ और अशुभ होता है।

शुभोपयोग और अशुभोपयोगका कार्य

उवन्नोगो यदि हि सुहो पुराणं जीवस्स संचयं जादि ।

असुहो वा तध पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ [प्रव० २, ६४]

यदि उपयोग शुभ होता है तो जीवके पुण्य कर्मका सञ्चय होता है।
और यदि उपयोग अशुभ होता है तो पाप कर्मका सञ्चय होता है। किन्तु
शुभोपयोग और अशुभोपयोगका अभाव होनेपर न पुण्य कर्मका सञ्चय
होता है और न पाप कर्मका सञ्चय होता है।

शुभोपयोग का स्वरूप

जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तहेव अणगारे ।

जीवसु माणुक्कंपो उवन्नोगो सो सुहो तस्स ॥ [प्रव० २, ६५]

जो जिनेन्द्रदेवके स्वरूपको जानता है, सिद्ध परमेष्ठीका दर्शन करता
है उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय और साधुओंके स्वरूपको जानता देखता
है, तथा समस्त प्राणियोंमें दया भाव रखता है उस जीवके शुभ उपयोग
होता है।

अशुभोपयोग का स्वरूप

विसयकसाअंगोगादो दुस्सुविदुच्चित्तदुट्ठगोत्तुजुदो ।

उमो उम्मगपरो उवन्नोगो जस्स सो असुहो ॥ [प्रव० २, ६६]

जिसका उपयोग विषय और कषायमें खूब अनुरक्त है, मिथ्या शास्त्रों
को सुननेमें दुर्ध्यानमें और कुसंगतिमें रमा हुआ है, उग्र है और कुमार्गमें
तत्पर है, उसका उपयोग अशुभ है।

कर्तृत्व गुणका व्याख्यान

जीव के संभव

उदयेण उवसमेण य खयेण दुहिं मिसिदेहिं परिणामे ।

जुत्ता ते जीवगुणां बहुसु य अत्थैसु विच्छएणा । [पञ्चा० ५६]

क्रमशः कर्मोंके उद्देश्यसे, कर्मोंके उपशमसे, कर्मोंके क्षयसे, कर्मोंके क्षय
और उपशमके मेलसे तथा स्वभावसे ही जो औद्देशिक औपशमिक, क्षायिक,

ज्ञायोपशमिक और परिणामिक भाव होते हैं वे जीवके भाव हैं । उन भावोंके बहुतसे भेद हैं ।

जीव औद्दयिक आदि भावों का कर्ता है

कम्मं वेदयमाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं ।

सो तेण तस्स कत्ता हवदि त्ति य सासणे पट्ठिदं ॥ [पञ्चा० ५७]

कर्मका अनुभव करता हुआ जीव जैसे भावको करता है वह उसके द्वारा उस भावका कर्ता होता है, ऐसा जैन शासनमें कहा है ।

द्रव्य कर्म औद्दयिक आदि भावों का कर्ता है

कम्मण विणा उदयं जीवस्स ण विज्जे उवसमं वा ।

खड्दयं खओवसमियं तम्हा भावं तु कम्मकदं ॥ [पञ्चा० ५८]

कर्मके बिना जीवके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम नहीं होता । इसलिये औद्दयिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक भाव कर्म-कृत हैं । [आशय यह है कि उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारों द्रव्यकर्मोंकी ही अवस्थाएँ हैं । अतः कर्मोंके उदय आदिसे उत्पन्न हुए जीवके भावोंका कर्ता द्रव्यकर्म भी ठहरता है ।]

शङ्का

भावो जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता ।

ए कुण्दि अत्ता किञ्चि वि मुत्ता अरण्णं समं भावं ॥ [पञ्चा० ५९]

यदि जीवके औद्दयिक आदि भाव कर्मकृत हैं तो जीव उनका कर्ता कैसे हो सकता है ? जीव तो अपने भावोंको छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं करता । [शङ्काकारका कहना है कि यदि द्रव्य कर्मको औद्दयिक आदि भावोंका कर्ता माना जायगा तो जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता । तब प्रश्न होता है कि जीव किसका कर्ता है । क्योंकि जीवको अकर्ता माननेसे तो संसारका ही अभाव हो जायेगा । अतः यही कहा जायगा कि जीव द्रव्य कर्मोंका कर्ता है । किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जीव तो अपने भावोंको छोड़कर और कुछ भी नहीं करता । तब वह द्रव्य-कर्मोंका कर्ता कैसे हो सकता है ?]

समाधान

भावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुण भावकारणं हवदि ।

ए तु तेसि खलु कत्ता ण विणा भूदा तु कत्तारं ॥ [पञ्चा० ६०]

औद्यिक आदि भाव कर्मके निमित्तसे होते हैं; और कर्म भावके निमित्तसे होता है। किन्तु न तो जीवके भावोंका कर्ता कर्म है और न कर्मोंका कर्ता जीवके भाव हैं। परन्तु वे दोनों कर्ताके बिना भी नहीं हुए। [अतः वास्तवमें जीवके भावोंका कर्ता जीव है और कर्मके भावोंका कर्ता कर्म है।]

कुर्व्वं सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स ।

ए हि पोग्गलकम्माणां इदि जिणवयरां सुणेयव्वं ॥ [पञ्चा० ६१]

अपने भावोंको करता हुआ जीव अपने भावका कर्ता है, पुद्गल कर्मोंका कर्ता नहीं है। ऐसा जिन भगवानका कथन जानना चाहिये।

कम्मं पि सगं कुव्वदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणां ।

जीवो वि य तारिसत्थो कम्मसहावेण भावेण ॥ [पञ्चा० ६२]

कर्म भी अपने स्वभावसे यथार्थमें अपने स्वरूपको करता है। जीव भी कर्मरूप रागादि भावोंसे स्वयं ही अपना कर्ता है।

शंका

कम्मं कम्मं कुव्वदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणां ।

किध तस्स फलं भुंजदि अप्पा कम्मं च देदि फलं ॥ [पञ्चा० ६३]

यदि कर्म कर्मको करता है और आत्मा अपने स्वरूपको करता है तो उस कर्मका फल आत्मा कैसे भोगता है, और कर्म कैसे उसे फल देता है ?

समाधान

ओगाढगाढणिच्चिदो पोग्गलकायेहि सव्वदो लोगो ।

सुहुमेहिं वादरेहिं य रांताणांतेहिं विविहेहिं ॥ [पञ्चा० ६४]

यह लोक सब जगह अनेक प्रकारके अनन्तानन्त सूक्ष्म और स्थूल पुद्गलस्कन्धोंसे ठसाठस भरा हुआ है।

अत्ता कुणदि सहावं तत्थ गदा पोग्गला सहावेहिं ।

गच्छंति कम्मभावं अण्णोण्णागाहमवगाढा ॥ [पञ्चा० ६५]

जीव अपने रागादिरूप भावोंको करता है। जब जहाँ वह इन भावोंको करता है, उन भावोंका निमित्त पाकर उसी समय वहीं स्थित पुद्गल जीवके प्रदेशोंमें परस्पर एकत्र अवगाह रूपसे दूध पानीकी तरह मिलकर कर्मरूप हो जाते हैं।

जह पोमगलदव्वायां बहुप्पयारेहिं खंधणिव्वत्ती ।

अकदा परेहिं दिट्ठा तह कम्मायां वियाणाहि ॥ [पञ्चा० ६६]

जैसे दूसरोंके द्वारा किये बिना अनेक प्रकारसे पुद्गल द्रव्योंके स्कन्धों की रचना देखी जाती है, उसी तरह कर्मोंकी भी जानना । अर्थात् जैसे सूर्य की किरणोंके निमित्तसे आकाशमें सन्ध्या, इन्द्रधनुष आदि की रचना बिना किसी कर्ताके स्वयं ही हो जाती है वैसे ही जीवके अशुद्ध भावोंके निमित्तसे पुद्गल स्कन्ध स्वयं ही कर्मरूप हो जाते हैं ।

जीवा पोमगलकाया अरण्णेणारागाढगहणपडिबद्धा ।

काले विजुज्जमाणा सुहुदुक्खं दिति भुंजति ॥ [पञ्चा० ६७]

कर्मरूप होनेपर जीव और पुद्गल स्कन्ध परस्परमें अत्यन्त सघन रूपसे बद्ध होकर रहते हैं । उदयकाल आनेपर जब वे जुड़े होने लगते हैं तो पुद्गल कर्म सुख दुःख देते हैं और जीव उनको भोगता है ।

कर्तृत्व और भोक्तृत्वके वर्णनका उपसंहार

तम्हा कम्मं कत्ता भावेण हि संजुदोध जीवस्म ।

भोक्ता तु हर्वादि जीवो चेदगभावेण कम्मफलं ॥ [पञ्चा० ६८]

अतः जीवके भावोंसे संयुक्त हुआ कर्म कर्ता है । और जीव चेतनात्मक भावसे कर्मफलका भोक्ता है । [सारांश यह है कि निश्चय नयसे कर्म अपना कर्ता है और व्यवहारनयसे जीवके भावोंका कर्ता है । जीव भी निश्चयनयसे अपने भावका कर्ता है और व्यवहार नयसे कर्मोंका कर्ता है । किन्तु जैसे कर्म दोनों नयोंसे कर्ता है, वैसे एक भी नयसे भोक्ता नहीं है; क्योंकि जड़ होनेसे उसमें अनुभव करनेवाली चैतन्यशक्तिका अभाव है । अतः चेतन होनेसे केवल जीव ही कर्मफलका भोक्ता है ।]

जीवके प्रभुत्वगुणका कथन

एवं कत्ता भोक्ता होज्जं अप्पा सगेहि कम्मेहि ।

हिंदिदि पारमपारं संसारं मोहसंछरण्णो ॥ [पञ्चा० ६९]

इस प्रकार यह जीव अपने कर्मोंके द्वारा कर्ता भोक्ता होता हुआ, मोहमें डूबकर सान्त अथवा अनन्त संसारमें भ्रमण करता है ।

उवमंतखीणमोहो मग्गं जिणभासिदेण समुवगदो ।

णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि धीरो ॥ [पञ्चा० ७०]

वही धीरात्मा जीव जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मार्गको अपना कर, मोहनीयकर्मका उपशम अथवा क्षय करके, सम्यग्ज्ञानका अनुसरण करनेवाले मार्गपर चलता हुआ मोक्षपुरी को जाता है ।

२ पुद्गल द्रव्य

पुद्गलके भेद

अणुग्वंधावियप्पेण तु पोगलदव्वं हवेइ दुवियप्पं ।

गंधा तु ल्पय्यारा परमाणु चैव दुवियप्पो ॥ [निय० २०]

परमाणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गलद्रव्यके दो भेद हैं । उनमेंसे स्कन्धके छे भेद हैं, और परमाणुके दो भेद हैं ।

स्कन्धके भेद

अइथूलथूल थूलं थूलं सुहुमं च सुहुमथूलं च ।

सुहुमं अइसुहुमं इदि धरादियं होदि ल्पभेयं ॥

भूपव्वदमादीया भण्णिदा अइथूलथूलमिदि गंधा ।

थूला इदि विण्णोया सप्पीजलतेलमादीया ॥

छायातवमादीया थूलेदरगंधमिदि वियाणाहि ।

सुहुम थूलोदि भण्णिदा गंधा चउरक्खविसया य ॥

सुहुमा हव्वंति गंधा पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो ।

तव्विवरोया गंधा अइसुहुमा इदि परव्वंति ॥ [निय० २१-२४]

स्कन्धके छे भेद हैं—अति स्थूलस्थूल, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म । जो पुद्गल स्कन्ध दो खण्ड होनेपर अपने आप नहीं मिल सकता, जैसे पृथ्वी पहाड़ वगैरह, उसे अतिस्थूलस्थूल कहते हैं । जो पुद्गल स्कन्ध खण्ड-खण्ड होकर पुनः मिल जाते हैं, जैसे घी, पानी, तेल वगैरह, उन्हें स्थूल कहते हैं । जो देखनेमें तो स्थूल हों किन्तु जिनको पकड़ा न जा सके और न जिनका छेदन भेदन किया जा सके, जैसे छाया धूम वगैरह, उन्हें स्थूल सूक्ष्म कहते हैं । जो स्कन्ध हों तो सूक्ष्म, परन्तु स्थूलसे प्रतीत होते हों, जैसे चक्षुको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषय स्पर्श, रस, गन्ध वगैरह, उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं । कर्मरूप होनेके योग्य कार्मण वर्गणारूप स्कन्धोंको सूक्ष्म कहते हैं । और जो स्कन्ध कार्मण वर्गणासे भी सूक्ष्म होते हैं उन्हें सूक्ष्मसूक्ष्म कहते हैं ।

दूसरे प्रकारसे पुद्गलके भेद

खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा य हांति परमाणू ।

इदि ते चतुर्विधयप्पा पुग्गलकाया मुणेयव्वा ॥ [पञ्चा० ७४]

स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश और परमाणु, इस प्रकार ये पुद्गल द्रव्यके चार भेद जानता ।

स्कन्ध आदिका लक्षण

खंधं मयलसमात्थं तस्स दु अद्धं भणंति देसां ति ।

अद्धद्धं च पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥ [पञ्चा० ७५]

जां सब कार्य करनेमें समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आधे भागको स्कन्धदेश कहते हैं । उस आधेके भी आधे भागको स्कन्धप्रदेश कहते हैं । और जिसका दूसरा भाग न हो सके उसको परमाणु कहते हैं ।

परमाणु के दो भेद

धादुच्चउक्कस्स पुग्गो जं हेऊ कारणं ति तं रोअो ।

खंधाणं अवसाणं णादव्वो कज्जपरमाणू ॥ [निय० २५]

परमाणु दो प्रकारके होते हैं—एक कारण परमाणु और एक कार्य-परमाणु । जो परमाणु पृथ्वी, जल, आग और हवाका कारण है अर्थात् जिन परमाणुओंसे ये चारों बनते हैं वे ते. कारणपरमाणु हैं । और स्कन्धों का जो अन्त है अर्थात् स्कन्धोंके टूटते टूटते अन्तमें जो अविभागी द्रव्य हो जाता है वह कार्यरूप परमाणु है ।

परमाणुका स्वरूप

अत्तादि अत्तमज्झं अत्तंतं रोव ईदिण गेज्झं ।

अविभागी जं दव्वं परमाणू तं विअग्गाहि ॥ [निय० २६]

जो स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अन्त रूप है, अर्थात् जिसमें आदि, मध्य और अन्तका भेद नहीं है, तथा जो दन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य नहीं है; ऐसा जो अविभागी (जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता) द्रव्य है, उसे परमाणु जानो ।

णिच्चो णाणवकासो ण मावकासो पदेसदो भेत्ता ।

खंधाणं पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाणं ॥ [पञ्चा० ८०]

परमाणु नित्य है, अवकाश देनेमें असमर्थ भी नहीं है और समर्थ भी नहीं है, प्रदेशकी अपेक्षा स्कन्धोंका भेदक है और स्कन्धोंका बनाने वाला भी है तथा कालकी संख्याका भी विभाग करनेवाला है। [आशय यह है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारोंका भेदक परमाणु ही है। सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य परमाणु है, परमाणुके द्वारा ही स्कन्धोंमें द्रव्योंकी संख्या गिनी जाती है कि अमुक स्कन्ध कितने प्रदेशवाला है। सबसे छोटा क्षेत्र आकाशका एक प्रदेश है। प्रदेशका विभाग भी परमाणुके द्वारा ही किया जाता है; क्योंकि एक परमाणु आकाशके जितने भागको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। कालका सबसे छोटा अंश समय है। इसका भेदक भी परमाणु ही है; क्योंकि आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु मन्दगतिसे चलता हुआ अनन्तरवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुंचता है उसे समय कहते हैं। भावका सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। इसका भेदक भी परमाणु ही है क्योंकि परमाणुमें रहनेवाले रूप रस गन्ध वगैरहके जघन्य आदि अंशोंके विभागके द्वारा ही उसकी प्रतीति होती है]

परमाणु में गुण

एयरसवर्णगंधं दो फासं सद्कारणमसहं ।

स्वधंतरिदं दध्वं परमाणुं तं वियाणाह ॥ [पञ्चा० ८१]

जिसमें एक रस, एक रूप, एक गंध और दो स्पर्श गुण रहते हैं, जो शब्दकी उत्पत्तिमें कारण है, किन्तु स्वयं शब्दरूप नहीं है, तथा स्कन्धरूपमें परिणामन करके भी जो स्कन्धसे जुदा है, उस द्रव्यको परमाणु जानो। [एक परमाणुमें पाँच रसोंमेंसे कोई एक रस, पाँच रूपोंमेंसे कोई एक रूप; दो प्रकारकी गन्धोंमेंसे कोई एक गन्ध और शीत, उष्ण तथा स्निग्ध रूक्ष इन दो युगल स्पर्शोंमेंसे एक एक स्पर्श गुण रहता है] ।

पुद्गलकी पर्याय

अणुगिरावेकत्रो जो परिणामो सो सहावपञ्जाओ ।

स्वधसरूषेण पुणो परिणामो सो विहावपञ्जाओ ॥ [निय० २८]

अन्यकी अपेक्षाके बिना जो परिणाम होता है वह स्वभाव पर्याय है। और स्कन्धरूपसे जो परिणाम होता है वह विभाव पर्याय है। अर्थात् परमाणु पुद्गलकी शुद्ध पर्याय है और स्कन्ध अशुद्ध पर्याय है।

पोग्मालदव्वं उच्चइ परमाणू णिच्छएण इदरेण ।

पोग्मालदव्वो त्ति पुणो ववदेसो होदि खंधस्स ॥ [निय० २६]

निश्चय नयसे परमाणुको पुद्रल द्रव्य कहते हैं, और व्यवहार नयसे स्कन्धको भी पुद्रलद्रव्य कहते हैं ।

परमाणु किस प्रकार स्कन्धरूप होता है

अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसहो जो ।

णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ [प्रव० २, ७१]

दो आदि प्रदेशोंके न होनेसे परमाणु अप्रदेशी है और एक प्रदेश-वाला होनेसे प्रदेशमात्र है । तथा परमाणु स्वयं शब्दरूप नहीं है क्योंकि शब्द अनेक परमाणुओंके मेलसे बनता है । परमाणु स्निग्ध गुणवाला भी होता है और रूक्ष गुणवाला भी होता है । स्निग्ध और रूक्ष गुणोंके कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुके साथ मिलकर दो तीन आदि प्रदेशवाला हो जाता है ।

परमाणुमें स्निग्ध और रूक्ष गुणोंका परिणाम

एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।

परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ [प्रव० २, ७२]

परमाणु परिणामनशील है । परिणामनशील होनेसे परमाणुमें स्थित स्निग्ध और रूक्ष गुण एक अविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर एक एक बढ़ते हुए अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदवाले तक हो जाते हैं ।

किस प्रकारके स्निग्ध रूक्ष गुण बंधमें कारण होते हैं ?

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा ।

समदो दुराधिगा जदि बज्झति हि आदिपरिहीणा ॥ [प्रव० २, ७३]

स्निग्ध गुणवाले अथवा रूक्ष गुणवाले, दो चार छै आदि समान संख्यक गुणवाले अथवा तीन पाँच सात आदि विषम संख्यक गुणवाले परमाणुओंमेंसे यदि एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक हों तो दोनोंका परस्परमें बन्ध होता है; किन्तु एक गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता । [सारांश यह है कि बंधनेवाले दो परमाणुअ के स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों में यदि दोका अन्तर होता है अर्थात् एकमें दो और दूसरेमें चार या एकमें तीन और दूसरेमें पाँच स्निग्ध या रूक्ष गुण हों तो दोनोंका परस्परमें

बन्ध होता है, किन्तु जिस परमाणुमें एक ही स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है उसका किसी भी परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता] ।

उक्त कथन का स्पष्टीकरण

गिद्धत्तरोण दुगुणो चदुगुणगिद्धेण बंधमणुहवदि ।

लुक्खेण वा तिगुणियो अणु वज्झदि पंचगुणजुत्तो ॥ [प्रव० २, ७४]

दो गुण स्निग्धवाले परमाणुका चार गुण स्निग्धवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है । अथवा तीन गुण रूक्षवाले परमाणुका पाँच गुणवाले परमाणुके साथ बन्ध होता है ।

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंटाणा ।

पुटविज्जलंतउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ [प्रव० २, ७५]

दो प्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि स्कन्ध और अपने अपने आकारको लिये हुए सूक्ष्म अथवा वादर पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने ही स्निग्ध और रूक्ष गुणके परिणामसे उत्पन्न होते हैं ।

आत्मा और कर्मके बन्धमें आशङ्का

सुत्तो रूवादिगुणो वज्झदि फालेहिं अणमणरोहिं ।

तद्विवरीदो अण्णा वज्झदि किध पोगलं कम्मं ॥ [प्रव० २, ८१]

रूप आदि गुण वाला भूतिक पुद्गल स्निग्ध और रूक्षरूप स्पर्शगुणके निमित्तसे परस्परमें बन्धको प्राप्त होता है । किन्तु आत्मा तो रूप आदि गुण वाला नहीं, तब वह पुद्गल कर्मों को कैसे बाँधता है अर्थात् आत्माके साथ पुद्गल कर्मोंका बन्ध कैसे होता है ?

समाधान

रूवादिणहिं ररिदो पेच्छदि जाणादि रुवमादीणि ।

दव्वारिण गुणे य बंधा तह बंधो तेण जाणीहिं ॥ [प्रव० २, ८२]

आत्मा रूप स्पर्श आदि गुणवाला नहीं है, किन्तु जैसे वह रूप आदि गुणवाले पुद्गल द्रव्योंको और उनके रूप आदि गुणोंको जानता देखता है, वैसेही पुद्गल द्रव्यके साथ आत्माका बन्ध जानो ।

उक्त कथनका स्पष्टीकरण

उवआंगमओ जीवो मुज्झदि रज्जादि वा पटुस्सेदि ।

पण्णा विवधे विमये जो हि पुणो तेहि संवधो ॥ [प्रव० २, ८३]

जीव उपयोगमय है अर्थात् जानने देखनेवाला है। वह जो अनेक प्रकारके इष्ट अनिष्ट विषयोंको पाकर मोह करता है अथवा राग करता है अथवा द्वेष करता है, वह उन राग द्वेष और मोहके द्वारा बन्धको प्राप्त होता है।

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये ।

रज्जदि तेणेव पुणो बज्जदि कम्म त्ति उवदेसो ॥ [प्रव० २, ८४]

जीव प्राप्त हुए विषयोंको जिस राग द्वेष या मोहरूप भावसे जानता देखता है उसी भावसे रंग जाता है और फिर उसी भावसे पौद्गलिक कर्म बन्धते हैं। अर्थात् जीवका यह उपराग ही स्निग्ध रूक्ष गुणका स्थानापन्न होकर पौद्गलिक कर्मोंके बन्धमें निमित्त होता है।

पुद्गल, जीव और उभयबन्धका स्वरूप

पासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।

अरणोयणस्सवगाहो पुद्गलजीवप्पगो भग्गिदो ॥ [प्रव० २, ८५]

स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श गुणके द्वारा पुद्गलोंका परस्पर बन्ध होता है और राग आदिके द्वारा जीवका बन्ध होता है। तथा परस्परमें परिणामोंका निमित्त पाकर जीव और कर्म पुद्गलोंका परस्परमें एक क्षेत्रावगाह रूप बन्ध कहा गया है।

सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया ।

पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठंति हि जंति वज्जति ॥ [प्रव० २, ८६]

यह आत्मा लोकाकाशके वरावर असंख्यात प्रदेशी होनेसे सप्रदेशी है। उन प्रदेशोंमें कर्मवर्गणा रूप पुद्गलस्कन्ध कायवर्गणा, मनोवर्गणा, अथवा वचनवर्गणाके आलम्बनसे होने वाले प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके अनुसार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही ठहर जाते हैं और बंध जाते हैं। उसके बाद उदयकाल आने पर अपना फल देकर चले जाते हैं।

३ धर्मद्रव्य

धम्मस्तिक्कायमरसं अवरणगंधं असहम्पासं ।

लोगोगाढं पुट्टं पिहुलमंसंखादियपदेसं ॥ [पञ्चा० ८३]

धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य पांच प्रकारके रसोंसे रहित है, पांच प्रकारके वर्ण और दो प्रकारकी गन्धसे रहित है, शब्दरूप नहीं है, आठ

प्रकारके स्पर्शसे रहित है, समस्त लोकमें व्याप्त है, अखण्ड प्रदेशवाला है, स्वभावसे ही सब जगह फैला हुआ है और असंख्यात प्रदेशी है।

अगुरुगलघुगेहिं सया तेहिं अण्णंतेहिं परिणदं णिच्चं ।

गादिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं मयमकज्जं ॥ [पञ्चा० ८४]

वह धर्मद्रव्य सदा उन अगुरुलघु नामके अनन्त गुणोंके द्वारा परिणमन-शील होते हुए भी नित्य हैं। और गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमनमें निमित्त कारण हैं। किन्तु स्वयं किसीका कार्य नहीं है अर्थात् धर्मद्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ है।

उदयं जह मच्छ्राणं गमणाणुगहयरं हवदि लोए ।

तह जीवपोगलाणं धम्मं दव्वं वियाणाहि ॥ [पञ्चा० ८५]

जैसे लोकमें जल मङ्गलियोंके गमनमें निमित्तमात्र होता है। वैसे ही जीव और पुद्गलोंके गमनमें सहायक धर्मद्रव्यको जानो। [आशय यह है धर्मद्रव्य स्वयं नहीं चलता है और न जीव पुद्गलोंको चलनेकी प्रेरणा करता है। किन्तु यदि जीव और पुद्गल चलते हैं तो निमित्त मात्र सहायक हो जाता है।

४ अधर्म द्रव्य

जह हवदि धम्मदव्वं तह तं जाणेह दव्वमधमक्खं ।

ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीव ॥ [पञ्चा० ८६]

जैसा धर्मद्रव्य है वैसे ही अधर्म नामके द्रव्यको जानो। इतना विशेष है कि यह ठहरते हुए जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें पृथ्वीकी तरह निमित्त कारण है अर्थात् जैसे पृथिवी स्वयं ही ठहरी हुई है और किसीको बलपूर्वक नहीं ठहराती। किन्तु स्वयं ही ठहरते हुए घोड़े बगैरहको ठहरने में सहायक होती है। वैसे ही अधर्मद्रव्य भी किसीको बलपूर्वक नहीं ठहराता। किन्तु जो चलते चलते स्वयं ठहरता है उसमें सहायक मात्र होता है।

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के सद्भाव में युक्ति

जादो अलोगलीगो जेसिं सम्भाददो य गमणटिदी ।

दो वि य मया विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥ [पञ्चा० ८७]

जिन धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके सद्भावसे लोक और अलोकका विभाग तथा गमन और स्थिति होती है वे दोनों ही परस्परमें जुड़े जुड़े हैं। अर्थात् दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, किन्तु दोनों एक ही क्षेत्रमें रहते हैं इसलिये जुड़े नहीं भी हैं। और लोकके बराबर प्रमाणवाले हैं। [आशय यह है कि यदि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होते तो लोक और अलोकका विभाग नहीं होता; क्योंकि जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य गति और स्थिति करते हैं। इनकी गति और स्थितिका बाह्य निमित्त धर्म और अधर्मद्रव्य लोकमें ही है। यदि ये दोनों द्रव्य न होते तो गति करते हुए जीव पुद्गल लोकसे आगे भी चले जाते और तब लोक अलोकका भेद समाप्त हो जाता; क्योंकि जितने आकाशमें जीव आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ केवल आकाश द्रव्य है वह अलोक कहा जाता है।]

ए य गच्छति धम्मत्थी गमणं ए करेदि अण्णदवियस्स ।

हवदि गदिस्स प्पसरो जीवाणं पोगलाणं च ॥ [पञ्चा० ८८]

धर्मास्तिकाय द्रव्य स्वयं नहीं चलता और अन्य द्रव्योंका भी गमन नहीं कराता। किन्तु वह जीव और पुद्गलोंकी गतिका प्रवर्तकमात्र है। इसीप्रकार अधर्मद्रव्यको भी समझना।

विज्जदि जेसि गमणं टाणं पुण तसिमेव संभवदि ।

ते सगपरिणामेहिं दु गमणं टाणं च कुव्वंति ॥ [पञ्चा० ८९]

जिनका गमन होता है स्थिति भी उन्हींकी संभव है। अर्थात् जो चलते हैं वे ही ठहरते भी हैं। किन्तु वे चलने और ठहरनेवाले जीव और पुद्गल अपने परिणामोंसे ही गति और स्थिति करते हैं। अर्थात् उन्हें कोई जबरदस्ती चलाता या ठहराता नहीं है। गमन करने और ठहरनेकी शक्ति उन्हींमें ही है, धर्म अधर्म तो सहायकमात्र हैं।

५ आकाश द्रव्य

आकाश द्रव्यका स्वरूप

सव्वेसिं जीवाणं सेसाणं तह य पुगलाणं च ।

जं देदि विवरमखिलं तं लोए हवदि आयासं ॥ [पञ्चा० ९०]

जो सब जीवोंको, पुद्गलोंको और शेष बचे धर्म अधर्म और काल द्रव्यको पूरा स्थान देता है उसे लोकमें आकाशद्रव्य कहते हैं।

जीवा पोगलकाया धम्माधम्मा य लोंगदोणएणा ।
तत्तो अणएणमएणं आयासं अंतवदिरिंत्तं ॥ [पञ्चा० ६१]

अनन्त जीवद्रव्य, अनन्त पुद्गल स्कन्ध, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्य ये पाँचों द्रव्य लोकसे अभिन्न हैं। अर्थात् जितने आकाशमें ये पाँचों द्रव्य पाये जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है। आकाश द्रव्य तो अनन्त रहित अनन्त है। अतः वह लोकाकाशसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अर्थात् आकाशद्रव्य लोकमें भी पाया जाता है और लोकसे बाहर भी पाया जाता है।

आकाशको गति-स्थितिका कारण

माननेमें दोष

आगासं अवगासं गमणाट्टिदिकारणेहिं देदि जादि ।
उड्डं गदिपधायणा सिद्धा चिट्टंति किध तत्थ ॥ [पञ्चा० ६२]

यदि आकाशद्रव्य चलने और ठहरनेमें कारण होनेके साथ ही साथ अवकाश भी देता है अर्थात् अवगाहके इच्छुक द्रव्योंके अवगाह और चलनेवाले तथा ठहरनेवाले द्रव्योंके चलने और ठहरनेमें भी यदि आकाश सहायक माना जाता है तो स्वभावसे ही ऊपरको गमन करनेवाले सिद्ध भगवान सिद्ध शिलापर कैसे ठहरते हैं ? [आशय यह है कि यदि गति और स्थिति का कारण आकाशको ही मान लिया जायगा तो सिद्ध परमेष्ठी लोकके अग्रभागमें न ठहरकर आगे भी चल जायेंगे क्यों कि गमनमें कारण आकाशद्रव्य आगे भी पाया जाता है]।

जम्हा उवरि ट्ठाणं सिद्धाणं जिणवरेहिं पएणत्तं ।
तम्हा गमणट्टाणं आयासे जाण एत्थि त्ति [पञ्चा० ६३]

किन्तु यतः जितधर भगवानने सिद्धोंका निवासस्थान ऊपर लोकके अग्रभागमें वतलाया है। अतः आकाश द्रव्य गति और स्थितिमें कारण नहीं है ऐसा जानो।

जादि हवदि गमणहेद् आगासं टाणकारणं तेसिं ।
पसजादि अलोगहाणां लोगस्स य अंतपरिहृड्डी ॥ [पञ्चा० ६४]

यदि आकाशद्रव्य उन जीवों और पुद्गलोंके गमनमें और स्थितिमें सहायकारी कारण होता है तो अलोकाकाश की तो दानिका प्रसंग आता ..

और लोकके अन्त की वृद्धिका प्रसंग आता है [आशय यह है कि यदि आकाशकी गति और स्थितिका कारण माना जाता है तो आकाश तो लोकके बाहर भी है अतः वहाँ भी जीवों और पुद्गलोंका गमन होगा । और ऐसा होनेसे लोककी मर्यादा टूट जायेगी, एक और लोकाकाश बढ़ता जायेगा, दूसरी ओर अलोकाकाश घटता जायेगा] ।

तम्हा धम्माधम्मा गमणत्तिदिकारणाणि रागासं ।

इदि जिणवरेहिं भण्णदं लोगसहावं सुखंताणं ॥ [पञ्चा० ६५]

अतः धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य ही गति और स्थितिमें कारण हैं, आकाश नहीं । इसप्रकार जिनवर भगवानने लोकके स्वभावको सुननेवाले जीवोंको कहा है ।

६ काल द्रव्य

कालो परिणामभवो परिणामो दव्वकालसंभूदो ।

दोएहं एस सहावो कालो खणभंगुरो णियदो ॥ [पञ्चा० १००]

व्यवहारकाल जीव और पुद्गलोंके परिणामसे प्रकट होता है और जीव तथा पुद्गलोंका परिणाम निश्चयकाल द्रव्यसे उत्पन्न होता है । निश्चय और व्यवहारकाल दोनोंका यही स्वभाव है । व्यवहारकाल क्षण क्षणमें नष्ट होनेवाला है और निश्चयकाल अविनाशी है । [सारांश यह है कि क्रमसे होनेवाली जो समय नामक पर्याय है वह व्यवहारकाल है । और उस व्यवहारकालका जो आधार है वह निश्चयकाल है । निश्चयकाल की पर्यायका नाम व्यवहारकाल है । इस तरह यद्यपि व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्याय रूप है फिर भी जीव और पुद्गलोंके परिणामनसे ही वह प्रकट होता है । जैसे, आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पुद्गल परमाणु मन्द गतिसे चलकर अपने समीपवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुँचे उसे समय कहते हैं एकवार आँखोंकी पलक टिमकारनेके कालको निमिष कहते हैं । सूर्यके उदयकालसे लेकर अस्त होनेके कालको दिन कहते हैं । समय, निमेष, दिन ये सब व्यवहारकाल हैं जो पुद्गलोंके परिणामनसे जाने जाते हैं । किन्तु जीवों और पुद्गलोंका यह परिणाम भी बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्यके रहते हुए ही हांता है । अतः परिणामको द्रव्यकालसे उत्पन्न हुआ कहा है । इस तरह जीव और पुद्गलोंके परिणामनसे व्यवहार कालका निश्चय किया जाता है और व्यवहार कालसे निश्चय कालका निश्चय किया जाता है, क्योंकि निश्चयकालके

बिना काल व्यवहार ही नहीं सकता । इनमेंसे व्यवहारकाल क्षणिक है क्योंकि क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता है, और निश्चयकाल द्रव्य है, अतः गुण पर्यायोंका आधार होनेसे दूसरे द्रव्योंकी तरह वह भी अविनाशी है] ।

काल द्रव्यकी सिद्धि

कालो त्ति य ववदेसो सम्भावपरुवगो हवदि णिच्चो ।

उत्पण्णपद्धंसी अवरो दीहंतरट्ठाई ॥ [पञ्चा० १०१]

जो यह 'काल' ऐसा शब्द है यह अपने वाच्य निश्चय कालके सद्भावको बतलाता है जो नित्य है । और जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है वह उसी काल द्रव्यकी समयरूप पर्याय है जिसे व्यवहार काल कहते हैं । यह व्यवहार काल क्षणस्थायी होते हुए भी प्रवाह रूपसे दीर्घ काल तक स्थायी है । | अतः निश्चयकाल द्रव्य रूप होनेसे नित्य है और व्यवहार काल पर्याय रूप होनेसे क्षणिक है] ।

निश्चय काल द्रव्य

समश्चो दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स ।

वदिवददो सो वट्ठदि पदेसमागासदव्वस्स ॥ [प्रव० २,४६]

निश्चय काल द्रव्य (पुद्गलके परमाणुकी तरह द्वितीय आदि प्रदेशसे रहित होनेके कारण) अप्रदेशी है । (इसीसे उसे कालाणु कहते हैं) । जब एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु उस कालाणुसे व्याप्त आकाश द्रव्यके एक प्रदेश को मन्द गतिसे लाँघता है तो उसमें वह काल द्रव्य सहायक होता है ।

निश्चय काल द्रव्य और उसकी पर्याय

वदिवददो तं देसं तस्सम समश्चो तदो परो पुव्वो ।

जो अत्थो सो कालो समश्चो उत्पण्णपद्धंसी ॥ [प्रव० २,७४]

ऊपर किये गये कथनके अनुसार कालाणुसे व्याप्त एक आकाश प्रदेशको मन्द गतिके द्वारा लाँघनेमें परमाणुको जितनी देरी लगती है उसके समान ही समय है अर्थात् कालके उतने परिमाण को समय कहते हैं । यह समयरूप पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती है । किन्तु अतीत कालमें हुई और भविष्यमें होनेवाली समयरूप पर्याय जिस द्रव्यकी है और जो उन सब पर्यायोंमें सदा अनुस्यूत रहता है वही काल द्रव्य है ।

४. नौ पदार्थ अधिकार

१ जीव पदार्थका व्याख्यान

सपदेसेहिं समगो लोगो अट्टेहिं णिट्टिदो णिच्चो ।

जो तं जाणदि जीवो पाणच्चदुक्केण संबद्धो ॥ [प्रव० २,२३]

यह लोक अपने अपने प्रदेशोंसे युक्त जीवादि पदार्थोंसे परिपूर्ण है, स्थिर और नित्य है। जो इसको जानता है वह जीव है। वह जीव इन्द्रिय, बल, आयु, और श्वासोच्छ्वास इन चार प्राणोंसे संबद्ध है।

जीवके प्राण

इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।

आण्णपाण्णपाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ [प्रव० २,२४]

स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियप्राण, कायबल वचन-बल मनोबल ये तीन बलप्राण, एक आयुप्राण और एक श्वासोच्छ्वासप्राण ये जीवोंके दस प्राण होते हैं।

जीव शब्दकी व्युत्पत्ति

पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुवं ।

सो जीवो ते पाणा पोगलदब्बेहिं णिव्वत्ता ॥ [प्रव० २,२५]

जो उक्त चार प्राणोंके द्वारा जीता है, जीवेगा और पहले जीता था, वह जीव है। और वे प्राण पुद्गल द्रव्यसे बने हैं।

प्राण पौद्गलिक हैं

जीवो पाण्णिबद्धो बद्धो मोहादिएहिं कम्महिं ।

उवभुंजदि कम्मफलं बज्झदि अण्णेहि कम्महिं ॥ [प्रव० २,२६]

मोह आदि पौद्गलिक कर्मोंसे बँधा हुआ जीव प्राणोंसे बँधा है, और कर्मोंके फलको भोगता है तथा अन्य नये कर्मोंसे बँधता है।

पाणाबाधं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणं ।

जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्महिं ॥ [प्रव० २,२७]

जीव प्राणोंके द्वारा कर्मफलको भोगता है, कर्म फलको भोगते हुए राग-द्वेष करता है। और रागद्वेषके द्वारा स्वयं अपने तथा दूसरे जीवोंके प्राणोंको पीड़ा देता है। और ऐसा होनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे बंधता है।

आदा कम्ममल्लिमसां धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे ।

ए चर्यादि जाव ममत्तं देहपधाणेसु विसयेसु ॥ [प्रव० २,५८]

कर्मोंसे मलिन आत्मा तबतक बराबर नये नये प्राण धारण करता है जबतक शरीर आदि विषयोंमें ममत्वको नहीं छोड़ता।

इससे छूटनेका उपाय

जो ईदियादि विजई भवीय उपश्रोगमप्पगं भादि ।

कम्मेहिं सो ए रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥ [प्रव० २,५९]

जो इन्द्रियादिको जीतकर उपयोग स्वरूप आत्माका ध्यान करता है वह कर्मोंसे नहीं बंधता। ऐसी स्थितिमें प्राण कैसे उसका पीछा कर सकते हैं।

जीवकी पर्याय

एर-एारय-तिरिय-सुरा मंटाणादीहिं अण्णहा जादा ।

पजाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ [प्रव० २,६१]

मनुष्य, नारकी, तिर्यञ्च और देव ये जीवोंकी पर्याय हैं। ये पर्यायों नामकर्मके उदय आदिसे तथा संस्थान आदिके निमित्तसे विभिन्न प्रकार की हो गई हैं। अर्थात् मनुष्यभवमें जो औदारिक शरीर तथा संस्थान होता है नारक आदिके भवोंमें उससे भिन्न ही प्रकारका होता है। अतः ये पर्यायें कर्मकृत हैं।

शुद्ध जीवका स्वरूप

जीवादिबद्धितच्चं हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा ।

कम्मोपाधिस्समुम्भवगुणपजाएहिं वदिरत्तो ॥ [निय० ३८]

जीव आदि बाह्य तत्त्व हेय हैं अपना आत्मा ही उपादेय है। वह आत्मा कर्म की उपाधिसे उत्पन्न होने वाले गुण पर्यायोंसे भिन्न है।

णो खलु सहावटाणा णो माणवमाण भावटाणा वा ।

णो हरिसभावटाणा णो जीवस्स हरिस्सटाणा वा ॥ [निय० ३९]

निश्चय रूपसे आत्माके न तो स्वभावस्थान हैं, न मान अपमान

भावरूप स्थान हैं, न हर्षभावरूप स्थान हैं और न अहर्ष-शोकभावरूप स्थान हैं ।

शो ठिदिब्रंधट्टाणा पर्यडिट्टाणा पदेसट्टाणा वा ।

शो अणुभागट्टाणा जीवस्स ए उदयट्टाणा वा ॥ [निय० ४०]

शुद्ध जीवके न तो स्थितिवन्धके स्थान हैं, न प्रकृतिवन्ध स्थान हैं, न प्रदेशवन्ध स्थान हैं, न अनुभाग न्ध स्थान हैं, और न उदय स्थान हैं ।

शो खइयभावट्टाणा शो खयउवसमसहावट्टाणा वा ।

ओदइयभावट्टाणा शो उवसमणे सहावट्टाणा वा ॥ [निय० ४१]

न ज्ञायिकभावरूप स्थान हैं, न ज्ञायोपशमिक भावरूप स्थान हैं, न औदयिक भावरूप स्थान हैं, और न औपशमिक भावरूप स्थान हैं ।

चउगइ भवसंभमणं जाइजरामरणरोयसोगा य ।

कुलजोगिणीवमग्गणट्टाणा जीवस्स शो संति ॥ [निय० ४२]

शुद्ध जीवके चारों गतियोंके भवोंमें भ्रमण नहीं है, जन्म, बुढ़ापा मरण, रोग, शोक नहीं है, कुल, योनि, जीवसमास और मार्गणा स्थान नहीं हैं ।

शिइंदो शिइंदो शिम्ममो शिक्कलो शिरालंबो ।

शीरागो शिइोसो शिम्मूटो शिब्भयो अप्पा ॥ [निय० ४३]

यह आत्मा मन वचन कायरूप दण्डोंसे रहित है, निर्द्वन्द्व है, ममतासे रहित है, शरीरसे रहित है, आलम्बनसे रहित है, रागसे रहित है, द्वेषसे रहित है, मूढतासे रहित है और निर्भय है ।

शिम्यंथो शीरागो शिस्सल्लो सयलदोसणिम्मुक्को ।

शिक्कामो शिक्कोहो शिम्माणो शिम्मदो अप्पा ॥ [निय० ४४]

यह आत्मा निर्ग्रन्थ है, वीतराग है, शक्त्यसे रहित है. समस्त दोषोंसे रहित है, निष्काम है, क्रोधसे रहित है, मानसे रहित है और मदसे रहित है ।

वरण-रस-गंध-फासा थी-पुंसणओसयादिपजाया ।

संठाणा संहरणा सव्वे जीवस्स शो संति ॥ [निय० ४५]

रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, और नपुंसकवेद आदि पर्याय, संस्थान, संहनन, ये सब जीवके नहीं हैं ।

अरसमरुचमगंधं अस्वत्तं चेदणागुणमसहं ।

जाण अलिंगग्माहणं जीवमणिद्विट्टसंटाणं ॥ [निय० ४६]

यह जीव रससे रहित है, रूपसे रहित है, गन्धसे रहित है, इन्द्रियोंके द्वारा प्राह्य न होनेसे अव्यक्त है, चैतन्य गुणवाला है, शब्दसे रहित है। किसी पौद्गलिक चिन्हसे ग्रहण करनेके अयोग्य है, और आकारसे रहित है ।

जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंत ।

जरमरणजम्ममुक्का अट्टगुणालंकिया जेण ॥ [निय० ४७]

जैसे सिद्ध जीव होते हैं वैसे ही संसारी जीव होते हैं; क्योंकि जीव स्वभावसे जरा, मरण, जन्मसे मुक्त तथा आठ गुणोंसे युक्त होता है ।

अत्तरीरा अविग्गासा अणिदिवा णिम्मला विसुद्धप्पा ।

जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी रोया ॥ [निय० ४८]

जैसे लोकके अप्रभागमें विराजमान सिद्ध जीव शरीरसे रहित, विनाशसे रहित, अतीन्द्रिय, निर्मल और विशुद्ध हैं वैसे ही संसारी जीवोंको जानना चाहिये ।

एदे सव्वे भावा ववहारणं पडुच्च भणिदा हु ।

सव्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥ [निय० ४९]

य सब भाव—गुणस्थान, मार्गस्थान आदि—व्यवहारनयकी अपेक्षासे कहे हैं । शुद्धनयसे सभी संसारी जीव सिद्धोंके समान स्वभाववाले हैं ।

२ अजीव पदार्थका व्याख्यान

आगास-काल-पुग्गल-धम्माधम्मसु णत्थि जीवगुणा ।

तेसि अचेदणत्तं भणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ [पञ्चा० १२४]

आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यमें जीवके गुण नहीं हैं; अतः उन्हें अचेतन कहा है और जीवको चेतन कहा है ।

सुह-दुक्ख-जाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभीरुत्तं ।

जस्स ण विज्जाद णिच्चं तं समणा विंति अज्जीवं ॥ [पञ्चा० १२५]

जिसको कभी भी सुख दुःख का ज्ञान नहीं होता तथा कभी भी जो

हितमें प्रवृत्ति और अहितसे भय नहीं करता, उसको श्रमण भगवान् अजीव मानते हैं।

३-४ पुण्य और पाप पदार्थका व्याख्यान

मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावम्मि ।

विज्जदि तस्म सुहो वा अमुहो वा होदि परिणामो ॥ [पञ्चा० १३१]

जिसके भावोंमें मोह, राग, द्वेष और चित्तकी निर्मलता पाई जाती है, उसके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं। अर्थात् जिसका चित्त निर्मल होता है और जिसमें प्रशस्त राग पाया जाता है उसके परिणाम शुभ होते हैं और जिसमें मोह द्वेष और अप्रशस्त राग होता है उसके परिणाम अशुभ होते हैं।

सुहपरिणामो पुण्यं अमुहो पाव ति होदि जीक्ख ।

दोएहं पोगलमेत्तो भावो कम्मत्तणं पत्तो ॥ [पञ्चा० १३२]

शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। जीवके इन दोनों शुभाशुभ परिणामोंके निमित्तसे पुद्गल पिण्ड रूप जो परिणाम है, वह कर्मपनेको प्राप्त होता है। [आशय यह है कि पुण्यके दो प्रकार हैं—भावपुण्य और द्रव्यपुण्य। इसी तरह पापके भी दो प्रकार हैं—भावपाप और द्रव्यपाप। जब जीव शुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल कर्म वर्गणा उस जीवके शुभ कर्मरूप परिणामन करती है। अतः शुभ कर्म तो द्रव्य पुण्य है और शुभ परिणाम भावपुण्य है। इसी तरह जब जीव अशुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका निमित्त मिलते ही पुद्गल कर्मवर्गणा उस जीवके अशुभ कर्मरूप परिणामन करती है। अतः अशुभ कर्म द्रव्य पाप है और अशुभ परिणाम भाव पाप है।

कर्म मूर्तिक हैं—

जम्हा कम्मस्स फलं विभयं फाम्हि भुंजदे शियदं ।

जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा कम्माणि सुत्ताणि ॥ [पञ्चा० १३३]

अतः कर्मका फल सुख या दुःख है, वह सुख या दुःख संसारिक विषयोंके द्वारा प्राप्त होना है। उन विषयोंको यह जीव नियमसे इन्द्रियों द्वारा ही भोगता है। अतः कर्म मूर्तिक हैं; क्योंकि जिसका फल मूर्तिक है और मूर्तिके द्वार ही जिसका भोग जाता है वह मूर्तिक है।

५ आस्रव पदाथका व्याख्यान

पुण्यआस्रवके कारण

रागो जस्स पसत्थो अणुकंपांसिदो य परिणामो ।

चित्ते णत्थि कलुस्सं पुण्यं जीवस्स आसवदि ॥ [पञ्चा० १३५]

जिस जीवका राग प्रशस्त है, परिणाम दयाभावसे भीगे हुए हैं और चित्तमें कलुषता नहीं है, उस जीवके पुण्य कर्मका आस्रव होता है ।

प्रशस्त रागका स्वरूप

अरहंत-सिद्धसाहुसु भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेत्ठा ।

अणुगमणं पि गुरुणं पसत्थरागो त्ति बुच्चंति ॥ [पञ्चा० १३६]

अर्हन्त, सिद्ध और साधुओंमें भक्ति, धर्ममें जो प्रवृत्ति, तथा गुरुओंका जो अनुगमन है, इन सबको प्रशस्त राग कहते हैं ।

अनुकम्पाका स्वरूप

तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दट्ठणं जो दु दुहिदमणो ।

पडिक्खंदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ [पञ्चा० १३७]

प्यासे अथवा भूखे अथवा दुखी प्राणीको देखकर जिसका मन दुखी होता है, और जो दया भावसे अर्थात् उसका कष्ट दूर करनेकी भावनासे उस दुखीके पास जाता है उसीके यह अनुकम्पा होती है ।

चित्तकलुषता

कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ।

जीवस्स कुण्णिदि खोहं कलुसो त्ति य तं बुधा वेत्ति ॥ [पञ्चा० १३८]

जब क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ चित्तको प्राप्त होकर जीवको क्षोभ उत्पन्न करता है, ज्ञानीजन उसे कालुष्य कहते हैं । अर्थात् क्रोध मान माया या लोभ कषायका तीव्र उदय होनेपर चित्तमें जो क्षोभ होता है उसका नाम कालुष्य है ।

पापास्रवके कारण

चरिया पमादबहुला कालुस्सं लोलदा य विसयेसु ।

परपरिदावपवादो पावस्स य आसवं कुण्णिदि ॥ [पञ्चा० १३९]

प्रमादसे भरपूर आचरण, चित्तकी कलुषता, विषयोंमें लोलुपता,

दूसरोंको सताना और दूसरोंको झूठा दोष लगाना, ये सब पाप कर्मका आस्त्रव करते हैं ।

सण्णाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तद्दहाणि ।

णाणं च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदा होति ॥ [पञ्चा० १४०]

आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञा, कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियोंकी अधीनता, आर्त और रौद्रध्यान, बुरे कामोंमें ज्ञानकी प्रवृत्ति और मोह, ये पापास्त्रवके कारण होते हैं ।

६ संवर पदार्थका व्याख्यान

इंदिय-कसाय-सण्णा णिग्गाहदा जेहि सुट्ठु मग्गम्मि ।

जावत्तावत्तेहिं पिहियं पावासवं छिद्दं ॥ [पञ्चा० १४१]

जिन पुरुषोंने मोक्षके मार्गमें स्थित होकर इन्द्रिय, कपाय और संज्ञाओंका जितने अंशमें अथवा जितने काल तक अच्छी तरहसे निग्रह किया, उतने अंशमें और उतने काल तक उन्होंने पापास्त्रवके द्वारको बन्द कर दिया ।

जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेसु ।

णासर्वादि सुहं अमुहं समसुहदुक्खस्स भिक्खुस्स ॥ [पञ्चा० १४२]

जिसके समस्त परद्रव्योंमें राग अथवा द्वेष अथवा मोह नहीं है, दुःख सुखमें समबुद्धि रखनेवाले उस साधुके शुभ और अशुभ कर्मोंका आस्त्रव नहीं होता ।

जस्स जदा म्वल्लु पुण्णं जांगे पावं च णत्थि विरदस्स ।

संवरणं तस्स तदा सुहामुहकदस्स कम्मस्स ॥ [पञ्चा० १४३]

सब ओरसे निवृत्त जिस योगीके मन वचन और कायकी क्रियारूप योगमें जब शुभ परिणामरूप पुण्य और अशुभ परिणामरूप पाप नहीं होता तब उस साधुके शुभ और अशुभ परिणामोंके द्वारा किये गये द्रव्य कर्मका संवर होता है । [सारांश यह है कि शुभ अशुभ परिणामोंके रोकनेका नाम भाव संवर है और वह भाव संवर द्रव्य संवरका प्रधान कारण है] ।

७ निर्जरापदार्थका व्याख्यान

संवरजोगेहिं जुदो तवेहि जो चिट्ठदे बहुविहेहिं ।

कम्माणं शिण्णजराणं बहुगाणं कुणादि सो णियदं ॥ [पञ्चा० १४४]

जो शुभाशुभ परिणामोंको रोकनेरूप संवर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त होकर अनेक प्रकारके तपोंके द्वारा प्रयत्न करता है, वह नियमसे बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करता है।

जो संवरेण जुत्तो अप्पट्टपसाधगो हि अप्पाणं ।

मुण्णिऊण भादि शियदं णाणं सो संधुणादि कम्मरयं ॥ [पञ्चा० १४५]

जो संवरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका पूरी तरहसे साधक है और आत्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माका ही ध्यान करता है वह कर्मरूपी धूलको उड़ा देता है।

ध्यानका स्वरूप

जम्म ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिणामो ।

तम्म मुहामुहड्डहणो भाणमत्थो जायदे अगणी ॥ [पञ्चा० १४५]

जिसके राग द्वेष मोह और योगरूप परिणाम नहीं हैं, उसके शुभ अशुभ कर्मोंको जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है।

८ बन्धपदार्थका व्याख्यान

वं मुहममुहमुदिगणं भावं रत्तां करंदि जदि अप्पा ।

सो तेण हवदि वंधो पीमलकम्भेण विविहेण ॥ [पञ्चा० १४७]

यदि यह अनादि कालसे रागमें फँसा हुआ आत्मा कर्मके उदयसे होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता है तो उस भावके निमित्तसे वह अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंसे बंध जाता है।

बन्धके कारण

जोगणिमित्तं गहणं जोगो मण-वयण-कायमंबूदो ।

भावाणिमित्तो वंधो भावो रदिरागदोसमोहज्जुदो ॥ [पञ्चा० १४८]

योगके निमित्तसे कर्म पुद्गलोंका ग्रहण होता है। और योग मन वचन और कायसे उत्पन्न होता है। बंध भावके निमित्तसे होता है और वह भाव रति, राग, द्वेष और मोहसे युक्त होता है। [आशय यह है कि मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कार्यवर्गणाके आलम्बनसे जो आत्माके प्रदेशोंमें कम्पन होता है उसे योग कहते हैं। कर्मपुद्गलोंका जीवके प्रदेशोंमें रहनेवाले कर्म स्कन्धोंमें मिल जानेका नाम ग्रहण है। वह ग्रहण योगसे होता है। तथा राग द्वेष मोहसे युक्त जीवके भाव बंधके कारण हैं। कर्मपुद्गलोंका

विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरह बन्धका बाह्य कारण योग है और अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं]।

हेदू चदुब्वियप्पो अट्टुवियप्पस्म कारणं भण्णिदं ।

तेसि पि य रागादी तेसिमभावे ण बब्भन्ति ॥ [पञ्चा० १४६]

चार प्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मोंके बन्धका कारण कहा है। और उन चार प्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव है। अतः उनके अभावमें कर्मोंका बन्ध नहीं होता। [सारांश यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बँधते हैं। अतः ये चारों बन्धके कारण हैं। इन बन्धके कारणोंका भी कारण रागादि भाव है। रागादि भावका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं होता]।

जीव और कर्मका बन्ध कैसे होता है ?

ओगादगादण्णिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लोगो ।

सुहुमाहि वादरेहि य अप्पाओगोहि जांगोहि ॥ [प्रव० २, ७६]

यह लोक सब जगह पुद्गल स्कन्धोंसे टसाठस भरा हुआ है। उनमें कुछ पुद्गलस्कन्ध सूक्ष्म हैं, कुछ वादर हैं, कुछ कर्मरूप होनेके योग्य हैं और कुछ अयोग्य हैं।

कम्मत्तण्णाओग्गा खंधा जीवस्स परिणहं पप्पा ।

गच्छंति कम्मभावं ण हि ते जीवण परिणामदा ॥ [प्रव० २, ७७]

जो पुद्गल स्कन्ध कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोंको पाकर कर्मरूप हो जाते हैं। जावने उन्हें कर्मरूप नहीं परिणमाया है।

परिणमदि जदा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो ।

तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ [प्रव० २, ६५]

जब आत्मा राग द्वेषसे युक्त होकर शुभ अथवा अशुभभाव रूपसे परिणमन करता है तब कर्मरूपी धूलि ज्ञानावरण आदि आठ कर्म रूपसे उसमें प्रवेश करती है।

सपदेशो सो अप्पा कसायिदो मोह-राग-दोसेहिं ।

कम्मरजेहिं सिलिट्ठो बंधो त्ति परुविदो समये ॥ [प्रव० २, ६६]

वह संसारी आत्मा सप्रदेशी है तथा मोह राग और द्वेषके रंगसे

रंजित है। अतः कर्मरूपी धूलिसे सम्बद्ध होता है। इसे ही आगममें बंध कहा है।

परिणाम ही बन्ध और मोक्षका कारण है

पावं हवइ असेसं पुण्यमसेसं च हवइ परिणामो ।

परिणामादो बंधो मुक्त्वो जिणसासणे दिट्ठो ॥ [भा० प्र० ११६]

परिणाम ही समस्त पापरूप होता है और परिणाम ही समस्त पुण्यरूप होता है। जैन शासनमें परिणामसे ही बन्ध और मोक्ष कहा है।

अशुभबन्धके कारण

मिच्छन्त तह कसायामंजमजोगेहिं अमुहलेस्सेहिं ।

बंधइ अहुं कम्मं जिणवयणपरम्महो जीवो ॥ [भा० प्रा० ११७]

जिनवचनसे पराङ्मुख जीव मिथ्यात्व, कपाय, असंयम, योग और अशुभ लेश्याओंके द्वारा अशुभ कर्मका बंध करता है।

शुभबंधके कारण

तव्विवरीओ बंधइ सुहकम्मं भावमुद्धिमावणो ।

दुविहपयारं बंधइ संखेवेणोव वज्जरियं ॥ [भा० प्रा० ११८]

जिनवचनका श्रद्धानी विशुद्ध भाववाला होनेके कारण शुभकर्मका बंध करता है। इस प्रकार जीव दोनों प्रकारके कर्मोंका बन्ध करता है। बन्धका यह कथन संक्षेपसे ही किया है।

उपसंहार

रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चादि कम्मोहिं रागरहिदप्पा ।

एसो बंधसमामो जीवाणं जाण गिच्छयदो ॥ [प्रव० २,८७]

रागी जीव कर्मोंका बंधता है और वीतरागी आत्मा कर्मोंसे छूट जाता है। निश्चयसे यह जीवोंके बन्धके कथनका संक्षेप जानो।

९ मोक्षपदार्थका व्याख्यान

हेदुमभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोधो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥

कम्मस्साभावेण य सव्वण्हू सव्वलोगदरसी य ।

पावदि इंदियरहिदं अन्वावाहं सुहमणंतं ॥ [पञ्चा० १५०-१५१]

कारणका अभाव होने पर नियमसे ज्ञानी जीवके आस्त्वका निरोध हो जाता है। आस्त्व भावके बिना अर्थात् आस्त्वका निरोध हो जाने पर कर्मों का निरोध हो जाता है। और कर्मों का अभाव होनेसे यह आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर इन्द्रियोंसे उत्पन्न न होनेवाले बाधारहित अनन्त सुखको प्राप्त करता है।

जो संवरेण जुक्तो शिञ्जरमाणोऽथ सव्वकम्माणि ।

ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोकखो ॥ [पञ्चा० १५२]

जो परम संवरसे युक्त होता हुआ समस्त कर्मों की निर्जरा करता है। और वेदनीय और आयु कर्मसे रहित होकर संसारको छोड़ देता है, अतः वह मुक्त हो जाता है।

—:०:—

५. चारित्र-अधिकार

१ व्यवहार चारित्र

मंगलाचरण

सव्वणहु सव्वदंसी शिम्मोहा^१ वीयरायपरमेट्ठी ।

वंदित्तु तिजगवंदा अरहंता भव्यजीवेहि ॥

णारणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहिकारणं तेषिं ।

भोक्खारारहणहेउ^२ चारित्तं पाहुडं वोच्छे ॥ [चा० प्रा० १,२]

सबकों जानने और देखने वाले, मोह रहित, वीतराग, परम पदमें स्थित, तीनों लोकोंके द्वारा वन्दनीय और भव्य जीवोंके द्वारा पूज्य अरहन्त परमेष्ठीको नमस्कार करके, सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रकी शुद्धताके कारण तथा उन अर्हन्तोंके मोक्षकी प्राप्तिमें उपायरूप चारित्र प्राप्तको कहूँगा।

१. -मोहो ग० ऊ० । २. मुख्या -आ० ऊ० । ३. -हेउ आ० ।

रत्नत्रयका स्वरूप

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं भणियं ।

णाणस्स पिच्छइयस्स य समवणणा होइ चारिसं [चा० प्रा० ३]

जो जानता है वह ज्ञान है । जो देखता है अर्थान् श्रद्धान करता है उसे दर्शन कहा है । और ज्ञानी तथा सम्यग्दृष्टीके साम्यभावके होनेसे चारित्र होता है ।

चारित्रके भेद

एण तिरिण वि भावा हवति जीवस्स अकवयामेया ।

तिरहं पि 'सोहणथे जिणमणियं दुविहचारिसं ॥ [चा० प्रा० ४]

जीवके ये तीनों भाव अक्षय और अनन्त होते हैं । इन तीनोंकी शुद्धिके लिये जिन भगवानने दो प्रकारका चारित्र कहा है ।

जिणणाणदिट्ठिमुद्धं पटमं सम्मत्तचरण चारिसं ।

विदियं संजमचरणं जिणणाणसदेसियं तं पि ॥ [चा० प्रा० ५]

चारित्रके दो भेदोंमेंसे पहला भेद सम्यक्त्व चरण चारित्र है, जो जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और श्रद्धानसे शुद्ध होता है । दूसरा भेद संजम चरण है । यह भी जिन देवके ज्ञान द्वारा उपदिष्ट है ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रका स्वरूप

तं चेव गुणविसुद्धं जिणम्मत्तं सुसुक्कवयणाण ।

ज चरइ णाणजुजं पटमं सम्मत्तचरणचारिसं ॥ [चा० प्रा० ८]

उसी गुणोंसे विशुद्ध, जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शनका जो मोक्षकी प्राप्तिके लिये सम्यग्ज्ञान सहित आचरण करता है वह पहला सम्यक्त्वचरण चारित्र है ।

सम्यक्त्वचरण चारित्रका महत्त्व

सम्मत्तचरणमुद्धा संजमचरणस्स जइ वि सुपसिद्धा ।

णाणी अमूढदिट्ठी अचिरे^१ पावति णिव्वाणं ॥ [चा० प्रा० ९]

जो ज्ञानी अमूढदृष्टि सम्यक्त्वचरणसे शुद्ध होते हैं यदि वे संजम-चरण चारित्रसे भी अच्छी तरह शुद्ध हों तो शीघ्र ही निर्वाणका प्राप्त करते हैं ।

सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरणं चरति जह वि' णरा ।

अण्णाण्णाण्णमूढा तह वि ण पावंति णिव्वाणं ॥ [चा० प्रा० १०]

सम्यक्त्वचरण चारित्र्यसे भ्रष्ट अज्ञानी मूढदृष्टि मनुष्य यद्यपि संयम-
चरणचारित्र्यको पालते हैं फिर भी वे निर्वाणको प्राप्त नहीं करते ।

सम्यक्त्वचरण चारित्र्यकी पहचान

वञ्छल्लं विणएण य अणुक्पाए सुदाणदञ्छाए ।

मग्गुणसंसयाए अवगूहण रक्खणाए य ॥

एएहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहंतो जिणसम्मत्तं अमोहेण ॥ [चा० प्रा० ११, १२]

मोह रहित होकर जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्वका आराधन करनेवाला जीव वात्सल्य, विनय, दयाभाव, उत्तम दान देनेमें निपुणता, मार्गके गुणों की प्रशंसा, उपगूहन और रक्षा, इन लक्षणोंसे तथा आर्जव भावोंसे पहचाना जाता है ।

दूमरे संयम चरण चारित्र्यके भेद

दुविहं संजमचरणं सायारं तह हये णिरायारं ।

सायारं सग्गंथे परिग्गहरं हिये णिरायारं ॥ [चा० प्रा० २१]

संयम चरण चारित्र्यके दो भेद हैं सागार और णिरागार । परिग्रही श्रावकके सागार संयम चरण होता है और परिग्रहको ग्रहण न करने वाले मुनिके निरागार अथवा अनगार संयम चरण होता है ।

सागार अथवा देश विरतके भेद

दंसण वय सामादय पोसहसच्चित्त रायभत्ते य ।

वंभारंभपरिग्गह अणुमण उद्दिट्ट देसविरदो य ॥ [चा० प्रा० २२]

दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सच्चित्तविरत, रात्रिभक्तविरत, ब्रह्मचर्य, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतविरत और उद्दिष्ट विरत ये ग्यारह देशविरत श्रावक हैं ।

श्रावकके बारह व्रत

पंचेव अणुव्वयाइं गुणव्वयाइं हवंति तह त्तिण्णं ।

सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥ [चा० प्रा० २३]

१. जे वि ग० । २. -हामहिय म्बलु णि उ० ग० । ३. तहेव त्तिण्णोव ग० उ० ।

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत तथा चार शिक्षाव्रत, ये सागार संयम-
चरण हैं ।

पाँच अणुव्रत

थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिवस्व थूले य ।

परिहारो पर^१ महिला^२ परिग्रह^३ परिमाणं ॥ [चा० प्रा० २४]

त्रसकायिक जीवोंके घातरूप स्थूल हिंसाका त्याग अहिंसाणुव्रत है,
स्थूल झूठका त्याग सत्याणुव्रत है, स्थूल चोरीका त्याग अचौर्याणुव्रत है,
पराई स्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्याणुव्रत है । तथा परिग्रह और आरम्भका
परिमाण करना परिग्रह परिमाण नामक पाँचवा अणुव्रत है ।

तीन गुणव्रत

दिसिविदिसिमाणपटमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिरिण ॥ [चा० प्रा० २५]

दिशा और विदिशाका परिमाण करना पहला गुणव्रत है । अनर्थ-
दण्ड अर्थात् बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना
अनर्थदण्ड नामका दूसरा गुणव्रत है । भोग और उपभोगका परिमाण
करना भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणव्रत है । इस तरह ये
तीन गुणव्रत हैं ।

चार शिक्षाव्रत

सामाइयं च पटमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं ।

तइयं च अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अंतं ॥ [चा० प्रा० २६]

सामायिक पहला शिक्षाव्रत है, प्रोपथ दूसरा शिक्षाव्रत है, अतिथि-
पूजा तीसरा शिक्षाव्रत है और अन्त समयमें सल्लेखना करना चौथा
शिक्षाव्रत कहा है ।

एवं मावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं ।

सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं^१ णिक्कलं वोच्छे ॥ [चा० प्रा० २७]

इस प्रकार श्रावक धर्मसम्बन्धी सम्पूर्ण संयम चरण चारित्रिका कथन
किया । अब यतिधर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण शुद्ध संयम चरणको कहूँगा ।

अनगार संयम चरण

पंचिन्द्रियसवरणं पंचवया पंचविसंकिरियासु ।

पंचसामिदि तियगुत्ति संजमचरणं णिरायारं ॥ [चा० प्रा० २८]

पाँचो इन्द्रियोंका संवर, पाँच व्रत, पाँचव्रतोंकी पच्चीस भावनाएँ, पाँच समिति और तीन गुप्ति, ये मुनियोंका संयम चरण चारित्र्य है !

पञ्चेन्द्रिय संवर

अमणुण्णो य मणुण्णो सजीवदब्बे अजीवदब्बे य ।

ण करेइ रायदोसे पंचेन्द्रियसंवरो भण्णओ ॥ [चा० प्रा० २९]

इष्ट और अनिष्ट सजीवद्रव्य स्त्री वगैरहमें और अचेतनद्रव्य भोजन वस्त्र वगैरहमें जो रागद्वेष नहीं करता—उसे पञ्चेन्द्रिय संवर कहा है ।

पाँच व्रत

हिंसाविरइ अहिंसा असञ्चविरई अदत्तविरई य ।

तुरियं अबंभविरई पंचम संगम्मि विरई य ।

हिंसासे विरत होना अहिंसा महाव्रत है । असत्यविरति दूसरा महाव्रत है । अदत्तविरति तीसरा महाव्रत है । अब्रह्मविरति चौथा महाव्रत है । और परिग्रहविरति पाँचवा महाव्रत है ।

प्रथम महाव्रतका स्वरूप

कुल-जोणि-जीव-मग्गण-टाणाइसु जाण्णिऊण जीवाणं ।

तस्सारंभणियत्तण-परिणामो होइ पटमवदं ॥ [निय० ५६]

जीवोंके कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थानोंको जानकर, उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता है, वह अहिंसा नामक पहला महाव्रत है ।

दूसरा महाव्रत

रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं ।

जो पजहदि साहु सया विदियवयं होइ तस्सेव ॥ [निय० ५७]

जो साधु सदा रागसे, द्वेषसे, और मोहसे झूठ बोलनेके परिणाम को (अभिप्रायको) छोड़ता है उसीके दूसरा असत्यविरति महाव्रत होता है ।

तीसरा व्रत

गामे वा गृह्ये वा रण्णे वा पेच्छिऊण परमत्थं ।

जो मुयदि गहणभावं तिदियवदं होदि तस्सेव ॥ [निय० ५८]

जो साधु गाँवमें अथवा नगरमें अथवा जंगलमें दूसरेकी पड़ी हुई वस्तुको देखकर उसके ग्रहण करनेके भावको छोड़ देता है उसीके तीसरा अदत्तविरति महाव्रत होता है ।

चौथे व्रतका स्वरूप

दट्टण इत्थिरुवं वंछाभावं शिवत्तदे तामु ।

मेहुणसण्णविवज्जियपरिणामो अहव तुरियवदं ॥ [निय० ५९]

जो स्त्रीके रूपको देखकर भी उनमें चाहरूप परिणामको हटा देता है । अथवा मैथुन संज्ञासे रहित परिणामको चौथा अब्रह्मविरति महाव्रत कहते हैं ।

पाँचवा महाव्रत

सव्वेसिं गंथाणं चागो निरवेकलभावणापुवं ।

पंचमवदमिदि भण्णदं चारित्तमरं वहंतस्स ॥ [निय० ६०]

निरपेक्ष भावना पूर्वक समस्त परिग्रहके त्यागको, चारित्रिके भारको उठाने वाले साधुओंका पाँचवा परिग्रह त्याग महाव्रत कहा है ।

इन्हें महाव्रत कहनेका कारण

साहंति जं महल्ला आयरियं जं महल्लपुव्वेहिं ।

जं च महल्लारिण तदो महल्लयाइं तहेयाइं ॥ [चा० प्रा० ३१]

यतः इन्हें महापुरुष पालते हैं, और यतः पूर्व महापुरुषोंने इनका पालन किया था, और यतः ये स्वयं महान हैं इसलिये इन्हें महाव्रत कहते हैं ।

अहिंसाव्रतकी भावना

वयमुत्ती मणगुत्ती इरियासमिदी सुदाणणिक्खेवो ।

अवलोयभोयणाए हिंसाए भावणा हांति ॥ [चा० प्रा० ३२]

वचन गुप्ति, मनो गुप्ति, ईर्या समिति, आशान निक्षेपण समिति और देख भाल कर भोजन करना, ये अहिंसाव्रतकी भावना हैं ।

सत्यव्रतकी भावना

कोह-भय-हास-लोहा-मोहा विवरीयभावणा चेव ।
विदियस्स भावणाए ए' पंचेव तथा होति ॥ [चा० प्रा० ३३]

क्रोध, भय, हास्य, लोभ और मोह इनकी विपरीत भावना अर्थात् क्रोध न करना, भय न करना, हँसी दिहनी न करना, लोभ और मोहको छोड़ना ये पाँच दूसरे सत्यव्रतकी भावना हैं ।

अदत्त विरति व्रतकी भावना

सुण्णायाखण्णवासो विमोचियावास जं परोधं च ।
एसणमुद्धिसउत्तं साहम्मीसु^३विंसंवादो ॥ [चा० प्रा० ३४]

पर्वतों की गुफा, वृक्ष की खोल आदि शून्य स्थानोंमें वसना, दूसरोंके द्वारा छोड़े हुए ऊजड़ स्थानमें निवास करना, जहाँ आप ठहरे वहाँ यदि कोई दूसरा ठहरना चाहे तो उसे नहीं रोकना और जहाँ कोई पहलेसे ठहरा हो तो उसे हटाकर स्वयं नहीं ठहरना, शास्त्रोक रीतिसे शुद्ध भिक्षा लेना और साधर्म्य भाइयोंसे लड़ाई भगड़ा नहीं करना, ये पाँच अदत्त-विरतिव्रतकी भावना हैं ।

अब्रह्म विरति व्रतकी भावना

महिलालोयण-^१पुव्वरयसरण-संसत्तवसहि विकहाहिं ।
पुट्टियरसेहिं विरओ भावण पंचावि तुरियम्मि ॥ [चा० प्रा० ३५]
स्त्रियोंकी ओर ताकनेका त्याग, पहले किये हुए काम भोगके स्मरणका त्याग, स्त्रीसे संसक्त निवासस्थानका त्याग, खोटी कथाओंका त्याग और पौष्टिक रसोंका त्याग, ये पाँच भावना चौथे व्रतकी हैं ।

परिग्रह त्याग व्रतकी भावना

अपरिग्गह समणुण्येसु सद्-परिस-रस-रूव-गंधेसु ।
रायद्दोसाईरणं परिहारो भावणा होति ॥ [चा० प्रा० ३६]
इष्ट और अतिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, और गंधमें राग द्वेष वगैरह न करना अपरिग्रह व्रतकी भावना हैं ।

१. एवंचेव य ऊ०, ए पंचवया ग० । २. -संविंसंवादो ग० ऊ० ।
३. -रह-ग० ऊ० ।

पाँच समिति

इरिया-भासा-एसण जा सा आदाण चव णिक्खेवो ।

संजमसोहिण्णमित्ते खंति जिणा पंच समिदीओ ॥ [आ० प्रा० ३७]

ईर्या समिति, भाषा समिति, एपणा समिति, आदान समिति, निक्षेपण समिति, संयमकी शुद्धिके लियं जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच समितियाँ कही हैं ।

ईयां समिति

पासुगमग्गेण दिवा अब्लोगंतो जुगप्पमाणं हि ।

गच्छइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६१]

जो श्रमण पासुक मार्गसे दिनमें एक युग प्रमाण पृथ्वीको आगे देखते हुए गमन करता है उसके ईर्या समिति होती है ।

भाषा समिति

पेसुण्णाहासवक्कस-परणिदप्पपरंसियं वयणं ।

परिचित्ता सपरहिदं भासासमिदी वदंतस्स ॥ [निय० ६२]

पैशून्य वचन (चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन), हास्य वचन (किसीके हँसी उड़ाने वाले वचन), कर्कश वचन (कानमें पड़ते ही द्वेष उत्पन्न करनेवाले वचन), परकी निन्दारूप और अपनी प्रशंसा रूप वचनोंको छोड़कर अपने और दूसरो के हितरूप वचन बोलने वालेके भाषा समिति होती है ।

एषणा समिति

कद-कारिदाणुमोदणरहिदं तह पासुगं पसत्थं च ।

दिएणं परेण भत्तं समभुत्ती एसणासमिदी ॥ [निय० ६३]

कृत, कारित और अनुमोदना दोषसे रहित, पासुक और प्रशस्त तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनको समभावसे ग्रहण करना एषणा समिति है ।

आदान निक्षेपण समिति

पोत्थइ-कमंडलाइं गहणविसग्गेसु पयतपरिणामो ।

आदावण-णिक्खेवणसमिदी होदि त्ति णिदिट्ठा ॥ [निय० ६४]

पुस्तक कमण्डल वगैरहके उठाने धरनेमें सावधानता रूप परिणामको आदान निक्षेपण समिति कहा है ।

प्रतिष्ठापन समिति

प्रासंगभूमिपदेसे गूढे रहिए परोपरोहेण ।

उच्चारदिच्चागो पदट्टासमिदी हवे तस्स ॥ [निय० ६५]

जो छिपे हुए और बेरोकटोक वाले प्रासंग भूमिस्थानमें मल मूत्र वगैरहका त्याग करता है, उस श्रमणके प्रतिष्ठापन समिति होती है ।

मनोगुप्ति

कालुस्समोहसण्णा-रागद्वोसाह-असुहभावाणं ।

परिहारो मणुगुत्ती ववहारण्येण परिकहिंथं ॥ [निय० ६६]

कलुपता, मोह, चाह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावोंके त्यागको व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहा है ।

वचनगुप्ति

थी-राज-चोर-भक्तकहादिवयणस्स पावहेउस्स ।

परिहारो वचगुत्ती अलियादिणियत्तिवयणं वा ॥ [निय० ६७]

पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा आदि रूप वचनोंका त्यागना वचन गुप्ति है । अथवा असत्य आदि दोषोंसे युक्त वचन न बोलना वचन गुप्ति है ।

कायगुप्ति

बंधण-छेदण-मारण-आकुंचण तह पसारणादीया ।

कायकिरियाणियत्ती णिदिट्ठा कायगुत्ति त्ति ॥ [निय० ६८]

बाँधना, छेदना, मारना, संकोचना तथा फैलाना वगैरह शरीरकी क्रियाओंको न करनेको कायगुप्ति कहा है ।

निश्चय मनोगुप्ति और वचनगुप्ति

जा रायादिणियत्ती मणस्स जाणीहि तं मणुगुत्ती ।

अलियादिणियत्ति वा मोणं वा होइ वदिगुत्ती ॥ [निय० ६९]

मनका जो रागादि भावोंसे निवृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो । तथा असत्य आदि वचनोंसे निवृत्त होना अथवा मौन रहना वचन गुप्ति है ।

निश्चय कायगुप्ति

कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती ।

हिंसाइणियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति णिदिट्ठा ॥ [निय० ७०]

कायकी क्रियाओंसे निवृत्त होना और कायसे ममत्व छोड़ना काय गुप्ति है, अथवा हिंसादिकी निवृत्तिको कायगुप्ति कहा है ।

बाईस परीपह सहनेका उपदेश

दस दस दिय परीसह सहहि मुणी सयलकाल कारण ।

सुत्तेण श्रप्पमत्ता संजमघादं पमुत्तूण ॥ [भावप्रा० ६४]

हे मुनि ! तू जैन आगमके अनुसार प्रमाद रहित होकर और संयमका धात करनेवाले कामोंको छोड़कर, शरीरसे सदा बाईस परीपहोंको सहन कर ।

जह पत्थरो ण भिज्ज परिट्टिओ दीहकालमुदएण ।

तह साहू णवि भिज्ज उवसग्गपरीसहाण उदएण ॥ [भावप्रा० ६५]

जैसे पत्थर बहुत कालतक जलमें डूबा रहने पर भी जलसे भेदा नहीं जाता अर्थात् अन्दरसे गीला नहीं होता, वैसे ही साधु उपमर्ग और परीपहों से उदयसे खदखिन्न नहीं होता ।

भावनाओंको भानेका उपदेश

भावहि श्रणुवेक्खाओ अवरं पणवीस भावणा भावि ।

भावरहिएण किं पुण बाहिरलिगेण कायव्वं ॥ [भा० प्रा० ६६]

हे मुनि ! तू अनित्य अदि वारह भावनाओंका तथा पाँच महाव्रतोंकी पच्चीस भावनाओंका चिन्तन कर; क्योंकि भावरहित वाङ्मलिंग नग्नवेपसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ।

सप्त तत्त्व आदिका चिन्तन करनेका उपदेश

सव्वविरओ वि भावहि णव य पयत्थाइं सत्त तच्चाइं ।

जीवसमासाइं मुणी चउदस गुणटाणणामाइं ॥ [भावप्रा० ६७]

हे मुनि ! महाव्रतोंका धारी होने पर भी तू नौ पदार्थ, सात तत्त्व, चौदह जीवसमास और चौदह गुणस्थानोंके नामोंका चिन्तन कर ।

ब्रह्मचर्य पालनका उपदेश

णवविह वंभं पयडहि अक्खंभं दसविहं पमुत्तूण ।

मेहुणसण्णामत्तो भमिओ सि भवणवे भीमे ॥ [भावप्रा० ६८]

हे मुनि ! तू कामविकारकी दस अवस्थाओंको छोड़कर नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यको प्रकट कर । क्योंकि तूने कामसेवनमें आसक्त होकर भयंकर संसार समुद्रमें भ्रमण किया है ।

छियालीस दोस सहित भोजनका निषेध

छायालदोसदूसियनसरां गसिओ असुद्धभावेण ।

पत्तो सि महावसणं तिरियगईए अणुणवसो ॥ [भावप्रा० १०१]

हे मुनि ! अशुद्ध भावसे छियालिस दांपोसे दूषित भोजनको खाकर तूने पराधीन होकर तिर्यञ्च गतिमें महा दुःख पाया है ।

सच्चित्त त्यागका उपदेश

सच्चित्तभत्तपाणं गिद्धी दप्पेणउधी पमुत्तूण ।

पत्तो सि तिव्वदुक्कं अणाइकालेण तं चित्तं ॥ [भावप्रा० १०२]

हे अज्ञानी चित्त ! तूने अति तृष्णा और घमण्डसे अप्रासुक भोजन पानको खाकर अनादिकालसे तीव्र दुःख पाया है ।

कंदं मूलं वीयं पुप्फं पत्तादि किंचि सच्चित्तं ।

असिउण माणगव्वे भमिओ सि अणंतसंसारे ॥ [भा० प्रा० १०३]

हे जीव ! तूने अभिमानके घमण्डमें कन्द, मूल, वीज, पुष्प, पत्र आदि कुछ सच्चित्त वस्तुओंको खाकर अनन्त संसारमें भ्रमण किया है ।

पाँच प्रकारकी विनयका उपदेश

विणयं पंचपयारं पालाहि मणवयणकायजोएण ।

अविणयणरा सुविहियं तत्तो मुत्ति ण पावति ॥ [भा० प्रा० १०४]

हे मुनि ! तू मन वचन कायसे पाँच प्रकारकी विनयका पालन कर । अविनयी मनुष्य विनय करने वालोंकी विनय नहीं करते इस लिये वे मुक्तिको प्राप्त नहीं करते ।

वैयावृत्यका उपदेश

णियसत्तीए महाजस सभतिराएण णिच्चयालभिमि ।

तं कुण जिणभत्तिपरं विजावच्चं दसविण्यं ॥ [भा० प्र० १०५]

हे महा यशस्वी मुनि ! अपनी शक्तिके अनुसार जिन भगवानकी

भक्तिमें तत्पर करने वाली दस प्रकारका वैयावृत्य भक्ति और राग सहित सदा किया कर ।

आलोचनाका उपदेश

जं किंचि कयं दोसं मणवयकाएहिं असुहभावेण ।

तं गरहि गुरुस्यासे गारव मायं च मोचूण ॥ [भा० प्रा० १०६]

हे मुनि ! तूने अशुभ भावसे मन वचन और कायके द्वारा जो कुछ दोष किया हो, गर्व और मायाको छोड़कर गुरुके सामने उसकी आलोचना कर ।

कटुकवचन सहनेका उपदेश

दुष्जणवयणचडक्कं णिट्टुरकडुयं सहंति सण्णुरिसा ।

कम्ममलणासणट्ठं भावेण य णिम्ममा सवणा ॥ [भा० प्रा० १०७]

अन्तरंगसे ममत्त्व रहित सज्जनोत्तम भ्रमण कर्मरूपी मलका नाश करनेके लिये दुर्जनोके निष्ठुर और कटुक वचनरूपी शस्त्राघातको सहते हैं ।

क्षमा गुणकी प्रशंसा

पावं खवइ असेसं खमाए परिमंडिओ य मुणिएवरो ।

खेयर-अमर-णाराणं पसंसणीओ धुवं होइ ॥ [भा० प्रा० १०८]

क्षमा गुणसे भूषित श्रेष्ठमुनि समस्त पापकर्मोंका नाश कर देता है । और निश्चय ही विद्याधर देव और मनुष्योंकी प्रशंसाका पात्र होता है ।

क्षमा गुणको पालनेका उपदेश

इय णाऊण खमागुणा खमेहि तिधिहेण सयलजीवाणं ।

चिरसंचियकोहसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह ॥ [भा० प्रा० १०९]

इस प्रकार क्षमा गुणको जानकर मन वचन कायसे सब जीवोंको क्षमा कर । और चिर कालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको उत्तम क्षमारूपी जलसे सींच ।

उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश

बाहिरसयणत्तावण्णतरूमूलाईणि उत्तरगुणाणि ।

पालहि भावविसुद्धो पूयालाहं ण ईहंती ॥ [भा० प्रा० ११३]

शीतकालमें बाहर सोना, ग्रीष्म ऋतुमें आतापन योग अर्थात् पर्वतके उपर खड़े होकर ध्यान लगाना, और वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे ध्यान

लगाना आदि उत्तर गुणोंका विशुद्ध भावसे पूजा लाभकी इच्छा न करते हुए पालन कर ।

बारह प्रकारका तपश्चरण और तेरह प्रकारकी क्रियाओंके पालनका उपदेश

बारसविहत्तवयरणं तेरसकिरियाओ भावि तिविहेण ।

धरहि मणमत्तदुरयं शारणकुसण्ण मुणपवर ॥ [भा० प्रा० ८०]

हे मुनिश्रेष्ठ ! बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाओंका मन वचन और कायसे पालन कर । तथा मनरूपी मस्त हाथीको ज्ञानरूपी अंकुशके द्वारा वशमें कर ।

जिनलिंगकी भावनाका उपदेश

पंचविहचेलचायं खिदिसयणं दुविहसंजमं भिक्खु ।

भावं भावियपुवं जिणलिंगं णिम्मलं सुद्धं ॥ [भा० प्रा० ८१]

हे भिक्षु ! जिसमें रेशम, ऊन, सूत, छाल तथा चमड़ेके बने वस्त्रका त्याग किया जाता है, भूमीपर सोया जाता है, प्राणि संयम और इन्द्रिय संयमके भेदसे दो प्रकारका संयम पाला जाता है, उस पहले भाये हुए निर्मल शुद्ध जिनलिंगका चिन्तन कर ।

जिनधर्मकी भावनाका उपदेश

जह रयणाणं पवरं वज्जं जह तरुगणाणं गोसीरं ।

तह धम्माणं पवरं जिणधम्मं भावि भवमहणं ॥ [भा० प्रा० ८२]

जैसे सब रत्नोंमें श्रेष्ठ हीरा है और जैसे सब वृक्षोंमें श्रेष्ठ चन्दन है, वैसे ही सब धर्मोंमें श्रेष्ठ जैनधर्म है, जो संसारका नाशक है । हे मुनि ! तू उसका चिन्तन कर ।

धर्मका स्वरूप

पूयादिषु वयसहियं पुण्णं हि जिरोहिं सासणे भणियं ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अण्णो धम्मो ॥ [भा० प्रा० ८३]

व्रत सहित पूजा आदि क्रियाओंका करना पुण्य है ऐसा जिनेन्द्र देवने शास्त्रमें कहा है । अर्थात् इन कामोंके करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध

१. - 'भिक्खा ग. । २. गोसीसं ग. । ३. जिणसासणे ग० । ४. सुद्धो ग० ।

होता है । और मोह तथा क्षोभ (चित्तकी चञ्चलता) से रहित आत्माका परिणाम धर्म है ।

पुण्य धर्म नहीं है—

सहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि ।

पुण्यं भोयण्णित्तं ण हु सो कम्मक्खयण्णित्तं ॥ [भा० प्रा० ८४]

मुनि ऐसा श्रद्धान करता है; विश्वास करता है, उसे यह रुचता है और बारंबार वह इसे अपनाता है कि पुण्य भोगका कारण है, वह कर्मोंके क्षयका कारण नहीं है ।

अप्पा अप्पामि रत्थो रायादिमु सयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदुं धम्मो त्ति जिरोहिं णिदिट्ठं ॥ [भा० प्रा० ८५]

जो आत्मा राग आदि समस्त दोषोंसे रहित होता हुआ आत्मामें लीन होता है वही धर्म है, और वही संसार समुद्रसे पार उतारनेमें कारण है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

अह पुण अप्पा णिच्छादि पुण्णाइ करेदि णिरवसेसाइं ।

तह वि ण पावदि सिद्धि संसारत्थो पुणो भण्णिदां ॥ [भा० प्रा० ८६]

किन्तु यदि आत्मा ऐसा नहीं मानता कि आत्माका आत्मामें लीन होना ही धर्म है, और सम्पूर्ण प्रकारके पुण्य कर्मोंका करता है, फिर भी उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती और उसे संसारी ही कहा गया है ।

एएण कारणेण यं तं अप्पा सहहेदु ति विहेण ।

केस य लहेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥ [भा० प्रा० ८७]

इस कारणसे, मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो और प्रयत्न करके उसे जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको ।

मच्छो वि सार्लिसत्थो असुद्धभावो गत्थो महाणरवं ।

इय णाउं अप्पाणं भावाह जिणभावणा णच्चं ॥ [भा० प्रा० ८८]

तन्दुल नामक मत्स्य भी अशुद्ध भाववाला होनेसे मरकर सातवें नरकमें गया । ऐसा जानकर सर्वदा जिन भावनाके द्वारा अपनी आत्माका ही चिन्तन कर ।

भावके बिना सब निरर्थक है—

वाहिरसंगत्थाओ गिरिसरिदरिक्कं दराइआवासी ।

सयलो णाणज्जयणो णिरत्थओ भावरहियाणं ॥ [भा० प्रा० ८९]

शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित मुनियोंका बाह्य परिमहका त्याग, पहाड़ नदी गुफा खोह आदिमें वसना और समस्त ज्ञान अध्ययन निरर्थक है।

श्रुतज्ञानकी भावनाका उपदेश

तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं ।

भावहि अणुदिरणु अतुलं विसुद्धभावेण सुयणाणं ॥ [भा० प्रा० ६२]

हे मुनि ! विशुद्ध भावसे तू उस अनुपम श्रुतज्ञानका रात दिन चिन्तन कर, जिसे गणधर देवने भले प्रकारसे शास्त्र रूपमें निबद्ध किया है और जिसमें वर्णित वस्तुतत्त्वका कथन तीर्थङ्कर देवने किया है।

एवं संखेवेण य भणियं णारोण वीयराएण ।

सम्मत्तसंजमासयदुएहं पि उदेसियं चरणं ॥ [भा० प्रा० ४४]

इस प्रकार वीतराग विज्ञानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व और संयम-के आश्रय रूप सम्यक्त्वचरणचारित्र्य और संयमचरणचारित्र्यको संचेपसे कहा।

२ निश्चय चारित्र्य

निश्चय्य प्रतिक्रमण

णाहं णारयभावो तिरियच्छो मणुव-देवपजाओ ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता सेव कत्तीणं ॥ [निय० ७८]

णाहं मग्गणठाणो णाहं गुणठाण जीवठाणो ण ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता सेव कत्तीणं ॥ [नि० ७८]

णाहं बालो बुद्धो ण चेव तरुणो ण कारणं तेसिं ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता सेव कत्तीणं ॥ [नि० ७९]

णाहं रागो दोसो ण चेव मोहो ण कारणं तेसिं ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता सेव कत्तीणं ॥ [नि० ८०]

णाहं कोहो माणो ण चेव माया ण होमि लोहो हं ।

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता सेव कत्तीणं ॥ [निय० ८१]

न मैं नारक भाववाला हूँ, न मैं तिर्यञ्च मनुष्य या देव पर्यायरूप हूँ, न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता-कराने वाला हूँ और न मैं उनकी अनुमोदना करने वाला हूँ। न मैं मार्गणास्थानरूप हूँ, न गुणस्थान-रूप हूँ, और न जीवस्थानरूप हूँ, न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ

और न अनुमोदक हूँ। न मैं बालक हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ और न उन अवस्थाओंका कारण हूँ। न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ और न अनुमोदक हूँ। न मैं रागरूप हूँ, न द्वेषरूप हूँ, न मोहरूप हूँ, और न उनका कारण हूँ। न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ, और न अनुमोदक हूँ। न मैं क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ और न मैं लोभ रूप हूँ। न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ और न अनुमोदक हूँ।

एरिसभेदभासे मज्जत्थो होदि तेण चारित्तं ।

तं दिट्ठकरणनिमित्तं पडिकमणादी पवक्खामि ॥ [नि० ८२]

इस प्रकारके भेद ज्ञानका अभ्यास करनेपर आत्मा मध्यस्थ हो जाता है और उससे चरित्रकी प्राप्ति होती है। उस चरित्रको दृढ़ करनेके लिये प्रतिक्रमण आदिको कहेंगा।

मोत्तूण वयणरयणं रागादिभाववारणं किच्चा ।

अप्पायां जो भायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमणं ॥ [नि० ८३]

वचनकी रचनाको छोड़कर अर्थात् वचनात्मक प्रतिक्रमणको न करके तथा रागादि भावोंको दूर करके जो आत्माका ध्यान करता है उसके प्रतिक्रमण होता है।

आराहणाइ वट्टइ मोत्तूण विराहणं विसेसेण ।

सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जग्हा ॥ [नि० ८४]

जो मुनि विशेष रूपसे सब प्रकारकी विराधनाको छोड़कर आत्म-स्वरूपकी आराधनामें लगता है उसे प्रतिक्रमण कहा है क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है।

मोत्तूण अणायारं आयारे जो दु कुणदि थिरभावं ।

सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जग्हा ॥ [नि० ८५]

जो मुनि अनाचारको छोड़कर आचारमें स्थिर भावको करता है अर्थात् आत्म चरित्रमें दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है।

उम्मणं परिच्चा जिणमग्गे जो दु कुणदि थिरभावं ।

सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमओ हवे जग्हा ॥ [नि० ८६]

जो उन्मार्गको छोड़कर जिनमार्गमें स्थिर भावको करता है अर्थात् जैन मार्गमें दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोक्षरूपं सल्लभावं णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि ।

सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमञ्चो हवे जग्हा ॥ [नि० ८७]

माया, मिथ्यात्व और निदानरूपी शल्य भावको छोड़कर जो साधु निःशल्य भावमें परिणमन करता है अर्थात् शल्य रहित होकर वर्तन करता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्योंकि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

चत्ता 'अगुत्तिभावं तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहु ।

सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमञ्चो हवे जग्हा ॥ [नि० ८८]

जो साधु अगुप्ति भावको छोड़कर तीन गुप्तियोंसे गुप्त अर्थात् रक्षित होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्यों कि वह प्रतिक्रमणमय होता है ।

मोक्षरूपं अट्टरुहं भाणं जो भादि धम्मसुक्कं वा ।

सो पडिकमणं उच्चइ जिणवरणिदिट्टसुत्ते सु ॥ [नि० ८९]

जो साधु आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसे जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे गये सूत्रोंमें प्रतिक्रमण कहा है ।

मिच्छत्तपहुदिभावा पुवं जीवेण भाविया सुहरं ।

सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होति जीवेण ॥ [नि० ९०]

पहले जीवने अनादि कालसे मिथ्यात्व आदि भावोंको भाया है तथा सम्यक्त्व आदि भावोंको कभी भी नहीं भाया ।

मिच्छादंसणणाणचरित्तं चइऊरा णिरवसेसेण ।

सम्मत्तणाणचरणं जो भावइ सो पडिकमणं ॥ [नि० ९१]

जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्रको पूर्ण रूपसे त्यागकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और स-यक्चारित्रको पालता है वह प्रतिक्रमण है ।

उत्तमञ्चट्टं आदा तग्हि ठिदा हणादि मुणिवरा कम्मं ।

तग्हा दु भाणामेव हि उत्तमञ्चट्टस्स पडिकमणं ॥ [नि० ९२]

आत्मा ही उत्तमार्थ है उसीमें रहकर मुनिवर कर्मोंका नाश करते हैं । इस लिये उत्तमार्थ आत्माका ध्यान ही प्रतिक्रमण है ।

१ 'ह्यगुत्ति' इति पाठान्तरम् ।

भाषाणिलीणो साहू परिन्नागं कुणइ सव्वदोसाणां ।

तम्हा दु भाषामेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमणां ॥ [नि० ६३]

ध्यानमें पूरी तरहसे लीन साधु समस्त दोषोंका त्याग कर देता है,
अतः ध्यान ही सब अतीचारोंका प्रतिक्रमण है ।

पडिकमणणागामधेये सुत्ते जह वरिणादं पडिकमणां ।

तह णादा जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमणां ॥ [नि० ६४]

प्रतिक्रमण नामक सूत्रमें जैसा प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है वैसा
जानकर जो उसकी भावना करता है उसके प्रतिक्रमण होता है ।

निश्चय प्रत्याख्यान

मोत्तूण सयलजप्पमणागयसुहमसुहवारणां किच्चा ।

अप्पाणां जो भायदि पच्चक्खवाणां हवे तस्स ॥ [नि० ६५]

जो समस्त वचन विलासको छोड़कर तथा आगामी शुभ और अशुभ
भावांको दूर करके आत्माका ध्यान करता है उसके प्रत्याख्यान होता है ।

केवलणाणासहावो केवलदसणासहाव सुहमइओ ।

केवलमानसहावो साहं इदि चित्तए णाणी ॥ [नि० ६६]

जो कोई केवल ज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है, परमसुखमय
और केवल शक्ति अर्थान् अनन्त वीर्य स्वभाव है, वह मैं हूँ, ऐसा ज्ञानीको
चिन्तन करना चाहिये ।

णियभावं ण वि मुच्चइ परभावं णेव गेणहए केइ ।

जाणादि पस्सदि सव्वं सोहं इदि चित्तए णाणी ॥ [नि० ६७]

जो आत्मभावको कभी नहीं छोड़ता, और परभावको कभी भी
ग्रहण नहीं करता, परन्तु सबको जानता और देखता है वह मैं हूँ, ऐसा
ज्ञानीको विचारना चाहिये ।

पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसवंधेहिं वज्जदो अप्पा ।

सोहं इदि चित्तज्जो तत्थेव य कुणादि थिरभावं ॥ [नि० ६८]

प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धोंसे रहित जो
आत्मा है वही मैं हूँ ऐसा विचारना चाहिए । ऐसा विचारता हुआ ज्ञानी
उसी आत्मामें स्थिर भावको करता है अर्थान् उसीमें स्थिर हो जाता है ।

ममत्तिं परिवर्ज्यामि शिम्ममत्तिमुवट्टिदो ।

आलंबणां च मे आदा अवसेसं च वोसरे ॥ [नि० ६६]

मैं ममत्व भावको छोड़ता हूँ, और निर्ममत्व भावमें स्थिर होता हूँ ।
आत्मा ही मेरा आलम्बन है, शेष सबको मैं छोड़ता हूँ ।

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ [नि० १००]

निश्चयसे मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे दर्शनमें आत्मा है, मेरे चारित्र्यमें
आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यानमें आत्मा है, तथा मेरे संवर और उपयोगमें
आत्मा है । अर्थान् ये सब आत्म स्वरूप ही हैं ।

एगो य मरदि जीवो एगो य जीवदि सयं ।

एगस्स जादि मरणं एगो सिद्धमदि णीरओ ॥ [नि० १०१]

यह जीव अकेला ही मरता है, स्वयं अकेला ही जन्म लेता है ।
अकेला ही मरणको प्राप्त होता है तो अकेला ही कर्मोंसे छूटकर सिद्ध
पदको प्राप्त करता है ।

एगो मे सासदो अप्पा णाणादंसणालक्खणा ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ [नि० १०२]

ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा एक आत्मा ही शाश्वत-सदा स्थायी
है, मेरे लिये एक आत्माको छोड़कर शेष सभी भाव बाह्य हैं-पर हैं;
क्योंकि वे सभी संयोगलक्षण हैं अर्थान् पर द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न
होते हैं ।

जं किंन्नि मे दुच्चरित्तं सव्वं तिविहेणा वोसरे ।

सामाहयं तु तिविहं करेमि सव्वं पिरायारं ॥ [नि० १०३]

जो कुछ मेरा खोटा चारित्र्य है उस सबको मैं मन वचन कायसे
त्यागता हूँ । और तीन प्रकारसे समस्त निर्विकल्प सामायिकको करता हूँ ।

सम्भं मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झं ण केषा वि ।

आसाए वोसरित्ता णं समाहि पडिवज्जए ॥ [नि० १०४]

सब प्राणियोंमें मेरा समता भाव है । किसीके भी साथ मेरा वैर
भाव नहीं है । मैं आशाको त्याग कर समाधिको प्राप्त होता हूँ ।

शिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणो ।

संसारभयभीदस्स पच्चक्खाणां सुहं हवे ॥ [नि० १०५]

जो कपायसे रहित है, इन्द्रियोंका दमन करने वाला है, उद्यमी है और संसारसे भयभीत है, उसका प्रत्याख्यान सुखमय होता है ।

एवं भेदभासं जो कुब्बइ जीवकम्मणो णिच्चं ।

पच्चक्खाणं सक्खि धरिटुं सो संजदो णियमा ॥ [नि० १०६]

इस प्रकार जो सदा जीव और कर्मके भेदका अभ्यास करता है अर्थात् जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है इस प्रकार अनुभव करनेका सदा प्रयत्न करता रहता है, वही संयमी नियमसे प्रत्याख्यानको धारण कर सकता है ।

निश्चय आलोचना

शोकम्म-कम्मरहियं विहावगुणपज्जएहिं वदिरित्तं ।

अप्पाणं जो भायदि समणस्सालोयणं होदि ॥ [नि० १०७]

जो नोकर्म और कर्मसे रहित तथा विभाव गुण और विभाव पर्यायोसे भिन्न आत्माका ध्यान करता है उसी श्रमणके आलोचना होती है ।

आलोयणमालुंछण वियडीकरणं च भावसुद्धी य ।

चउवहमिह परिकहियं आलोयणलक्खणं समए ॥ नि० १०८]

आलोचन, आलुञ्छन, अविकृति करण और भावशुद्धिके भेदसे आगममें आलोचनाका लक्षण चार प्रकारका कहा है ।

आलोचनाका लक्षण

जो पस्सदि अप्पाणं समभावे संटावत्तु परिणामं ।

आलोयणमिदि जाणह परमजिणंदस्स उवएसं ॥ [नि० १०९]

जो समता भावमें अपने परिणामको स्थापित करके आत्माको देखता है उसे आलोचन जानो । ऐसा परम जिनेन्द्रका उपदेश है ।

आलुञ्छनका लक्षण

कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो ।

साहीणो समभावो आलुञ्छणमिदि समुद्धिट्टं ॥ नि० ११०]

कर्म रूपी वृक्षकी जड़को काटनेमें समर्थ जो अपना स्वाधीन और समता भावरूप परिणाम है उसीको आलुञ्छन कहा है ।

अविकृति करणका स्वरूप

कम्पादो अप्पाणं भिण्णां भावेइ विमलगुणगणिलयं ।

मज्झत्थभावणाए विथडीकरणं ति विण्णोयं ॥ [नि० १११]

वीतराग भावनाके द्वारा निर्मल गुणोंके स्थानरूप आत्माको जो कर्मोंसे भिन्न अनुभव करता है उसे ही अविकृति करण जानना चाहिये ।

भावशुद्धिका स्वरूप

मद-माणा-माय-लोहविवजियभावो दु भावसुद्धि त्ति ।

परिकहियं भव्वाणं लोयालोयप्पदरिसीहिं ॥ [नि० ११२]

मद, मान, माया, लोभसे रहित भाव भावशुद्धि है ऐसा लोक और अलोकको जानने देखने वाले जिनेन्द्रदेवने भव्य जीवोंको कहा है ।

निश्चय प्रायश्चित्त

वद-समिदि-सील-संजम-परिणामो करण्णिग्गहो भावो ।

सो हवादि पायच्छित्तं अणवरयं चैव कायव्वो ॥ [नि० ११३]

व्रत, समिति, शील और संयम रूप जो परिणाम है तथा इन्द्रियोंका निग्रह रूप जो भाव है वही प्रायश्चित्त है । उसे सदा करना चाहिये ।

कोहादिसगम्भावखयपहुदी भावणाए णिग्गहणं ।

पायच्छित्तं भण्णिदं णियगुणच्चिता य णिच्छयदो ॥ [नि० ११४]

निश्चय नयसे क्रोध आदि रूप अपने विभाव भावोंको क्षय करने आदिकी भावनामें प्रवृत्ति करना और अपने गुणोंकी चिन्ता करनेको प्रायश्चित्त कहा है ।

कषायोंको जीतनेका उपाय

कोहं खमया मायां समइवेणज्जवेण मायं च ।

संतोसेण य लोहं जयदि खु ए चउविहकत्ताए ॥ [नि० ११५]

क्रोधको क्षमासे, मानको मार्दवसे, मायाको आर्जवसे और लोभको सन्तोषसे, इस प्रकार चारों कषायोंको साधु जीतता है ।

उक्किट्टो जो बोहो णाणं तस्सेव अप्पणो चित्तं ।

जो धरइ मुणी णिच्चं पायच्छित्तं हवे तस्स ॥ [नि० ११६]

उसी आत्माका जो उत्कृष्ट बोध, अथवा ज्ञान अथवा चित्त, उसे जो मुनि नित्य धारण करता है उसके प्रायश्चित्त होता है । अर्थात् शुद्ध ज्ञानको स्वीकार करने वाले मुनिके प्रायश्चित्त होता है ।

किं बहुणा भणिएण दु वरतवचरणं महेसियं सव्वं ।
पायच्छिरं जाणह अणोयकम्माण खयहेऊ ॥ [नि० ११७]

अधिक कहनेसे क्या ? महविंशोंके सब उत्कृष्ट तपश्चरणको प्रायश्चित्त जानो । वह प्रायश्चित्त अनेक कर्मोंके क्षयका कारण है ।

एतांतांतभवेण समज्जिअसुहअसुहकम्मसंदोहो ।

तवचरणेण विणस्सदि पायच्छित्तं तवं तम्हा ॥ [नि० ११८]

अनन्तानन्त भवोंके द्वारा इस जीवने जो शुभ और अशुभ कर्मोंका समूह संचित किया है, वह तपश्चरणके द्वारा नष्ट हो जाता है । अतः तप प्रायश्चित्त है ।

अप्पसरूवालंबणभवेण दु सव्वभावपरिहाणं ।

सक्खदि काउं जीवो तम्हा भाणं हवे सव्वं ॥ [नि० ११९]

आत्म स्वरूपके आलम्बन रूप भावके द्वारा यह जीव सब परभवोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । अतः ध्यान ही सब कुल्ल है ।

सुह-असुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किच्चा ।

अप्पाणं जो भायादि तस्स दु णियमं हवे णियमा ॥ [नि० १२०]

जो शुभ और अशुभ वचन रचनाको तथा रागादि भावोंको दूर करके आत्माका ध्यान करता है उसके नियमसे 'नियम' होता है ।

कायोत्सर्गका स्वरूप

कायाईपरदव्वे थिरभावं परिहरित्तु अप्पाणं ।

तस्स हवे तणुसम्मं जो भायाइ णिव्वियप्पेण ॥ [नि० १२१]

काय आदि पर द्रव्योंमें स्थिर भावको दूर करके अर्थान् काय अनित्य है ऐसा मानकर जो निविकल्प रूपसे आत्माका ध्यान करता है उसीके कायोत्सर्ग होता है ।

परमसमाधि

वयणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेण ।

जो भायादि अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ [नि० १२२]

वचनोंका उच्चारण करनेकी क्रियाको छोड़कर जो वीतराग भावसे आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है ।

संजमणियमतवेण दु धम्मज्झारोण सुकभाणोण ।

जो भायइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ [नि० १२३]

संयम नियम और तपके द्वारा तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यानके द्वारा जो आत्माका ध्यान करता है उसके परम समाधि होती है ।

कि काहदि वणवासो कायकिलेसो विचिन्तवववासो ।

अब्भयणमोणपहुदी समदारहिदस्स समणस्स ॥ [नि० १२४]

जो भ्रमण समता भावसे शून्य है उसका वनवास, कायक्लेश, विचित्र उपवास, अध्ययन, मौन वगैरह क्या कर सकते हैं ? अर्थात् सब निरर्थक हैं ।

विरदो सव्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिदिओ ।

तस्स सामाहगं टाइ इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२५]

जो सर्व सावद्य कार्योंसे विरक्त होता हुआ तीन गुणियोंको पालता है और इन्द्रियोंका निरोध करता है, उसके सामायिक संयम स्थायी होता है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो समो सव्वभूदेसु थावरेसु तसेसु वा ।

तस्स सामाहगं टाइ इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२६]

जो त्रस, स्थावर सभी प्राणियोंमें समता भाव रखता है उसीके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जस्स संण्हिदो अप्पा संजमे णियमे तवे ।

तस्स सामाहगं टाइ इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२७]

संयम, नियम और तप का आचरण करते समय जिसका आत्मा उसके निकट रहता है उसीके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जस्स रागो दु दोसो दु विगडिं ण जरोदि दु ।

तस्स सामाहगं टाइ इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२८]

राग और द्वेष जिसमें विकार पैदा नहीं करते, उसीमें सामायिक स्थायी रहती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दु अट्टं च रुहं च भाणं वज्जेदि णिच्चसा ।

तस्स सामाहगं टाइ इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १२९]

जो सदा आर्त और रौद्र ध्यानसे दूर रहता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दु पुण्यं च पावं च भावं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३०]

जो सदा पुण्य भाव और पाप भावसे दूर रहता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दु हस्सं रई सोगं अरतिं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३१]

जो सदा हास्य रति, शोक और अरतिको छोड़ता है उसके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दुगुंछा भयं वेदं सर्व्वं वज्जेदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३२]

जो सदा जुगुप्सा, भय, वेद, इन सबको छोड़ता है उसीके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

जो दु धम्मं च सुक्कं च भाणं भाएदि णिच्चसा ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [नि० १३३]

जो सदा धर्मध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है ।

परमभक्ति

सम्मत्तणाणचरणो जो भत्ति कुणइ सावगो समणो ।
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिणेहि पणणत्तं ॥ [नि० १३४]

जो श्रावक अथवा श्रमण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यमें भक्ति करता है उसके मोक्षकी कारणभूत भक्ति अथवा निर्वाण-भक्ति होती है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ।

मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेदं जाण्णिऊण तेसिं पि ।
जो कुणदि परमभत्ति अवहारणयेण परिकहियं ॥ [नि० १३५]

जिन पुरुषोंने मोक्ष प्राप्त किया है, उनके गुणोंके भेदको जानकर जो उनमें परम भक्ति करता है, व्यवहार नयसे उसे भी निर्वाण भक्ति कहा है ।

मोक्षपथे अप्पाणं ठविऊण य जुणदि शिव्जुदी भत्ती ।

तेण दु जीवो पावइ असहायगुणं शियप्पाणं ॥ [नि० १३६]

जो जीव मोक्षके मार्गमें अपनेको स्थापित करके निर्वाण भक्ति करता है, उससे वह जीव पर निरपेक्ष आत्मिक गुणोंसे युक्त अपनी आत्माको प्राप्त करता है ।

रायादीपरिहारे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ [नि० १३७]

जो साधु रागादिको दूर करनेमें अपनेको लगाता है वह योग भक्तिसे युक्त होता है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ?

सव्ववियप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू ।

सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ [नि० १३८]

जो साधु सब विकल्पोंके अभावमें अपनेको लगाता है वह योगभक्तिसे युक्त है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है ।

योगका स्वरूप

विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोएहकहियतन्वेसु ।

जो जुंजदि अप्पाणं शियभावे सो हवे जोगो ॥ [नि० १३९]

विपरीत (मिथ्या) अभिप्राय को छोड़कर जो जैन शासनमें कहे हुए तत्त्वोंमें अपनेको लगाता है उसका यह निज भाव ही योग है ।

उसहादिजिणवरिदा एवं काऊण जोगवरभत्ति ।

शिव्जुदिसुहमावणणा तम्हा धरु जोगवरभत्ति ॥ [नि० १४०]

भगवान् ऋषभदेव अदि चौबीस तीर्थङ्करोंने इस प्रकार योगकी उत्तम भक्तिको करके मोक्षके सुखको प्राप्त किया । इसलिये योगकी उत्तम भक्तिको धारण करो ।

निश्चय आवश्यक

जो ण हवदि अणणवसो तस्स दु कम्मं भणंति आवासे ।

कम्मविखासणजोगो शिव्जुइमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ॥ [नि० १४१]

जो दूसरेके वशमें नहीं होता उसके कर्मको आवश्यक कहा है । यह आवश्यक कर्म कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ है । इसीसे उसे मोक्षका मार्ग कहा है ।

आवश्यक नियुक्तिका अर्थ

एवसो अवसो अवसरस कम्म वावस्सयं ति बोधव्वा ।

जुत्ति त्ति उवाअं ति य णिरवयवो होदि णिज्जुत्ती ॥ [नि० १४२]

जो किसीके वशमें नहीं है उसे अवश कहते हैं । और अवशके कर्मको आवश्यक कहते हैं ऐसा जानना चाहिये । तथा निरवयव अर्थात् शरीर रहित होनेके युक्ति अर्थात् उपायको नियुक्ति कहते हैं । अतः जो पर द्रव्योंके वशमें नहीं है वह शरीर रहित हो जाता है यह आवश्यक नियुक्ति की व्युत्पत्ति है ।

वट्टदि जो सो समणो अरणवसो होदि असुहभावेण ।

तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सयलक्खणं ण हवे ॥ [नि० १४३]

जो श्रमण अन्यके वशमें होता है वह अशुभ भाव रूपसे प्रवृत्ति करता है । इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । अर्थात् कर्मोंके वशीभूत श्रमणका कर्म आवश्यक कर्म नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसमें आवश्यकका लक्षण नहीं पाया जाता है ।

जो चरदि संजदो खलु सुहभावे सो हवेइ अरणवसो ।

तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सयलक्खणं ण हवे ॥ [नि० १४४]

जो संयमी शुभ भावमें प्रवृत्ति करता है वह अन्यके वशमें होता है । इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता ।

द्वग्गुणपज्जयाणं चित्तं जो कुणइ सो वि अरणवसो ।

मोहांधयारववगयसमणा कहयंति एरिसयं ॥ [नि० १४५]

जो मुनि द्रव्योंके गुणों और पर्यायोंका चिन्तन करता है वह भी अन्यके वशमें है, ऐसा मोहरूपी अन्धकारसे रहित श्रमण कहते हैं ।

परिचत्ता परभावं अप्पाणं भादि णिम्मलसहावं ।

अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्मं भणंति आवासं ॥ [नि० १४६]

जो साधु पर भावको त्यागकर निर्मल स्वभाव वाले आत्माका ध्यान करता है वह आत्मवश अर्थात् स्वाधीन है, और उसके कर्मको आवश्यक कहते हैं ।

आवासं जइ इच्छसि अप्पसहावेषु कुणहि थिरभावं ।

तेण दु सामण्यगुणं संपुरणं होदि जीवस्स ॥ [नि० १४७]

हे मुनि ! यदि तू आवश्यक कर्मकी इच्छा करता है तो तू आत्म-स्वभावमें स्थिर भावको कर, अर्थात् आत्म स्वभावमें स्थिर रह । उसीसे अर्थात् आत्म स्वभावमें स्थिर रहनेसे जीवका श्रमण्य गुण (मुनिपद सम्बन्धी गुण अर्थात् सामायिक) सम्पूर्ण होता है ।

आवासएण हीणो पम्भट्टो होदि चरणदो समणो ।

पुच्छुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासयं कुञ्जा ॥ [नि० १४८]

जो श्रमण आवश्यक कर्म नहीं करता वह चारित्र्यसे भ्रष्ट होता है ।
अतः पहले कहे हुए क्रमके अनुसार आवश्यक करना चाहिये ।

आवासएण जुत्तो समणो सो होदि अंतरंगप्पा ।

आवासयपरिहीणो समणो सो होदि बहिरप्पा ॥ [नि० १४९]

जो श्रमण आवश्यक कर्मोंसे युक्त है वह अन्तरात्मा होता है और जो श्रमण आवश्यक कर्मोंको नहीं करता वह बहिरात्मा अर्थात् मिथ्या-दृष्टि होता है ।

अंतर वाहिरजप्पे जो वट्टइ सो हवेइ बहिरप्पा ।

जप्पेसु जो ण वट्टइ सो बुच्चइ अंतरंगप्पा ॥ [नि० १५०]

जो श्रमण अन्तरंग और वाह्य जल्प अर्थात् वचन विलासमें लगा रहना है वह बहिरात्मा है । और जो वचन विलासमें प्रवृत्ति नहीं करता उसे अन्तरात्मा कहते हैं ।

जो धम्म-सुक्कभाणग्ग्हि परिणदो सो वि अंतरंगप्पा ।

भाणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥ [नि० १४१]

जो साधु धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यानमें लीन रहता है वह भी अन्तरात्मा है । तथा जो श्रमण ध्यान नहीं करता वह बहिरात्मा है ऐसा जानो ।

पडिकमणपहुदिकिरियं कुव्वंतो सिञ्छयस्स चारित्तं ।

तेण तु विरागचरिए समणो अबुट्टिदो होदि ॥ [नि० १५२]

निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंको करने वाले श्रमणके निश्चय चारित्र्य होता है । इसलिये वह श्रमण वीतराग चारित्र्यमें स्थित होता है ।

वयणमयं पडिकमणं वयणमयं पच्चक्खवाणणियमं च ।

आलोयण वयणमयं तं सर्व्वं जाण सज्जाओ ॥ [नि० १५३]

वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्या यान और नियम, वचनमय आलोचना, ये सब स्वाध्याय जानो। अर्थात् प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना आलोचना पाठ पढ़ना आदि स्वाध्यायमें सम्मिलित है, वह प्रतिक्रमण या आलोचना आदि नहीं है।

जदि सक्रदि कादुं जे पडिकमणादि करेज भाणमयं ।

सत्तिविहीणो जो जह सदहणं चैव कायव्वं ॥ [नि० ११४]

यदि तुममें करनेकी शक्ति है तो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो। यदि तेरेमें शक्ति नहीं है तो श्रद्धान ही करना चाहिये।

जिणकहियपरममुत्ते पडिकमणादि य परीक्खऊण फुडं ।

मोणव्वएण जोई गियकज्जं साहये गिच्चं ॥ [१५५]

जिन भगवानके द्वारा कहे गये परम सूत्रमें प्रतिक्रमणादिकी स्पष्ट रूपसे परीक्षा करके योगीको मौनव्रतपूर्वक अपना कार्य नित्य साधना चाहिये।

णाणा जीवा णाणा कम्मं णाणाविहं हवे लद्धी ।

तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिजो ॥ [नि० १५६]

नाना प्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके कर्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी लब्धियां हैं। इसलिये अपने साधर्मियोंसे तथा विधर्मियोंसे वादविवाद नहीं करना चाहिये।

लद्धूणं गिहिं एक्को तस्स फलं अणुहवेइ मुजणत्ते ।

तह णाणी णाणगिहिं भुंजेइ चइत्तु परतत्ति ॥ [नि० १५७]

जैसे एक मनुष्य निधिको पाकर उसका फल अपने जन्म स्थानमें स्वजनोंमें भोगता है। वैसे ही ज्ञानी ज्ञाननिधिको पाकर परद्वयोंको छोड़कर उसको भोगता है।

सव्वे पुराणपुरिसा एवं आवासयं च काऊण !

अपमत्तपहुदिटाणं पडिवज्जय केवली जादा ॥ [नि० १५८]

सभी पुराण पुरुष इसी प्रकार आवश्यकोंको करके और अप्रमत्त आदि गुणस्थानों को प्राप्त होकर केवली हुए।

६. बोधप्राप्त अधिकार

बहुसत्थ-अत्थजाणे संजम-सम्मत्त-सुद्धतवयरणे ।
 वंदित्ता आयरिए कसायमलवजिए सुद्धे ॥१॥
 सयल-जण-बोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं ।
 वुच्छामि समासेण यं लुक्कायहियंकरं सुणह ॥२॥

बहुतसे शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले, संयम और सम्यक्त्वसे शुद्ध तपश्चरण करने वाले, और कषायरूपी मलसे रहित पवित्र आचार्योंको नमस्कार करके, सब जीवोंको ज्ञान करानेके लिये जैनमार्गमें जिनेन्द्रदेवने जैसा कहा है, छै कायके जीवोंके लिये सुखकारी उस कथनको संक्षेपसे कहता हूँ । हे भव्यजीवों सुनो ।

जाननेयोग ग्यारह वस्तु

आयदणं चेत्यहरं जिणपडिमा दंसणं च जिणविंबं ।
 भणियं सुवीयरायं जिणमुद्दा णाणमादिभूदत्थं ॥३॥
 अरहंतसुदिट्ठं जं देवं तित्थं च तहय अरहंतं ।
 पावज गुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो ॥४॥

आयतन, चैत्यगृह, जिन प्रतिमा, दर्शन, वीतराग, जिन विम्ब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहन्त तथा गुणोंसे पवित्र प्रव्रज्या, अर्हन्त देवके द्वारा सम्यक् रीतिसे देखे गये और इन मूलभूत पदार्थोंको क्रमानुसार जानना चाहिये ।

आयतनका स्वरूप

मण-वयण-कायदब्बा आइत्ता जस्स इंदिया विसया ।
 आयदणं जिणमग्गे णिदिट्ठं संजयं रुवं ॥ ५ ॥

मन वचन और काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियोंके विषय जिसके अधीन हैं, ऐसे संयमीके रूपको जिन मार्गमें आयतन कहा है ।

१. सव्वजण- ऊ । २. वुच्छामि आ०, वोच्छामि ग० । ३. सुणसु ग० ऊ० । -४. मादत्थं- आ० । ५. अरहंतैणसुदिट्ठं -आ० । ६. आसत्ता आ० ग० ।

मय-राय-दोस-^१मोहा कोहो लोहोय जस्स आइत्ता ।
पंचमहव्वयधारी आयदणं महरिसी भणियं ॥६॥

मद, राग, द्वेष, मोह, क्रोध और लोभ जिसके वशमें हैं, पाँच महाव्रतोंके धारी उस महर्षिको आयतन कहा है ।

सिद्धायतन

सिद्धं जस्म सदत्थं विसुद्धभाणस्स णाणजुत्तस्स ।

सिद्धायदणं सिद्धं मुखिवरवसहस्स मुखिदत्थं ॥७॥

जिस विशुद्ध ध्यानवाले ज्ञानी मुनिश्रेष्ठके शुद्ध आत्माकी सिद्धि हो गई है उसे समस्त पदार्थोंको जानने वाला सिद्धायतन कहा है ।

चैत्यग्रहका स्वरूप

^२बुद्धं जं वोहंतो अप्पाणं चेइयाइं अरणं च ।

पंचमहव्वयसुद्धं णाणमयं जाण चेदिहरं ॥८॥

जो आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता हुआ चैत्यस्वरूप अन्य आत्माओंको भी ज्ञानस्वरूप जानता है, पाँच महाव्रतोंसे पवित्र उस ज्ञानमय आत्माको चैत्यगृह-चैत्यालय जानों ।

चेइय बंधं मोक्खं दुक्खं सुक्खं च अप्पयं तस्स ।

चेइहरं जिणमग्गे लुक्कायहिंयंकरं भणियं ॥९॥

चैत्यगृह कहे जानेवाले उस ज्ञानमय आत्मामें चैत्यके निमित्तसे बन्ध, मोक्ष, सुख और दुःख कम ही होता है । उस चैत्यगृहको जिन मार्गमें छै कायके जीवोंका हित करनेवाला कहा है ।

जिनप्रतिमाका स्वरूप

सपरा जंगमदे^३हा दंसणणारोण सुद्धचरण्णाणं ।

णिग्मांथवीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिया ॥१०॥ ११/

दर्शन और ज्ञानके साथ निर्मल चारित्रवाले मुनियोंके आत्मासे भिन्न जो निर्ग्रन्थ और वीतराग चलते फिरते हुए शरीर हैं, जिनमार्गमें इसी तरहकी प्रतिमा होती है ।

जं चरदि सुचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।

^४ना होइ वंदणीया णिग्मांथा संजदा पडिमा ॥११॥

१. मोहो आ० ग० । २. सुद्धं ऊ० । ३. चेई- ग० ऊ० । ४. अप्पे यत्तस्य ऊ० । ५. देहो आ० । ६. सो आ० ग० ।

जो शुद्ध चारित्रिका आचरण करता है, शुद्ध सम्यक्त्वमय आत्माको जानता और देखता है उस निर्ग्रन्थ मुनिका स्वरूप जिन प्रतिमा है, वह बन्दनीय है ।

सिद्धपतिमाका स्वरूप

दंसण अणंत'णाणं अणंतवीरिय अणंतसुक्खा य ।
सासयसुक्ख'यदेहा सुक्का कम्मट्ठवधेहिं ॥१२॥
णिरुवममचलमखोहा णिम्मविधा जंगमेण रुवेण ।
सिद्धट्ठाणम्मि टिया वोसरपडिमा धुवा' सिद्धा ॥१३॥

अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान अनन्त वीर्य और अनन्त सुखसे युक्त, शाश्वत अर्थात् सदा रहने वाले सुखमय देहवाली, आठ कर्मोंके बन्धनसे मुक्त, उपमा रहित, अचल, चोभ रहित, जंगम रूपसे बनाई गई, सिद्धालयमें विराजमान कायोत्सर्गरूप प्रतिमा निश्चयसे सिद्ध परमेष्ठीकी होती है ।

दर्शनका स्वरूप

दंसेह मोक्खमयं सम्मत्तं संजमं सुधम्मं च ।
णिग्गंत्थं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं ॥१४॥

जो सम्यक्त्व रूप, संयम रूप, सुधर्म रूप, निर्ग्रन्थ रूप और ज्ञानमय मोक्षमार्गको दर्शाता है, उसे जैन मार्गमें दर्शन कहा है ।

जह फुल्लं गंधमयं भवदि हु खीरं सुधियमयं चावि ।
तह 'दंसणं हि सम्मं णाणमयं होइ रुवत्थं ॥१५॥

जैसे फूल गन्धमय होता है और दूध सुघृतमय होता है, वैसे ही सम्यग्दर्शन भी ज्ञानमय और स्वरूपमें स्थितिरूप होता है ।

जिन बिम्बका स्वरूप

जिणबिम्बं णाणमयं संजमसुद्धं सुवीयरायं च ।
जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

ज्ञानमय संयमसे शुद्ध और वीतराग जिनबिम्ब होता है, जो कर्मोंका क्षय करनेवाली शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है ।

तस्स य करहु पणामं सर्व्वं पुज्जं च विणयवच्छल्लं ।
जस्स य दंसणणाणं अत्थि धुवं चेयणाभावो ॥१७॥

१. णाणी- आ० ऊ० । २. सुक्खदेहा ऊ० । ३. धुवो ग०, धुवे ऊ० ।
४. दंसणम्मि आ०, ग०, ऊ० ।

जिसके निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और चैतन्यभाव है उसको प्रणाम करो, और सब तरहसे विनय और वात्सल्य भाव पूर्वक उसकी पूजा करो ।

तव-वय-गुणेहि सुद्धो जाणदि पिच्छेह सुद्धसम्मत्तं ।

अरहंतमुद एसा दायारी दिक्खसिक्खा य ॥१८॥

जो तप व्रत और गुणोंसे पवित्र है, शुद्ध सम्यक्त्वको जानता और अनुभव करता है वही अरहन्त भगवानकी मुद्रा है । और वह दीक्षा तथा शिक्षा देनेवाली है ।

जिनमुद्राका स्वरूप

दिटसंजममुद्दाए इंदियमुद्दा कसायदिटमुद्दा ।

मुद्दा इह णाणाए जियमुद्दा एरिसा भणिया ॥१९॥

शरीरको दृढ़ संयमसे अलंकृत करना संयम मुद्रा है, इन्द्रियोंको वशमें करना इन्द्रिय मुद्रा है, दृढ़ता पूर्वक कषायोंको त्यागना कषाय मुद्रा है, आत्माको ज्ञानसे अलंकृत करना ज्ञान मुद्रा है । इन मुद्राओंसे युक्त जिनमुद्रा कही है ।

ज्ञानका स्वरूप

संजमसंजुत्तस्स य सुभाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।

णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायव्वं ॥२०॥

संयमसे संयुक्त और उत्तम ध्यानके योग्य मोक्ष मार्गके लक्ष्यको यह जीव ज्ञानके द्वारा प्राप्त करता है । अतः ज्ञानको जानना चाहिये ।

जह णवि लहदि हु लक्खं रहिआ कंडस्स केष्ममविहीणो ।

तह णवि लक्खदि लक्खं अणायणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥

जैसे निशाना साधनेके अभ्याससे रहित मनुष्य बाणके लक्ष्यको नहीं पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोक्षमार्गके लक्ष्यको नहीं पाता ।

णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो ।

णाणेण लहदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥

ज्ञान पुरुषके होता है और विनय सहित सत्पुरुष ही ज्ञानको प्राप्त करता है । तथा ज्ञाता पुरुष ज्ञानसे मोक्ष मार्गके लक्ष्यको प्राप्त करता है ।

मइधणुहं जस्स थिरं सुइगुणं बाणा सुअत्थिं दमणत्तं ।

परमत्थबद्धलक्खो ण वि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स ॥२३॥

जिसके पास भतिज्ञानरूप मजबूत धनुष है, श्रुतज्ञान रूपी डोरी है, रत्नत्रय रूपी अच्छे बाण हैं और जिसने परमार्थको निशाना बनाया है, वह मोक्षमार्गसे नहीं चूकता ।

देवका स्वरूप

सो देवो जो अत्यं धम्मं कामं सुदेहं गणं च ।

सो देहं जस्स अत्यं दु अत्यो धम्मो य पव्वज्जा ॥२४॥

जो जीवोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका कारण ज्ञान देता है वही देव है; क्योंकि जिस पुरुषके पास जो वस्तु होती है वही उसे देता है । अतः जो अर्थ, धर्म और प्रव्रज्याको देता है वही देव है ।

धर्म प्रव्रज्या और देवका स्वरूप

धम्मो दयाविसुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाणं ॥२५॥

जो दयासे पवित्र है वह धर्म है, जिसमें समस्त परिग्रहोंका त्याग किया जाता है वह प्रव्रज्या है और जो मोह रहित तथा भव्यजीवोंके अभ्युदयका कारण है वह देव है ।

१. कामं च देहं ग० ।

तीर्थका स्वरूप

वयसम्मत्तविसुद्धे पंचिदयसंजदे गिरावेक्खे ।

गहाएउ मुणी तित्थे दिक्खासिक्खामुएहारोणं ॥२६॥

व्रत और सम्यक्त्वसे विशुद्ध, पाँचो इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले और इस लोक तथा परलोकके भोगोंकी इच्छासे रहित मुनिरूपी तीर्थमें दीक्षा और शिक्षा रूपी स्नानके द्वारा स्नान करो। अर्थात् मुनिरूपी तीर्थके पास जाकर उनसे शिक्षा लो और धर्मकी दीक्षा लो ।

जं गिम्मलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तव गणं ।

तं तित्थं जिणमग्गे हवेइ जदि संतभावेण ॥२७॥

यदि शान्त भाव पूर्वक निर्मल उत्तम धर्म, निर्मल सम्यक्त्व, निर्मल संयम, निर्मल तप और निर्मल ज्ञान हो तो उसे जिन मार्गमें तीर्थ कहा है ।

अर्हन्तका स्वरूप

एणामे ठवणे हि य संदव्वे भावे य सगुणपजाया ।

चउणागदि संपदिमे (?) भावा भावति अरहंतं ॥२८॥

१. एणामेणियः ष्टवणे हि य दव्वे आ० ।

नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्षेप और भावनिक्षेप, इन चारके द्वारा अरहन्तका स्वरूप जाना जाता है। किसी व्यक्तिका नाम अरहन्त रखा गया हो तो वह नाम अरहन्त है। अरहन्तकी प्रतिमा स्थापना अरहन्त है। जो जीव अरहन्त होने वाला है वह द्रव्य अरहन्त है। तथा अरहन्तके गुणों और पर्यायसे विशिष्ट केवली जिन भाव अरहन्त हैं। च्यवन अर्थात् स्वर्गसे च्युत होना, आगति अर्थात् गर्भमें आना, संपत् (रत्नवृष्टि आदि बाह्यलक्ष्मी तथा अन्तरंग लक्ष्मी) भाव अरहन्त अवस्थाके सूचक हैं।

दंसण अणंतणारे मोक्खो णट्टकम्मबंधेण ।

णिरुवमणुणमारूढो अरहंतो एरिसो होइ ॥२६॥

जिसके अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान है, स्थितिवन्ध और अनुमाग बन्धकी अपेक्षा आठो कर्मोंका बन्ध नष्ट हो जानेसे जिसे भावमोक्ष प्राप्त हो गया है और जो अनुपम गुणोंको धारण किये हुए हैं, ऐसे आत्माको अरहन्त कहते हैं।

जर-वाहि-जम्म-मरणं चउगइगमणं च पुण्यपावं च ।

हंतूण दोसकम्मे हुउ णायमयं च अरहंतो ॥३०॥

जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, चारों गतियोंमें भ्रमण, पुण्य, पाप, रागादि दोष और ज्ञानावरण आदिकर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय हो गया है वह अरहन्त है।

गुणठाण-मणणेहि य पज्जती-पाण-जीवठाणेहि ।

टावणपंचविहेहि पण्यन्वा अरुहपुरिसस्स ॥३१॥

गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण और जीवस्थान, इन पाँच प्रकारोसे अरहन्त पुरुषकी स्थापना करनी चाहिये।

अरहन्तका गुणस्थान

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंतो ।

चउतीस अइसयगुणा हुंति हु तस्सट्ट पडिहारा ॥३२॥

तेरहवें संयोग केवली गुणस्थानमें अरहन्त होता है। उसके चौतीस अतिशय रूप गुण होते हैं तथा आठ प्रातिहार्य होते हैं।

मार्गणा

गइ इंदियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य ।

संजम दंसण लेस्ता भविवा सम्मत्त सण्णि आहारे ॥३३॥

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार, इन चौदह मार्गणाओंमें अरहन्तकी स्थापना कर लेनी चाहिये ।

पर्याप्ति

आहारो य सरीरो' तह इंदिय आणपाणभासमणो ।

पज्जत्ति गुण'समिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरुहो ॥३४॥

उत्तम देव अरहन्त आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन छै पर्याप्तिरूप गुणोंसे सम्पन्न होता है । अर्थात् अरहन्तकी छै पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं ।

प्राण

पंच वि इंदियपाणा मण-वचि-काएण तिण्णि बलपाणा ।

आणपाणपाणा आउगपाणेण होति दह पाणा ॥३५॥

स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण, मन वचन काय तीन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, ये दस प्राण होते हैं ।

जीवस्थान

मणुय भवे पंचिदिय जीवट्टाणेषु होइ चउदसमे ।

एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरुहो ॥३६॥

मनुष्यगतिमें पञ्चेन्द्रिय नामका चौदहवाँ जीव समास है । उसमें उक्त गुणोंके समूहसे युक्त और तेरहवें गुण स्थानमें वर्तमान अर्हन्त होता है ।

अर्हन्तका शरीर

जर-वाहि-दुक्ख-रहियं आहार-णिहार-वज्जियं विमलं ।

सिंहाण खेल सेओ णत्थि दुगंछा य दोसो य ॥३७॥

दस पाणा पज्जत्ती अट्टसहस्सा य लक्खणा भणिया ।

गोखीर-संखवक्लं मंसं रहिरं च सब्बंगे ॥३८॥

एरिसगुणेहि सिद्धं अइसथवंतं सुपरिमलामोयं ।

ओरालियं च कार्यं गायव्वं अरुहपुरिसस्स ॥३६॥

अर्हन्त पुरुषका औदारिक शरीर बुढ़ापा, रोग और दुःखसे रहित, आहार और निहार (मलमूत्र) से रहित, निर्मल, तथा नासा मल, थूक, पसीना ग्लानि आदि दोषोंसे रहित होता है । और दस प्राण, पर्याप्ति और एक हजार आठ लक्षणोंसे सहित होता है । सर्वाङ्गमें गोदुग्ध और शंखके समान सफेद मांस और रुधिरसे सहित होता है । इस प्रकारके गुणोंसे परिपूर्ण, अतिशयवाला और अत्यन्त सुगन्धित शरीर अर्हन्तके होता है ।

अर्हन्तका भाव

मय-राय-दोस-रहिओ कसाय-मल-वज्जिओ य सुविसुद्धो ।

चित्तपरिणामरहिदो केवलभावो सुणोयव्वो ॥४०॥

अरहन्तका भाव मद राग और द्वेषसे रहित होता है, कषायरूपी मलसे रहित और अत्यन्त निर्मल होता है तथा चित्तकी चञ्चलतासे रहित होता है । ऐसा जानना चाहिये ।

सम्मदंसणि पस्सइ जाणादि णाणोण दव्वपज्जाया ।

सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरुहस्स गायव्वो ॥४१॥

अर्हन्तका भाव सम्यक्त्व गुणसे बिसुद्ध जानना चाहिये । सम्यग्दर्शनके द्वारा वह स्वस्वरूपको देखता है और केवल ज्ञानके द्वारा समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायोंको जानता है ।

साधुओं के रहने योग्य स्थान

सुयणहरे तरुहिट्टे उज्जारो तह मसाणवासे वा ।

गिरिगुह-गिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिमे वा ॥४२॥

सवसासत्तं तित्थं वच चइदालत्तंथं च बुतेहिं (१) ।

जिणभवणं अह वेष्मं जिणमयो जिणवरा विति ॥४३॥

मुनियोंको शून्य घरमें, अथवा वृक्षके नीचे, अथवा उद्यानमें, अथवा स्मशान भूमिमें, अथवा पर्वतोंकी गुफामें, अथवा पर्वतके शिखरपर, अथवा भस्कर बनमें अथवा वसतिकामें रहना चाहिये । ये सभी स्थान स्वाधीन हैं । जो अपने अधीन हो, ऐसे तीर्थ, शास्त्र, चैत्यालय और उक्त

स्थानोंके साथ साथ जिन भवनको जिनेन्द्रदेव जैन मार्गमें पवित्र मानते हैं ।

पंचमहध्वयजुत्ता पंचिदियसंजया गिरावेक्खा ।

सज्जाय-भाणजुत्ता मुणिवरवसहा गिइच्छंति ॥४४॥

पाँच महाव्रतोंके धारक, पाँचों इन्द्रियोंको जीतनेवाले, भोगोंके इच्छासे रहित, और स्वाध्याय तथा ध्यानमें लगे रहने वाले श्रेष्ठ मुनिवर उक्त स्थानोंको ही पसन्द करते हैं ।

प्रव्रज्याका स्वरूप

गिह-गंथ-मोह-मुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया ।

पावारंभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥

जो घर और परिग्रहके मोहसे मुक्त है, अर्थात् जिसमें न घरमें रहा जाता है और न रंचमात्र भी परिग्रह रखी जाती है, जिसमें बाईस परीषहोंको सहा जाता है, कषायोंको जीता जाता है और जो पापपूर्ण आरम्भसे रहित है, जिन भगवानने ऐसी प्रव्रज्या-दीक्षा कही है ।

धण-धरण-वस्थदाणं हिररण-सयणासणाइ 'छत्ताइं ।

कुदाण-विरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥

जो धन, धान्य और वस्त्रदान, तथा चाँदी, शय्या, आसन और छत्रदान आदि कुदानोंसे रहित है अर्थात् जिसमें इस प्रकारकी वस्तुओंका दान नहीं लिया जाता है और जो विरह-वियोगसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

सत्तू-मित्ते य समा पसंस-णिंदा-अलद्धि-लद्धिसमा ।

तिणकरण समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

जिसमें शत्रु और मित्रके विषयमें समान भाव रहता है, प्रशंसा और निन्दामें तथा लाभ और अल्युभमें समान भाव रहता है, वृण और कंचनमें समान भाव रहता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

उत्तम-मज्जिमगोहे दारिदे ईसरे गिरावेक्खो ।

सव्वत्थ गिहदि पिंडं पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४८॥

जिसमें मुनि उत्तम और मध्यम घरमें तथा दरिद्र और धनवानमें भेद न करके निरपेक्ष भावसे सर्वत्र आहार ग्रहण करता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

गिमाथा गिरसंगा गिम्माणासा^१ अराय-गिदोसा ।

गिम्मम-गिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४९॥

जो परिग्रह रहित है, आसक्ति रहित है, मान रहित है, आशा रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, ममत्व रहित है और अहंकार रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

गिरणोहा गिल्लोहा गिम्मोहा गिव्वियार-गिक्कलुसा ।

गिन्मय-गिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५०॥

जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भावसे रहित है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ।

जहजायरूवसरिसा अबलंबियभुय गिराउहा संता ।

परकिय-गिल्लयणिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥

जिसमें जन्मे हुए शिशुके समान नग्न रूप रहता है, दोनों भुजाओंको लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता है, और दूसरेके द्वारा छोड़े गये आवासमें रहना होता है, ऐसी शान्त जिनदीक्षा कही गई है ।

उवसम-न्नम-दमजुत्ता सरीरसक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मय-राय-दोसरहया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥

जो उपशम (शान्त भाव), क्षमा और इन्द्रिय निग्रहसे सहित है, जिसमें शरीरका संस्कार नहीं किया जाता, तेल मर्दन नहीं किया जाता, और जो मद राग तथा द्वेषसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

१. जोगे च 'गि-' ग० । २. एा सोयराय- 'ग०' । ३. गिन्मयणि-
रासव भा- ग० ।

विवरीयमूढभावा पण्ट-कम्मट्ट णट्टमिच्छता ।
सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥

जो मूढतासे रहित है, जिसके द्वारा आठों कर्म नष्ट कर दिये जाते हैं, जिसमें मिथ्यात्वका नाश हो जाता है और जो सम्यग्दर्शन गुणसे निर्मल होती है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है ।

जिणमग्गे पव्वज्जा छहसंघयणेसु भणिय णिग्गंथा ।
भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥५४॥

जैन मार्गमें छहों संहनन वाले जीवोंके जिन दीक्षा कही गई है अर्थात् छहों संहननोंमेंसे किसी भी संहनन वाला जीव जिन दीक्षा धारण कर सकता है । निर्मन्थ भव्य पुरुष इस जिनदीक्षाकी भावना करते हैं क्योंकि इसे कर्मोंके क्षयका कारण कहा है ।

तिल'ओसत्तणिमित्तं' समवाहिरगंथसंगहो णत्थि ।
पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सव्वदरिसीहिं ॥५५॥

जिसमें तिल वरावर भी आसक्तिमें कारणभूत बाह्य परिग्रहका संग्रह नहीं है, ऐसी जिनदीक्षा होती है, जैसा कि सर्वज्ञ देवने कहा है ।

उवसग्गा-परीसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच्च अच्चेइ ।
सिलकट्टे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वत्थ ॥५६॥

जिसमें उपसर्ग और परीषहोंको सहा जाता है, उसको धारण करने वाला मुनि सदा निर्जन प्रदेशमें रहता है और सर्वत्र शिला, काष्ठ या भूमितलपर सोता उठता और बैठता है ।

पसु-महिल-संदसंगं कुसीलसंगं ण कुणइ विकहाओ ।
सज्जाय-भाणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५७॥

जिसमें पशु स्त्री, नपुंसककी संगति और व्यभिचारियोंकी संगति नहीं की जाती, और न स्त्री आदिकी खोटी कथाएँ की जाती हैं, तथा जिसमें स्वाध्याय और ध्यानमें तन्मय होना होता है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है ।

'तव-वय-गुरोर्हि सुद्धा संजम-सम्पत्तगुणविमुद्धा य ।
सुद्धा गुरोर्हि सुद्धा पव्वज्जा परिसा भणिया ॥५८॥

जो तप, व्रत और गुणोंसे शुद्ध है, संयम और सम्यक्स्व गुणसे अत्यन्त निर्मल है, तथा दीक्षाके गुणोंसे शुद्ध है, ऐसी शुद्ध जिनदीक्षा कही गई है ।

एवं आयत्तयागुणपव्वज्जंता बहुविमुद्धसम्मत्तं ।
शियाम्भे जिणामग्गे संखेवेणं जहाखादं ॥५९॥

इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे सहित निर्ग्रन्थ जैनमार्गमें जैसा कहा है उसी प्रकारसे आयतनसे लेकर प्रव्रज्या पर्यन्त गुणोंका यहाँ संक्षेपसे कथन किया ।

रूवत्थं मुद्धत्थं जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियं ।
भव्वज्जावोहणत्थं लुक्कायहियंकरं उत्तं ॥६०॥

जिनवर भगवानने जैन मार्गमें आत्माकी शुद्धिके लिये निर्ग्रन्थ रूपका जैसा कथन किया है, भव्य जीवोंको समझानेके लिये छै कायके जीवोंका हित करने वाले उस निर्ग्रन्थ रूपका यहाँ वैसा ही कथन किया गया है ।

'सद्विकारो हूओ भासा सुतेसु जं जिणो कहियं ।
सो तह कहियं णा'णं सीसेया भद्दवाहुस्स ॥६१॥

शब्दके विकारसे प्रकट हुआ जो ज्ञान जिनेन्द्र देवने भाषात्मक सूत्रोंमें कहा है, भद्रबाहुके शिष्य मुझ कुन्दकुन्दने यह ज्ञान वैसा ही यहाँ कहा है ।

वारसअंगवियाणां चउदसपुव्वंगविउलक्खियणां ।
सुयणाणि भद्दवाहु गमयगुरू भयवओ जयउ ॥६२॥

वारह अंगोंके ज्ञाता और चौदह पूर्वोंका विपुल विस्तार करने वाले गमक गुरू श्रुतज्ञानी भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों ।

१. यह गाथा आ० प्रतिमें नहीं है । २. आयत्तगुणापज्जंता; ग० उ० । ३. सद्विकारु हुउ (शब्दविकारोद्भूतं) ग० । ४. -सुतेसु ग० । ५. णायं, उ० ।

७. श्रामण्य-अधिकार

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जटु सामणं यदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ [प्रव० ३, १]

इस प्रकार जिनवरोंमें श्रेष्ठ अरहन्तोंको, सिद्धोंको और श्रमणोंको बारंबार नमस्कार करके, यदि कोई दुःखसे छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य (मुनिधर्म) को स्वीकार करें ।

श्रामण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्या करना चाहिये

आपिच्छ बंधुवग्गं विमोचिदो गुरु-कलत्त-पुत्तेहिं ।

आसिज्ज णाण-दंसण-चरित्त-तव-वीरियायारं ॥

समणं गणिं गुणद्धं कुलरूववयोविसिट्ठमिट्ठहरं ।

समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ [प्रव० ३, २-३]

बन्धुवर्गसे पूछकर और गुरुजन स्त्री पुत्र वगैरहसे छुटकारा पाकर, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचारसे युक्त ऐसे श्रमण आचार्यके पास जावे जो गुणवान् हो, कुल रूप और योग्य अवस्थासे विशिष्ट हों तथा अन्य श्रमणोंको अतिप्रिय हों । जाकर उन्हें नमस्कार करे और कहे भगवन् ! मुझे श्रामण्य पद प्रदान करें । तब आचार्यसे अनुगृहीत हुवा वह ।

णाहं होमि परेसि ण मे परे णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूवधरो ॥ [प्रव० ३, ४]

'मैं दूसरोंका नहीं हूँ और न दूसरे द्रव्य मेरे हैं, इस लोकमें मेरा कुछ भी नहीं है', ऐसा निश्चय करके वह जितेन्द्रिय-इन्द्रियोंको जीतनेवाला, जिस रूपमें उसने जन्मलिया था उसी नग्न रूपका धारी हो जात है ।

श्रमण्यका द्रव्यलिंग और भावलिंग

जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्धं ।

रहिदं हिसादीदो अप्पडिकम्मं हवदि लिंगं ॥

मुच्छारम्भविमुक्तं जुक्तं उवजोगजोगमुद्धीहिं ।

लिंगं ण परावेक्खं अपुराणम्भवकारणं जेएहं ॥ [प्रव० ३, ५-६]

मुक्तिका यथाज्ञात नग्न रूप शिर और दाढ़ीके बालोंके लोंचसे युक्त, हिंसा आदि पापोंसे रहित और शरीरकी सँभाल वगैरहसे रहित निर्मल द्रव्यलिंग होता है। तथा ममत्व भाव और आरम्भसे रहित, उपयोग और मन वचन कायकी शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्षा न करनेवाला और पुनर्जन्म धारण न करनेमें कारण ऐसा भावलिंग होता है। ये दोनों जैन लिंग हैं।

आदाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता ।

सोच्चा सवदं किरियं उवट्ठिदो होदि सो समणो ॥ [प्रव० ३, ७]

उत्कृष्ट गुरुसे उक्त लिंगको धारण करके और उन्हें नमस्कार करके फिर व्रत सहित क्रियाओंको सुनकर, मुनिपदमें स्थित होता हुआ वह श्रमण हो जाता है।

अट्ठाईस मूलगुण

वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमणहारणं ।

खिदिसयणमदंतवणं तिदिभोयणमेगभत्तं च ॥

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवणेहिं पणत्ता ।

तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठावगो होदि ॥ [प्रव० ३, ८-९]

पाँच महाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियोंका निरोध, केशलोंच, छै आवश्यक, नग्नरूप, स्नान न करना, पृथिवीपर शयन, दन्तधावन न करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार भोजन करना, ये श्रमणोंके मूल गुण जिणवर भगवानने कहे हैं। जो श्रमण इन मूल गुणोंमें प्रमाद करता है वह छेदोपस्थापक होता है अर्थात् उसे व्रतोंको छेदकर पुनः धारण करना होता है।

दीक्षाचार्यकी तरह निर्यापकाचार्य भी होते हैं

लिंगमाहणे तेसिं गुरु त्ति पण्वज्जदायगो होदि ।

छेदेसु अ वट्ठगा सेसा णिज्जावगा समणा ॥ [प्रव० ३, १०]

उन श्रमणोंके श्रमण लिंग ग्रहण करनेके समय जो आचार्य दीक्षा

देता है वह गुरु होता है। और छेद होने पर जो श्रमण छिन्न संयमको पुनः धारण करते हैं वे सब निर्यापकाचार्य कहे जाते हैं।

छिन्न संयमको पुनः जोड़नेकी विधि

पयदग्नि समारद्वे छेदो समणस्स कायचेट्ठग्निह ।

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुट्ठिवया किरिया ॥

छेदपउत्तो समणो समणं ववहारिणं जिणमदग्निह ।

आसेज्जालोचिन्ता उवदिट्ठं तण कायव्वं ॥ [प्रव० ३, ११-१२]

[संयमका छेद दो प्रकारसे होता है - एक बहिरंग रूपसे, दूसरा अन्तरंग रूपसे] यदि श्रमण अन्तरंगसे संयममें सावधान है और सावधानता पूर्वक आरम्भ की गई किसी शारीरिक चेष्टामें उसका संयम भंग हो जाता है तो आलोचना पूर्वक शास्त्रोक्त क्रियाके द्वारा ही उसका प्रतिकार हो जाता है क्यों कि यहाँ अन्तरंग छेद नहीं है।

किन्तु यदि अन्तरंग रूपसे संयमका छेद हुआ हो तो उस श्रमणको जैन मार्गकी व्यावहारिक क्रियाओंमें चतुर किसी श्रमणके पास जाकर अपने दोषोंको सरलतासे निवेदन करना चाहिये और वह जैसा कहे वैसे करना चाहिये।

संयम भंगसे बचनेका उपदेश

अधिवासे व विवासे छेदविहूणो भवीय सामणो ।

समणो विहरदु शिच्चं परिहरमाणो शिचंधाणि ॥ [प्रव० ३, १३]

अधिकृत गुरुकुलमें रहते हुए अथवा गुरुरहित स्थानमें रहते हुए, संयमके भंगसे बचते हुए ही श्रमणको सदा पर द्रव्योंमें अनुरागको टालते हुए श्रमण्य पदमें विहार करना चाहिये। [आशय यह है कि श्रमण अपने गुरुओंके पास रहे या अन्य जगह रहे, परन्तु सर्वत्र उसे इष्ट-अनिष्ट विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्योंकि पर द्रव्यका सम्बन्ध ही संयम भंगका कारण होता है।]

चरदि शिबद्धो शिच्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुण्यसामण्यो ॥ [प्रव० ३, १४]

जो श्रमण नित्य ही अपने ज्ञान और दर्शन बगैरहमें लीन होता

हुआ मूल गुणोंमें सावधान होकर प्रवृत्ति करता है उसका श्रामण्य (मुनि धर्म) परिपूर्ण होता है अर्थात् उसका संयम भंग नहीं होता ।

भस्ते वा खमणे वा आवसथे वा पुणो विहारे वा ।

उवधिम्हि वा शिबद्धं शेच्छदि समणम्हि विकुधम्हि ॥

भोजनमें अथवा उपवासमें, निवासस्थानमें अथवा विहारमें, परिग्रहमें अथवा अन्य मुनियोंमें, और विकथाओंमें श्रमण रःगपूर्वक सम्बन्धको पसन्द नहीं करता । [सारांश यह है कि आगम विरुद्ध आहार विहारका निषेध तो पहले ही कर दिया गया है । मुनि होने पर योग्य आहार विहार वगैरहमें भी ममत्त्व नहीं करना चाहिये] ।

छेदका स्वरूप

अपमत्ता वा चरिया सयणासण्ठाणचंक्रमादीसु ।

समणस्स सब्बकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ [प्रव० ३, १६]

श्रमणकी सोने, बैठने, खड़े होने और चलने आदिमें जो असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति है, वह सदा अखण्डित रूपसे हिंसा माना गई है ।

मरटु व जियटु जीवो अयदाचारस्स शिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ [प्रव० ३, १७]

जीव मरे अथवा जीवित रहे, जो अयत्नाचारी है—सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता, उसको हिंसा अवश्य होती है । और जो समितियोंका पालक और यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाला है, बाहरमें जीवघात हो जाने मात्रसे उसे हिंसाजन्य बन्ध नहीं होता । [सारांश यह है कि बाह्य हिंसा हो या न हो, किन्तु अन्तरङ्गमें हिंसाका भाव होने पर हिंसा नियमसे होती है] ।

अयदाचारो समणो छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो ।

चरदि जदं जदि शिच्छं कमलं व जले शिरुवलेवो ॥ [प्रव० ३, १८]

जो श्रमण अयत्नाचारी है वह छद्मों कायोंके जीवोंका घातक माना गया है । किन्तु यदि वह सर्वदा सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करता है तो जलमें कमलकी तरह कर्मबन्धरूपी लेपसे रहित होता है ।

परिग्रह अन्तरंग छेदका कारण है

हवदि व ण हवदि बंधो मदग्धि जीवेऽध कायचेट्टग्धि ।

बंधो धुवमुवधीदो इदि समणा छुट्टिमा सत्वं ॥ [प्रव० ३, १६]

श्रमणके शारीरिक क्रिया करनेसे किसी जीवके मर ज़रनेपर कर्मबन्ध होता भी है और नहीं भी होता । किन्तु परिग्रहसे बन्ध अवश्य होता है इसलिये श्रमण समस्त परिग्रहको छोड़ देते हैं ।

ण हि शुरवेक्खो चागो ण हवदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।

अविसुद्धस्स य चित्ते कं हं णु कम्मक्खआो विहिआो ॥ [प्रव० ३, २०]

यदि परिग्रहका त्याग सर्वथा निरपेक्ष न हो तो श्रमणके चित्तकी विशुद्धि नहीं होती । और जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके कर्मोंका नाश कैसे हो सकता है ?

इसीको स्पष्ट करते हैं

किध तग्धि एत्थि मुच्छा एारंभो वा असंजमो तस्स ।

तध परदवग्ग्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥ [प्रव० ३, २१]

परिग्रहके होते हुए उस श्रमणके ममत्व परिणाम, आरम्भ और असंयम कैसे नहीं है ? तथा परवस्तुमें लीन होनेके कारण वह अपनी आत्माका साधन कर कैसे सकता है ? [सारांश यह है कि परिग्रहको सर्वथा छोड़ना ही चाहिये] ।

अनिषिद्ध परिग्रह

छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेषु सेवमाणस्स ।

समणो तेण्ह वट्टु कालं खेवं वियाणित्ता ॥ [प्रव० ३, २२]

जिस परिग्रहके ग्रहण करने अथवा छोड़ने पर, उस परिग्रहका सेवन करने वाले श्रमणके संयमका छेद नहीं होता, काल और देशको जानकर इस लोकमें वह श्रमण उस परिग्रहको स्वीकार करे ।

अप्पडिक्कुट्टं उवधि अपत्थण्णिज्जं असंजदजग्गेहिं ।

मुच्छादिज्जणारहिदं गेएहदु समणो जदि वि अप्पं ॥ [प्रव० ३, २३]

जो परिग्रह बन्धका कारण नहीं है, संयमके सिवाय अन्य किसी कार्यमें उसका उपयोग न होनेसे असंयमी लोग जिसे नहीं माँग सकते,

तथा जो ममत्व भाव उत्पन्न नहीं करती, ऐसी परिग्रहको श्रमण ग्रहण करे। किन्तु इससे विपरीत थोड़ी भी परिग्रह ग्रहण न करे।

उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक है

किं किञ्चणं त्ति तक्कं अपुण्णंभवकामिणोष देहे वि ।

संगं त्ति जिण्वरिदा णिण्णडिक्कम्मत्तमुद्दिट्ठा ॥ [प्रव० ३, २४]

पुनर्जन्मको न चाहने वाले मुमुक्षुको अपने शरीरमें भी 'यह परिग्रह है' ऐसा मानकर जिनवर भगवानने उपेक्षा करनेका ही उपदेश किया है। ऐसी स्थितिमें यह विचार होता है कि क्या कुछ परिग्रह है? [आशय यह है कि जब शरीरको भी परिग्रह मानकर उसकी भी उपेक्षा करनेका उपदेश पाया जाता है तब मुमुक्षुके लिये अन्य परिग्रहको ग्रहण करनेका तो प्रश्न ही नहीं है]।

अपवादरूप परिग्रह

उवयरणं जिणमग्गे लिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं ।

गुरुवयणं पि य विण्णश्चो सुत्तज्जकयणं च णिदिट्ठं ॥ [प्रव० ३, २५]

जैन मार्गमें नग्न दिग्म्बर रूप द्रव्यलिंग, गुरुके वचन, विनय रूप परिणाम और परमागमका पठन ये चार उपकरण कहे हैं। [जो परिग्रह अपवाद रूपसे मुनिधर्मके पालनमें सहायक होती है उसे उपकरण कहते हैं। निश्चयसे जैन मार्ग ये चार ही उपकरण मुनिके लिये ग्राह्य हैं]।

श्रमणको कैसा होना चाहिये

इहलोगिणिरावेक्खो अप्पडिवदो परम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकसाओ हवे समणो ॥ [प्रव० ३, २६]

श्रमण ख्याति पूजा लाभरूप इस लोककी इच्छाओंसे रहित होता है, पर लोककी भी अभिलाषा नहीं रखता अर्थात् तपश्चरण करनेसे परलोकमें देवांगना वगैरह मिलती हैं, यह भावना उसके नहीं होती। उसका आहार विहार युक्त होता है और वह कषायसे रहित होता है।

युक्त आहार अनाहार और युक्त विहार अ-विहार ही है—

जस्स अणोसणमप्पा तं पि तत्रो तप्पडिच्छुगा समणा ।

अणणं भिक्खमणोसणमप थे समणा अणाहारा ॥ [प्रव० ३, २७]

जिस भ्रमणका आत्मा समस्त भोजनोंकी इच्छासे रहित होनेके कारण निराहारी है अर्थात् उपवासी है, उसके लिये तो वह निराहार ही तप है। उस निराहार अवस्थाके अभिलाषी जो भ्रमण एषणा दोषासे रहित अन्य भिक्षा ग्रहण करते हैं वे आहार करते हुए भ. निराहारी हैं।

केवलदेहो समणो देहे वि ममत्तरह्निदपरिकम्पो ।

आजुत्तो तं तवसा अण्णिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ [प्रव० ३, २८]

भ्रमणके केवल एक शरीररूप ही परिग्रह होती है और उस शरीरमें भी उसे ममत्व नहीं होता। तथा अपनी शक्तिको न छिपाकर वह उस शरीरको तपस्यामें लगाता है। [सारांश यह है कि जो देहके सिवाय शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है और शरीरमें भी ममत्व नहीं रखता तथा उसे तपमें लगाये रखता है वह मुनि युक्त आहार विहार वाला होता है]।

युक्ताहारका स्वरूप

एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालद्धं ।

चरणं भिक्खेण दिवा ण रसावेक्खं ण मधुमंसं ॥ [प्रव० ३, २९]

भ्रमणका आहार युक्ताहार है क्योंकि प्रथम तो भ्रमण दिनरातमें एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे, पेटभर भोजन नहीं करते। तीसरे, जैसा कुछ मिल जाता है उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। चौथे, भिक्षाचारके द्वारा ग्रहण करते हैं। पाँचवें, दिनमें ही भोजन करते हैं। छठे, रसकी अपेक्षा नहीं रखते, सरस विरस भोजनमें समचित्त होते हैं और मधु मांसको ग्रहण नहीं करते। [सारांश यह है कि इस प्रकारका आहार ही तपस्वियोंका युक्ताहार है जो इसके विपरीत है वह युक्ताहार नहीं है।]

उत्सर्ग और अपवाद मार्गमें एकरूपता होनी चाहिये —

बालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा ।

चरियं चरदु सजोगं मूलच्छेदो जघा ण हवदि ॥ [प्रव० ३, ३०]

भ्रमण बालक हो, अथवा वृद्ध हो, अथवा भ्रमसे थका हुआ हो, अथवा रोगी हो, उसे अपने योग्य चर्याका पालन इस प्रकार करना चाहिये जिससे मूल संयमका घात न हो।

आहारे व बिहारे देस कालं समं खमं उवधि ।

जाणित्ता ते समणो वट्टदि नदि अप्पलेवी सो ॥ [प्रव० ३, ३१]

यदि बैसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्त होता है तो वह श्रमण देश, काल, मार्ग वगैरहका श्रम, उपवास आदि करनेकी शक्ति और शरीर रूप परिग्रहको जानकर ही आहार और विहारमें प्रवृत्ति करता है । [आशय यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण वचपन, बुढ़ापा, रोग आदिके कारण यदि आहार विहारमें प्रवृत्ति करता है तो आचारमें थोड़ी शिथिलता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ है । किन्तु ऐसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप होता है इसलिये अपवाद मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि वह आहार विहारमें प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा मर कर स्वर्गमें जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो जायेगा । अतः अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेष्ठ नहीं है । तथा देशकालको जानने वाला कोई श्रमण यदि वचपन, बुढ़ापा, थकावट, रोग आदिके कारण आहार विहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयमी जनोंकी तरह प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता है तथा वह संयमसे भ्रष्ट हो जाता है । अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रेष्ठ नहीं है] ।

श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये —

एयमगदो समणो एयमं णिच्छिदस्स अत्थेसु ।

णिच्छित्ति आगमदो आगमचेट्टा तदो जेट्टा ॥ [प्रव० ३, ३२]

श्रमण एकाग्रचित्त होता है । और एकाग्रचित्त वही होता है जिसे अर्थोंका निश्चय होता है । तथा अर्थोंका निश्चय आगमसे होता है इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मु य कार्य है ।

आगमहीणो समणो खेवप्पाणं परं वियाणादि ।

अविजाणंतो अट्टे खवेदि कम्माणि किध भिक्खू ॥ [प्रव० ३, ३३]

आगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता है और न परको जानता है । और आत्मादि पदार्थोंको बिना जाने भिक्षु कर्मोंका कैसे विनाश कर सकता है ।

आगम ही साधुके नेत्र हैं—

आगमचक्रखू साहू इंदियचक्रखूणि सबभूदाणि ।

देवा य ओहिचक्रखू सिद्धा पुण सबदो चक्रखू ॥ [प्रव० ३, ३४]

साधुके नेत्र आगम हैं, समस्त प्राणियोंके नेत्र इन्द्रियाँ हैं। देवों का नेत्र अर्वाधि ज्ञान है, और सिद्धोंके तो सब ओर नेत्र ही नेत्र हैं।

आगम रूपी नेत्रसे सब दिखाई देता है —

सबे आगमसिद्धा अत्था गुणपजणहि चित्तेहि ।

जाणंति आगमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥ [प्रव० ३, ३५]

अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं। उन पदार्थों को वे श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं।

आगमके बिना संयम नहीं—

आगमपुष्वा दिट्ठी ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स ।

एत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होदि किध समणो ॥ [प्रव० ३, ३६]

‘इस लोकमें जिसके शास्त्रज्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन नहीं होता उसके संयम भी नहीं होता’ ऐसा आगम कहता है। और जो असंयमी है वह श्रमण कैसे हो सकता है ?

आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान और संयमके बिना मोक्ष नहीं—

ए हि आगमेण सिञ्जदि सदहणं जदि वि एत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो अत्थे असंजदो वा ए णिवादि ॥ [प्रव० ३, ३७]

यदि जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी मुक्ति नहीं होती। अथवा जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान होते हुए भी यदि असंयमी है तो भी मुक्ति नहीं होती।

ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर

जं अणणाशी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उत्सातमेत्तेण ॥ [प्रव० ३, ३८]

अज्ञानी लाखों करोड़ों भवोंमें जितने कर्मका क्षय करता है, उस कर्मको तीन गुणियोंका पालक ज्ञानी एक उच्छ्वास मात्रमें क्षय कर देता है।

परिग्रहीको भोच नहीं—

परसागुषमाणं वा मुञ्छा देहादिपुसु जस्स पुण्णे ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिंण लहदि सम्वागमधरोत्थि ॥ [प्रव० ३, ३६]

जिस पुरुषका शरीर आदिमें यदि एक अणुके बराबर भी समत्व है तो समस्त आगमोंका जाननेवाला होनेपर भी वह मुक्तिको प्राप्त नहीं करता ।

ऐसा श्रमण ही संयमी है—

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंबुडो जिदकसाओ ।

दंसणाणासमग्गो समणो सो संजदो भण्णदो ॥ [प्रव० ३, ४०]

जो श्रमण पाँच समितियोंका पालक है, तीन गुण्णियोंसे सुरक्षित है, पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त है, कषायोंको जीतनेवाला है और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है, उसे संयमी कहा है ।

श्रमणका स्वरूप

समसत्तुबंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसण्णिसमो ।

ममलोत्तुक्कंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ [प्रव० ३, ४१]

जो शत्रु और बन्धु-बान्धवोंमें समान है, सुख और दुःखमें समान है, निन्दा और प्रशंसामें समान है, पत्थर और सुवर्णमें समान है तथा जीवन और मरणमें समान है, वही श्रमण है ।

दंसणाणाचरित्तेसु तीसु जुगवं समुट्ठिदो जो दु ।

एयमग्गदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥ [प्रव० ३, ४२]

जो सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों भावोंमें एक साथ तत्पर है वह एकाग्रचित्त माना गया है और उसीका श्रमण्य (मुनिधर्म) परिपूर्ण होता है । [पहले गाथा ३२ में श्रमणको एकाग्रत कहा था । यहाँ एकाग्रतका खुलासा किया है] ।

मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज ।

जदि समणो अण्णायणी बज्झदि कम्मोहिं विविहेहिं ॥ [प्रव० ३, ४३]

यदि श्रमण परद्रव्यको लेकर मोह करता है अथवा राग करता है अथवा द्वेष करता है तो वह अज्ञानी अनेक प्रकारके कर्मोंसे बँधता है ।

अट्टेसु जो ण मुज्झदि ण हि रज्जदि खेव दोसमुवयादि ।

समणो जदि सो गियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ [प्रव० ३, ४४]

जो श्रमण यदि परपदार्थोंमें मोह नहीं करता, राग नहीं करता और न द्वेष करता है, तो वह श्रमण निश्चित रूपसे अनेक कर्मोंका क्षय करता है ।

श्रमणके दो भेद

समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयम्हि ।

तेसु वि सुद्धुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ [प्रव० ३, ४५]

आगममें श्रमण दो प्रकारके कहे हैं—एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी । इन दोनोंमें भी शुद्धोपयोगी श्रमण कर्मोंके आस्त्रवसे रहित होते हैं और बाकीके सब शुभोपयोगी श्रमण कर्मोंके आस्त्रववाले होते हैं । अर्थात् समस्त शुभ अशुभ संकल्प-विकल्पोसे रहित होनेके कारण शुद्धोपयोगी श्रमणोंके कर्मोंका आस्त्रव नहीं होता । बाकीके शुभोपयोगी श्रमणोंके यद्यपि मिथ्यात्व और विषय कषायरूप अशुभ आस्त्रव नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मका आस्त्रव तो होता ही है ।

शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण

अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु ।

विज्जदि जदि सामण्ये सा सुहजुत्ता भवे चरिया ॥ [प्रव० ३, ४६]

यदि साधुपदमें अर्हन्त सिद्धोंमें भक्ति और आचार्य उपाध्याय साधुओंमें वात्सल्य भाव रहता है तो साधुकी वह चर्या शुभोपयोगसे युक्त है ।

शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति

वंदण-णमंसणेहि अब्भुट्टाणाणुगमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणओ ण णिदिदा रायचरियम्हि ॥ [प्रव० ३, ४७]

श्रमणोंको आता हुआ देखकर वन्दना नमस्कारपूर्वक उठकर खड़ा होना, उनके पीछे-पीछे चलना, उनका आदर तथा उनका श्रम दूर करना, ये कार्य सराग चारित्र्य अवस्थामें निषिद्ध नहीं हैं । अर्थात् शुद्धोपयोगके साधक किन्तु शुभोपयोगमें लगे हुए साधुओंकी रत्नत्रयके आराधक महा-मुनियोंमें इस प्रकारकी प्रवृत्ति उचित ही है ।

दंसग्याग्राणुवदेसो सिस्समाहणं च पोसणं तेषि ।

चरिया हि सरागाणं जिण्णिदपूजोवदेसो य ॥ [प्रव० ३,४८]

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका उपदेश देना, रत्नत्रयके आराधनकी शिक्षा प्रदहण करनेवाले शिष्योंको अपने पास रखना, उनके खाने-पीनेकी चिन्ता करना तथा जिनेन्द्र पूजा वगैरहका उपदेश देना ये सब सराग चरित्रके धारी श्रमणोंकी चर्या है ।

उवकुण्णिदि जो वि णिच्चं चादुव्वरण्णस्स समणसंघस्स ।

कायविराधणरहदं सो वि सरागण्णघाणो से ॥ [प्रव० ३,४९]

जो भी श्रमण ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके संघका, छै कायके जीवोंकी विराधना न करते हुए सदा उपकार करता है वह भी सरागचारित्रवाले श्रमणोंमें प्रधान होता है ।

संयमकी विरोधी प्रवृत्ति

जदि कुण्णिदि कायखेदं वेज्जावच्चत्थमुज्जदो समणो ।

ण हवदि हवदि अगारी घम्मो सो सावयाणं से ॥ [प्रव० ३, ५०]

यदि श्रमणोंकी वैयावृत्यमें तत्पर हुआ कोई श्रमण छै कायके जीवोंकी विराधना करता है तो वह श्रमण नहीं है, गृहस्थ हैं, क्योंकि छै कायके जीवोंकी विराधना करके धर्म करना श्रावकोंका कार्य है, साधुओंका नहीं ।

उपकार कैसे करे

जोण्हणं णिरवेक्खं मागारण्णगारचरियजुत्ताणं ।

अणुक्कंपथोवयारं बुव्वदु लेवो जदि वि अप्पो ॥ [प्रव० ३,५१]

गृहस्थ अ वा मुनिकी चर्यासे युक्त जैनोंका, क्याति लाभ पूजा वगैरहकी इच्छा न रखते हुए दया भावसे उपकार करो, भले ही उसमें थोड़ा-सा पाप भी हो ।

उपकार कब करे

रोगेण वा दुधाए तण्हाए वा समेण वा रुदं ।

दिट्ठा समण साह पाडवज्जदु आदसत्तीए ॥ [प्रव० ३,५२]

रोगसे, अथवा भूखसे, अथवा प्याससे, अथवा मार्ग उपवास वगैरहके श्रमसे पीड़ित श्रमणको देखकर साधु अपनी शक्तिभर उसकी सेवा करे ।

अज्ञानी जनोंसे बोलनेका नियम

वेज्जावच्चिमित्तं गिलाणपुरुवालबुद्धसमणायं ।

लौगिगज्जणसंभासा ण सिदिदा वा सुहोवज्जुदा ॥ [प्रव० ३, ५३]

रोगी, गुरु, बालक और वृद्ध श्रमणोंकी वैयावृत्यके लिये लौकिक जनोंके साथ शुभोपयोगको लिये हुए बातचीत करना निषिद्ध नहीं है । [सारांश यह है कि जब कोई शुभोपयोगवाला आचार्य किसी सरागचरित्र अथवा बीतराग चरित्रके धारी मुनिकी वैयावृत्य करता है तब उस वैयावृत्यके लिये लौकिक जनोंके साथ बातचीत करता है, शेष समयमें नहीं] ।

उक्तचर्या श्रावकोंका मुख्य कर्तव्य है—

एसा पसत्थभूदा समणायं वा पुणो घरत्थाणं ।

चरिया परेत्ति भण्णिदा ताएव परं लहदि सोक्ख ॥ [प्रव० ३, ५४]

यह प्रशस्तरागरूप चर्या श्रमणोंके होती है और गृहस्थोंके भी होती है । किन्तु श्रमणोंके मुख्य रूपसे होती है ऐसा परमागममें कहा है । गृहस्थ लोग उस शुभोपयोग रूप चर्यासे ही मोक्ष सुख प्राप्त करते हैं ।

पात्र भेदसे शुभोपयोगके फलमें भेद

रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं ।

गाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालग्धि ॥ [प्रव० ३, ५५]

दान, पूजा आदि रूप प्रशस्त राग जघन्य मध्यम उत्कृष्ट पात्ररूप वस्तुके भेदसे विपरीत फल देता है । जैसे धान्यकी उत्पत्तिके समय अनेक भूमियोंमें डाले हुए बीज विपरीत फल देते हैं ।

छदुमत्थविहिदवत्थुसु वदणियमब्भयणभाणदाणरदो ।

ण लहदि अपुणण्भावं भावं सादप्पगं लहदि ॥ [प्रव० ३, ५६]

अल्पज्ञानियोंके द्वारा कल्पना किये गये देव, गुरु, शास्त्र आदि वस्तुओंमें व्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान और दान आदि क्रियाओंको करनेवाला मनुष्य मोक्षको प्राप्त नहीं करता, किन्तु सातवेदनीयरूप मनुष्य या देवपर्यायको प्राप्त करता है । [आशय यह है कि सर्वज्ञके द्वारा बतलाये हुए देवादिमें उपयोग लगानेसे शुभोपयोगका फल पुण्य संचयपूर्वक मोक्षप्राप्ति होता है । किन्तु

अल्प ज्ञानियोंके द्वारा बतलाये हुए यम नियम आदि करनेसे जो शुभोपभोग होता है उसका फल केवल सांसारिक सुखकी प्राप्ति होती है] ।

कुपात्र दानका फल

अत्रिदिदपरमथ्येसु य विसयकसायाभिगेसु पुरिसेसु ।

जुद्रं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ [प्रव० ३, ५७]

परमार्थको नहीं जाननेवाले और विषय कषायोंमें फँसे हुए मनुष्योंकी सेवा, वैयावृत्य आदि करना, अथवा उन्हें आहार आदि देना कुदेवों और मनुष्योंके रूपमें फलता है । अर्थात् उन्हें दान आदि देनेवाले मरकर कुदेव या नीच मनुष्य होते हैं ।

उक्त कथनको दृढ़ करते हैं—

जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परुविदा व सत्येसु ।

किह ते तपडिबद्धा पुरिसा गित्थारगा हीति ॥ [प्रव० ३, ५८]

यदि शास्त्रोंमें उन विषय-कषायों को पाप कहा है तो विषय कषायमें फँसे हुए पुरुष संसारसे उतारने वाले कैसे हो सकते हैं । [सारांश यह है कि विषय कषाय पाप रूप है अतः विषयी कषायी पुरुष भी पापी ही हैं इसलिये वे अपने भक्तोंको संसारसे पार नहीं उतार सकते] ।

सुपात्रका लक्षण

उवरदपावो पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणममिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुममास्स ॥ [प्रव० ३, ५९]

जो पुरुष पापसे रहित है, सब धर्मिकोंमें समभाव रखता है और गुणोंके समूहका सेवक है वह सुमार्गका अर्थात् मोक्ष मार्गका भागी होता है ।

असुभोवशोगरहिदा मुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

गित्थारयंति लोगं तेसु पसत्थं लहदि भत्तो ॥ [प्रव० ३, ६०]

उक्त पुरुष अशुभोपयोगसे रहित होते हुए कभी शुद्धोपयोगी और कभी शुभोपयोगी होते हैं और भव्य जीवोंको संसारसे पार लगाते हैं । उनका भक्त उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

मुनियोंके सत्कारकी विधि

दिट्टा पगदं वत्थुं अन्भुट्टाणपधाराणकिरियाहिं ।

वट्टु तदो गुणादो विसेसिदव्वो त्ति उवदेसो ॥ [प्रव० ३,६१]

निर्ग्रन्थ निर्विकार रूपके धारी तपस्वी पात्रको देखकर अतिथिके योग्य अभ्युत्थान (उठकर खड़े हो जाना) आदि क्रियाओंको करे । उसके बाद उसे गुणोंसे विशिष्ट करे ऐसा सर्वज्ञ देवका उपदेश है ।

अन्भुट्टाणं गहणं उवासणं पोसणं च सञ्चारं ।

अञ्जलिकरणं पणमं भण्णदं इह गुणाधिगाणं हि ॥ [प्रव० ३,६२]

इस लोकमें जो अधिक गुणवाले तपस्वी जन हैं उनको आते देखकर उठके खड़ा होना, आगे जाकर उन्हें ग्रहण करना, उनकी सेवा करना, उनके खान पानका प्रबन्ध करना, उनका सत्कार करना; दोनों हाथ जोड़ना और उन्हें प्रणाम करना कहा है ।

अन्भुट्टेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया ।

संजमतवणाण्डा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ [प्रव० ३,६३]

जो श्रमण यद्यपि चारित्र गुणमें अधिक नहीं हैं किन्तु परमागमके ज्ञाता होनेसे सम्यग्ज्ञान गुणमें ज्येष्ठ हैं, श्रुतकी विनयके लिये श्रमणको उनके लिये भी खड़ा होना योग्य है । तथा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करना भी योग्य है । और जो संयम तप और ज्ञानसे परिपूर्ण हैं उनको नमस्कार करना योग्य है ।

श्रमणाभासका स्वरूप

ए हव्वदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि ।

जदि सदहदि ए अत्थे आदपधारे जिणक्खादे ॥ [प्रव० ३,६४]

जो संयम, तप, और श्रुतसे युक्त होते हुए भी यदि जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंका, जिनमें आत्म तत्त्व प्रधान है, अज्ञान नहीं करता है तो उसे आगममें श्रमण नहीं माना है ।

सच्चे श्रमणको नहीं माननेवालेकी बुराई

अववददि सासणस्थं समणं दिट्टा पदोसदो जो हि ।

किरियासु खाणुमणदि हवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥ [प्रव० ३,६५]

जो मोक्षमार्गमें स्थित भ्रमणको देखकर कषायवश दूषण लगाता है और यथायोग्य बन्दना आदि क्रियाओंमें उन्हें नहीं मानता, वह साधु निश्चयसे चारित्रहीन है ।

स्वयं गुणहीन होते हुए गुणाधिकसे विनय चाहनेवालेकी बुराई

गुणदोषिगस्स विणयं पडिच्छगो वो वि होमि समणो त्ति ।

होञ्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ प्रव० ३, ६६]

जो स्वयं गुणोंसे हीन होता हुआ भी 'मैं भी भ्रमण हूँ' इस अभिमानसे यदि गुणोंसे अधिक अन्य तपस्वियोंसे अपनी विनय कराना चाहता है तो वह अनन्त संसारमें भ्रमण करता है ।

स्वयं गुणोंमें अधिक होते हुए हीन गुणवालोंकी विनय करनेका दोष

अधिकगुणा सामणणे वट्टंति गुणाधरेहिं किरियासु ।

जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पम्भट्टचारित्ता ॥ [प्रव० ३, ६७]

चारित्रमें अधिक गुणवाले भ्रमण यदि गुणहीन भ्रमणोंके साथ बन्दना आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करते हैं तो वे मिथ्यात्वसे युक्त होते हुए चारित्रभ्रष्ट हो जाते हैं ।

लौकिक जनोंकी कुसंगतिका निषेध

शिच्छिदसुत्तथपदो समिदकसाओ तवोधिगो चावि ।

लोगिगजणसंसर्गं ण चवदि जदि संजदो ण हवदि ॥ [प्रव० ३, ६८]

जो आत्मा आदि पदार्थोंका कथन करने वाले सूत्रार्थ पदोंका ज्ञाता है, और जिसकी क्रोधादि कषाय शान्त हैं तथा जो विशिष्ट तपस्वी भी है फिर भी यदि वह लौकिक जनोंकी संगति नहीं छोड़ता है तो वह संयमी नहीं हो सकता । [सारांश यह है कि स्वयं ज्ञानी तपस्वी होते हुए भी यदि चारित्रहीन पुरुषोंकी संगति नहीं छोड़ता तो अति परिचय होनेसे जैसे आगके संसर्गसे जल विकृत हो जाता है वैसे ही वह भी विकारी हो जाता है] ।

लौकिक जनका लक्षण

शिमंथो पब्बइदो वट्टंदि जदि एहिगेहिं कम्भेहिं ।

सो लोगिगो त्ति मण्णिदो संजमतवसंजुदो चावि ॥ [प्रव० ३, ६९]

जो परिग्रहसे रहित होनेसे निर्ग्रन्थ है और जिसने विधि पूर्वक दीक्षा प्रदण की है, वह संयम और तपसे युक्त होने पर भी यदि इस लोक सम्बन्धी कामोंको करता है अर्थात् ख्याति, पूजा और लाभके लिये ज्योतिष; मंत्र तंत्र वगैरह का प्रयोग करता है; उसे लौकिक कहा है।

उत्तम संगतिका उपदेश

तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं ।

अधिवसदु तम्हि णिच्छं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ [प्रव० ३, ७०]

चूंकि हीनकी संगति करनेसे गुणोंकी हानि होती है इसलिये यदि श्रमण दुःखसे छूटना चाहता है तो उसे सदा अपने समान गुणवाले अथवा अपनेसे अधिक गुणवाले श्रमणके समीप रहना चाहिये।

श्रमणाभासोंकी दशा

जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छिदा समये ।

अच्चंतफलसमिद्धं भमति ते तो परं कालं ॥ [प्रव० ३, ७१]

जो अपने अविवेकसे पदार्थोंको अन्यथा जानते हुए भी यह निश्चय करते हैं कि जैसा हमने जाना है वही वस्तुका स्वरूप है, वे अज्ञानी मुनि पदमें स्थित होते हुए भी आगे अनन्तकाल तक भ्रमण करते हैं। और वह अनन्तकाल कभी अन्त न होने वाले नरकादि गतियोंके दुःखोंसे भरपूर होता है।

किसका भ्रामण्य पूर्ण है

अजधाचारविजुदो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामणणो ॥ [प्रव० ३, ७२]

जो श्रमण विपरीत आचरण नहीं करता, और जैसा बस्तु का स्वरूप है वैसा ही पदार्थों को निश्चित रूपसे जानता है, तथा जो राग द्वेषसे रहित है, उसीका भ्रामण्य सम्पूर्ण है और वह इस संसारमें चिरकाल तक नहीं जीता अर्थात् शीघ्र मोक्ष चला जाता है।

शुद्धोपयोगी श्रमण

सम्मं विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहित्थमज्जत्थं ।

विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति णिदिट्ठा ॥ [प्रव० ३, ७३]

जो सम्यक् रूपसे पदार्थोंको जानते हैं, और बाह्य तथा अन्तरंग परिग्रहको छोड़कर पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंमें अनासक्त हैं उन शुद्ध आत्माओंको शुद्धोपयोगी कहा है ।

शुद्धोपयोगकी महिमा

सुद्धस्स य सामएणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ [प्रव० ३ ७४]

शुद्धोपयोगीके ही श्रामण्य कहा है, शुद्धोपयोगीके ही केवल ज्ञान और केवलदर्शन कहे हैं । तथा शुद्धोपयोगीको ही निर्वाण की प्राप्ति कही है । वही सिद्ध है । उसे नमस्कार हो ।

—:०:—

द. श्रामण्य भाव अधिकार

भावका महत्त्व

भावो य पटमलिंगं ण दव्वलिंगं च जाण परमत्थं ।

भावो कारणभूदो गुणदोसाणं जिणा विंति ॥ [भा० प्रा० २]

जिनदीक्षाका प्रथम चिह्न भाव है । द्रव्यलिंग—बाह्यवेषको परमार्थ-रूप मत जान । जिनेन्द्रदेव भावको गुणों और दोषोंका कारण कहते हैं ॥

भावविसुद्धिणिमित्तं बाहिरगंथस्स कीरण चात्रो ।

बाहिरचात्रो विहलो अमंतरसंगजुत्तस्स ॥ [भा० प्रा० ३]

भावको निर्मल करनेके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है । अभ्यंतर परिग्रहसे सहित मुनिका बाह्यत्याग निष्फल है अर्थात् जिस मुनिके चित्तमें वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहकी चाह है उसने यदि वस्त्र आदि बाह्य परिग्रहका त्यागकर दिया है तो उसका कुछ फल नहीं है ।

भाव रहितको मोक्ष नहीं

भावरहिश्रो ण सिञ्जइ जइ वि तवं चरइ कोडिकोडीश्रो ।

जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥ [भा० प्रा० ४]

आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीव यदि करोड़ों जन्म तक भुजाओं-को लटकाकर और वस्त्रोंको त्यागकर तपश्चरण करे तौ भी उसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ।

परिणामम्मि असुद्धे गथे मुंचेइ बाहिरे य जई ।

बाहिरगंथच्चाश्रो भावविहूणस्स किं कुणई ॥ [भा० प्रा० ५]

परिणामके अशुद्ध होते हुए अर्थात् मनके विषय कषायसे मलिन होने हुए यदि मुनि बाह्य परिग्रहको छोड़ देता है । तो भावरहितका बाह्य परिग्रहका त्याग क्या कर सकता है अर्थात् कुछ भी नहीं कर सकता ।

जाणहि भावं पटमं किं ते लिंगेण भावरहिण्ण ।

‘पंथिय सिवउरिपंथे जिणउवइट्ठं पयत्तेण [भा० प्रा० ६]

हे पथिक ! मोक्षपुरीके मार्गमें जिनवर भगवानके द्वारा कहे हुए भावको प्रयत्नपूर्वक मुख्य जान । तेरे इस भावरहित द्रव्यलिंगसे क्या ? ।

भावरहियण्ण सउरिस अणाइकालं अणंतसंसारे ।

गहि उज्झिमाइ बहुसां बाहिरिण्णिगंथरूवाइ ॥ [भा० प्रा० ७]

हं सज्जतोत्तम ! आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित तूने अनादिकालसे इस अनन्त संसारमें बाह्य निग्रन्थ वंशोंको अनेक बार धारण किया और छोड़ा ।

भीसण्णरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।

पत्तो सि तिक्खदुक्खं भावहि जिणभावणा जीव ॥ [भा० प्रा० ८]

हे जीव ! तूने भयंकर नरकगतिमें, तिर्यञ्चगतिमें, कुदेव और कुमनुष्योंमें जन्म लेकर तीव्र दुःख पाया है । अब जिन भावनाको भा अर्थात् मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वको ग्रहण कर ।

सत्तसु णरवावासे दारुणभीमाइं असहणीयाइं ।

भुत्ताइं सुइरकालं दुक्खाइं १णिरंतरं भविय ॥ [भा० प्रा० ९]

१. ‘पंथिणासिवउरि पंथे ग’ पंथियस्सिव उ० । २. णिरंतरं सहियं -आ, -णिरंतरं कालं -‘ग’ ।

हे भव्य जीव ! तूने सातों नरकोंके विलोंमें अत्यन्त भयानक और न सहन कर सकने योग्य दुःख बहुत काल तक निरन्तर भोगे है ।

खण्णु-त्तावण-^१वालण-वेयण-विच्छेयणाणिरोहं च ।

पत्तो सि भावरहिञ्चो तिरियगईए चिरं कालं ॥ [भा० प्रा० १०]

हे जीव ! आत्मभावनासे रहित तूने तिर्यञ्चगतिमें चिरकालतक दुःख सहें हैं—पृथ्वीकायमें तूने खोदेजानेका दुःख सहा, जलकायमें तूने अग्निके उपर तपाये जानेका दुःख सहा, अग्निकायमें तूने जलनेका दुःख सहा वायुकायमें तूने पंखे वगैरहसे डुगाये जानेका दुःख सहा, वनस्पतिकायमें तूने छेदन-भेदनका दुःख सहा, और त्रसकायमें बाँधने वगैरहका दुःख सहा ।

आगंतुक-माणसियं सहजं शारीरियं च चत्तारि ।

दुक्खाहं मणुयजम्मे पत्तो सि अगंतयं कालं ॥ [भा० प्रा० १]

हे जीव ! तूने मनुष्य जन्ममें अनन्तकाल तक आगन्तुक मानसिक सहज और शारीरिक चार प्रकारके दुःख पाये हैं । [अकस्मात् बिजली गिरने आदिसे होनेवाले दुःखको आगन्तुक कहते हैं । इष्टवियोग या अनिष्टसंयोगसे मनमें होनेवाली वेदनाको मानसिक दुःख कहते हैं रोग आदिसे होनेवाले दुःखको सहज कहते हैं । और शरीरके छेदन-भेदन आदिसे होनेवाले दुःखको शारीरिक कहते हैं] ।

सुरणिलएमु सुरच्छरविञ्चोयकाले य माणसं तिव्वं ।

संपत्तो सि महाजस दुक्खं सुहभावणारहिञ्चो ॥ [भा० प्रा० १२]

हे महायशस्वी ! शुभ भावनासे रहित होकर तूने स्वर्गलोकमें देवांगनाका वियोग होने पर और यदि तू देवी हुआ तो देवका वियोग होने पर बहुत अधिक मानसिक दुःख पाया ।

कंदप्पमादिञ्चो पंच वि असुहादि भावणाई य ।

भाऊण ^१दव्वलिंगी पहीणदेवो दिवे जाञ्चो ॥ [भा० प्रा० १३]

हे जीव ! द्रव्यलिंगी मुनि होकर तूने कन्दर्प आदि (कान्दर्पी,

१. —ए लालण विच्छे, —यणवेयणाणिरोहं —अ० । २. दव्वलिंगे ऊ०, दव्वलिंगे ग० ।

किस्विषी, आभियोगीकी, दानवी और संमोही) पाँच अशुभ भावनाओं को भाया और उससे तू मरने पर स्वर्गमें नीच देव हुआ ।

पासस्थभावणाओ अणाइकालं अण्येयवाराओ ।

भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभाववीएहिं ॥ [भा० प्रा० १४]

हे जीव ! अनादिकालसे अनेक वार पार्श्वस्थ आदि पाँच प्रकारके मुनियोंकी भावनाको भाकर तूने खोटी भावनाओंके परिणाम रूप बीजोंसे दुःख पाया । [जो मुनि उपकरणोंके द्वारा आजीविका करता हुआ श्रमणोंके पासमें रहता है वह पार्श्वस्थ है । जिसकी आत्मा कपायसे मलिन है और जो व्रत गुण शीलसे रहित है तथा संघका अविनय करता है वह कुशील मुनि है । दैत्यक, मंत्र, ज्योतिष आदिसे आजीविका करने वाले और राजा वगैरहके सेवक मुनिको संसक्त कहते हैं । गुरुके पासमें न रहकर जो अकेला स्वच्छन्द विहार करता है, जिनागमके दूषक उस मुनिको मृग चारित्र अथवा स्वच्छन्द कहते हैं । जो मुनि जिनवचन को नहीं जानता, चारित्रके भारसे मुक्त है, ज्ञान और आचरणसे भ्रष्ट है, उसे अवसन्न कहते हैं] ।

देवाण गुणविहूई इड्डी माहप्प बहुविहं दट्ठुं ।

होऊण हीणदेवो पत्तो बहु माणसं दुवखं ॥ [भा० प्रा० १५]

हे जीव ! नीच देव होकर तूने अन्य देवोंके गुण, विभूति, ऋद्धि तथा अनेक प्रकारके माहात्म्यको देखा और उससे तूने बहुत मानसिक दुःख पाया ।

चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो ।

होऊण कुदेवरां पत्तो सि अण्येयवाराओ ॥ [भा० प्रा० १६]

हे जीव ! तू चार प्रकारकी खोटी कथाओंमें आसक्त होकर, आठ मादोंसे उन्मत्त होकर तथा प्रकट रूपसे अशुभ परिणाम रूप प्रयोजनको लेकर अनेक वार कुदेवोंमें उत्पन्न हुआ ।

असुई बीहच्छेहिं य कलिमलवहुलाहिं गन्मवसहीहिं ।

वसिओ सि चिरं कालं अण्येयजणाणीय मुण्णपवर ॥ [भा० प्रा० १७]

हे मुनिश्रेष्ठ ! अनेक माताओंके अपवित्र, भयानक, और गन्दे मैलसे भरे हुए गर्भ स्थानमें तुम बहुत काल तक रहे हो ।

पीओ सि थराच्छीरं अरुंतजम्मंतराइ जराणीयां ।

अरराणाणा महाजस सायरसलिलादु अहिययरं ॥ [भा० प्रा० १८]

हे महायशके धारी ! तुमने अनन्त जन्मोंमें भिन्न भिन्न माताओंके स्तनोंका सागरके पानीसे भी ज्यादा दूध पिया है । अर्थात् अनन्त भावोंमें तुमने माताओंका इतना दूध पिया है कि यदि उसे एकत्र किया जा सके तो वह समुद्रके पानीसे भी ज्यादा हो जायेगा ।

तुह मरणे दुक्खेयां अरराणाणायां अणेयजराणीयां ।

रुणाणा रायराणीरं सायरसलिलादु अहिययरं ॥ [भा० प्रा० १९]

हे मुनि ! तुम्हारे मरने पर दुःखसे भिन्न भिन्न माताओंके रोनेसे उत्पन्न हुआ आँसूका जल समुद्रके पानीसे भी अधिक है । अर्थात् तुमने अनन्त वार जन्म लेकर अनन्तवार मरण किया । और तुम्हारे मरनेपर तुम्हारे वियोगसे दुखी माताओंने इतने आँसू बहाये हैं कि यदि उन्हें एकत्र किया जा सके तो वे सागरके जलसे भी अधिक होंगे ।

भवसायरे अरांते छिरणुज्झिय केस-राहर-णालट्टी ।

पुंजइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिवा रासी ॥ [भा० प्रा० २०]

हे मुनि ! इस अनन्त संसार समुद्रमें तुम्हारे शरीरोंके काटकर फेंके हुए केश, नख, नाल और हड्डियोंको यदि कोई जगतमें इकट्ठा करे तो मरु पर्वतसे भी ऊँचा ढेर हो जाय ।

जल-थल-सिंह-पवणंबर-गिरि-सरि-दरि-कुरुवणाइ सब्बतो ।

वसिओ सि चिरं कालं तिहुवयामज्जे अराण्ववसो ॥ [भा० प्रा० २१]

हे जीव ! पराधीन होकर तू तीनों लोकोंके बीचमें जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, गुफा, देवकुरु, उत्तरकुरु भोग भूमि और वन वगैरहमें सर्वत्र चिरकाल तक रहा है ।

गसियाइं पुग्गलाइं भुवणोयरवत्तियाइं सब्वाइं ।

पत्तो सि तो एा तित्ति पुगारुसं ताइं भुंजंतो ॥ [भा० प्रा० २२]

हे जीव ! तूने इस लोकमें स्थित सभी पुद्गलोंका भक्षण किया । और उनको बारंबार भोगता हुआ भी तृप्त नहीं हुआ ।

तिहुवणासलिलं सयलं पीयं तयहाए पीडिएया तुमे ।

तो वि एा तएहाछेओ जाओ चितेह भवमहणं ॥ [भा० प्रा० २३]

हे जीव ! तूने प्याससे दुखी होकर तीनों लोकोंका सारा जल पी लिया, फिर भी तेरी प्यास नहीं मिटी । अतः संसारका नाश करनेवाले रत्नत्रयका चिन्तन कर ।

गहिउज्झयाइ मुणिवर कलेवराइं तुमे अणोयाइं ।

ताणं ग्णथि पमाणं अणंतभवसायरे धीर ॥ [भा० प्रा० २४]

हे धीर मुनिवर ! तूने इस अनन्त संसार समुद्रमें जो अनेक शरीर ग्रहण किये और छोड़े हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है ।

विसंबयण - रत्तकवय - भय - सत्थग्गहणसकिलेसेण ।

आहारुस्सासाणं सिरोहणा खिज्जए आऊ ॥

हिम-जलग्ग-सलिल-गुहयर-पव्वय-तरु-रुहण-उडण-मंगेहिं ।

रस-विज्जजोयधारणअणयपमंगेहिं विविहेहिं ॥

इय तिरियमणुयज्जम्मे मुइरं उववज्जऊण बहुवारं ।

अवमिच्चु-महादुककणं तिव्वं पत्तो सि तं मित्त ॥ [भा० प्रा० २५-२७]

विष, पीड़ा, रक्त क्षय (खून का बहुत अधिक निकल जाना), डर, और शस्त्र घातके संक्षेपसे, आहार और आसोच्छ्वासके रुकनेसे, बर्फ अग्नि और पानीमें गिरनेसे, महान् पर्वत और ऊँचे वृक्ष पर चढ़ते समय गिर जानेसे, पारेके विकारसे, विजली गिर जाने तथा योगके धारण आदि अनेक अनीतिपूर्ण घटनाओंके द्वारा आयुका क्षय हो जाता है । इस प्रकार हे मित्र ! तूने तिर्यञ्च और मनुष्य गतिमें चिर काल तक जन्म लेकर अनेक बार अकाल मरणका कठोर महादुःख भोगा है ।

छत्तीसं तिरिणसया छावट्टिसहस्सवारमरणाणि ।

अंतोमुहुत्तमञ्जे पत्तो सि णिगोयवाषम्मि ॥ [भा० प्रा० २८]

हे जीव ! निगोदमें रहते हुए तू एक अन्तर्मुहूर्त कालमें छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस बार मरा ।

वियलिदिए असीदि सट्टी चालीसमेव जाणेह ।

पंविदिय चउवीसं खुदभवत्तोमुहुत्तस्स ॥ [भा० प्रा० २९]

एक अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले इन छुट्र भवोंमें द्वीन्द्रियोंके अस्सी, त्रीन्द्रियों

के साठ, चौइन्द्रियोंके चालीस और पञ्चेन्द्रियोंके चौबीस भव होते हैं, ऐसा जानो। अर्थात् एक अन्तर्मुहूर्तमें होनेवाले छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवोंमेंसे यह जीव अस्सी बार दोइन्द्रियमें जन्म लेता है, साठ बार तेइन्द्रिय होता है, चालीस बार चौइन्द्रिय होता है और चौबीस बार पञ्चेन्द्रिय होता है।

रयणत्ते सुअलद्धे एवं भमिअओ सि दीहसंसारे ।

इय जिणवरेहिं भणियं तं रयणत्तं समायरह ॥ [भा० प्रा० ३०]

रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे हे जीव ! तूने इस प्रकार दीर्घकाल तक संसारमें भ्रमण किया। अतः तू रत्नत्रयको धारण कर, ऐसा जिन भगवान ने कहा है।

रत्नत्रयका स्वरूप

अप्या अप्पम्मि रअओ सम्माइट्टी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ तं सण्णाणं चरदि हु चारित्तमग्गु त्ति ॥ [भा० प्रा० ३१]

आत्मामें लीन आत्मा निश्चय रूपसे सम्यग्दृष्टि होता है। जो आत्माको यथार्थ रूपमें जानता है वह सम्यग्ज्ञान है और जो आत्मामें तन्मय हो जाता है वही चारित्र्य है। इस प्रकार यह मोक्षका मार्ग है।

अरणो कुमरणमरणं अण्येयजम्मंतराह मरिअओ सि ।

भावाह सुमरणमरणं जरमरणविणामणं जीव ॥ [भा० प्रा० ३२]

हे जीव ! तू अन्य अनेक जन्मोंमें कुमरण मरणसे मरा। अब जरा और मरणका नाश करनेवाले सुमरण मरणका चिन्तन कर।

सो णत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तअओ णिलअओ ।

जत्थ ण जाअओ ण मअओ तियतीयपमाणअओ सव्वो ॥ [भा० प्रा० ३३]

इस तीन लोक प्रमाण समस्त लोकमें परमाणु बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ द्रव्यलिंगको धारण करनेवाला जीव न जन्मा और न मरा हो।

कालमणत्तं जीवो जम्म-जरा-मरणपीडिअओ दुक्खं ।

जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिण्ण ॥ [भा० प्रा० ३४]

इस जीवने परम्परासे भावरहित जिन लिंग धारण करकेयलाअअक

१. त्तमरिमुत्ति अ० ।

जिनलिंग तो धारण किया किन्तु भावसे मिथ्यादृष्टि ही रहा, इससे दुःख ही पाया ।

पडिदेस-समय-पुग्गल-माउग - परिणाम-णाम-कालट्टं ।

गहिउज्झियाइं बहुओ अणंतभवसायरे जीवो ॥ [भा० प्रा० ३५]

अनन्त संसार समुद्रमें इस जीवने आयु कर्म, राग द्वेष रूप परिणाम, नामकर्म और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालमें स्थित पुद्गलोंको प्रत्येक प्रदेशमें और प्रत्येक समयमें अनेक बार ग्रहण किया और छोड़ा । अर्थात् अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कर्म और नोकर्म पुद्गलोंको अनेक बार भोगकर छोड़ दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें यह जन्मा और मरा, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमें इसने जन्म लिया और मरण किया, जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त (नौप्रैवेयक पर्यन्त) चारो गतियोंकी सब आयुओंको भोगकर छोड़ दिया । और प्रत्येक योगस्थान, कपायाध्यवसायस्थान और अनुभागाध्यवसाय स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त सब स्थितियोंको भोगा और छोड़ दिया । इस तरह इस जीवने अनेक बार पंच परावर्तन रूप संसारमें भ्रमण किया ।

तेयाला तिण्णसया रज्जूरणं लोयखेत्तपरिमाणं ।

मुत्तणट्टपएसा 'कन्थ एा दुद्धुल्लिओ जीवो ॥ [भा० प्रा० ३६]

तीन सौ तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्षेत्रमें आठ मध्य प्रदेशोंको छोड़कर इस जीवने कहाँ भ्रमण नहीं किया अर्थात् सब जगह भ्रमण किया ।

शरीरमें रोग

एक्केक्कंगुलिवाही छण्णवदी होति जाया मणुयाणं ।

अवसेसे य सरीरे रोया मणु कित्तिया भणिया ॥ [भा० प्रा० ३७]

मनुष्यों की एक एक अंगुलिमें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । तब बतलाईये कि वाकीके शरीरमें कितने रोग कहे हैं ?

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुवभवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥ [भा० प्रा० ३८]

हे महायशस्वी मुनि ! पूर्व भवोंमें तूने पराधीन होकर उन सब रोगों-को सहा । अथवा अधिक कहनेसे क्या लाभ है, वर्तमानमें भी तू उनको नीचे कहे अनुसार सहन करता है ।

पित्त-मुत्त-फेफस-कालिञ्जय-रुहिर-खरिस-कमिजाले ।

उयरे वसिथ्रो सि चिरं शवदसमासेहिं पत्तेहिं ॥ [भा० प्रा० ३६]

हे मुनि ! तू पित्त, आंत, मूत्र, तिल्ली, जिगर, रुधिर, खकार और कीड़ोंसे भरे हुए उदरमें बहुत बार नौ दस मास तक रहा है

‘दियसंगट्टियमसणं आहारिय मायमणुय भुत्तं ते ।

ह्दुहि खरिसाण मज्जे जटरे वसिथ्रो सि जणणीए ॥ [भा० प्रा० ४०]

दाँतोंके संसर्गमें स्थित भोजनको ग्रहण करके तूने माताके द्वारा खाये गये अन्नको खाया है । और माताके उदरमें वमन और खकारके बीचमें निवास किया है ।

सिमुकाले य अयाणे असुइहि मज्जाभिम लोलिओ सि तुहं ।

असुई असिया बहुसो मुणिवर बालत्तपत्तेण [भा० प्रा० ४१]

हे मुनिवर ! बाल्य कालमें अज्ञानी होनेसे तू विष्णु आदि अपवित्र पदार्थोंके बीचमें लोटा है और बालपन होनेसे तूने अनेकवार अपवित्र वस्तुओंको खाया है ।

मंसट्टि-मुद्ध-सोशिय-पित्त-सवत्त-कुण्णिम-दुग्गंधं ।

खरिस-वम-पूइ-गित्तिमममरियं नितेहि देहउडं ॥ [भा० प्रा० ४२]

हे मुनि ! मांस, हड्डी, वीर्य, रुधिर, पित्त और आंतसे बहने वाली शवके समान दुर्गन्धित तथा खकार, चर्बी, और अपवित्र गन्दगीसे भरे हुए इस शरीररूपी घड़ेका स्वरूप विचार ।

१. ‘दियसंगट्टियमसणं आहारिय मायमणुय भुत्तं’ ग० प्रतिमें पाठ है । जिसका अर्थ इस प्रकार किया गया है—कामके वश हाँकर स्त्रीका संसर्ग करने पर भोगके अन्तमें त्यागे गये वीर्यकी माताके द्वारा धारण करनेसे तेरी उत्पत्ति हुई है । २. श्रुत सागरने ‘मायभुत्तमणुयंते’ पाठ रखकर उसका अर्थ किया—‘माताके द्वारा खाये गये अन्नके बीचमें तू उदरमें बसा है । २. तुम आ० ग० ।

मुक्त कौन है

भावविमुक्तो मुक्तो ए य मुक्तो बंधवाइमित्तेण ।

इय भाविऊण उज्झसु गंधं अब्भंतरं धीर ॥ [भा० प्रा० ४३]

जो रागादि भावोंसे मुक्त है वही मुक्त है। किन्तु जो बन्धु बान्धव आदि मात्रसे मुक्त है वह मुक्त नहीं है। अर्थात् अभ्यन्तर परिग्रहके होते हुए मात्र बाह्य परिग्रहका त्याग करना कार्यकारी नहीं है। ऐसा विचार कर हे धीर ! अभ्यन्तर मिथ्यात्व आदि परिग्रहका त्याग कर ।

बाहुवलीका उदाहरण

देहादिचत्तसंगां माणकसाएण कलुगिआं धीरो ।

अत्तावणेण जादो बाहुवली किञ्चित्थ कालं ॥ [भा० प्रा० ४४]

शरीर आदि परिग्रहको छोड़ देनेवाले धैर्यशील बाहुवली मुनि मान कषायसे क्लुषित होनेके कारण पितने ही काल तक आतापन योग करते रहे ।

मधुपिंग मुनिका उदाहरण

महुपिंगो णाम मुणी देहाहारादिचत्तवावारो ।

सवणत्तणं ए पत्तो गिण्णायामित्तेण भविण्णुय ॥ [भा० प्रा० ४५]

भ्रम्यजीवोंसे नमस्कृत हे मुनिवर ! शरीर आहार आदिकी क्रियाओंको छोड़ देनेवाला मधुपिंग नामक मुनि निदान मात्रसे श्रमणपनेको प्राप्त नहीं हो सका ।

वशिष्ठ मुनिका उदाहरण

अरण्यं च वसिष्ठमुणी पत्तो दुक्खं गिण्णायदोसेण ।

सो णत्थि वासटाणां जत्थ ए दुरुदुल्लिआं जीवो ॥ [भा० प्रा० ४६]

और भी एक वसिष्ठ मुनिने निदानके दोषसे दुःख पाया । ऐसा कोई निवास स्थान नहीं है, जहाँ जाने भ्रमण नहीं किया ।

भावका महत्त्व

सो णत्थि को वि देसो चउरासोलक्खजोण्णिवासम्मि ।

भावविरओ वि सवणो जत्थ ए दुरुदुल्लिआं जीव ॥ [भा० प्रा० ४७]

हे जीव ! चौरासी लाख योनियोंके स्थानोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ भावरहित मुनिने भी भ्रमण न किया हो ।

भावेण होइ लिंगी ए हु लिंगी होइ दर्वामिरोण ।

तम्हा कुण्णञ्ज भावं कि कीरइ 'दव्वलिंगेण ॥ [भा० प्रा० ४८]

भावलिंगसे मुनि जिनलिंगी होता है, भावके बिना केवल द्रव्यलिंगसे (वाह्य वेशसे) मुनि जिनलिंगी नहीं होता । अतः भावलिंगको धारण करो, भाव रहित द्रव्यलिंगसे कुछ भी कार्य नहीं बन सकता ।

बाहुमुनिका उदाहरण

दंडय-पायवं सयलं व्हिञ्चो अचमंतरेण दांसेण ।

जिणलिंगेण वि 'वाहू पडिञ्चो नो रउरवं सरयं ॥ [भा० प्रा० ४९]

बाहु मुनिने अभ्यन्तरके दोपसे क्रोधवश होकर सम्पूर्ण दण्डक नगरको जलाकर भस्म कर दिया । और वह जिनलिंगका धारी होते हुए भी मरकर रौरव नरकमें गया ।

दीपायन मुनिका उदाहरण

अदरो वि दद्वसवणो वंसणवरणासाचरणपम्भट्टो ।

दीवायणु त्ति णामो अयंतंनंसारिओ जाओ ॥ [भा० प्रा० ५०]

और भी एक सम्यग्दर्शन सम्प्रज्ञान और सम्यक् चारित्र्यसे भ्रष्ट दीपायन नामक द्रव्यलिंगी मुनि अनन्त संसारी हुआ ।

शिवकुमार मुनिका उदाहरण

भावसवणो य धीरो जुवईयण्वंविञ्चो विसुद्धमई ।

'णामेण शिवकुमारो पारत्तसंसारिओ जादो ॥ [भा० प्रा० ५१]

शिवकुमार नामक भावलिंगी धीर वीर मुनि युवती स्त्रियोंके द्वारा घेरे जाने पर भी निर्मल मति रहनेके कारण परिमित संसार वाले हुए । अर्थात् ब्रह्मचर्यसे डिगाये जाने पर भी नहीं डिगे और उनके संसार भ्रमणका अन्त आ गया ।

१. दव्वसवणेण अ० । २. साहू अ० ५० । ३. णियमेण आ० ।

अभयसेनका उदाहरण

केवलजिणपणत्तं एयादस अंग सयलमुदणारां ।

पट्टिओ अभवसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥ [भा० प्रा० ५२]

केवली जिनके द्वारा कहे हुए ग्यारह अंग रूप समस्त श्रुतज्ञानको पढ़कर भी अभयसेन नामक मुनि भावमुनिपनेको प्राप्त नहीं हुआ ।

शिवभूतिका उदाहरण

तुसमासं घोसंतो भावविमुद्धो महाणुभावो य ।

णामेण य सिवभूई केवलणणी फुडं जाओ ॥ [भा० प्रा० ५३]

विशुद्ध परिणाम वाले और महा प्रभावशाली शिवभूति नामक मुनि 'तुप माष' शब्द को घोषते हुए केवल ज्ञानी हो गये । यह बात प्रसिद्ध है ।

भावलिंगकी सार्थकता

भावेण होइ णग्गो बाहिरलिगेण किं च णग्गेण ।

कम्मपयडीण णियरं णासइ भावेण दवे य ॥ [भा० प्रा० ५४]

भावसे नग्न होता है, केवल बाहिरी नग्न वेपसे क्या लाभ है ? भावके होने पर ही कर्मप्रकृतियोंके समूहका नाश होता है, मात्र द्रव्यके होने पर नहीं ।

भाव रहित द्रव्यलिंगकी निरर्थकता

णग्गतणं अकज्जं भावणरहिणं जिणेहि पणत्तं ।

इय णाऊण य णिच्चं भाविज्जहि अप्पयं वीर ॥ [भा० प्रा० ५५]

भाव रहित नग्नपना कार्यकारी नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है । ऐसा जानकर हे धीर ! सदा आत्माका चिन्तन कर ।

भावलिङ्गी साधुका स्वरूप

देहादिसंगरहिओ माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो ।

अप्पा अप्पम्मि रओ स भावलिंगी हवे साहू ॥ [भा० प्रा० ५६]

१. एसारस भेयसयल सुईणारां आ०, एयादसंग पुव्वसुदणारां ग० ।
२. भावेण दवेणा ग० । ३. धीरा ग० ।

जो शरीर आदि परिग्रहसे रहित है, मान कृपायसे पूरी तरह छूटा हुआ है और जिसका आत्मा आत्मामें लीन है वह भावलिंगका धारी साधु है ।

भावलिङ्गी साधुकी भावना

ममस्ति परिवृज्जामि गिम्मन्तिमुवाट्टुदो ।

आलंबणं च मे आदा अवसेसाइं वोसं ॥ [भा० प्रा० ५७]

निर्ममत्व भावको अपनते हुए मैं 'यद् मेरा है और मैं इसका हूँ' इस ममत्व भावको छोड़ता हूँ । आत्मा ही मेरा आलम्बन है । शेष सबका मैं त्याग करता हूँ ।

आदा खु मज्जुणो आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्याणे आदा मे संवरं योगे ॥ [भा० प्रा० ५८]

यह निश्चित है कि आत्मा मेरे ज्ञानमें है, आत्मा मेरे दर्शन और चरित्रमें है । आत्मा प्रत्याख्यानमें है और आत्मा मेरे संवर और ध्यानमें है । अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चरित्र, प्रत्याख्यान, संवर और योग ये सब आत्म स्वरूप हैं ।

एगो मे सामदो अप्पा साण्णदमणलकवणो ।

सेसा मे वाहिरा भावा सर्वे भंजोणलकवणो ॥ [भा० प्रा० ५९]

ज्ञान दर्शन स्वरूप एक मेरा आत्मा ही शाश्वत-अविनाशी है, बाकीके सभी मेरे भाव बाह्य हैं, जो कि परद्रव्यके संयोगसे प्राप्त हुए हैं ।

शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धगिग्मलं चेव ।

लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छइ सामयं सुक्खं ॥ [भा० प्रा० ६०]

यदि शीघ्र ही चतुर्गतिस्वरूप संसारको छोड़कर शाश्वत सुखको प्राप्त करना चाहते हो तो शुद्ध भावोंके द्वारा सुयिशुद्ध और निर्मल आत्माका चिन्तन करो ।

शुद्धात्म भावनाका फल

जो जीवो भावतो जीवसहावं मुभावसंजुत्तो ।

सो जर-मरणविणासं कुणइ फुडं लहइ गिब्बाणं ॥ भा० प्रा० ६१]

जो जीव शुभभावोंसे संयुक्त होता हुआ आत्माके स्वरूपका चिन्तन करता है वह जरा और मरणका विनाश करके निश्चयसे मोक्ष प्राप्त करता है ।

पुनः भावकी महत्ताका वर्णन

पट्टिएण वि किं कीरइ किं वा सुणिएण भावरहिएण ।

भावो कारणभूदो सायारणयारभूयाणं ॥ [भा० प्रा० ६६]

भाव रहित पदनेसे भी क्या कार्य सिद्ध हो सकता है और भावरहित मुननेसे भी क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ? अर्थात् कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । मुनिपनेका और श्रावकपनेका कारण भाव ही है ।

भावके विना नग्नता व्यर्थ है

दब्बेण सयलणग्गा णारयातिरिया य सयलसंघाया ।

परिणामेण असुद्धा ण भावसवणत्तणं पत्ता ॥ [भा० प्रा० ६७]

नारकी तिर्यञ्च और अन्य सब जीव समूह द्रव्यसे (बाहरसे) नंगे रहते हैं । किन्तु भावसे वे अशुद्ध होते हैं अर्थात् उनके भाव शुद्ध नहीं होते, इसलिये वे भाव मुनिपनेको प्राप्त नहीं होते ।

णग्गो पावइ दुक्खं णग्गो संसारसायरे भमइ ।

णग्गो ण लहइ बोही जिणभावणवज्जिओ सुइरं ॥ [भा० प्रा० ६८]

जिन भावनासे रहित नग्न जीव दुःख पाता है, जिन भावनासे रहित नग्न जीव संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करता है । और जिन भावनासे रहित नग्न जीव चिरकाल तक सम्यग्ज्ञानको प्राप्त नहीं कर पाता ।

अयसाण भायणेण य किं ते णग्गेण पावमल्लिणेण ।

पेसुण्ण-हास-मच्छर-मायाबहुलेण सबणेण ॥ [भा० प्रा० ६९]

हे मुनि ! अपयशके पात्र और पापसे मलिन तेरी इस नग्नतासे तथा चुगली, हँसी मजाख, डाह और मायासे भरे हुए तेरे इस मुनि पदसे क्या लाभ है ?

पबड्ढि जिणवरलिंगं अम्भंतर भावदोसपरिसुद्धो ।

भावमलेण य जीवो बाहिरसंगम्मि मइलियइ ॥ [भा० प्रा० ७०]

हे मुनि ! अन्तरंग भावदोषसे बिल्कुल शुद्ध होकर तू जिन लिंगको

धारण कर; क्योंकि भावोंके मलिन होनेसे जीव बाह्य परिग्रहमें मलिनता पैदा कर लेता है ।

धर्मात्मि णिप्पवामो दोसावासो य उच्छुक्कल्लसमो ।

सिक्खिण्णसिक्खिण्णयारो सुद्धसवणो णम्मरूवेण ॥ [भा० प्रा० ७१]

जो धर्मसे रहित है, दोषोंका घर है और ईश्वरके फूलके समान फल रहित और निर्गुण है, वह मुनि नग्न वेप धारण करनेवाला नट है। अर्थात् जैसे नट अनेक वेप धारण करता है वैसे ही उस मुनिने मुनिका नग्नवेप धारण कर लिया है ।

जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियदव्वणिग्गथा ।

ण लहँत ते समाहिं बोहिं जिणसामणे विमले ॥ [भा० प्रा० ७२]

जो मुनि रागभाव रूप परिग्रहसे मुक्त है और जिन भावनासे रहित होनेके कारण द्रव्यरूपसे निर्मन्थ हैं अर्थात् केवल नग्नवेप धारण किये हुए हैं, वे निर्मल जिन शासनमें कहे हुए सम्यग्ज्ञान और ध्यानको प्राप्त नहीं कर सकते ।

भावलिङ्गपूर्वक ही द्रव्यलिङ्ग होना चाहिये—

भावेण हांइ णम्मो मिच्छुत्ताइ य दोस चउक्खण ।

पच्छा दव्वेण सुणी पयडदि लिगं जिणायण ॥ [भा० प्रा० ७३]

पहले मुनि मिथ्यात्व आदि दोषोंको छोड़कर भावसे नग्न होता है । पीछे जिन भगवानकी आज्ञासे द्रव्य रूपसे लिङ्गको प्रकट करता है अर्थात् बाह्य रूपमें नग्न होता है ।

भावके तीन भेद

भावं तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णायव्वं ।

असुहं अट्टरउहं सुहधम्मं जिणवरिदेहिं ॥ [भा० प्रा० ७४]

भाव तीन प्रकारका जानना चाहिये—शुभ, अशुभ और शुद्ध । आर्त और रौद्र तो अशुभ भाव हैं और जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित धर्म शुभभाव है ।

^१सुक्कं सुद्धसहावं अप्पा अप्पमि तं च णायव्वं ।

^२इय जिणवरेहि भणियं जं सेयं तं समायरह ॥ [भा० प्रा० ७५]

१. सुद्धं ग० । २. इदि ग० ।

शुक्लध्यान शुद्ध भाव है और आत्माका आत्मामें लीन होना शुक्लध्यान है यह जिनवर भगवानने कहा है । इनमेंसे जो कल्याणकारी हो उसे धारण करो ।

भावो वि दिव्व-सिवसुखभायणो भाववज्जिओ सबणो ।

कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो ॥ [भा० प्रा० ७६]

भावलिंग ही स्वर्ग और मोक्ष सुखका भाजन है । भावलिंगसे रहित पापी मुनिका चित्त कर्मरूपी मलसे मलिन होता है और वह तीर्थञ्चगतिका पात्र होता है ।

खयरामर-^१मणुयकरंजलिमालाहि य संथुया विउला ।

चक्रहर-रायलच्छो लब्भइ बोही ए भव्वणुया ॥ [भा० प्रा० ७७]

जीव विद्याधर, देव और मनुष्योंके द्वारा अपने दोनों करोंकी अंजलियाँ बनाकर, उनके द्वारा स्तुत चक्रवर्तीकी राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर सकता है किन्तु भव्य जीवोंके द्वारा नमस्कृत सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति उसे नहीं हो सकती ।

बोधकी प्राप्ति कैसे होती है

पयलियमाण-कसाओ पयलिय-मिच्छत्त-मोह-सम-चित्तो ।

पावइ तिहुयणसारं बोही जिणसासणे जीवो ॥ [भा० प्रा० ७८]

जैन धर्ममें, जिसकी मान कषाय पूरी तरहसे नष्ट हो गई है और मिथ्यात्व मोहनीयके पूरी तरहसे नष्ट हो जानेके कारण जिसका चित्त साम्य भावसे युक्त होता है, वही जीव तीनों लोकोंमें सारभूत बोधिको प्राप्त करता है ।

तीर्थङ्कर नाम कर्मका बन्ध कौन करता है

विसयविरत्तो समणो छुहसवरकारणां भाऊणं ।

तित्थयरणात्मकम्मं बंधइ अहरेण कालेण ॥ [भा० प्रा० ७९]

पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त भ्रमण उत्तम सोलह कारण भावनाओंका चिन्तन करके थोड़े ही समयमें तीर्थङ्कर नामकर्मका बन्ध करता है ।

१. मणुयाणं अंजलि ग० । २. केही सुभावेण ग० ।

भाव श्रवणको ही सुखकी प्राप्ति

भावसवणो वि पावइ सुक्खाइं दुहाइं दव्वसवणो य ।

इय गाउं गुणदोसे भावेण य संजुदो होइ ॥ [भा० प्रा० १२७]

भावलिगी श्रमण सुखोंको पाता है और द्रव्यलिगी श्रमण दुःखोंको पाता है । इस प्रकार गुण और दोषोंको जानकर मुनि भावसे सहित होता है ।

जह सल्लिणो या लिप्पइ कमलिणिएणं सहावपयडीए ।

तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसयेहिं सप्पुरिसो ॥ [भा० प्रा० १५४]

जैसे कमलिनीका पत्र स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता । वैसे ही सम्यग्दृष्टी पुरुष भावके द्वारा क्रोध आदि कपायों और पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंसे लिप्त नहीं होता ।

चक्रहर-राम-केसव-सुरवर-जिण-गणहराइसोक्खाइं ।

चारणमुणिरिद्धीओ विसुद्धभावा गरा पत्ता ॥ [भा० प्रा० १६१]

विशुद्ध भाववाले मनुष्योंने चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, उत्तमदेव, तीर्थङ्कर और गणधरादिके सुखोंको और चारण मुनियोंकी ऋद्धियोंको प्राप्त किया है ।

तित्थयर-गणहराइं अब्भुदयपरंपराइं सुक्खाइं ।

पार्वति भावसहिया मंखेवि जिणेहिं वज्जरियं ॥ [भा० प्रा० १२८]

भाव सहित मुनि तीर्थङ्कर गणधर आदि अभ्युदयोंकी परम्पराओंको और सुखोंको प्राप्त करते हैं । ऐसा संचेपसे जिनेन्द्र देवने कहा है ।

भाव श्रवणोंको नमस्कार

ते वण्णा ताण णमो दंसण-वरणाण-वरणमुद्धाणं ।

भावसहियाण णिच्चं तिविहेण पयट्टमायाणं ॥ [भा० प्रा० १२६]

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रसे पवित्र तथा मन वचन काय अथवा कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा छल कपटसे रहित उन भावलिगी मुनियोंको सदा हमारा नमस्कार है । वे मुनि धन्य हैं ।

६. आमण्य-अधिकार

[सूत्र प्राभृतसे]

अरहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गथियं सम्मं ।

सुत्तथममाणत्थं सक्का साहंति परमत्थं ॥ [सू० १]

जो अरहंत देवके द्वारा कहे हुए अर्थ-वस्तु तत्त्वसे युक्त है और गणधरदेवने सम्यक् रीतिसे जिसकी रचना की है उसे सूत्र कहते हैं । उस सूत्रमें कहे हुए अर्थको खोजनेके लिये श्रमणगण परमार्थकी साधना करते हैं ।

सुत्तम्मि जं 'सुदिट्ठं' आइरियपरंपरेण मग्गेण ।

णाऊण दुविहसुत्तं कट्टदि सिवमग्गि जो भव्वो ॥ [सू० २]

सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्परासे आये हुए मार्गके द्वारा शब्द और अर्थ रूपसे जानकर जो मोक्ष मार्गमें लगता है वह भव्य है ।

सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स 'विस्सासणं च सो कुण्णदि ।

सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते समा' णो वि ॥ [सू० ३]

सूत्रको जान लेनेपर वह मुनि संसारका नाश कर देता है । जैसे सूत्र-डोरेसे रहित सुई नष्ट हो जाती है अर्थात् खो जाती है किन्तु सूत्र-डोरेके साथ होनेसे नहीं खोई जाती । [वैसे ही सूत्र सहित मुनि भी स्वयं नष्ट नहीं होता ।]

पुरिसो वि जो समुत्तो ण विणासद्द सो गअो वि संसारे ।

सन्वेयणपच्चक्खं णासदि तं सो अदिस्समाणो वि ॥ [सू० ४]

डोरे सहित सुईकी तरह ही जो पुरुष समूह होता है अर्थात् सूत्रके अर्थको हृदयमें विराजमान कर लेता है, वह संसार समुद्रमें पड़ा हुआ भी नाशको प्राप्त नहीं होता । अर्थात् संसारमें नहीं डूबता । किन्तु स्वसंवेदन प्रत्यक्षपूर्वक वह मनुष्य संसारको ही नष्ट कर देता है ।

१. सुदिट्ठं आ० । २. विणासणं आ०, ग० । ३. सहाणेवि आ० ग० ।

सुत्तथं जिणभणियं जीवाजीवादि बहुविहं अत्थं ।
हेयाहेयं च तथा जो जाणइ सो हु सदिट्ठी ॥ [सू० ५]

जो मनुष्य जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमें वर्णित जीव आदि अनेक पदार्थोंका तथा हेय और उपादेयको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है ।

जं सुत्तं जिणउत्तं ववहारो तह य जाण परमत्थो ।
तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंजं ॥ [सू० ६]

जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है वह व्यवहार रूप और निश्चय रूप है । उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है और कर्मरूपी मल समूहका नाश करता है ।

सुत्तथपयविणट्ठो मिच्छादिट्ठी हु सो मुणोयव्वो ।
खेडे वि ण कायव्वं पाणिपपनं सचेलस्स ॥ [सू० ७]

जो सूत्रके अर्थ और पदसे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना चाहिये । वस्त्रधारी मनुष्यको खेलमें भी दिग्भ्रमर मुनिकी तरह हाथमें भोजन नहीं करना चाहिये ।

हरिहरतुल्लो वि णो सग्गं गच्छेइ 'एइ भवकांडी ।
तह वि ण पावइ सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिओ ॥ [सू० ८]

विष्णु और शिवके समान भी मनुष्य स्वर्गमें जाता है और करोड़ों भव धारण करता है फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता, और संसारी ही कहाता है ।

उक्कट्टसीहन्नरियं बहुपरिकम्मो य गढयमारो य ।
जो विहरइ सच्छंदं पावं गच्छेदि हवदि मिच्छत्तं ॥ [सू० ९]

उक्कट्ट सिंहके समान आचरणवाला, बहुत क्रिया-कर्मको करता हुआ और कर्मके गुरुतर बोझसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता है वह मिथ्यादृष्टि है और पापका भागी है ।

दिग्भ्रमरत्व ही मोक्षका मार्ग है

गिञ्चेल पाणिपत्तं उवइट्ठं परमजिणवरिदेहि ।
इक्को वि मुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ [सू० १०]

परमपदमें स्थित जिनेन्द्रदेवने वस्त्ररहित दिगम्बरत्व और पाणिरूपी पात्रका उपदेश किया है। अर्थात् मुनिको दिगम्बर होना चाहिये और पाणिरूपी पात्रमें आहार करना चाहिये। यह एक ही मोक्षका मार्ग है शेष सब उन्मार्ग हैं।

वन्दनीय मुनि

जो संजमेसु सहिओ अरंभपरिगहेसु विरओ वि ।

सो होइ वंदणीओ ससुरासुरमाणुसे लोए ॥ [सू० ११]

जो प्राणिसंयम और इन्द्रिय संयमका धारी है और आरम्भ तथा परिग्रहसे विरत है, देव असुर और मनुष्योंसे भरे हुए लोकमें वही वन्दनीय है।

जे बावीस परीसह संहति सत्तीसएहि संजुत्ता ।

ते हुंति वंदणीया कम्मकम्बयणिज्जरा साहू ॥ [सू० १२]

सैकड़ों शक्तियोंसे युक्त जो साधु बाईस परीषहोंको सहन करते हैं और इस तरह कर्मोंका एक देश क्षयरूप निर्जराको करते हैं वे वन्दनीय हैं।

इच्छाकारके योग्य

'अवसेसा जे लिंगी दंसणयाणेण सम्मसंजुत्ता ।

चेलेया य परिगहिया ते मणिया इच्छणिल्लजा य ॥ [सू० १३]

शेष जो लिंगधारी सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त हैं, किन्तु वस्त्रधारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं।

इच्छायारमहत्थं सुत्तट्टिओ जो हु छिंदए कम्मं ।

ठाणे^१ ठिय सम्मत्तं परलोयसुहंकरो होइ ॥ [सू० १४]

जो सूत्रमें स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान अर्थको जानकर कर्मोंका नाश करता है तथा सम्यक्त्वमें दृढ़ रहता है वह परलोकमें सुखका भागी होता है।

अह पुण अप्पा णिच्छदि भम्मं सुकरेदि णिरवसेसाइं ।

तह वि ण पावइ सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिओ ॥१५॥

१. अवसेसा ओ, अवसेसी ग० ५० । २. परिगलिया ग० । ३. ठाणो धिय ग० । ४. परलोये ग० ।

जो आत्माको नहीं चाहता अर्थात् आत्माकी भावना नहीं करता, और समस्त धर्माचरण करता है फिर भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे मनुष्यको संसारी ही कहा है।

एषा कारणेण यं तं श्रया सहहेह तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥१६॥

इस कारण है भव्य जीवों ! मन वचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो तथा प्रयत्न पूर्वक उस आत्माको जानो, जिससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सको।

साधुका आचरण

बालगाकोडिमंत्तं परिगहगहणं ण होइ साहूरां ।

भुंजेइ पाणिपत्ते दिरण्णणं एक्कटाणम्मि ॥१७॥

साधु बालकी नोकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखते हैं। और एक स्थान पर खड़े होकर हाथरूपी पात्रमें श्रावकके द्वारा दिये गये आहारको खाते हैं।

जहजायरुवमरिसो तिलतुसमेत्तं ण गिहदि 'हत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥१८॥

बालक जैसे नग्नरूपमें जन्म लेता है वही रूप साधुका होता है। वह अपने हाथोंमें तिलके छिलकेके बराबर भी पदार्थको ग्रहण नहीं करता। यदि थोड़ी बहुत परिग्रह रखता है तो उसके फलसे उसे निगोदमें जन्म लेना पड़ता है।

परिग्रही साधुकी निन्दा

जस्स परिगहगहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिगस्स ।

सो गरहन्तो जिण-वयणे परिगहरहिअो णिरायारो ॥१९॥

जिस लिंगमें थोड़ी बहुत परिग्रह रखी जाती है, आगममें वह लिंग निन्दनीय माना है। अनगार (गृह रहित साधु) परिग्रहसे रहित होता है।

पंचमहाव्ययजुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स संजदो होइ ।

णिग्गोयंमुक्खमग्गो सो होदि हु वंदणिज्जो य ॥२०॥

जो पाँच महाव्रत और तीन गुप्तिसे युक्त होता है वह संयमी है और निर्ग्रन्थ मोक्ष मार्गमें स्थित है। वही बन्दना करनेके योग्य होता है।

लिङ्गके भेद

दुइयं च वुत्त लिंगं उक्कट्टं अवरसावयाणं तु ।
भिकखं भमेइ पत्तो' समिदीमासेण मोणेण ॥२१॥

दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकका कहा है। वह पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके लिये घूमता है और भापा समिति पूर्वक अथवा मौन पूर्वक भोजन प्राप्त करता है (?)।

स्त्रीका लिङ्ग

लिंगं इत्थीण इवइ भुंजइ पिंडं सुएयकालम्मि ।
अजिय वि एकक्वथा वट्टावरणेण (?) भुंजेइ ॥२२॥

तीसरा लिंग स्त्रीके होता है। आर्या भी एक वस्त्र धारण करती है और एक ही वार भोजन करती है (?)।

वस्त्रधारीको मोक्षका निषेध

ए वि सिज्भइ व'त्थधरो जिणसास'णे जइ वि होइ तित्थयरो ।
एग्गो विमुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥२३॥

जिन शासनमें वस्त्रधारीको मोक्ष नहीं मिलता चाहे वह तीर्थङ्कर ही क्यों न हो। नग्नता ही मोक्षका मार्ग है शेष सब मिथ्या मार्ग हैं।

स्त्रीको प्रव्रज्याका निषेध

लिंगम्मि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु ।
भण्णिओ सुहुमो क.ओ तेसि कह होइ पव्वजा ॥२४॥

स्त्रियोंके योनि, स्तन, नाभि और काँख आदि स्थानोंमें सूक्ष्मकायिक जीव आगममें बड़े हैं। उन्हें प्रव्रज्या—जिन दीक्षा कैसे हो सकती है ?

जइ दंसणेण हइ उत्तममग्गेण सा वि संजुत्ता ।
घोरं चरियचरित्तं इत्थीसु ए पव्वया भणिया ॥२५॥

यदि स्त्री सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है तो वह भी उत्तम मार्गमें स्थित है। वह घोर तपश्चरण भी करे किन्तु स्त्रियोंमें जिनदीक्षा नहीं कही गई है।

चित्तासोहि ण तेसिं टिल्लं भावं तथा सहावेण ।
विज्जदि मासा^१ तेसिं इत्थीसु ण संकया भाणं ॥२६॥

स्त्रियोंका मन शुद्ध नहीं होता तथा स्वभावसे ही उनके परिणामोंमें ढीलापन होता है और प्रतिमास मासिक धर्म होता है। इन कारणोंसे स्त्रियोंमें सम्यक् ध्यान नहीं होता।

गाहेण अप्पगाहा समुद्दसलिले सचेल अत्थेण ।
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताइं सव्वदुक्खाइं ॥२७॥

जो ग्रहण करने योग्य है उसको भी मुनि अल्प परिमाणमें ही ग्रहण करते हैं। जैसे समुद्रके जलको मनुष्य वस्त्र धोनेके लिये ही ग्रहण करता है। ठीक ही है जिनकी इच्छा दूर हो गई उनके सब दुःख दूर हो गये।

१० बारह अनुप्रेक्षा

मंगलाचरण

णमिऊण सव्वसिद्धे भाणुत्तमखविददीहसंसारे ।
दस दस दो दो य जिणे दस दो अणुपेहरणं वोच्छे ॥१॥

उत्तम ध्यानके द्वारा सुदीर्घ संसारका नाश करने वाले समस्त सिद्धोंको और चौबीस तीर्थङ्करोंको नमस्कार करके बारह अनुप्रेक्षाओंको कहूँगा।

बारह अनुप्रेक्षा

अधुवमसरणमेगत्तमण्यसंसारलोगमसुचित्तं ।
आसवसंवर-णिज्जरधम्मं बोहिं च चित्तेज्जो ॥ २ ॥

अधुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचिता, आत्मव, संवर, निर्जरा, लोक और बोधि ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं, इनका चिंतन करना चाहिये ।

१ अधुव अनुप्रेक्षा

वर भवण-जाण-वाहण-सयणासण-देव-मणुवरायाणं ।
मादु-पिदु-सजण-भिच्च संबंधिणो य पिदिवियाणिञ्चा ॥३॥

उत्तम भवन, सवारी, वाहन, शय्या, आसन, देव, मनुष्य, राजा और माता पिता कुटुम्बी, सेवक आदि सम्बन्धी सब अनित्य हैं, विच्छुड़ने वाले हैं ।

सामग्गिदियरूवं आरोग्गं जोव्वणं बलं तेजं ।
सोहमं लावणं सुरधणुमिव सस्सयं ण हवे ॥४॥

समस्त इन्द्रियाँ, रूप, नीरोगता, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य, लावण्य ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं, किन्तु इन्द्रधनुषके समान चंचल हैं ।

जलबुब्बुद-सक्कधणु-खणकच्चि-धणसोहमिव थिरं ण हवे ।
अहमिदट्ठाणां बलदेवप्पहुदिपज्जाया ॥५॥

अहमिन्द्रोंके पद और बलदेव आदिकी पर्यायें जलके बुलबुले, इन्द्रधनुष, विजली और मेघकी शोभाकी तरह स्थिर नहीं होतीं । अर्थात् जैसे जलका बुलबुला वगैरह क्षण भंगुर है वैसे ही अहमिन्द्र आदिके पद भी क्षणभंगुर हैं ।

जीवणिबद्धं देहं खीरोदयमिव विणस्सदे सिग्धं ।
भोगोपभोगकारणदव्वं शिच्चं क्हं होदि ॥६॥

जब जीवसे सम्बद्ध शरीर दूधमें मिले पानीकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब भोग उपभोगके कारण जो स्त्री महल धन वगैरह हैं, जो कि शरीरसे भिन्न हैं, वे कैसे नित्य हो सकते हैं ।

परमट्ठे ण दु आदा देवासुर-मणुवराय-विभवोहिं ।
वदिरित्तो सो अप्पा सस्सदमिदि चित्ते णिच्चं ॥७॥

परमार्थसे तो आत्मा देव, असुर, मनुष्य और राजाके बँभवोंसे भिन्न है । तथा वह आत्मा नित्य है, ऐसा सदा विचारना चाहिये ।

२ अक्षरयानुश्रेया

मणि-मंतोसह-रक्खा ह्य-गय-रहश्रो य सयलविज्जाश्रो ।
जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयमिह ॥८॥

मरणकाल आने पर तीनों लोकोंमें मणि, मंत्र, औषधी, रक्षक, हाथी, घोड़े, रथ, और समस्त विद्याएँ जीवोंको मृत्युसे बचानेमें समर्थ नहीं हैं ।

सगो हवे हि दुगं भिच्चा देवा य पहरणं वज्जं ।
अइरावणो गइंदो इंदस्स ण विज्जदे सरणं ॥९॥

स्वर्ग जिसका किला है, देव सेवक हैं, वज्र अस्त्र है और ऐरावत हाथी हाथी है, उस इन्द्रका भी (मृत्यु आने पर) कोई शरण नहीं है ।

णवणिहि चउदहरयणं ह्य-मत्तगइंद-चाउरंगबलं ।
चक्केसस्स ण सरणं पेच्छंतो कट्ठिये (?) काले ॥१०॥

नौ निधियाँ, चौदह रत्न, घोड़े, मत्त हाथी और चतुरंग सेना मृत्युको सन्मुख देखते हुए चक्रवर्तीके शरणभूत नहीं हैं । अर्थात् ये सब भी उसे मौतसे नहीं बचा सकते ।

जाइ-जर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पया ।
तम्हा आदा सरणं बंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥

आत्मा ही जन्म, जरा, मरण, रोग और भयसे आत्माकी रक्षा करता है इसलिये कर्मके बन्ध, उदय और सत्तासे रहित शुद्ध आत्माही शरण है ।

अरुहा सिद्धाहरिया उवभाया साहु पंचरमेट्टी ।
ते वि हु चिट्ठिदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१२॥

अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी आत्मामें ही निवास करते हैं । अर्थात् आत्मा ही पंच परमेष्ठी स्वरूप हैं, इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ।

सम्मत्तं सण्णायणं सब्बारित्तं च सत्तवो चेव ।
चउरो चिट्ठिदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१३॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्प ये चारों भी आत्मामें ही हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ।

३ एकत्वानुप्रेक्षा

एक्यो करेदि कम्मं एक्यो हिंडदि य दीहसंसारे ।

एक्यो जायदि मरदि य तस्स फलं भुंजदे एक्यो ॥१४॥

जीव अकेला कर्म करता है, अकेला ही सुदीर्घ संसारमें भ्रमण करता है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने किये हुए कर्मका फल भोगता है ।

एक्यो करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण ।

शिरयतिरियेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्यो ।१५॥

संसारिक विषयोंके निमित्तसे तीव्र लोभसे प्रेरित होकर जीव अकेला ही पाप कर्म करता है और नरक और तिर्यञ्च गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है ।

एक्यो करेदि पुण्यं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ।

मणुवदेवेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एक्यो ॥१६॥

धर्मके निमित्तसे, पात्रदानके द्वारा अकेला ही जीव पुण्य उपार्जन करता है और मनुष्य गति तथा देव गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है ।

उत्तमपत्तं भणियं धम्मत्तगुणेण संजुदो साहू ।

सम्मादिट्ठी सावय मज्झिमपत्तो हु विण्णेश्रो ॥१७॥

सम्यग्दर्शनसे मुक्त साधुको उत्तम पात्र कहा है । और सम्यग्दृष्टि श्रावकको मध्यम पात्र जानना चाहिये ।

णिदिट्ठो जिणसमये अविरदसम्मो जहयणपत्तो त्ति ।

सम्मत्तरयणरहिओ अपत्तामिदि संपरिवस्सेज्जो ॥१८॥

जैन आगममें अविरत सम्यग्दृष्टिको जघन्य पात्र कहा है और जो सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित है वह अपात्र है । इस प्रकार पात्रकी अच्छी तरह परीक्षा करनी चाहिये ।

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाणं ।

सिज्झति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झति ॥१९॥

जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट (रहित) हैं वे ही भ्रष्ट हैं । सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट

जीवका मोक्ष नहीं होता। जो चारित्रसे भ्रष्ट है वे (चारित्र धारण करलेने पर) मोक्ष जा सकते हैं। किन्तु जो सम्यग्दर्शनसे भ्रष्ट है वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते।

एकोहं गिम्ममो सुद्धो गणादंसणलक्खणो ।
सुद्धेयत्तमुपादेयमेवं चित्तेह संजदो ॥२०॥

संयमी साधु ऐसा विचारता है कि मैं एकाकी हूँ, ममत्वसे रहित हूँ, शुद्ध हूँ, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा शुद्ध एकत्व ही उपादेय है।

४ अन्यत्वानुपेक्षा

मादा-पिदर-सहोदर-पुत्त-कलत्तादिबंधुसंदोहो ।
जीवस्स ग संबंधो गिण्यकज्जवसेण वट्ठंति ॥२१॥

मात, पिता, सहोदर भ्राता, पुत्र, स्त्री आदि बन्धुओंका समूह जीवके साथ सम्बद्ध नहीं है, ये सब अपने अपने कार्यवशा होते हैं।

अरण्णो अरण्णं सोयदि मदो त्ति मम ग्हाहगो त्ति मरण्णंतो ।
अप्पाणां ग हु सोयदि संसारमहरणवे बुद्धं ॥२२॥

यह मेरा स्वामी था, यह मर गया, ऐसा मानता हुआ एक जीव दूसरे जीवके विषयमें तो शोक करता है किन्तु संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए अपने आत्माके विषयमें शोक नहीं करता।

अरण्णं इमं सरीरादिगं पि होज्ज बाहिरं दव्वं ।
णाणां दंसणमादा एवं चित्तेहि अरण्णत्तं ॥२३॥

यह शरीर आदि जो बाह्य द्रव्य है वह सब मुझसे अन्य (भिन्न) हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन रूप है, इस प्रकार मुनि अन्यत्वका चिन्तन करता है।

५ संसारानुपेक्षा

पंचविष्टे संसारे जाइ-जरा-मरण-रोग-भयपउरे ।
जिणमग्गमपेच्छंतो जीवो परिभमदि चिरकालं ॥२४॥

जिन भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गको न जानने वाला जीव जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि भयोंसे भरे हुए पंच प्रकारके संसारमें

चिरकालसे परिभ्रमण करता है । [पुद्गल परिवर्त, क्षेत्र परिवर्त, काल परिवर्त, भव परिवर्त और भाव परिवर्तके भेदसे संसार पाँच प्रकारका है । संसारका मतलब है—भटकना । आगे प्रत्येक परावर्त रूप संसारका स्वरूप बतलाते हैं]

सव्वे वि पोभला खलु एगे भुत्तुष्मिया हु जीवेण ।

असयं अणंतखुतो पुग्गलपरियट्टसंसारे ॥२५॥

पुद्गल परिवर्त रूप संसारमें, इस एकाकी जीवने अनन्तबार समस्त पुद्गलों को भोग भोगकर छोड़ दिया । [समस्त पुद्गलोंको क्रमानुसार भोगकर छोड़ देनेका नाम पुद्गल परिवर्त संसार है] ।

सव्वमिह लोयखेत्ते कमसो तं एत्थि जं ण उप्पणं ।

उग्गाहणेण बहुसो परिभमिदो खेत्तसंसारे ॥२६॥

समस्त लोकरूपी क्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह जीव उत्पन्न न हुआ हो । अनेक प्रकारकी अवगाहना धारण करके इस जीवने क्षेत्र संसारमें परिभ्रमण किया ।

अवसप्पिणि-उत्सप्पिणि-समयावलियासु शिरवसेसामु ।

जादो मुदो य बहुसो परिभमिदो कालसंसारे ॥२७॥

यह जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेकबार जन्मा और मरा । और इस तरह उसने काल संसारमें परिभ्रमण किया ।

शिरयाउजहणणादिसु जाव दु उवरिल्लया दु गेवेज्जा ।

मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि भवट्ठिदी भमिदो ॥२८॥

मिथ्यात्वके सम्बन्धसे इस जीवने नरककी जघन्य आयुसे लेकर उपस्मि प्रैवेयक तककी भवस्थितिको अनेक बार भ्रमण करके भोगा । अर्थात् बारबार भव धारण करके नरकगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर तेतीससागर पर्यन्त उत्कृष्ट आयुको भोगा, तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिकी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्तसे लेकर तीन पत्य तककी उत्कृष्ट आयुको भोगा । फिर देवगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तककी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर भोगी । इसीका नाम भव परिवर्तन है । [मिथ्यादृष्टि जीव ही पाँच परावर्तन करता है और

मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गमें उपरिम प्रैवेयक तक ही जन्म ले सकता है। इसलिये स्वर्गमें उपरिम प्रैवेयक तककी ही हृद रक्खी गई है]।

सबे पयडिडिदिओ अणुभागपदेसबंधाणाणि ।
जीवो मिच्छुत्तवसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥२६॥

इस जीवने समस्त कर्म प्रकृतियोंकी सब स्थितियों, सब अनुभागबन्ध स्थानों और सब प्रदेशबन्ध स्थानोंको भोगा और इस तरह मिथ्यात्वके वश होकर भाव संसारमें भ्रमण किया। [ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी स्थितिके असंख्यात भेद हैं। एक एक स्थितिके कारण असंख्यात लोक कषाय-अध्यवसाय स्थान हैं। एक एक कषाय स्थानके कारण असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग-अध्यवसाय स्थान हैं और एक एक अनुभाग स्थानमें निमित्त असंख्यात योग स्थान हैं। समस्त योग स्थानों, अनुभागाध्यवसायस्थानों और कषायाध्यवसायस्थानोंके द्वारा सब कर्म प्रकृतियोंकी अपने योग्य स्थितियोंको भोगनेका नाम भावपरिवर्तन है। इस प्रकार पाँच परिवर्तनोंकी अपेक्षा संसारके पाँच भेद होते हैं]।

पुत्तकलत्तणिमित्तं अत्थं अञ्जयदि पावबुद्धीए ।
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भमादि संसारे ॥३०॥

जो जीव पुत्र और स्त्री आदिके लिये पाप बुद्धिसे धन कमाता है और दया-दानसे बचता है वह जीव संसारमें भ्रमण करता है।

मम पुत्तं मम भज्जा मम घण-घणो त्ति तिक्कंखाए ।
चइऊण भम्मबुद्धिं पच्छा परिपडदि दीहसंसारे ॥३१॥

मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन-धान्य, इस प्रकारकी तीव्र लालसासे धर्म बुद्धिको छोड़कर पीछे वह जीव दीर्घ संसारमें रूलाता है।

मिच्छोदयेण जीवो सिंदंतो जोरहभासियं भम्मं ।
कुधम्म-कुलिंग-कुतिरथं मण्णंतो भमदि संसारे ॥३२॥

मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए धर्मकी निन्दा करता है और खोटे धर्म, खोटे लिंग और खोटे तीर्थोंको मानता है। जिससे वह संसारमें भ्रमण करता है।

हंण जीवरसिं महुमंसं सेविऊण सुरपारुं ।
परदव्व-परकलरां गहिऊण य भमदि संसारे ॥३३॥

जीवराशिका घ.त कर, मधु मांस और शराबका सेवन कर तथा परधन और पर स्त्रीको अंगीकार कर यह जीव संसारमें भ्रमण करता है ।

जत्तेण कुणइ पावं विसयणिमित्तं च अहणिसं जीवो ।

मोहंधयारसहिञ्चो तेण दु परिपडदि संसारे ॥३४॥

मोहरूपी अंधकारमें पड़ा हुआ जीव विषयोंके लिये रात दिन प्रयत्न पूर्वक पाप करता है और उससे संसारमें रूढ़ता है ।

णिच्चिदर-धादुसत्त य तद दस वियलिदिएसु छच्चेव ।

सुर-णिरय-तिरियचउरो चोदस मणुए सदसहस्सा ॥३५॥

नित्य निगोद, इतरनिगोद, पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजकाय, और वायुकाय, प्रत्येककी सात सात लाख योनियाँ हैं, प्रत्येक बनस्पतिकी दस लाख योनियाँ हैं, विकलेन्द्रियोंकी छै लाख योनियाँ हैं, देव नारकी और पञ्चेंद्रिय तिर्यञ्चोंमेंसे प्रत्येककी चार चार लाख योनियाँ है और मनुष्योंकी चौदह लाख योनियाँ है । इस तरह सब चौरासी लाख योनियाँ हैं जिनमें संसारी जीव भ्रमण करता है ।

संजोगविप्पजोगं लाहालाहं सुहं च दुक्खं च ।

संसारे भूदाणं होदि हु माणं तहावमाणं च ॥३६॥

संसारमें प्राणियोंको संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख और और मान अपमान प्राप्त होते हैं ।

कम्मणिमित्तं जीवो हिंडदि संसारघोरकंतारे ।

जीवस्स ण संसारो णिच्चयणयकम्मविम्भुक्को ॥३७॥

कर्मोंके निमित्तसे यह जीव संसार रूपी भयानक वनमें भ्रमण करता है । किन्तु निश्चयनयसे जीव कर्मोंसे मुक्त है इस लिये उसे संसार भी नहीं है ।

संसारमदिक्कंतो जीवोवादेयमिदि विञ्चितेज्जो ।

संसारदुहक्कंतो जीवो सो हेयमिदि विञ्चितेज्जो ॥३८॥

संसारसे छूटा हुआ जीव उपादेय है ऐसा विचारना चाहिये । और संसारके दुःखोंमें फँसा हुआ जीव हेय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा विचारना चाहिये ।

६ लोकानुपेक्षा

जीवादिपयट्टाणं समवात्रो सो णिरुच्चए लोगो ।

तिविहो हवेह लोगो अहमज्झिमउड्डुभेएण ॥३६॥

जीव आदि पदार्थोंके समवायको लोक कहते हैं । लोकके तीन भेद हैं
अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक ।

णिरया हवंति हेट्टा मज्जे दीवंबुरासयो संखा !

सगो तिसट्ठिभेओ एत्तो उड्डु हवे मोक्खो ॥४०॥

नीचे अधोलोकमें नारकी रहते हैं । मध्य लोकमें असंख्यात द्वीप और
असंख्यात समुद्र हैं । ऊपर ऊर्ध्वलोकमें स्वर्गोंके त्रैसठ पटल हैं और उन
सबसे ऊपर मोक्ष स्थान है ।

इगतीस सत्त चत्तारि दोरिण एक्केक्क ह्क च्चदुकप्पे ।

तित्तिथ एक्केक्केदियणामा उड्डुआदितेसट्ठी ॥४१॥

सौधर्म और ईशान कल्पमें विमानोंके इकतीस पटल हैं, सनत्कुमार
और माहेन्द्र कल्पमें सात पटल हैं, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्पमें चार पटल
हैं, लांतव और कापिप्र कल्पमें दो पटल हैं, शुक्र और महाशुक्र कल्पमें
एक पटल है, शतार और सहस्रार कल्पमें एक पटल है तथा अन्तके आनत
प्राणत आरण और अच्युत कल्पोंमें छै पटल हैं । इस प्रकार सोलह स्वर्गोंमें
[३१ + ७ + ४ + २ + १ + १ + ६] कुल ५२ पटल हैं । और स्वर्गोंसे ऊपर
नौ भ्रैवेयकोंमेंसे प्रत्येक भ्रैवेयकका एक एक पटल होनेसे नौ पटल हैं ।
नवभ्रैवेयकोंके ऊपर अनुदिशोंका एक पटल है और अनुदिशोंसे ऊपर पञ्च
अनुत्तरोका एक पटल है । इस प्रकार सब मिलाकर ऋतु आदि
६३ पटल हैं ।

असुहेण णिरय-तिरियं सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं ।

सुद्धण लहह सिद्धि एवं लोयं विच्चित्तिज्जो ॥४२॥

अशुभ उपयोगसे नरक गति और तिर्यञ्चगति प्राप्त होती है, शुभ
उपयोगसे देवगति और मनुष्य गतिका सुख प्राप्त होता है, तथा सुद्ध
उपयोगसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकका विचार करना चाहिये ।

७ अशुचित्वानुपेक्षा

अट्ठीहिं पडिबद्धं मंसविलिसं तएण ओच्छरणं ।

किमिसंजुलोहिं भरियमच्चोक्खं देहं सयाकालं ॥४३॥

यह शरीर हड्डियोंसे बना है, मांससे लिपटा हुआ है और चर्मसे ढका है। तथा क्रीट समूहोंसे भरा है अतः सदा गन्दा रहता है।

कुम्भांधं बीभछं कलिमलभरिदं अचेयणं मुत्तं ।

सङ्खण्डगणसहावं देहं इदि चितये शिन्च ॥४४॥

यह शरीर दुर्गन्धसे युक्त है, बीभत्स (धिनावना) है, क्लृपित मलसे भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है, तथा अवश्य ही नष्ट होनेवाला है ऐसा विचारना चाहिये।

रस-रुधिर-मांस-मेददृढी-मज्जसंकुलं मुत्त-पूय-कमिबहुलं ।

दुग्गंधमसुचि चम्ममयमणिच्चमचेयणं पडणं ॥४५॥

यह शरीर रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा आदि सात धातुओंसे युक्त है। मूत्र, पीव, कृमियोंसे भरा है, दुर्गन्ध मय है, अपवित्र है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है और नष्ट होने वाला है।

देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतमुहणिलओ ।

चोक्खो हवेइ अप्पा इदि शिन्च भावणं कुज्जा ॥४६॥

देहसे भिन्न, कर्मोंसे रहित, और अनन्त सुखका भण्डार अत्मा ही श्रेष्ठ है इस प्रकार सदा चिन्तन करना चाहिये।

८ आस्त्वानुमेहा

मिच्छसं अक्खिमणं कखाय-जोणा य आस्त्वा होंति ।

पण-पण-न्वउ-तियमेदा सण्णं पणिकित्तिक्का सप्रम ॥४७॥

पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, पाँच अक्खरिस्ति, चार कखाय और तीन प्रकारका योग आस्त्वके कारण हैं, आत्ममर्मों इनका विस्तारसे कथन किया गया है।

एयंत-विणय-विक्खरिष-संसवमएस्साअमिदि हवे पंच ।

अक्खिमणं हिंसादी पंचमिहो से इत्थं विक्खसेणः ॥४८॥

एकान्त मिथ्यात्व, धिनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संख्य मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व ये पाँच मिथ्यात्वके भेद हैं। और हिंसा, भूठ, चोरी, कुरप्रिल और परिग्रहके भेदसे पाँच प्रकारकी अक्खरिस्ति है।

कोहो माणो माया लोहो वि य चउव्विहं कसायं खु ।

मणवचिकापण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाणे ॥४६॥

क्रोध, मान, माया, और लोभ यह चार प्रकारकी कषाय हैं। तथा मनो योग, वचन योग और काययोगके भेदसे योगके तीन भेद जानने चाहियें।

असुहेदरभेदेण दु एक्केवकं वरिणदं हवे दुावहं ।

आहारादी सरणा असुहमणं इदि विजारेणहि ॥५०॥

तीनों योगोंमेंसे प्रत्येक योग अशुभ और शुभके भेदसे दो प्रकारका होता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रहकी चाहका होना अशुभ मन है।

किएहादि तिरिण लेस्सा करणजसोक्खेसु गिद्धिरिणामो ।

ईसा विसादभावो असुहमणं त्ति य जिणा वेत्ति ॥५१॥

कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियसे होने वाले सुखमें तृष्णा भाव, ईर्ष्या और विषाद भाव, इन सबको जिनेन्द्र देव अशुभ मन जानते हैं। अर्थात् खोटे विचारोंसे युक्त मनको अशुभ मन कहते हैं। कषाय, लेश्या, संज्ञा वगैरह अशुभ भावोंकी कारण हैं इसलिये इन्हें अशुभ मन कहा है।

रागो दोसो मोहो हास्सादि शोकसायपरिणामो ।

थूलो वा सुहुमो वा असुहमणो त्ति य जिणा वेत्ति ॥५२॥

राग, द्वेष, मोह और हास्य आदि नोकषायरूप परिणाम, चाहे स्थूल हों या सूक्ष्म हों, उन्हें जिनेन्द्रदेव अशुभ मन जानते हैं।

भत्तिन्धिय-राय-चोरकहाओ वयणं वियाण असुहमिदि ।

बंधण-छेदण-मारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ॥५३॥

भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा और चारोंकी कथा करना अशुभ वचन है। बाँधना, छेदना, मारना आदि क्रियाओंको करना अशुभ काय है अर्थात् बुरी अथवा व्यर्थकी बातोंका कहना अशुभ वचन है और शरीरसे बुरी क्रियाओंका करना, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता हो, अशुभ काय है।

मोत्तूण असुहभावं पुच्चुत्तं शिरवसेसदो वव्वं ।

बद-समिधि-सील-संजम परिणामं सुहमणं जाणे ॥५४॥

ऊपर कहे हुए समस्त द्रव्यों और अशुभ भावोंको छोड़कर व्रत, समिति शील और संयम रूप परिणामोंका होना शुभ मन है अर्थात् शुभ भावोंसे युक्त मनको शुभ मन कहते हैं।

संसारछेदकारणवयर्णं मुहवयर्णमिदि जिणुद्विट्टं ।

जिणदेवादिसु पूजा सुदकायं ति य हवे चेट्टा ॥५५॥

जो वचन संसाररूपी बन्धनको काटनेमें कारण हैं उन वचनोंको जिनदेवने शुभ वचन कहा है। और जिनेन्द्र देव वगैरहकी पूजाके लिये जो चेष्टा की जाती है वह शुभ काय है।

जम्मसमुद्दे बहुदोसवीन्विये दुक्खजलचराकिरणे ।

जीवस्स परिव्भमर्णं कम्मासवकारणं होदि ॥५६॥

यह जन्म मरण रूपी समुद्र बहुत दोषरूपी लहरोंसे और दुखरूपी मगर मच्छोंसे भरा है। इसमें जीवका भटकना कर्मोंके आस्रवका कारण है।

कम्मासवेण जीवो बूडदि संसारसागरे घोरे ।

जण्णाणवसं किरिया मोक्खणिमित्तं परंपरया ॥५७॥

कर्मोंका आस्रव होनेसे जीव संसाररूपी भयानक समुद्रमें डूबजाता है। जो क्रिया ज्ञान पूर्वककी जाती है वह परंपरासे मोक्षका कारण होती है।

आसवहेदू जीवो जम्मसमुद्दे णिमज्जदे खिण्णं ।

आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्तं ण चिंतेज्जो ॥५८॥

कर्मोंके आस्रवके कारण जीव शीघ्र ही जन्म मरण रूपी समुद्रमें डूब जाना है अर्थात् उसे संसारमें भ्रमण करना पड़ता है। इसलिये कर्मोंके आस्रव रूप क्रियाको मोक्षका कारण नहीं मानना चाहिये।

पारंपजाएण दु आसवकिरियाए णत्थि णिव्वाणं ।

संसारगमणकारणमिदि णिदं आसवो जाण ॥५९॥

कर्मोंके आस्रवरूप क्रियासे परम्परासे भी मोक्ष नहीं होता। आस्रव संसारमें भटकनेका कारण है, इसलिये उसे निन्दनीय ही जानना। अर्थात् जो लोग पुण्यकर्मके आस्रवको अच्छा मानते हैं और परम्परासे उसे मोक्षका कारण मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि पाप कर्मोंका आस्रव हो या पुण्यकर्मोंका आस्रव हो, आस्रव तां आस्रव ही है। जब तक

आस्त्रव है तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता । इसलिये आस्त्रवको रोकना ही हितकर है ।

पुञ्जुत्तासवभेया णिच्छयणयएण णत्थि जीवस्स ।

उहयासवणिम्मुक्कं अप्पाणं त्तिट्ठए णिच्चं ॥६०॥

निश्चयनयसे पूर्वोक्त आस्त्रवके भेद जीवके नहीं हैं । इसलिये सदा आत्माको शुभ और अशुभ कर्मोंके आस्त्रवसे अथवा द्रव्यास्त्रव और भावास्त्रवसे मुक्त ही विचारना चाहिये ।

६ संवरानुपेक्षा

चल-मलिनमगाढं च वज्जिय सम्मत्तदिदकवाडेण ।

मिच्छुत्तासवदारणरोहो होदि त्ति जिणेहि णिद्धिट्ठं ॥६१॥

सम्यक्त्वके चल मलिन और अगाढ़ दोषोंको छोड़कर सम्यग्दर्शन-रूपी दृढ़ कपाटोंके द्वारा मिथ्यात्व रूप आस्त्रव द्वार रुक जाता है ऐसा जिनेन्द्रने कहा है । [आशय यह है कि आस्त्रवके चार द्वार हैं—मिथ्यात्व अविरति कषाय और यंग । निर्दोष सम्यग्दर्शनको धारण करनेसे आस्त्रवका प्रथम मुख्यद्वार मिथ्यात्व बन्द हो जाता है और उसके द्वारा आने वाले कर्म रुक जाते हैं । इसीको संवर कहते हैं] ।

पंचमहव्ययमणसा अविरमणणिरोहणं हवे णियमा ।

कोहादिआसवाणं दाराणि कसायरहियपल्लगेहि ॥६२॥

मनसे पाँच महाव्रतोंको धारण करनेसे अविरतितसे आनेवाले कर्म नियमसे रुक जाते हैं । और क्रोध आदि कषाय रूप आस्त्रवके द्वार कषाय-रहित कपाटोंसे बन्द हो जाते हैं ।

सुहजोगस्स पवित्ती संवरणं कुणदि असुहजोगस्स ।

सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धुवजोगेण संभवदि ॥६३॥

शुभयोगकी प्रवृत्ति अशुभ योगसे आने वाले कर्मोंको रोक देती है । और शुद्धोपयोगके द्वारा शुभयोगसे आने वाले कर्मोंका निरोध हो जाता है ।

सुद्धुवजोगेण पुणो धम्मं सुवर्कं च होदि जीवस्स ।

तम्हा संवरहेदू भाणो त्ति विञ्चितए णिच्चं ॥६४॥

शुद्धोपयोगके हानसे जीवके धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान होते हैं । अतः संवर ध्यानका कारण है ऐसा सदा विचारना चाहिये ।

जीवस्वयं संवरणं परमदृग्गण सुद्धभावाद्दो ।

संवरभावविमुक्तं अप्याणं चित्तं पण्डितं ॥६५॥

निश्चय नयसे जीवके संवर नहीं है, क्योंकि जीव सदा शुद्ध भाव वाला है । यदि जीवके अशुद्ध भाव होते तो आस्रव होता और आस्रव होता तो संवर भी होता । किन्तु निश्चयनय उपाधिरहित वस्तुस्वरूपको ही ग्रहण करता है इसलिये निश्चयनयसे जीव सदा शुद्धोपयोगी है । अतः उसके न आस्रव है और न संवर है । इसलिये सदा आत्माको संवर भावसे रहित विचारना चाहिये ।

१० निर्जरानुभवा

बंधपदेसगलणं शिञ्जरणं इति त्रिणेहि परणत्तं ।

जेण हवे संवरणं तेण दु शिञ्जरणमिदि जाण ॥६६॥

बंध हुए कर्मोंके प्रदेशोंके गलनेको निर्जरा कहते हैं ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । जिन कारणोंसे संवर होता है उन्हींसे निर्जरा होती है ।

सा पुण दुविहा शेया सकालपक्का तवेण कयमाण ।

चटुगदियाणं पटमा वयजुत्ताणं हवे विदिया ॥६७॥

वह निर्जरा दो प्रकार की है—एक उदयकाल आने पर कर्मोंका स्वयं पककर भङ्ग जाना और एक तपके द्वारा उदयावली बाह्य कर्मोंको बलात् उदयमें लाकर खिराना । चारों गतिके जीवोंके पहली निर्जरा होती है और व्रती पुरुषके दूसरी निर्जरा होती है ।

११ धर्मानुभवा

एथारस-दसमेयं धम्मं सम्मत्तघुब्बयं मणियं ।

सागारणगाराणं उत्तमसुहसंपजुत्तं हि ॥६८॥

उत्तम सुखमें मगने अरहंत केवने गृहस्थों और मुनियोंके धर्मको क्रमसे ग्यारह और दस भेदवाला कहा है । वह धर्म सम्यदर्शन पूर्वक होता है । अर्थात् गृहस्थ धर्म और मुनि धर्मकी अपेक्षा धर्मके दो भेद हैं । गृहस्थ धर्मके ग्यारह भेद हैं और मुनि धर्मके दस भेद हैं । दोनों ही धर्म

सम्यग्दर्शन पूर्वक होते हैं; सम्यग्दर्शनके बिना नहीं होते। अर्थात् धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है।

दसण-वय-सामाहय-पोसह-सच्चित-रायभते य।

बम्हारंभ-परिगाह अणुमणमुद्दिट्ट देसविरदेदे ॥६६॥

दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सच्चित्त्याग, रात्रि भक्तव्रत, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, ये ग्यारह देश विरत श्रावक धर्मके भेद हैं।

उत्तमखम-मद्दकज्जव-सच्च-सउत्तचं च संजमं चव।

तव-चाग-मकिंचणहं बम्हा इदि दसविहं होदि ॥७०॥

उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दस भेद मुनिधर्मके हैं।

कोहुण्णानिस्स पुणो बहिरंगं जादि हवेदि सक्खादं।

ए कुण्णदि किंचि वि कोहो तस्स खमा होदि धम्मो ति ॥७१॥

यदि क्रोधकी उत्पत्तिका साक्षान् बहिरंग कारण हो, फिर भी जो जरा भी क्रोध नहीं करता, उसके क्षमा धर्म होता है।

कुल-रूव-जादि-बुद्धिसु तव-सुदसीलेसु गारवं किचि।

जो ए वि कुव्वादि समणो मद्दवधम्मं हवे तस्स ॥७२॥

जो श्रमण कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत और शीलका किञ्चित् भी मद नहीं करता, उसके मार्दवधर्म होता है।

मोत्तूण कुडिलभावं गिम्मलहिदएण चरदि जो समणो।

अजवधम्मं तइयो तस्स दु संभवादि गियमेण ॥७३॥

जो श्रमण कुटिल भावको छोड़कर निर्मल हृदयसे आचरण करता है उसके नियमसे तीसरा आर्जव धर्म होता है।

परसंतावयकारणवयणं मोत्तूण सपरहिदवयणं।

जो वददि भिक्खु तुरियो तस्स दु धम्मो हवे सच्चं ॥७४॥

दूसरोंको संताप करनेवाले वचनोंको छोड़कर जो भिक्षु अपना और दूसरोंका हित करनेवाले वचन बोलता है उसके चौथा सत्य धर्म होता है।

कंलाभावविधिं किञ्च वेरभाभाषणानुसो ।

जो वट्टदि परममुणी तस्स दु भम्मो हवे सोच्चं ॥७५॥

जो उत्कृष्ट मुनि आकांक्षा भावको दूर करके वैराग्य भावनासे युक्त रहता है, उसके शौच धर्म होता है ।

वद-समिदिपालणाए दंडच्चाएण इंदियजएण ।

परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हवे शियमा ॥७६॥

मन वचन और कायकी प्रवृत्तिको त्याग कर और इन्द्रियोंको जीतकर जो पाँच महाव्रतोंको धारण करता है और पाँच समितियोंका पालन करता है उसके नियमसे संयम धर्म होता है ।

विसय-कसायविणिग्गाहभावं काऊण भाणसज्जाए ।

जो भावइ अप्पाणं तस्स तवं होदि शियमेण ॥७७॥

विषय और कषाय भावका विनिग्रह करके जो ध्यान और स्वाध्यायके द्वारा आत्माकी भावना भाता है उसके नियमसे तपधर्म होता है ।

शिग्ग्वेगतियं भावइ मोहं चइऊण सव्वदब्बेसु ।

जो तस्स हवे चागो इदि भणिदं जिणवरिदेहि ॥७८॥

जो समस्त द्रव्योंसे मोह त्याग कर तीन प्रकारके निर्वेदको भाता है उसके त्याग धर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

होऊण य शिस्संगो शियभावं शिग्गाहित्तु सुहदुहदं ।

शिद्देण दु वट्टदि अणयारो तस्स किंचएहं ॥७९॥

जो मुनि समस्त परिग्रहको छोड़कर और सुख दुःख देनेवाले आत्म-भावोंका निग्रह करके निर्द्वन्द्व रहता है उसके आर्कचन्य धर्म होता है ।

सव्वंगं पेच्छंतो इत्थीणं तासु मुयदि दुब्भावं ।

सो बग्गहेरभावं सुक्खदि (?) खलु दुद्धरं घरदि ॥८०॥

जो स्त्रियोंके सब अंगोंको देखता हुआ भी उनमें खोटे भाव नहीं करता । वह धर्मात्मा दुर्धर ब्रह्मचर्यभावका धारी है ।

साववधम्मं वत्ता बहिधम्मो जो हु वट्टए जीवो ।

सो ण य वज्जदि मोक्खं धम्मं इदि वित्तए खिच्चं ॥८१॥

जो जीव श्रावकधर्मको छोड़कर मुनिधर्मको धारण करता है वह मोक्ष-रूप धर्मको नहीं छोड़ता। अर्थात् उसे मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा सदा चिन्तन करना चाहिये।

शिञ्जयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिरणो ।

मज्झत्यभावस्याए सुद्धप्यं चितए शिञ्चं ॥८२॥

निश्चयनयसे जीव गृहस्थ धर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है। अर्थात् न गृहस्थधर्म ही आत्माका स्वरूप है और न मुनिधर्म ही आत्माका स्वरूप है। अतः दोनों धर्मोंमें मध्यस्थभाव रखते हुए सदा शुद्ध आत्माका चिन्तन करना चाहिये।

१२ बोधि-अनुप्रेक्षा

उप्पज्जादि सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स ।

चिंता हवेइ बोही अचंचंतं दुल्लहं होद ॥८३॥

जिस उपायसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपायकी चिन्ता होती है क्योंकि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है।

कम्मदयजपज्जाया हेयं स्वाञ्चोवंसमियणाणं खु ।

सगदव्वमुवादेयं शिञ्छित्तं होदि सण्णाणं ॥८४॥

कर्माके उदयसे होनेवाली पर्याय होनेके कारण, ज्ञायोपशमिक ज्ञान हेय है और आत्मद्रव्य उपादेय है। इस प्रकारके निश्चयको सम्यग्ज्ञान कहते हैं।

मूलुत्तरपयडीओ मिञ्छत्तादी असंखलोगपरिमाणा ।

परदव्वं सगदव्वं अप्पा इदि शिञ्जयणएण ॥८५॥

निश्चयनयसे आठ मूल कर्माके असख्यात लोकप्रमाण मिथ्यात्व आदि उत्तर प्रकृतियों (भेद प्रभेद) पर द्रव्य है। और आत्मा स्वद्रव्य है।

एवं जायदि णाणं हेयमुवादेय शिञ्छये णत्थि ।

चित्तिज्जइ मुणि बोहिं संसारकिरणण्टे य ॥८६॥

इस प्रकार चिन्तन करनेसे हेय और उपादेयका ज्ञान होता है। निश्चयनयसे तो न कोई हेय है और न उपादेय है। किन्तु मुनिको संसारसे विरक्त होनेके लिये ज्ञानका विचार करना चाहिये।

उपसंहार

वारस अणुवेक्षणोपदेशोऽप्यत्र तद्दिव्यं पडिकमणं ।
आलोचयणं समाहिं तद्भा भावेज्ज अणुवेक्षणं ॥८७॥

अतः बारह अनुप्रेक्षाओंको तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना और समाधिको बारम्बार विचारना चाहिये ।

रत्तिदिवं पडिकमणं पञ्चस्वाणां समाहिं सामश्यं ।
आलोचयणं पकुब्बादि जदि विज्जदि अप्पणो सत्ती ॥८८॥

यदि अपनी शक्ति है तो रात दिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, सामायिक और आलोचनाको करना चाहिये ।

मोक्खगया जे पुरिसा अणाइकालेण बारअणुवेक्षणं ।
परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुणो पुणो तेसिं ॥८९॥

अनादिकालसे बारह अनुप्रेक्षाओंका मली-भौंति चिन्तन करनेसे जो पुरुष मोक्ष गये हैं, मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ ।

किं पलविण्ण बहुणा जे सिद्धा शरवरा गए काले ।
सिंज्जिहदि जे वि भविया तं जाणह तस्स माहापं ॥९०॥

अधिक कहनेसे क्या ? जो श्रेष्ठ मनुष्य अतीत कालमें सिद्ध हुए हैं तथा आगामी कालमें भी जो भव्य पुरुष सिद्ध होंगे, वह सब अनुप्रेक्षाओंका माहात्म्य जानों ।

इदि गिच्छय ववहारं जं भणियं कुंदकुंदमुण्णिणाहे ।
जो भावह सुद्धमणो सो पावह परमणिग्वाणं ॥९१॥

इस प्रकार मुनियोंके स्वामी कुन्दकुन्दने जो निश्चय और व्यवहारका कथन किया है, उसे जो शुद्ध मन होकर भाता है वह उत्तम निर्वाणको प्राप्त करता है ।

११. भक्ति अधिकार

१ पञ्चनमस्कार

शामो अरहंताणं, शामो सिद्धाणं, शामो आइरियाणं ।

शामो उवञ्जायाणं शामो लोए सव्वसाहूणं ॥

अर्हन्तोंको नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचार्योंको नमस्कार ।
उपाध्यायोंको नमस्कार, लोकमें सब साधुओंको नमस्कार ।

मंगलसूत्र

चत्तारि मंगलं, अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं ।

साहू मंगलं, केवलपणत्तो धम्मो मंगलं ॥

चार मंगल रूप हैं—अर्हन्त मंगल रूप हैं, सिद्ध मंगल रूप हैं, साधु
मंगलरूप हैं और केवलिके द्वारा कहा गया धर्म मंगलरूप है ।

लोकोत्तमसूत्र

चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा, केवलपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥

चार लोकमें उत्तम हैं—अर्हन्त लोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हैं ।
साधु लोकोत्तम हैं और केवलिके द्वारा कहा गया धर्म लोकोत्तम है ।

शरणसूत्र

चत्तारि सरणं पव्वञ्जामि-अरहंते सरणं पव्वञ्जामि सिद्धे सरणं पव्वञ्जामि,

साहू सरणं पव्वञ्जामि, केवलपणत्तं धम्मं सरणं पव्वञ्जामि ॥

मैं चारकी शरण जाता हूँ—अर्हन्तकी शरण जाता हूँ, सिद्धकी शरण
जाता हूँ, साधुकी शरण जाता हूँ और केवलिके द्वारा कहे धर्मकी शरण
जाता हूँ ।

२ तीर्थङ्कर भक्ति

थोस्सामि इं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंतजिणे ।

णारपवरलोयमहिण विहुवरयमले महप्पण्णे ॥१॥

मैं केवल ज्ञानसे सम्यक् और जिन पदको प्राप्त अनन्त जिनश्रेष्ठ तीर्थङ्करोंकी स्तुति करता हूँ, जो मनुष्योंमें श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि जनोंके द्वारा पूजित हैं, जिन्होंने चार घातिकर्मोंको नष्ट कर दिया है और जो महाप्राज्ञ हैं ।

लोयस्सुज्जोययरे धम्मंतिथंकरे जिणे वंदे ।

अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलियो ॥२॥

मैं केवल ज्ञानके द्वारा लोकको प्रकाशित करने वाले और धर्मरूपी तीर्थके कर्ता जिनोंको नमस्कार करता हूँ । तथा (वर्तमान) चौबीस केवल ज्ञानी अर्हन्तोंका ही कीर्तन करूँगा ।

उसहमजियं च वंदे संभवमभिणंदणं च सुमहं च ।

पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥३॥

मैं ऋषभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व और चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ।

सुविहिं च पुप्फयंतं सीयल सेयं च वासुपुज्जं च ।

विमलमणंतं भयवं धम्मं संतिं च वंदामि ॥४॥

मैं भगवान सुविधि अथवा पद्म प्रभ, सीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल अनन्त, धर्म और शान्ति नाथको नमस्कार करता हूँ ।

कुंथुं च जिणवरिंदं अरं च मल्लिं च सुव्वयं च णमि ।

वंदामि रिट्ठणेमि तह पासं वड्डमाणं च ॥५॥

मैं जिनवर श्रेष्ठ कुन्धु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, अरिष्टनेमी पार्श्व और वर्धमानको नमस्कार करता हूँ ।

एवं मए अभित्थुया विहुय-रय-मला पहीणजरमरणा ।

चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥६॥

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुत, घाति कर्मरूपी रज और मलको नष्ट कर देने वाले तथा जरा और मरण रहित, चौबीसों जिनवर तीर्थङ्कर मुझपर प्रसन्न हों ।

कित्तिथ वंदिय महिया पदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा ।

आरोणाणाणलाहं दित्तु समाहिं च मे बोहि ॥७॥

मेरे द्वारा कीर्तित (स्तुति किये गये) वंदित और पूजित ये लोकोत्तम कृतकृत्य जिन मुझे आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, समाधि तथा बोधि प्रदान करें ।

चंदेहि शिम्मलयरा आइच्चेहिं अहिय पहासता ।
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥८॥

चन्द्रमाओसे भी निर्मल, सूर्योसे भी अधिक प्रभासमान और सागरकी तरह गम्भीर तथा सिद्ध पदको प्राप्त ये तीर्थङ्कर मुझे मुक्ति प्रदान करें ।

२ सिद्ध भक्ति

अट्टविहकम्मस्सके अट्टगुणहू अणोवमे सिद्धे ।
अट्टमपुढाविण्णविट्ठे णिट्ठियकञ्जे य वंदमो णिच्चं ॥९॥

आठ प्रकारके कर्मोंसे मुक्त हुए, आठ गुणोंसे सम्पन्न, अष्टम पृथ्वी अर्थात् मोक्ष भूमिमें स्थित और अपने कार्यको जिन्होंने समाप्त कर दिया है, उन अनुपम सिद्धोंको नित्य नमस्कार करता हूँ ।

तिरियरेदरसिद्धे जल-थल-आयासणिवुदे सिद्धे ।
अंतयडेदरसिद्धे उक्कस्स-जहणण-मज्झिमोगाहे ॥१०॥
उट्ट मह-तिरियलोए छुब्बिहकाले य णिवुदे सिद्धे ।
उवसमाणिवसमो दीवोदहिणिवुदे य वंदामि ॥११॥

जो तीर्थङ्कर होकर सिद्ध हुए, जो तीर्थङ्कर न होकर सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो जलसे थलसे या आकाशसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो अन्तकृत सिद्ध हुए, जो अन्तकृत न होकर सिद्ध हुए, जो उत्कृष्ट अवगाहनासे या मध्यम अवगाहनासे अथवा जघन्य अवगाहनासे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो ऊर्ध्व लोकसे या अधोलोकसे अथवा मध्य लोकसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके छ सप्तयोंमें सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो उपसर्ग सहकर सिद्ध हुए अथवा जो उपसर्गके बिना सिद्ध हुए, तथा जो द्वीप अथवा समुद्रसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, उन सब सिद्धोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

पच्छायडेय सिद्धे दुम-तिग-चदुष्वाण पंचचदुरजमे ।
परिवाडिवापरिबहिदे संजमसम्मत्तवत्तणामादीहिं ॥१४॥

साह्वारसासाहारयो म्मुग्धादेदरे य शिष्यादे ।

टिदपलियंकणिसण्णो विवायमले परमणारागे बंदे ।५॥

जिन्होंने मतिज्ञान श्रुतज्ञानको, अथवा मति श्रुत अधि ज्ञानको अथवा मति श्रुत अधि मनः पर्यय इन चार ज्ञानोंको प्राप्त करनेके पश्चात् केवल ज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जिन्होंने पाँचों संयमोंको अथवा परिहार विशुद्धिके सिवाय शेष चार संयमोंको धारण करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जो सिद्ध पद प्राप्त करनेसे पहले संयम, सम्यक्त्व और ज्ञानसे च्युत हुए और जो उनसे च्युत नहीं हुए, तथा जो उपसर्ग वशा आभरणके साथ सिद्ध हुए और जो निराभरण दिगम्बर अवस्थामें सिद्ध हुए, जो समुद्रात करके सिद्ध हुए अर्थात् आयु कर्मकी स्थिति अन्तमुहूर्त मात्र और शेष तीन अघाति कर्मोंकी अधिक स्थिति होनेपर जिन केवलियोंने समुद्रातके द्वारा कर्मोंकी स्थिति अन्तमुहूर्त करनेके पश्चात् निर्वाण पद किया, उन समुद्रात सिद्धोंको और समुद्रातके बिना जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया उन सिद्धोंको, तथा कायोत्सर्ग, अथव पर्यकासनसे सिद्ध पदको प्राप्त करने वाले मुक्त जीवोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

पुंवेदं वेदंता जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा ।

ससोदयेण वि तहा भाणुवजुत्ता य ते दु सिञ्जति ॥६॥

जो पुरुष भावपुरुषवेदका अनुभवन करते हुए क्षपक श्रेणीपर आरूढा हुए और जो भाव स्त्री वेद तथा भाव नपुंसक वेदके उदयसे क्षपक श्रेणीपर आरूढ हुए वे पुरुष शुक्ल ध्यानके द्वारा सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं ।

पत्तेयस्यंबुद्धा बोहियबुद्धा य होति ते सिद्धा ।

पत्तेयं पत्तेयं समयं समयं पडिबदामि सदा ।७॥

प्रत्येक बुद्ध सिद्ध (जो किसी कारणसे प्रेरित होकर विरक्त हुए और पश्चात् जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया), स्वयं बुद्ध सिद्ध (जो बिना किसी बाह्य प्रेरणाके स्वयं विरक्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया), और बोधित बुद्ध सिद्ध (जो दूसरेके समझानेसे बोधको प्राप्त हुए और फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया) उनको पृथक् पृथक् प्रत्येकको तथा साथ साथ सबको सदा नमस्कार करता हूँ ।

पण-णाव-दु-अट्टवीसाचउतियखवदी य दोणिस पन्नेम ।

नक्कणणहीणविसस पयडिक्खिसेण होति ते सिद्धा ॥८॥

ज्ञाना वरण कर्मकी पाँच, दर्शनावरण कर्मकी नौ, वेदनीय कर्मकी दो, मोहनीय कर्मकी अष्टाईस, आयु कर्मकी चार, नाम कर्मकी तिरानवे, गोत्र कर्मकी दो और अन्तराय कर्मकी पाँच इस प्रकार आठों कर्मोंकी ५२ कम २०० (२० - ५२ = १४८) अर्थात् १४८ प्रकृतियोंको नष्ट करके वे सिद्ध होते हैं ।

अइसयमव्वाबाहं सोक्खमणंतं अणोवमं परमं ।

इदियविसयातीदं अप्परां अच्चवं च ते पत्ता ॥६॥

उन सिद्धोंने जो सुख प्राप्त किया वह अतिशय अर्थात् संसार अवस्था में प्राप्त सुखोंसे बहुत अधिक है, अव्यावाध-बाधासे रहित है अर्थात् उस सुखकी अनुभूतिमें कभी कोई बाधा नहीं आती, अनन्य है—उसका कभी अन्त नहीं होता, अनुपम है—उसकी तुलना संसारके किसी सुखसे नहीं की जा सकती, उत्कृष्ट है, इन्द्रिय विषयोंसे अतीत है, सिद्ध पद प्राप्त करनेसे पहले ऐसा सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ । और प्राप्त हो जानेके बाद वह कभी छूटता नहीं, सदा बना रहता है ।

लोग्यमत्थयत्था चरमसरीरेण ते हु किंचूणा ।

गयसिथमूसगग्मे जारिस आयार तारिसायारा ॥१०॥

वे सिद्ध लोकके अग्रभागमें सिद्ध शिलापर विराजमान रहते हैं, जिस शरीरसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उससे उनका आकार कुछ न्यून रहता है । मोमसे बने मूषकका मोम गल जानेपर उसके अन्तर्वर्ती आकाशका जैसा आकार रहता है वैसा ही आकार सिद्धोंका होता है ।

जर-मरण-जन्म-रहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स ।

दितु वरणाणलाहं बुहयणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥११॥

जरा, मरण और जन्मसे रहित वे सिद्ध परमेष्ठी सन्यक् भक्तिसे युक्त मुक्त कुन्दकुन्दको उस परम शुद्ध उत्तम ज्ञानका लाभ दें, जिसके लिये बुधजन प्रार्थना किया करते हैं ।

किञ्चा काउत्समां चउरट्टयदोसविरहियं सुपरिसुद्धं ।

अइभत्तिसंपउत्तो जो वंदइ लहु लहइ परमसुद्धं ॥१२॥

जो बत्तीस दोषोंसे रहित अति शुद्ध कायोत्सर्गको करके अत्यन्त भक्तिपूर्वक वन्दना करता है वह शीघ्र ही परम सुखको प्राप्त करता है ।

३. भक्तभक्ति

सिद्धवरसासणार्णं सिद्धार्णं कम्मचक्रमुष्कारं ।

काञ्जण एमुष्कारं भत्तीएण ममामि अंग्गाइं ॥१॥

जिनका श्रेष्ठ शासन (मत) सकल लोकमें प्रसिद्ध है और जो कर्मोंके चक्रसे मुक्त हो चुके हैं उन सिद्धोंको नमस्कार करके बारह अंगोंको भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

अंगोंके नाम

आचारं सुदयणं टाणं समवाय वियाहपण्णत्ती ।

णाणा (णाहा) धम्मकहाओ उवासयाणं च अञ्जयणं ॥२॥

वंदे अंतयडदसं अणुत्तरदसं च पण्हवायरणं ।

एयारसमं च तहा विवायसुत्तं णमंसामि ॥३॥

परियम्मसुत्त पढमाणुओग-पुव्वगय-चूलिया चेव ।

पवरवरदिट्ठिवादं तं पंचविहं पणिवदामि ॥४॥

उप्पायपुव्वमग्गायणीय वीरियत्थिणत्थि य पवादं ।

णाणा-सच्चपवादं आदा-कम्मपवादं च ॥५॥

पच्चस्त्राणं विज्जाणुवाद-कल्लाण्णणामवरपुव्वं ।

पाणावायं किरियाविसालमध लोयविंदुसारसुदं ॥६॥

आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथ धर्मकथा, या ज्ञातृ धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृद्दश, अनुत्तरोपपाद दश, प्रश्न व्याकरण, तथा ग्यारहवें विपाक सूत्र अंगको नमस्कार करता हूँ । परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, और चूलिका ये पाँच दृष्टिवादके भेद हैं । उस पाँच प्रकारके सर्वश्रेष्ठ दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगको नमस्कार करता हूँ । उत्पाद पूर्व; अग्गायणीय, वीर्यप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणनाम धेय, प्राणवाद, क्रिया विशाल, लोक बिन्दुसार ये चौदह पूर्व हैं ।

पूर्वोंमें वस्तु नामक अधिकारोंको संख्या

दस चउदस अट्ठट्ठारस बारस तह च दोसु पुव्वेषु ।

सोलस वीसं तीसं दसमम्मि य पण्णारसकथ्थु ॥७॥

एदेसि पुव्वाणं जावदिओ वत्थुसंगहो भणियो ।
सेसायां पुव्वायां दस दस वत्थू पडिवदामि ॥८॥

पहले पूर्वमें दस वस्तु हैं, दूसरेमें चौदह, तीसरेमें आठ, चौथेमें अट्ठारह, पाँचवें और छठेमें बारह बारह, सातवेंमें सोलह, आठवेंमें बीस नौवेंमें तीस तथा दसवें पूर्वमें पन्द्रह वस्तु हैं। शेष चार पूर्वोंमें दस दस वस्तु नामक अधिकार हैं। इन पूर्वोंमें जितने वस्तु अधिकार हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ।

वस्तुमें प्राभृतोंकी संख्या

एक्केकम्मि य वत्थू वीसं वीसं च पाहुडा भणिया ।
विसमसमावि य वत्थू सव्वे पुण पाहुडेहि समा ॥९॥

एक एक वस्तु नामक अधिकारमें बीस बीस प्राभृत कहे हैं। कुछ पूर्वोंमें वस्तु अधिकार समान हैं जैसे दस और कुछ पूर्वोंमें वस्तु अधिकार समान नहीं हैं जैसे किसीमें चौदह, किसीमें अठारह आदि। किन्तु सब वस्तु अधिकारोंमें प्राभृतोंकी संख्या समान है अर्थात् प्रत्येक वस्तु अधिकारमें बीस बीस प्राभृत होते हैं।

चौदह पूर्वोंमें वस्तुओं और प्राभृतोंकी संख्या

पुव्वायां वत्थुसयं पंचाणउदी हवन्ति वत्थूओ ।
पाहुड तिण्ण सहस्साणवयसया चउदसायां वि ॥१०॥

चौदह पूर्वोंमें एक सौ पिचानवें वस्तु अधिकार होते हैं। और $१६५ \times २० = ३६००$ तीन हजार नौ सौ प्राभृत होते हैं।

एव मए सुदपवरा भत्तीराएण सथुया तच्चा ।
सिग्घं मे सुदलाहं जिणवरवसहा पयच्छंतु ॥११॥

इस प्रकार मैंने भक्ति और प्रेमवश द्वादशांग रूप श्रेष्ठ श्रुतका तालिका रूपसे स्तवन किया। जिनवर ऋषभदेव मुझे शीघ्रही द्वादशांगरूप श्रुत ज्ञानका लाभ प्रदान करें।

४ चारित्र्य भक्ति

'तिलोयसव्वजीवायां हिदं धम्मोषवेसियां ।
वड्डुमाय्थं महावीरं वृदिता सव्ववेदियां ॥१॥

१. तिलोए स—इति पाठान्तरम् ।

घादिकम्पविघादर्थं घादिकम्पविणासिणा ।

भासियं भव्वजीवार्णं चारित्तं पंचभेददो ॥२॥

तीनों लोकोंमें रहने वाले सब जीवोंके हितकारी, धर्मके उपदेश सर्वज्ञ वर्धमान महावीरको नमस्कार करता हूँ । घाति कर्मोंका विनाश करनेवाले भगवान महावीरने घातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये, भव्य जीवोंको पाँच प्रकारका चारित्र कहा है ।

चारित्रके पाँच भेद

सामाह्यं तु चारित्तं छेदोवद्वावयं तथा ।

तं परिहारविमुद्धि च संजमं सुहमं पुणो ॥३॥

जहाखादं तु चारित्तं तहाखादं तु तं पुणो ।

किञ्चाहं पंचहाचारं मंगलं मलसोहयां ॥४॥

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय और यथाख्यात, ये पाँच प्रकारका चारित्र हैं । यथाख्यातको तथाख्यात भी कहते हैं । कर्मरूपी मलका शोधन करने वाले और मंगल स्वरूप इस पाँच प्रकारके चारित्रको धारण करके मैं सुखको प्राप्त करता हूँ ।

मुनियोंके मूल गुण और उत्तरगुण

अहिंसादीणि उत्ताणि महव्वयाणि पंच य ।

समिदीओ तदो पंच पंच इंदियाणमहो ॥५॥

छुम्भेयावास भूसिञ्जा अणहाणत्तमचेलदा ।

लोकत्तं टिदिभुत्ति च अदंतधावणमव य ॥६॥

एयभत्तेण संजुत्ता रिसिमूलगुणा तथा ।

दसधम्मा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि य ॥७॥

सव्वे वि परीसहा उत्तत्तरगुणा तथा ।

अणणे वि भासिया संता तेसिं हाणि मए कया ॥८॥

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत, ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग ये पाँच समित्तियाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इन पाचों इन्द्रियोंका निग्रह, सामायिक स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छै आवश्यक,

पृथ्वीपर शयन, स्नान न करना, दिगम्बर रहना, केशलोच करना, खड़े होकर भोजन करना, दन्त धावन न करना, तथा दिनमें एक वार भोजन करना, ये साधुओंके २८ मूल गुण हैं। उत्तम ज्ञमा आदि दस धर्म, तीन गुप्ति (मनो गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति), सब प्रकारका शील, सर्व परीपहोंको जीतना, ये मुनियोंके उत्तर गुण कहे हैं। केवल ये ही उत्तर गुण नहीं हैं अन्य भी उत्तर गुण जिनेन्द्रदेवने कहे हैं। यदि उनका पालन करते हुए मैंने उनकी हानि की हो तो—

जइ राएण दोसेण मांहेणाणादरेण वा ।
 वंदित्ता सब्बसिद्धाणं संजदा सा मुमुक्खुणा ॥६॥
 संजदेण मए सम्मं सब्बसंजमभाविणा ।
 सब्बसंजमासद्धीओ लब्भदे मुत्तिजं सुहं ॥१०॥

यदि रागसे, द्वेषसे, मोहसे अथवा अनादरसे उन मूलगुणों और उत्तर गुणोंमें क्षति पहुँची हो तो सम्यक् रीतिसे सम्पूर्ण संयमका पालन करने वाले मुक्त संयमी मुमुक्षुको सब सिद्धोंको नमस्कार करके उस हानिका परित्याग करना चाहिये; क्योंकि सकल संयमकी सिद्धिसे मुक्तिका सुख प्राप्त होता है।

५ योगि-भक्ति

थोस्सामि गुणधराणं अणयाराणं गुणेहि तच्चेहि ।
 अंजलि-मउलिय-हत्थो अभिवंदतो सविभवेण ॥१॥

दानों हाथोंको जोड़कर अपनी सामर्थ्यके अनुसार वन्दना करता हुआ मैं, गुणोंके धारक अनगारों (मुनियों) का तात्विक गुणोंके द्वारा स्तवन करता हूँ।

सम्मं चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोद्धव्वा ।
 चइऊण मिच्छभावे सम्मम्मि उवट्ठिदे वंदे ॥२॥

मुनि दो प्रकारके जानने चाहियें—एक समीचीन भावोंसे सम्पन्न भावलिंगी और एक मिथ्याभावसे सम्पन्न द्रव्यलिंगी। मिथ्याभाववाले द्रव्यलिंगी मुनिको छोड़कर भाव लिंगी मुनियोंकी मैं वन्दना करता हूँ।

दो दोसविप्पमुक्के तिदंडविरदे तिसल्लपरिसुद्धे ।
 तिण्णियगारवरहिदे तियरणसुद्धे एमंसामि ॥३॥

जो मुनि राग और द्वेषसे विमुक्त हो चुके हैं, मन वचन कायके व्यापारसे विरत हैं, माया मिथ्यात्व और निदान इन शक्तियोंसे रहित होनेसे अति विशुद्ध हैं, शब्दगारव ऋद्धिगारव और रसगारव इन तीन गारवों (घमण्डों) से रहित हैं और जिनके मन वचन और कायकी प्रवृत्ति विशुद्ध हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ ।

चउविहकसायमहणे चउगइसंसारगमणभयभीए ।

पंचासवपडिविरदे पंचिदियण्णिच्चिदे वंदे ॥४॥

जिन्होंने क्रोध मान माया लोभरूप चार कपायोंका मथन (विनाश) कर डाला है, जो चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करनेके भयसे भीत हैं, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके निमित्तसे होनेवाले आस्त्रत्रसे विरत हैं तथा पाँचों इन्द्रियोंको जिन्होंने जीत लिया है, उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

छुज्जीवदयापरणे छुडायदणविवज्जिदे समिदभावे ।

सत्तमयविप्पमुक्के सत्ताण सिवंकरे वंदे ॥५॥

छ कायके जीवोंपर दयालु, मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्र तथा उनके धारक मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री मनुष्य इन छ आयतनोंसे रहित, क्रोधादि कपायोंका उपशम करनेवाले, सात प्रकारके भयसे मुक्त और प्राणियोंके लिये कल्याणकारी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

णट्टुमयट्टारणे पणट्टुक्कम्मट्टणट्टुसंसारे ।

परमट्टुणिट्टियट्टे अट्टुगुणड्डीसरे वंदे ॥६॥

जिन्होंने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि तप और शरीर सम्बन्धी आठ मदोंको नष्ट कर दिया है, आठों कर्मोंको तथा संसारको नष्ट कर दिया है, परमार्थ मोक्षको प्राप्त करना ही जिनका ध्येय है और जो आठ ऋद्धियोंके स्वामी हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

एववंभचेरगुत्ते एव-एयसंभावजाणगे वंदे ।

दहविहधम्मट्टाई दस-संजमसंजदे वंदे ॥७॥

मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे ३×३=९, नौ प्रकारसे जो ब्रह्मचर्यकी रक्षा करते हैं, और द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक

तथा दोनोंके भेद नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत, इन नौ नयोंके स्वरूपको जानते हैं उन मुनियोंको नमस्कार करता हूँ। तथा जो उत्तम क्षमादिरूप दस धर्मोंमें स्थित हैं अर्थात् उनका पालन करते हैं, और पाँचों इन्द्रियोंके विषयमें तथा एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीवोंके विषयमें संयमी हैं अर्थात् इन्द्रियोंको वशमें रखते हैं और जीवोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

एयारसंगमुदसायरपारगे वारसंगमुदणिउणो ।
वारसविहतवणिरदे तेरस-करियादरे वंदे ॥८॥

जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशांगरूप श्रुतमें निपुण हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेमें लीन रहते हैं और पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप तरह प्रकारके चारित्रिका आदर पूर्वक पालन करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

भूदेसु दयावणो चउदस चउदसपु गंथपरिमुद्धे ।
चउदसपुव्वपगम्भे चउदसमलवज्जिदे वंदे ॥९॥

जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त चौदह प्रकारके जीवोंपर दया करते हैं। मिथ्यात्व, लीवन्द, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य आदि छ नाकषाय और क्रोध मान माया लोभ इन चौदह प्रकारकी अन्तरंग परिग्रहोंसे रहित होनेके कारण अति विशुद्ध हैं, चौदह पूर्वोंके पाठी हैं और चौदह मलोंसे रहित हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

वंदे चउत्थ भत्तादि जाव लुम्मास खवण पडिवणणे ।
वंदे आदावंते मूरस्स य अहिमुहट्टिदे मूरे ॥१०॥

जो चतुर्थ भक्त अर्थात् एक उपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास धारण करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः कालमें और दोपहरमें सूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमें समर्थ हैं उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ।

बहुविहपडिमट्टाई णिसिजवीरासखेक्कवासी य ।

अणिट्टोवकंडुवदीवे चत्तदेहे य वंदामि ॥११॥

जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोंको धारण करते हैं, निषद्या (एक-

आसनसे बैठना) वीरासन आदि आसन लगाते हैं, एक पार्श्वसे शयन करते हैं, न थूकनेका, न खुजानेका व्रत लेते हैं और शरीरको हेय समझकर उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

टाणी मोग्गवदीए अब्भोवासी य रुक्खमूली य ।

धुव-केस-मंसु-लोमे शिण्णडियभ्मे य वंदामि ॥१२॥

जो खड़े होकर ध्यान करते हैं, मौन व्रतका पालन करते हैं, शीत ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते हैं, और वर्षा ऋतुमें वृक्षके मूलमें निवास करते हैं, सिर और दाढ़ीके बालोंका लोच करते हैं और रोगादि होनेपर उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जल्ल-मल्ल-लित्त-गते वंदे कम्म-मल-कलुस-परिसुद्धे ।

दीह-ण्ह-मंसु-लोमे तव-सिरि-भरिए णमंसामि ॥१३॥

जल (सर्वाङ्ग मल) और मल (एक अङ्गका मल) से जिनका शरीर लिप्त है, किन्तु कर्मरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति विशुद्ध है उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनके नख और दाढ़ीके बाल बड़े हुए हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीसे परिपूर्ण हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

णाणोदयाहिसित्ते सीलगुणविहूसिदे तवसुगंधे ।

ववगय-राय-सुदड्ढे सिवगइपहणायगे वंदे ॥१४॥

जो ज्ञानरूपी जलमें स्नान करते हैं, शील और गुणोंसे विभूषित हैं, तपसे सुगंधित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं और मोक्षगतिको ले जाने वाले मार्गके नायक हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य धोरतवे ।

वंदामि तवमहंते तवसजमइड्डिसंजुत्ते ॥१५॥

तप संयम और ऋद्धियोंसे संयुक्त उग्रतपस्वी (जो एक दिन, दो दिन चार दिन, पांच दिन, छै दिन, एक पक्ष, एक मास आदिका उपवास धारण करके उससे विचलित नहीं होते), दीप्त तपस्वी (महा उपवास करने पर भी जिनके शरीरकी कान्ति स्नान नहीं होती), तप्त तपस्वी (जैसे तपे हुए तवे पर गिरी जलकी बूंद भट सूख जाती है उसी तरह अल्पाहारके कारण जिनका आहार मलरूप परिणत नहीं होता), महातपस्वी

(सिंह निष्कण्डित आदि महा उपवास करने वाले मुनि), घोर तपस्वी (भयंकर रोगोंसे ग्रस्त होने पर भी तपस्यासे न डिगने वाले और भयंकर स्थानोंमें निवास करने वाले मुनि) इन पूजनीय तपस्वी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आमोर्महिण् खेलोसहिण् जल्लोसहिण् तर्वासिद्धे ।

विष्पोसहीण् म्ब्वोसहीण् वंदामि तिविहेण् ॥१६॥

आमौषधि ऋद्धिधारी मुनि (जिनके द्वारा किया हुआ आहार अपक्व अवस्थामें औषधि रूप परिणमन करता हो वे मुनि । अन्यत्र आमशौषधि ऋद्धि नाम है, जिन मुनिके हस्त आदिका स्पर्श औषधि रूप होता है वे मुनि आमशौषधि ऋद्धि धारी होते हैं), खेलौषधि ऋद्धिधारी मुनि (जिनका थूक औषधि रूप हो वे मुनि), जल्लौषधि ऋद्धिधारी मुनि (शरीरमें पसीनेके साथ जो धूल वगैरह जम जाती है उसे जल कहते हैं जिन मुनियोंका जल औषधि रूप हो), विडौषधि ऋद्धि धारी मुनि (जिनका मल औषधि रूप हो), और सर्वौषधि ऋद्धि धारि मुनि (जिनके अंगसे छूजाने वाली वायु आदि सब वस्तु औषधि रूप हो जाती हो) ऐसे तपस्वी मुनियोंको मन वचन कायसे मैं नमस्कार करता हूँ ।

अमय-महु-न्वीर-साप्यमवीण् अस्त्रीण्महाणसे वंदे ।

मणवलि-वचवलि-कायवलिणो य वंदामि तिविहेण् ॥१७॥

जिन तपस्वी मुनियोंके हस्तपुटमें दिया गया नीरस आहार भी अमृतके समान, मधुके समान, स्त्रीके समान या घीके समान स्वाद वाला और पौष्टिक हो जाता है, उन अमृतास्त्री, मध्वास्त्री, क्षीरास्त्री, सर्पिरास्त्री ऋद्धिधारी मुनियोंको तथा अक्षीण महानस ऋद्धिके धारी मुनियोंको (इस ऋद्धिके धारी मुनिको जिस बरतनमेंसे आहार दिया जाता है उस बरतनमेंसे यदि चक्रवर्तीकी सेना भी भोजन करे तो उस दिन अन्न कम नहीं होता) मैं नमस्कार करता हूँ । मनोबली (अन्त-मुहूर्तमें द्वादशांगका विचार करनेमें समर्थ मुनि), वचनवली (अन्तमुहूर्त में द्वादशांगका पाठ करनेमें समर्थ मुनि) और कायबली (महीने, चार महीने या एक वर्ष तक प्रतिमा योग धारण करने पर भी जिनका कायबल क्षीण नहीं होता) मुनियोंको मैं मन वचन कायसे नमस्कार करता हूँ ।

वरकुट्टवीयबुद्धी पदाणुसारी य भिण्णसोदारे ।

उग्गह-ईहसमत्थे सुत्तथ्विसारदे वंदे ॥१८॥

कोष्ठबुद्धि ऋद्धिके धारी (जैसे कोठेमें सब प्रकारका धान अलग-अलग सुरक्षित रहता है वैसे ही जिनकी बुद्धिमें विविध विषयोंका ज्ञान अलग-अलग सुरक्षित रहता है) वे मुनि, बाजबुद्धि ऋद्धिके धारी (जैसे अच्छी भूमिमें बोया गया एक बीज अनेक बीजोंको उत्पन्न करता है वैसे ही एक बीज पदको लेकर अनेक पदार्थोंका ग्रहण करना बीजबुद्धि नामक ऋद्धि है उसके धारी), पदानुसारित्व ऋद्धिके धारी (किसी ग्रन्थके एक पदका अर्थ सुनकर शेष ग्रन्थके अर्थका अवधारण करनेमें समर्थ मुनि), सांभन्न श्रावृत्त्व ऋद्धिके धारी (चक्रवर्तीके बारह योजन लम्बे और नौ योजन चौड़े कटकमें पशुओं और मनुष्योंके उत्पन्न होनेवाले सब शब्दोंको जुदा-जुदा ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनि), और अवग्रह और ईहाके द्वारा पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय करनेमें कुशल तथा सूत्रोंके अर्थको जाननेवाले मुनियोंको, मैं नमस्कार करता हूँ ।

आभिषिबोहिय-मुद-ओहिणाणि-मण्णाणि-सव्वणाणी य ।

वंदे जगत्पदीवं पञ्चक्ख-परोक्खणाणी य ॥ १६ ॥

अभिनिबोध (मतिज्ञान) ज्ञानके धारी, श्रुतज्ञानके धारी, अवधि-ज्ञानके धारी, मनःपर्यय ज्ञानके धारी और सर्वज्ञान अर्थात् समस्त लोकालोकको जाननेवाले केवलज्ञानके धारी, इस तरह जगतको प्रकाश करनेवाले प्रत्यक्षज्ञानी और परोक्षज्ञानी मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

आयास-तंतु-जल-सेट्टिचारणे जंघचारणे वंदे ।

विउवण्णइट्ठिपहाणे विजाहरपण्णसवणे य ॥ २० ॥

पालथी लगाकर अथवा खड़े-खड़े बिना डगधरे आकाशमें गमन करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनियोंको, तन्तु जल श्रेणि आदिका आलम्बन लेकर जलकायिक वायुकायिक आदि जीवोंकी विराधना किये बिना भूमि-की तरह गमन करनेमें समर्थ मुनियोंको, पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें अपनी जघाओंके द्वारा गमन करनेमें समर्थ जंघाचारण ऋद्धिधारी मुनियोंको, विक्रिया ऋद्धिके स्वामी मुनियोंको, विद्याघर मुनियोंको और प्रज्ञाश्रवणत्व ऋद्धिके धारी मुनियोंको (द्वादशांगका पाठी न होने पर भी द्वादशांग सम्बन्धी प्रश्नका अपनी बुद्धिसे उत्तर देनेमें समर्थ मुनि प्रज्ञाश्रमण कहलाते हैं) मैं नमस्कार करता हूँ ।

गहचउरंगुलगमण्ये तहेव फलफुल्लचारणे वंदे ।
अणुवमतवमहंते देवामुरवंदिदे वंदे ॥२१॥

पृथ्वीसे चार अंगुन ऊपर आकाशमें गमन करनेवाले मुनियोंको तथा फल और फूलपर जीवोंका घात किये बिना विचरण करनेवाले मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ । इस तरह देव और असुरोंके द्वारा वन्दित तथा अनुपम तपसे पूजनीय मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

जियभयजियउवसभो जियईदियपरीसहे जियकसाए ।
जियरायदोसमाहे जियसुह-दुखले णमंसामि ॥२२॥

जिन्होंने भयको जीत लिया है, उपसर्गको जीता है, इन्द्रियोंको जीता है; परीषहोंको जीता है, कषायोंको जीता है, राग द्वेष मोहको जीता है, सुख दुःखको जीता है, उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

एवं मए अभित्थुया अणयारा रागदोस-परिसुद्धा ।
संघस्स वरसमाहिं मज्जवि दुक्खक्खयं दिट्ठु ॥२३॥

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किये गये, राग द्वेषसे विशुद्ध मुनि, संघको उत्तम समाधि प्रदान करें और मेरे दुःखोंका विनाश करें ।

६ आचार्य भक्ति

देस-कुल-जाइ-सुद्धा विसुद्ध-मण-वयण-कायसंजुत्ता ।
तुम्हं पायपयांरुहमिह मंगलमत्थु मे णिच्चं ॥१॥

देश कुल और जातिसे विशुद्ध और विशुद्ध मन वचन कायवाले आचार्य ! आपके चरणकमल मुझे इस लोकमें सदा मंगलकारी हों ।

सग-पर-समयविदग्गहू आगमहेदूहिं चावि जाणित्ता ।
सुसमत्था जिणवयणे विणये सत्ताणुरुवेण ॥२॥

आचार्य स्वसमय (जैनधर्म) और परसमय—अन्यधर्मोंके जानकार होते हैं । तथा आगम और युक्तिसे पदार्थोंको जानकर जिन भगवानके द्वारा कहे गये तत्वोंका निरूपण करनेमें पूरे समर्थ होते हैं और अपनी शक्तिके अनुसार अथवा प्राणियोंके अनुसार विनय करनेमें समर्थ होते हैं ।

बाल-गुरु-बुद्ध-सेहे गिलाणयेरे य खमणसंजुत्ता ।
बटावयगा अणणे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥३॥

बालक, गुरु, वृद्ध, शैक्ष्य, रोगी और स्थविर मुनियोंके विषयमें वे आचार्य क्षमाशील होते हैं। और अन्य शिष्योंको दुःशील जानकर उन्हें सन्मार्गमें लगाते हैं।

वद-समिदि-गुत्तिजुत्ता मुत्तिपहे ठावया पुणो अरणे ।
अज्जावयगुण्णिलये साहुगुण्णावि संजुत्ता ॥४॥

वे आचार्य ५व्रत, ५ समिति और तीन गुणियोंसे विशिष्ट होते हैं। दूसरोंको मुक्तिके मार्गमें लगाते हैं। तथा वे उपाध्याय परमेष्ठीके गुणोंसे और साधु परमेष्ठीके गुणोंसे भी युक्त होते हैं।

उत्तमखमाण पुदवी पसरणभावण अच्छजलसरिसा ।
कम्मिधण्णदहणादो अगणी दाऊ असंगादो ॥५॥

उत्तम क्षमामें वे पृथ्वीके समान क्षमाशील होते हैं। निर्मल परिणामोंके कारण स्वच्छ जलके समान होते हैं। कर्मरूपी ईधनको जलानेके कारण अग्निके तुल्य हैं और सब प्रकारकी परिग्रहसे रहित होनेसे वायुकी तरह निस्संग होते हैं।

गयणमिव गिरुवलेवा अक्खोहा सायर व्व मुणिवसहा ।
एरिसगुण्णिलयाणं पायं पणमामि सुद्धमणो ।६॥

मुनियोंमें श्रेष्ठ वे आचार्य आकाशकी तरह निर्लेप और सागरकी तरह क्षोभरहित-गम्भीर होते हैं। मैं शुद्ध मनसे इस प्रकारके गुणोंके धर आचार्य परमेष्ठीके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ।

संसारकाणणे पुण बंभममाणेहि भव्वजीवेहिं ।
णिवाणस्स हु मग्गो लद्धो तुम्हं पसाएण ॥७॥

हे आचार्य ! संसाररूपी भयंकर वनमें भ्रमण करनेवाले भव्य जीवोंने आपके प्रसादसे मोक्षका मार्ग प्राप्त किया है।

अविसुद्धलेस्सरहिथा विसुद्धलेस्साहि परिणदा सुद्धा ।
रुद्धे पुण चत्ता धम्मे सुक्के य संजुत्ता ।८॥

वे आचार्य कृष्ण नील और कापोत नामक बुरी लेश्याओंसे रहित होते हैं। और पीत पद्म शुक्ल नामक विशुद्ध लेश्याओंसे युक्त होते हैं। तथा आर्त और रौद्र ध्यानके त्यागी होते हैं और धर्म तथा शुक्ल ध्यानसे युक्त होते हैं।

उग्राह-ईहावायाधारणगुणसंपदेहि संजुत्ता ।

सुत्तत्थभावणाए भाविय मारोह वंदामि ॥६॥

श्रुत ज्ञानको उत्पन्न करनेमें कारणभूत अग्रप्रह, ईहा, अवाय, और धारणा रूप ज्ञानगुणकी सम्पत्तिसे वे आचार्य युक्त होते हैं । (अर्थात् मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है और मति ज्ञानके भेद अग्रप्रह ईहा अवाय और धारणा हैं) । उन आचार्योंको मैं नमस्कार करता हूँ ।

तुम्हं गुणगणसंशुदि अजाणमाणेण जो मया बुत्तो ।

देउ मम बोहिलाहं गुरुभक्तिजुदत्थओ गिच्चं ॥

हे आचार्य ! आपके गुणोंको न जानते हुए आपके गुणोंके समूहका जो स्तवन मैंने किया है, वह गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर किया है । गुरुभक्तिसे भरा हुआ यह स्तवन मुझे बोधिलाभ प्रदान करे ।

७ निर्वाण भक्ति

अट्टावयम्मि उसहां चंपाए वासुपुब्जजिणणाहो ।

उज्जंते रोमाजिणो पावाए गिण्वुदो महावीरो ॥१॥

अष्टापद (कैलास पर्वत) पर ऋषभनाथका, चम्पामें वासुपूज्यनाथका, उर्जयन्तगिरि (गिरनार पर्वत) पर नेमिनाथका, और पावामें महावीर भगवानका निर्वाण हुआ ।

वीसं तु जिणवरिंदा अमरासुरवांदिदा धुदकिलेसा ।

सम्मदे गिरिमिहरे गिण्वाणगया एमो तेसिं ॥२॥

देवों और अमुरोंसे वन्दित शेष बीस तीर्थङ्कर कर्मक्लेशको नष्ट करके सम्मदे शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

सत्तेव य बलभदा जदुवणरिंदाण अट्टकोडीओ ।

गजपंथे गिरिमिहरे गिण्वाणगया एमो तेसिं ॥३॥

सात बलभद्र और आठ करोड़ यादववंशी राजा गजपन्था गिरिके शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवर-णथरे ।

आहुट्टयकोडीओ गिण्वाणगया एमो तेसिं ॥४॥

वरदत्त, वरंग, सागरदत्त और साढ़े तीन करोड़ मुनिराज तारवर नगरमें निर्वाणको प्राप्त हुए । उनको नमस्कार हो ।

रोमिसामी पञ्जुरण्यो संबुकुमारो तहेव अण्णिरुद्धो ।

बाहत्तर कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥

भगवान नेमिनाथ, कृष्णपुत्र प्रद्युम्न, शम्बुकुमार, अनिरुद्ध और
बहात्तर करोड़ सात सौ मुनि उर्जयन्त गिरिपर मुक्त हुए ।

राममुआ वेण्ण जणा लाडण्णरिंदाण पंचकोडीओ ।

'पावागिरिवरसिहरे णिब्वाण्णया णमो तेसि ॥६॥

रामचन्द्रके लव कुश नामक दो पुत्र और लाट देशके पाँच करोड़
राजा पावागिरिके शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

पंडुसुआ तिण्ण जणा दविण्णरिंदाण अट्टकोडीओ ।

सित्तु जेगिरिसिहरे णिब्वाण्णया णमो तेसि ॥७॥

पाण्डुके तीन पुत्र और आठ करोड़ द्रविड राजा शत्रुञ्जय गिरिके
शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

राम-हणू-सुग्गीवो गवय-गवक्खो य खील-महणीला ।

खण्णवदीकोडीओ तु गीगिरिण्णिव्वुदे वंदे ॥८॥

रामचन्द्र, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवान्, नील, महानील तथा
निन्थानवें करोड़ मुनि तुङ्गी पर्वतसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें
नमस्कार हो ।

'अंगाणंगकुमारा विक्खापंचद्धकोडिरिसिहिया ।

सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिब्वाण्णया णमो तेसि ॥९॥

अंग या नंग और अनंगकुमार साढ़े पाँच करोड़ प्रसिद्ध मुनियोंके
साथ सुवर्णगिरिके ऊपरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्ध मुणिवरे सहिया ।

रेवाउहयतडमो णिब्वाण्णया णमो तेसि ॥१०॥

राजा दशमुख अर्थात् रावणके पुत्र साढ़े पाँच करोड़ मुनियोंके
साथ रेवा नदीके दोनों तटोंसे मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

१ 'पावागिरि'- पाठान्तर ।

२ 'अंगाणंगकुमारा कोडिपंचद्ध मुणिवरा सहिया ।

सुवण्णवरगिरिसिहरे णिब्वाण्णया णमो तेसि ॥९॥' इति पाठान्तरम् ।

रेवाण्डए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे ।
दो चक्की दह कप्पे आहुट्टयकोडिण्णवुदे वंदे ॥११॥

रेवा नदीके तीर पर पश्चिम भागमें स्थित सिद्धवर कूटपर दो चक्रवर्ती
और दस कामदेव तथा साढ़े तीन कोटि मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए ।
उन्हें नमस्कार हो ।

वडवाणीवरण्यरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे ।
इंदाजियकुंभकण्णो णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१२॥

वडवानी नगरके दक्षिण भागमें स्थित चूलगिरिके शिखर पर इन्द्रजीत
और कुम्भकर्ण निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

पावागिरिवरसहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चउरो ।
चेलण्णायईतडग्गे णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१३॥

चेलना नदीके तटपर स्थित पावागिरिके शिखर पर सुवर्णभद्र आदि
चार मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे ।
गुरुदत्ताइमुण्णिदा णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१४॥

फलहोडी नामक गाँवके पश्चिम भागमें स्थित द्रोणगिरिके शिखर
पर गुरुदत्त आदि मुनीन्द्र निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

णायकुमारमुणींदो वालि महावालि चैव अज्जेया ।
अट्टावयगिरिसिहरे णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१५॥

कैलास पर्वतके शिखरपर नागकुमार मुनि, वाली और महावाली
निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

अच्चलपुरवरण्यरे ईसाणभाए मेढगिरिसिहरे ।
आहुट्टयकोडीओ णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१६॥

एलिचपुर नगरकी ईशान दिशामें मेढगिरि (मुक्कगिरि) के शिखर-
पर साढ़े तीन करोड़ मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

वंसत्थलाम्मि नयरे पच्छिमभायम्मि कुन्थगिरिसिहरे ।
कुलदेसभूसणमुणी णिग्वाणगया णमो तेसिं ॥१७॥

वंशस्थल नगरके पश्चिम भागमें स्थित कुंथलगिरिके शिखरपर कुलभूषण देशभूषण मुनि निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

जसहररायस्स मुञ्जा पंचसया कलिंगदेसम्मि ।

कोडिसिला कोडिमुणी णिब्वाणगया णमो तेसिं ॥१८॥

यशोधर राजाके पाँच सौ पुत्र तथा एक करोड़ मुनि कलिंग देशमें स्थित कोटिशिलासे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

पासस्स समवसरणे 'गुरुदत्त-वरदत्त-पंचरिसिपमुहा ।

रिस्सिदे गिरिसिहरे णिब्वाणगया णमो तेसिं ॥१९॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमें गुरुदत्त वरदत्त आदि पाँच प्रमुख ऋषि रेशन्दीगिरके शिखरपर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो ।

जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिव्वुदिं परमं ।

ते वंदामि य णिच्चं तियरणमुद्धो णमंसांमि ॥२०॥

जो जिन जहाँ-जहाँसे निर्वाणको प्राप्त हुए हैं उनकी नित्य वंदना करता हूँ और मन वचन कायको शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ ।

सेसाणं तु रिसीणं णिब्वाणं जम्मि जम्मि टाणांमि ।

ते हं वंदे सब्बे दुक्खत्तस्सयकारणट्टाए ॥२१॥

शेष अन्य मुनियोंका निर्वाण जिस जिस स्थानपर हुआ, दुखोंका क्षय करनेके लिये मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ ।

पासं तह अहिणंदणा णायद्दहि मंगलाउरे वंदे ।

अस्सारम्भे पट्टणि मुणिसुब्बओ तहेव वंदामि ॥२२॥

नागहृद् और मंगलापुरमें स्थित पार्श्वनाथ और अभिनन्दन नाथको नमस्कार करता हूँ । तथा अस्सारम्भ (?) नगरमें मुनिमुत्रत नाथको नमस्कार करता हूँ ।

बाहूबलि तह वंदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे वंदे ।

संती कुंथुव अरिहो वाराणसीए सुपास पासं च ॥२३॥

पोदनापुरमें बाहुवली, हस्तिनापुरमें शान्तिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ
को, वाराणसीमें सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथको नमस्कार करता हूँ ।

मदुराए अहिल्लित्ते वीरं पासं तदेव वंदामि ।
जबुमुण्णियो वंदे णिवुइपत्तो वि जंबुवण्णहणे ॥३॥

तथा मथुरा और अहिल्लेत्र नगरमें महावीर और पार्श्वनाथको
नमस्कार करता हूँ । और गहन जम्बूवनसे मोक्षको प्राप्त हुए जम्बू
स्वामीको नमस्कार करता हूँ ।

पंचकल्लाण्टाणाइ जाणि वि संजादमच्चलोयम्मि ।
मणवयणकायमुद्धो सव्वे सिरसा णमंसामि ॥४॥

मनुष्यलोकमें जितने भी पंचकल्याणकोंके स्थान हैं, मन वचन और
कायको शुद्ध करके सबको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ ।

अगलदेवं वंदामि वरण्यरे णिवण्णकुण्डलीवंदे ।
पासं सिरिपुरि वंदामि लोहागिरिसंखदीवम्मि ॥५॥

वर नगर (बड़ नगर) में अगलदेवको तथा निकट कुण्डली (?) को
नमस्कार करता हूँ । श्रीपुरमें पार्श्वनाथकी वन्दना करता हूँ तथा लोह-
गिरि और शंखद्वीपमें भी (?) पार्श्वनाथकी वन्दना करता हूँ ।

गोम्मटदेवं वंदामि पंचसयधणुहदेहउच्चं तं ।
देवा कुण्णति वुट्ठी केसरकुसुमाण तस्म उवारम्मि ॥६॥

जिनके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष है उन गोम्मट स्वामीको
नमस्कार करता हूँ । उनके ऊपर देवगण केशरकी और पुष्पोंकी वर्षा
करते हैं ।

णिव्वाण्टाणा जाणि वि अइसयटाणाणि अइसये सहिया ।
संजादमिच्चलोए सव्वे सिरसा णमंसामि ॥७॥

मनुष्यलोकमें जितने भी निर्वाण स्थान हैं और अतिशय सहित जितने
अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ ।

८ पंचगुरु भक्ति

मणुय-णाइंद-सुरधरियल्लुत्तत्तया, पंचकल्लाणा-सोक्खावलीपत्तया ।
दंसयां णायाअभायां अयांतं बलं ते जिणा दिंतु अम्हं वरं मंगलं ॥१॥

राजा, नागेन्द्र और सुरेन्द्र जिनके तीन छत्र लगाते हैं, जो पाँच कन्याणकोंके सुखोंको प्राप्त हैं, वे जिनेन्द्र हमें परम मंगल स्वरूप अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तबल और शुक्लध्यान प्रदान करें ।

जेहिं भाणगिवाणोहिं अइथदर्यं, जम्मजरमरणायरत्तयं दडुयं ।

जेहि पत्तं सिवं सासयं टाणयं तं महं दिंतु सिद्धा वरं णाणयं ॥२॥

जिन्होने शुक्लध्यानरूपी अग्निवाणोंसे अति मजबूत जन्म जरा और मरणरूपी तीन नगरोंको जला डाला । और जिन्होने शाश्वत मोक्षस्थानको प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें ।

पंचहाचारपर्यागसंसाइया बारसंगाइं सुअजलहि अवगाहया ।

मोक्खलच्छी महंती महंते सया सूरणो दिंतु मोक्खं गयासंगया ॥३॥

जो पाँच आचाररूपी पञ्चाग्निका साधन करते हैं, और द्वादशांग श्रुतरूपी समुद्रमें अवगाहन करते हैं, सब प्रकारकी आशाओंसे रहित मोक्षको प्राप्त हुए वे आचार्य मुझे सदा महती मोक्षरूपी लक्ष्मीको प्रदान करें ।

घोर-संसार-भीमाडवीकाणणे तिवख-वियराल-णह-पावपंचाणणे ।

णट्टमग्गाण जीवाण पहदेसिया वंदिमो ते उक्कभाय अग्हे सया ॥४॥

तीक्ष्ण विकराल नखवाला पापरूपी सिंह जहाँ बसता है, उस घोर संसाररूपी भयानक वीहड़ जंगलमें मार्गभ्रष्ट भव्यजीवोंको जो मार्गदर्शन करते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठीको हम सदा नमस्कार करते हैं ।

उगतवचरणकरणोहि भीयांगया, धम्मवरभाणसुक्केक्कभाणं गया ।

णिब्भरं तवसिरीए समालिगया, साहवो ते महं मोक्खपहमग्गाया ॥५॥

उम तपश्चरण करनेसे जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें लीन रहते हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीके गाढ़ आलिंगनमें बद्ध हैं वे साधु मुझे मोक्षमार्गका प्रदर्शन करें ।

एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंदए, गरुयसंसारघणवेल्लि सो छिदए ।

लहइ सो सिद्धिसोक्खाइ वरमाणयां, कुणइ कम्मिधयां पुंजपजालयां ॥६॥

जो इस स्तोत्रके द्वारा पंच परमेष्ठीकी वन्दना करता है, वह अनन्त संसाररूपी घनी बेलको काट डालता है । तथा वह उत्तम जनकों द्वारा

मान्य मोक्षके सुखोंको प्राप्त करता है और कर्मरूपी ईधनके ढेरको जलाकर भस्म कर देता है ।

अरुहा विद्वाइरिया उवळभाया साहु पंचपरमेष्ठी ।

एयाण शमुक्कारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥७॥

अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी हैं । इनका नमस्कार मुझे भव भवमें सुख देवें ।

१२. मोक्ष अधिकार

[मोक्षप्राभृतसे]

मंगलाचरण

शाणामयं अप्पाणं उवलद्धं जेया भ्मडियकम्मेया ।

चइऊरा य परदव्वं ग्गमो ग्गमो तस्स देवस्स ॥१॥

जिस कर्मोंकी निर्जरा करनेवालेने परद्रव्यको छोड़कर ज्ञानस्वरूप आत्माको प्राप्त किया है उस देवको बारम्बार नमस्कार हो ।

प्रतिज्ञा

शाणिकुण य तं देवं अयांतवरणायादंसणां सुद्धं ।

वुच्छं परमप्पाणां परमपयं परमजोईसां ॥२॥

जं जाणिकुण जोई जोयत्थो जोइऊण अयावरयं ।

अव्वावाहमणांतं अणोवमं लहइ सिव्वाणां ॥३॥

अनन्तज्ञान और अनन्तदर्शनसे सहित तथा अद्वारह दोषोंसे रहित उस देवको नमस्कार करके, उत्कृष्ट योगियोंके लिये, परम पदमें विराजमान परमात्माका स्वरूप कहूँगा ।

जिसको जानकर तथा निरन्तर अनुभव करके ध्यानमें स्थित योगी बाधा रहित अविनाशी और अनुपम मोक्षको प्राप्त करता है ।

आत्माके तीन भेद

तिपयारो सो अप्या परमंतरबाहिरो हु देहीयां^१ ।

तथ परो भ्राइज्जइ अंतोवाएण^२ चइवि बहिरप्पा ॥४॥

शरीरधारियोंका आत्मा तीन प्रकारका होता है—परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा । बहिरात्माको त्याग कर अन्तरात्माके द्वारा परमात्माका ध्यान किया जाता है ।

तीनोंका स्वरूप

अक्खाणि बहिरप्पा अंतरअप्पा हु अप्परसंकप्पो ।

कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भयणए^३ देवो ॥५॥

इन्द्रियाँ बहिरात्मा हैं अर्थात् इन्द्रियोंको ही आत्मा मानने वाला प्राणी बहिरात्मा है । आत्मामें ही आत्माका संकल्प करने वाला सम्यग्दृष्टी अन्तरात्मा है । और कर्म कलंकसे विमुक्त आत्मा परमात्मा है । उसे ही देव कहा जाता है ।

सिद्ध परमात्माका स्वरूप

मलरहिओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विमुद्धप्पा ।

परमेट्ठी परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो ॥६॥

वह परमात्मा मैलसे रहित है, शरीरसे रहित है, इन्द्रियोंसे रहित है, केवलज्ञानमय है, विशुद्ध है, परम पदमें स्थित है, परम जिन है, मोक्षको देने वाला है, अविनाशी है और सिद्ध है ।

परमात्माके ध्यानका उपदेश

आरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छंडिऊण तिविहेसा ।

ज्भाइज्जइ परमप्पा उवइट्ठं जिणवरिदेहि ॥७॥

अन्तरात्माको अपनाकर और मन वचन कायसे बहिरात्माको छोड़कर परमात्माका ध्यान करो, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

१ हेऊयां आ० ।

२ अंतोऊण आ० ।

अंतो वा च-ग० ।

३ सन्नए ऊ० ।

बहिरात्माकी प्रवृत्ति

बहिरत्थे फुरियमणो इंदियदारेण शियसरुवचुओ ।

शियदेहं अप्पायां अज्भवसदि^१ मूढदिट्ठीओ ॥८॥

मूढदृष्टि बहिरात्मा इन्द्रियोंके द्वारा धन धान्य आदि बाह्य पदार्थोंमें मनको लगाता है, और स्वरूपसे च्युत होता हुआ अपने शरीरका आत्मा मानता है ।

^१शियदेहस्स सरिस्सं पिच्छुऊण परविग्गहं पयत्तेण ।

अच्चेयणां पि गहियं भाइज्जइ परमभावेण ॥९॥

मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अपने शरीरके समान दूसरेके शरीरको देखकर, यद्यपि वह अचेतन है, फिर भी बड़े यत्नपूर्वक परम भावसे उसका ध्यान करता है ।

सपरज्भवसाएणं देहेसु य अविदियत्थमप्पायां ।

सुयदारार्इविसए मणुवारां वड्डए मोहो ॥१०॥

इस प्रकार देहोंको ही अपना और परका आत्मा माननेसे, पदार्थोंके स्वरूपको न जानने वाले मनुष्योंका स्त्री पुत्र आदिके विषयमें मोह बढ़ता है ।

मिच्छाणाणोसु रओ मिच्छाभावेण भाविओ संतो ।

मोहोदएण पुणारवि अंगं सं मएणए मणुओ ॥११॥

मिथ्या ज्ञानमें लीन हुआ और मिथ्याभावकी भावना रखता हुआ मनुष्य मोहके उदयसे फिर भी शरीरको आत्मा मानता है ।

निर्वाणको कौन प्राप्त करता है

जो देहे शिरवेक्खो शिंदो शिम्ममो शिरारंभो ।

आदसहावेसु रओ जोई सो लहइ शिण्वाणां ॥१२॥

जो योगी शरीरसे उदासीन है, निर्द्वन्द्व है ममत्व रहित है, आरम्भ रहित है और आत्म स्वभावमें लीन है, वह निर्वाणको प्राप्त करता है ।

१ -सदि य मू-आ० । २ शियदेहं सारिच्छं ग०, ऊ० ।

संक्षेपमें बन्ध और मोक्षका कारण

परदब्बरओ बज्भइ विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहिं ।

एसो जिणउवएसो समासओ बंधमुक्खस्स ॥१३॥

जो जीव परद्रव्यसे राग करता है, वह अनेक प्रकारके कर्मोंका बंध करता है और जो परद्रव्यमें राग नहीं करता है वह अनेक प्रकारके कर्म बन्धनसे छूट जाता है, यह जिनेन्द्र भगवानने संक्षेपसे बन्ध और मोक्षके स्वरूपका उपदेश दिया है ।

सद्दब्बरओ सवणो सम्मादिट्ठी हवेइ णियमेण ।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्माणि ॥१४॥

जो श्रमण अपने आत्मामें लीन है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है । और जो सम्यग्दृष्टि है वही आठ दुष्ट कर्मोंका नाश करता है ।

जो पुण परदब्बरओ मिच्छादिट्ठी हवेइ सो साहू ।

मिच्छत्तपरिणदो उण बज्भदि दुट्ठकम्मेहिं ॥१५॥

और जो साधु परद्रव्यमें लीन है, वह मिथ्यादृष्टि है । तथा जो मिथ्यादृष्टि है वह दुष्ट आठ कर्मोंको बाँधता है ।

परद्रव्य और स्वद्रव्यके रागका फल

परदब्वादो दुग्गाइ सद्दब्वादो हु सुग्गाई होई ।

इय णाऊण सदब्बे कुणह रई विरइ इयरम्मि ॥१६॥

परद्रव्यमें राग करनेसे दुर्गति होती है और स्वद्रव्यमें राग करनेसे सुगति होती है । ऐसा जानकर स्वद्रव्यमें राग करो और परद्रव्यमें राग मत करो ।

परद्रव्यका स्वरूप

आदसहावादणं सच्चित्तचित्तमीसियं हवदि ।

तं परदब्बं भणियं अवियत्थं सब्बदरिसीहिं ॥१७॥

आत्म स्वभावसे अन्य जो स्त्री पुत्रादि सचित्त पदार्थ, धन-धान्य आदि अचेतन पदार्थ और आभूषण पहिने हुए पुरुष आदि सचेतन-अचेतन पदार्थ हैं, सर्वज्ञ भगवानने उन सबको वास्तवमें परद्रव्य कहा है ।

स्वद्रव्यका स्वरूप

दुष्टदृक्कम्परहियं अणोवमं णाणाविग्गहं णिच्चं ।
मुद्धं जिण्णेहि कहियं अप्पाणां हवइ सद्व्वं ॥१८॥

आठ दुष्ट कर्मोंसे रहित, अनुपम, ज्ञान शरीरी, नित्य और शुद्ध आत्माको जिनेन्द्रदेवने स्वद्रव्य कहा है ।

स्वद्रव्यके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति

जे भायति सद्व्वं परदव्वं परम्महा दु मुच्चरित्तं ।
ते जिण्वराणा मग्गे अणुलभा लर्हाहि णिवाणां ॥१९॥

जे परद्रव्यसे विमुख होकर सम्यक् चारित्रसे युक्त आत्मद्रव्यका ध्यान करते हैं, वे जिनवर भगवानके मार्गमें लगे रहकर मोक्षको प्राप्त करते हैं ।

जिणावरमएणा जोई भाणे भाएइ मुद्धमप्पाणं ।
जेषा लहइ णिवाणां ण लहइ किं तेसा सुरलोयं ॥२०॥

योगीको जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गके अनुसार ध्यानमें शुद्ध आत्माको ध्याना चाहिये । जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है क्या उससे स्वर्गलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती ? अर्थात् ध्यान करनेसे यदि मोक्ष न भी मिला तो स्वर्ग तो मिल ही जायेगा । अतः जैनमार्गके अनुसार ही शुद्धात्माका ध्यान करना चाहिये ।

उक्त कथनका दृष्टान्त द्वारा समर्थन

जो जाइ जोयणासयं दिवहेणेक्केणा लेवि गुरुभारं ।
सो किं कोसद्धं पि हु णा सक्कइ जाउ भुवणायले ॥२१॥

जो मनुष्य भारी बोझ लेकर एक दिनमें सौ योजन जाता है, क्या वह भूमितलपर आधा कोस भी नहीं जा सकता ?

जो कोडियारेहि णा जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं ।
सो किं जिप्पइ एक्कं यारेणा संगामए सुहडो ॥२२॥

१ भाएहि आ० । २ -व्वं परा-आ० । ३ -रिता ग० ।

जो योद्धा युद्ध करनेवाले करोड़ों मनुष्योंसे भी नहीं जीता जाता, क्या वह योद्धा युद्धमें एक मनुष्यके द्वारा जीता जा सकता है ?

सगं तवेश सवो वि पावए किंतु भाणजोएण ।

'जो पावइ सो पावइ परे भवे सासयं सुक्खं ॥२३॥

तपसे तो सभी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। किन्तु जो ध्यानके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करता है वह दूसरे भवमें अविनाशी सुख अर्थात् मोक्षकी प्राप्त करता है।

आत्माके परमात्मा होनेमें दृष्टान्त

अइसोहरणजोएणं सुद्धं हेम्मं हवेइ जह तह य ।

कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ हवइ ॥२४॥

जैसे अति शोधनके (?) योगसे सोना शुद्ध हो जाता है वैसेही काल आदि लब्धियोंका योग मिलनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता है।

तपके द्वारा स्वर्ग भी मिले तो उत्तम है

'वरवयतवेहिं' 'सगो मा दुक्खं होइ गिरइ इयरेहिं ।

छायातवट्टियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥२५॥

व्रत और तपसे स्वर्ग पाना उत्तम है किन्तु व्रत और तपको न पालनेसे नरकमें दुःख उठाना ठीक नहीं है। छाया और धूपमें बैठे हुए मनुष्योंमें जैसे बहुत भेद है वैसे ही व्रत और तपका पालन करनेवालों और न करने वालोंमें बहुत भेद है।

आत्माका ध्यान करो

जो इच्छइ गिणस्सरिदुं संसारमं हावणस्स रुद्धाओ ।

कम्मिंधणाण 'डहणं सो भायइ अप्पयं सुद्धं ॥२६॥

जो संसार रूपी महावनके विस्तारसे निकलना चाहता है, वह कर्मरूपी ईंधनको जलाने वाले शुद्ध आत्माका ध्यान करता है।

१ णो पा-आ० । २ वरं आ० । ३ सगो आ० । ४ -महाणवस्स रुद्धस्स आ०, महाणवस्स रुद्धस्स ऊ० । ५ डहणो आ० ।

ध्यान कैसे करना चाहिये

सर्वे कसाय मुक्तुं गारव-मय-राय-दोस-वामोहं ।
लोयववहारविरदो अप्पा भाएह भाणत्थो ॥२७॥

ध्यानमें बैठे हुए मुनिको सब कपार्योंको तथा गारव मद राग द्वेष और व्यामोहको छोड़कर व लोकव्यवहारसे विरत होकर आत्माका ध्यान करना चाहिये ।

मिच्छतां अरणायां पावं पुराणं चएवि तिविहेण ।
मोणव्वएण जोई जोयत्थो 'भाइए अप्पा ॥२८॥

मिध्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्यको मन वचन कायसे त्याग कर, योगमें स्थित योगी मौनव्रत पूर्वक आत्माका ध्यान करता है ।

मौनपूर्वक ध्यान करनेमें हेतु

जं मया दिस्सदे रुवं तएणा जाणेइ सव्वहा ।
जाणमं दिस्सदे 'एणं तम्हा जंपेमि केण हं ॥२९॥

क्योंकी वह सोचता है कि जो रूप (शरीर) मैं देखता हूँ वह कुछ भी नहीं जानता । और जो जानने वाला आत्मा है वह दिखाई नहीं देता, तब मैं किससे बातें करूँ । (अतः मौन पूर्वक ही ध्यान करता है) ।

सव्वासवणिरोहेया कम्मं खवइ संचियं ।
जोयत्थो जाएण जोई जिणदेवेण भासियं ॥३०॥

योगमें स्थित योगी सब कर्मोंके आस्त्रवको रोक कर पहलेके संचित कर्मोंका क्षय करता है फिर (केवल ज्ञानी होकर) सबको जानता है ऐसा जिन देवने कहा है ।

योगी लोकव्यवहारसे विरत क्यों होता है—

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जभाए सकज्जमि ।
जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणं कज्जे ॥३१॥
इय जाणिऊणा जोई ववहारं चयइ सव्वहा सर्वं ।
भायइ परमप्पाणां जह भणियं जिणवदिदेहिं ॥३२॥

जो योगी लोक व्यवहारमें सोता है वह आत्मिक कार्यमें जागता है। और जो लोक व्यवहारमें जागता है वह आत्मिक कार्यमें सोता है। ऐसा जानकर योगी सब प्रकारके व्यवहारको सर्वथा छोड़ देता है और जैसा जिनेन्द्र देवने कहा है उसी प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है।

ध्यान करनेकी प्रेरणा

पंचमहद्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयरात्तयसंजुत्तो भ्राणञ्जयरां सया कुराह ॥३३॥

आचार्य कहते हैं कि हे भव्य ! तू पाँच महाव्रतोंको धारण करके, तथा पाँच समिति तीन गुप्ति और रत्नत्रयसे संयुक्त होकर सदा ध्यान और स्वाध्याय किया कर ।

आराधकका लक्षण और आराधनाका फल

रयरात्तयमाराहं जीवो आराहश्रो मुण्येव्वो ।

आराहणाविहाणं तस्स फलं केवलं णाणं ॥३४॥

सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी आराधना करने वाले जीवको आराधक जानो। आराधना करनेका फल केवलज्ञानकी प्राप्ति है।

आत्मा ही केवल ज्ञान है—

सिद्धो सुद्धो आदा सब्बहू सब्बलोयदरिसी य ।

सो जिणवरेहि भणिश्रो जाण तुमं केवलं णाणं ॥३५॥

जिनवर भगवानने सिद्ध पदको प्राप्त शुद्ध आत्माको सर्वज्ञ और सर्वदर्शी कहा है, उसे ही तुम केवलज्ञान जानो। अर्थात् केवलज्ञान आत्मरूप है। इसलिये केवल ज्ञानकी प्राप्ति शुद्धात्माकी ही प्राप्ति है।

रत्नत्रयका आराधक आत्माका ही आराधक है—

रयरात्तयं पि जोई आराहइ जो हु जिणवरमएणं ।

सो भ्णायइ अप्पायां परिहरइ परं णा संदेहा ॥३६॥

जो योगी जिनवर भगवानके द्वारा बतलाए हुए मार्गके अनुसार रत्नत्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता है और परबस्तुका त्याग करता है इसमें कोई सन्देह नहीं है।

अभेद रत्नत्रयका स्वरूप

जं जाणह तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं णेर्यं ।
तं चारित्तं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ॥३७॥

जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वही दर्शन है, और जो पुण्य और पापका परित्याग करता है वह चारित्र है। अर्थात् आत्मा ही जानता है, वही देखता है और वही त्याग करता है अतः वह स्वयं ही रत्नत्रय है।

भेदरत्नत्रयका स्वरूप

तच्चरुई सम्मत्तं तच्चग्गहणां च हवइ सण्णाणां ।
चारित्तं परिहारो पर्यपियं जिणवरिदेहिं ॥३८॥

तत्त्वोमें रुचि होनेका नाम सम्यग्दर्शन है। तत्त्वोंके स्वरूपको ठीक ठीक ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। और कर्मोंको लानेवाली क्रियाओंको त्यागना सम्यक् चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है।

इस कथनका खुलासा

इय उवएसं सारं जरमरणाहरं खु मरणणं जं तु ।
तं सम्मत्तं भणियं समणाणां सावयाणां पि ॥४०॥

इस प्रकारका उपदेशही सार भूत है और वही बुढ़ापा मरण आदि संसारिक रोगोंको हरनेवाला है, जो ऐसा मानता है उसे सम्यग्दर्शन कहा है। यह सम्यग्दर्शन मुनि और श्रावक दोनोंके लिये है।

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएणा ।
तं सण्णाणां भणियं अवियत्थं सव्वदरसीहिं ॥४१॥

जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गके अनुसार योगी जो जीव और अजीवके भेदको जानता है, उसे सर्वदर्शी परमात्माने यथार्थ सम्यग्ज्ञान कहा है।

धं जाणिक्ख जाई परिहारं कुणइ पुण्णपावाणं ।
तं चारित्तं भणियं अविवर्णं कम्मरहिण्हिं ॥४२॥

उस जीव अजीबके भेदको जानकर योगी जो पुण्य और पापका त्याग करता है उसे कर्मोंसे रहित जिनेन्द्रदेवने निर्विकल्प चारित्र कहा है ।

मोक्षको कौन प्राप्त करता है—

जो रयणात्तयजुतो कुराह तवं संजदो ससत्तीए ।

सो पावह परमपयं भायंतो अप्पयं सुद्धं ॥४३॥

जो संयमी रत्नत्रयसे युक्त होता हुआ अपनी शक्तिपूर्वक तप करता है वह शुद्ध आत्माका ध्यान करता हुआ परम पद मोक्षको प्राप्त करता है ।

मय-माय-कोहरहिओ लोहेया विवाञ्जओ य जो जीवो ।

गाम्मलसहावजुतो सो पावह उत्तमं सुक्खं ॥४५॥

जो जीव मद माया और क्रोधसे रहित है, लोभसे रहित है और निर्मल स्वभाव वाला है, वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

विसयकसाएहं जुदो रुदो परमप्पभावरहियमणो ।

सो ए लहइ सिद्धिसुहं जियामुद्दयरम्महो जीवो ॥४६॥

जो जीव विषय और कषायोंमें फँसा हुआ है, रौद्र परिणामी है, तथा जिसका मन परमात्माकी भावनासे शून्य है, वह जीव जिन मुद्रासे विमुख होनेके कारण मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता ।

जिनमुद्रा ही मोक्षका कारण है—

जियामुद्दा सिद्धिसुहं हवेइ शायमेश जियावरुद्धिट्टा ।

सिविणे वि ए रुच्चइ पुण जीवा अञ्छंति भवगहणे ॥४७॥

जिनवर भगवानके द्वारा उपदिष्ट जिन मुद्रा ही मोक्ष सुखका कारण है । जिन्हें स्वप्नमें भी यह जिनमुद्रा नहीं रुचती वे जीव संसाररूपी गहन वनमें पड़े रहते हैं ।

परमात्माके ध्यानसे कर्मनिवृत्ति

परमप्पय भायंतो जोई मुच्चेइ 'मलपलोहेया ।

शाद्दियदि एव कम्मं शिद्धिट्टं जियाचरिदेहि ।४८॥

परमात्माका ध्यान करने वाला योगी कर्मरूपी महामलके ढेरसे मुक्त हो जाता है तथा नये कर्मोंको ग्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देवने कहा है ।

होऊरा दिदचरित्तो दिदसम्मत्तेण भावियमईओ ।

भायंतो अप्पाणां परमपयं पावए जोई ॥४६॥

इस प्रकार चारित्रमें दृढ़ होकर और मनमें दृढ़ सम्यग्दर्शनकी भावना लेकर आत्माका ध्यान करने वाला योगी परमपद मोक्षको प्राप्त करता है ।

अप्पा भायंताणां दंसयासुद्धीणा दिदचरित्ताणां ।

होइ धुवं शिब्वाणां विसपसु विरत्तचित्ताणां ॥७०॥

जिनका आत्मा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है, चारित्र दृढ़ है और मन विषयोंसे विरक्त है, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निश्चयसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

जो लोग कहते हैं कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर—

'चरियाचरिया वद-समिदि-वज्जिया सुद्धभावपम्भट्टा ।

केई जंपत्ति यारा या हु कालो भाणाजोयस्स ॥७३॥

जिन्होंने कभी चारित्रका आचरण नहीं किया, जो व्रतों और समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भावोंसे शून्य हैं, ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यह काल ध्यान-योगके योग्य नहीं है ।

सम्मत्त-णाणा-रहिओ अमव्वजोवो हु मोक्खपरिसुक्को ।

संसारसुहेसु रदो या हु कालो भणइ भाणस्स ॥७४॥

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे रहित है, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता तथा जो सांसारिक सुखोंमें ही लीन रहता है, ऐसा अभव्य जीव ही यह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है ।

पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदोसु तीसु गुत्तीसु ।

सो णट्टो अरणाणी या हु कालो भणइ भाणस्स ॥७५॥

जो अज्ञानी पाँच महाव्रतोंमें पाँच समितियोंमें और तीन गुणियोंमें भ्रष्ट हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है ।

भरहे दुस्समकाले घममं भाणां हवेइ साहुस्स ।

तं अप्पसहावट्ठिदे ण हु मग्गइ सो हु अग्गणाणी ॥७६॥

भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें साधुके धर्मध्यान होता है । किन्तु वह धर्म ध्यान उसी साधुके होता है जो आत्म स्वभावमें स्थित है । जो ऐसा नहीं मानता वह भी अज्ञानी है ।

आजकल भी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं—

अज्जवि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लहइ इंदरां ।

लोर्यंतियदेवत्तं तत्थ चुया णिब्बुदिं जति ॥७७॥

आज भी रत्नत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपद और लौकान्तिक देवके पदको प्राप्त करते हैं और वहाँसे च्युत होने पर (विदेह क्षेत्रमें जन्म लेकर) मोक्ष को प्राप्त करते हैं ।

नीचे लिखे जीवोंके लिये मोक्षका नियेध

जे पावमोहियमई लिंगं वित्तूण जिणवरिंदाणां ।

पावं कुशांति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७८॥

जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनवर तीर्थङ्कर देवका जिनलिंग धारण करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमार्गसे भ्रष्ट हैं ।

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाही य जायणासीला ।

आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥७९॥

जो पाँच प्रकारके वस्त्रोंमें आसक्त हैं अर्थात् सूत, ऊन, रेशम, चमड़ा अथवा छालसे बने वस्त्रका उपयोग करते हैं, परिग्रह रखते हैं, दूसरोंसे माँगते हैं, तथा नीच कर्म करनेमें लीन हैं, वे मोक्ष मार्गके पात्र नहीं हैं ।

मोक्षके पात्र व्यक्ति

निग्गंथमोहमुक्का कावीसपरीसहा जिमकसाया ।

पावारंभविमुक्का ते गाहया मोक्खमग्गम्मि ॥८०॥

जो अन्तरंग और बाह्य परिग्रहसे रहित हैं, निर्मोही हैं, वाईस परीषहों-को सहते हैं, जिन्होंने क्रोध आदि कषायोंको जीत लिया है, तथा जो पापरूप आरम्भ नहीं करते, वे मुनि मोक्ष मार्गके पात्र हैं ।

उद्धदमञ्जलोए केई मज्झं एण अहयमेगागी ।

इय भावणाए जोई पावति हु सासयं १टाणं ॥८१॥

ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोकमें मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ । इस भावनासे योगी शाश्वत स्थान अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं ।

देवगुरुणं भत्ता शिष्वेयपरंपराविचिंतिता ।

भाणया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥८२॥

जो देव और गुरुके भक्त हैं, वैराग्यकी परम्पराका चिन्तन करते हैं, ध्यानमें लीन रहते हैं तथा जिनका चरित्र उत्तम है, वे साधु मोक्षमार्गके पात्र हैं ।

शिच्छयणयस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुरदो ।

१सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ शिष्याणं ॥८३॥

निश्चयनयका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मामें आत्माके द्वारा अच्छी तरहसे लीन आत्मा ही सम्यक् चरित्रका पालक योगी है । और वही निर्वाणको प्राप्त करता है

आत्माको जानना कठिन है—

१दुक्खं एज्जइ अप्पा अप्पा णाऊण भावणा दुक्खं ।

भावियसहावपुरिसो विसएसु १विरच्चइ दुक्खं ॥६१॥

बड़ी कठिनतासे आत्माको जाना जाता है । आत्माको जानकर उसीमें भावना होना और भी कठिन है । और आत्माकी भावना करनेवाला पुरुष भी कठिनतासे ही विषयोंसे विरक्त होता है ।

१ताव ए १एज्जइ अप्पा विसएसु शरो पवट्टए जाम ।

१विसए १विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥६६॥

१ सोक्खं ऊ० । २ जो आ०, ग० । ३ दुक्खे ग० । ४-विरच्चए ऊ०, ग० । ५ तान ऊ० । ६ एज्जरइ ग० । ७ विसयावि- आ० । ८ विरत्तो वि- ग० ।

जब तक मनुष्य त्रिषयोंमें लीन रहता है तब तक आत्माको नहीं जानता। जिसका चित्त त्रिषयोंसे विरक्त है वह योगी ही आत्माको जानता है।

अप्या णाऊण णरा केई सम्भावभावपम्भट्टा ।

हिंडंति चाउरंगे विसएसु विमोहिया मूढा ॥६७॥

विषयोंमें विमोहित हुए कुछ मूढ़ मनुष्य आत्माको जानकर भी आत्म भावनासे भ्रष्ट होनेके कारण चारगति रूप संसारमें भ्रमण करते हैं।

जे पुण विसयविरत्ता अप्या णाऊण भावणासहिया ।

छंडंति चाउरंगं तव-गुणजुत्ता ण संदेहो ॥६८॥

किन्तु जो विषयोंसे विरक्त हैं और आत्माको जानकर आत्माकी भावना भाते हैं, तथा तप और सम्यग्दर्शन आदि गुणोंसे विशिष्ट हैं, वे योगी चतुर्गतिरूप संसारको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

परमाणुपमाणां वा परद्वे रदि हवेदि मोहादो ।

सो मूढो अण्णणी आदसहावस्स विवरीदो ॥६९॥

मोहके कारण जिस मनुष्यकी परद्रव्यमें परमाणुके बराबर भी रति होती है वह मूर्ख अज्ञानी है; (क्योंकि उसका यह कार्य) आत्माके स्वभावके विपरीत है।

आत्मा ज्ञानके बिना सब क्रिया व्यर्थ है—

बाहिरसंगविसुक्को ण विमुक्को मिच्छभाव णिग्गंयो ।

किं तस्स टाणमोणां ण विजाणदि अप्पसम्भावो ॥७०॥

जो निर्ग्रन्थ साधु बाह्य परिग्रहको तो छोड़ चुका है किन्तु जिसने मिथ्यात्वको नहीं छोड़ा है, उसके कायोत्सर्ग और मौनसे क्या लाभ है जबकि वह आत्माके अस्तित्वको ही नहीं जानता।

मूलगुणां छित्तूण य बाहिरकम्मं करेइ जो साहू ।

सो ण लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंगविराहगो णियदं ॥७१॥

१ चाउरंगं ऊ० ग० । २ या ऊ० । ३ -सहावादु ग० । ४ मउयां ऊ० ।
५ -समभावं ऊ० ग० । ६ णिच्चं ऊ० ।

जो साधु मूलगुणोंका घात करके बाह्य क्रिया करता है वह मोक्ष सुखको नहीं पाता, क्योंकि वह नियमसे जिन लिंगकी विरोधना करता है ।

किं काहिदि बहिक्म्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं १तु ।

किं काहिदि आदावं आदसहावस्स विवरीदो ॥६८॥

आत्माके स्वभावसे विपरीत प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य बाह्य क्रिया क्यों करता है, क्यों अनेक प्रकारके उपवास आदि करता है और क्यों आतापन योग करता है । अर्थात् उसका यह सब करना निरर्थक है ।

जइ १पदसि बहुसुयाणि १ य जइ १काइहि बहुविहं १ च चारिरं ।

तं बालसुयं चरणं हवेइ अप्पस्स विवरीयं ॥६९॥

हे जीव ! यदि तू आत्म स्वभावके विपरीत बहुतसे शास्त्रोंको पढ़ता है, तथा अनेक प्रकारका चारित्र पालता है तो वह सब मूर्खोंका शास्त्र पठन और मूर्खोंका चारित्र है ।

वेरमापरो साहू परदव्वपरम्महो य सो होदि ।

संसारमुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु अणुरत्तो ॥१००॥

गुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू ।

भाणाज्जएसु १शिरदो सो पावइ उत्तमं टाणं ॥१०१॥

जो साधु वैराग्यमें तत्पर है, पर द्रव्यसे विमुख है, सांसारिक सुखोंसे विरक्त है और आत्मिक शुद्ध सुखमें लीन है, जिसका अंग गुणोंके समूहसे मुशोभित है, जो हेय और उपादेयका निश्चय कर चुका है तथा ध्यान और पठन पाठनमें लगा रहता है, वह साधु उत्तम स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

एविण्हि जं एविज्जइ भाइज्जइ भाइएहि अणवरयं ।

थुव्वंतेहि थुण्णज्जइ देहत्थं किं पि तं मुयाह ॥१०२॥

इसलिये नमस्कार करनेवाले जिसको नमस्कार करते हैं, ध्यान करनेवाले निरंतर जिसका ध्यान करते हैं और स्तुति करने वाले जिसका स्तवन करते हैं वह शरीरमें स्थित आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है, उसे ही जानो ।

१ च ऊ० । २ पददि ऊ० । ३ -पुयाणं आ० ग० । ४ काहिदि ऊ ग ।
५ बहुविहे य चारित्ते ऊ । ६ -रत्तो ऊ ।

आत्मा ही शरण है

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परट्टी ।

ते वि हु चिट्टिह आदे तम्हा आदा हु मे सरणां ॥१०३॥

अर्हन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी हैं, वे भी आत्मामें ही स्थित हैं अर्थात् आत्मा ही अर्हन्त सिद्ध आदि अवस्थावाला है । इसलिये निश्चयसे आत्मा ही मेरा शरण है ।

सम्मरां सएणाणां 'सच्चारिचं हि 'सत्तवं चेव ।

चउरो चिट्टिह आदे तम्हा आदा हु मे सरणां ॥१०४॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मामें ही स्थित हैं । अतः आत्मा ही निश्चयसे मेरा शरण है ।

एवं जिणपएणां मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए ।

जो पट्टइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं ॥१०५॥

इस प्रकार जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मोक्ष प्राभृतको जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है और बारम्बार चिन्तन करता है वह शाश्वत सुख (मोक्ष) को प्राप्त करता है ।

मोक्षका स्वरूप

जाइ-जर-मरणरहियं परमं कम्मट्ठवजियं सुद्धं ।

याणाइ चउसहावं अक्खयमविणासमच्छेज्जं ॥ [निय० १७६]

मोक्ष जन्म, जरा और मरणसे रहित है; उत्कृष्ट है, आठ कर्मोंसे रहित है, शुद्ध है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इन चार आत्मिक स्वभावोंसे युक्त है, क्षय रहित है, विनाश रहित है तथा अछेद्य है ।

अब्बावाहमणिंदियमखोवमं पुणएपावणिम्मुक्कं ।

पुणरागमणविरहियं णिच्चं अचलं अणालम्बं ॥ [निय० १७७]

मोक्ष बाधारहित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, पुण्य और पापसे निर्मुक्त है, पुनः संसारमें आगमनसे रहित है, नित्य है, अचल है और आलम्बन रहित है ।

ए वि दुःखं ए वि सुखं ए वि पीडा एव विजदे बाहा ।

ए वि मरणं ए वि जगणं तत्थेव य होइ शिब्बायां ॥ [नि० १७८]

जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीडा है, न बाधा है, न मरण है और न जन्म है, वहीं निर्वाण है ।

ए वि इंदिय उवसग्गा ए वि मोहो विग्घयो ए शिद्दा य ।

ए य तिएहा एव छुहा तत्थेव य ह्वदि शिब्बायां ॥ [नि० १७९]

जहाँ न तो इन्द्रियाँ हैं, न उपसर्ग है न मोह है, न आश्चर्य है, न निद्रा है न तृष्णा है, और न भूख है वहीं निर्वाण है ।

ए वि कम्मं णोकम्मं ए वि चिंता एव अट्टरुद्धाणि ।

ए वि धम्मसुक्कभाणे तत्थेव य होइ शिब्बायां ॥ [नि० १८०]

जहाँ न तो कर्म हैं, न नोकर्म हैं, न चिन्ता है, न आर्त और रौद्रध्यान हैं तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी नहीं हैं, वहीं निर्वाण है ।

विज्जादि केवलणाणं केवलसोक्खं च केवलं विरियं ।

केवलदिट्ठि अमुत्तं अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥ [नि० १८१]

मुक्तात्मामें केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, अमूर्तत्व, अस्तित्व और प्रदेशत्व, ये गुण रहते हैं ।

शिब्बाणमेव सिद्धा सिद्धा शिब्बाणमिदि समुद्दिट्ठा ।

कम्मविमुक्को अप्पा गच्छइ लोयगपज्जत्तं ॥ [नि० १८२]

मुक्तजीव ही निर्वाण है और निर्वाण ही मुक्तजीव है ऐसा कहा है । अर्थान् आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही नाम निर्वाण है इसलिये निर्वाणमें और निर्वाणको प्राप्त जीवमें कोई भेद नहीं है । जो आत्मा कर्मोंसे मुक्त होता है वह मुक्त होते ही उपर लोकके अभ्रभाग तक जाता है ।

जीवाण पुग्गलाणं गमणं जारोहि जाव धम्मत्थी ।

धम्मत्थिकायभावे तत्तो परदो ए गच्छंति ॥ [नि० १८३]

जहाँतक धर्मास्तिकाय नामका द्रव्य है वहीं तक जीव और पुद्गलोंका गमन जानो । लोकके अभ्रभावसे आगे धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका अभाव है । इसलिये उससे आगे मुक्तजीव नहीं जाते ।

समय-प्राभृत

नमस्कार पूर्वक-प्रतिज्ञा

वेदितुं सर्वासिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ।

बोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणिदं ॥१॥

मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोंको नमस्कार करके श्रुतकेवलीके द्वारा कहे हुए इस समयप्राभृतको कहूंगा ।

स्वसमय और परसमयका स्वरूप

जीवो चरित्तदंसणणाण्ठिओ तं हि ससमयं जाण ।

पोगलकम्मपदेसट्टियं च तं जाण परसमयं ॥२॥

जो जीव अपने चारित्र दर्शन और ज्ञान गुणमें स्थित है उसे स्वसमय जानो । और जो जीव पुद्गल कर्मोंके प्रदेशोंमें स्थित है, उसे परसमय जानो । अर्थात् जीवको समय कहते हैं । जो जीव अपने स्वभावमें स्थित होता है उसे स्वसमय कहते हैं और जो जीव परस्वभाव रागद्वेष मोहरूप हुआ रहता है वह परसमय कहा जाता है ।

स्वसमयकी श्रेष्ठता

एयत्तणिच्छयगदो समओ सव्वत्थ सुंदरो लोणे ।

बंधकहा एयत्ते तेण विसवादिणी होदि ॥३॥

एकत्वनिश्चयको प्राप्त समय (आत्मा) सब लोकमें सुन्दर है । अतः एकत्वमें दूसरेके साथ बंधकी कथा विसंवाद पैदा करने वाली है ।

एकत्वकी दुर्लभता

सुदपरिचिदाणुभूदा सव्वस्स वि कामभोगबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलंभो एवरि ए सुलहो विहत्तस्स ॥४॥

१ - 'कम्मबदेसट्टिदं'-ता० वृ० ।

काम भोग विषयक बन्धकी कथा सबकी ही सुनी हुई है, परिचित है और अनुभूत है। किन्तु समस्त परद्रव्योंसे भिन्न आत्माके एकत्वकी प्राप्ति सुलभ नहीं है।

एकत्वको दर्शानेकी प्रतिज्ञा

तं एयत्तविहत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण धेत्तव्वं ॥५॥

उस एकत्वविभक्त शुद्ध आत्माके स्वरूपको मैं आत्माके स्वकीय ज्ञानविभवके द्वारा दिखलाता हूँ। जो मैं दिखलाऊँ उसे प्रमाण मानना। यदि कहीं चूक जाऊँ तो दोष ग्रहण नहीं करना।

वह शुद्ध आत्मा कौन है ?

ए वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणति सुद्धं णादा जो सो उ सो चेव ॥६॥

जो यह ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और न प्रमत्त ही है। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक भावके द्वारा जान लिया गया है वह वही है दूसरा कोई नहीं है। [आशय यह है कि गुणस्थानोंकी परिपाटीके अनुसार छठे गुणस्थान तक जीव प्रमत्त कहा जाता है और सातवेंसे अप्रमत्त कहा जाता है। परन्तु ये सभी गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनी है। शुद्धनयसे आत्मा मात्र ज्ञायक है। किन्तु ज्ञायक (जाननेवाला) होने परभी उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है]।

ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं ।

ए वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥७॥

व्यवहार नयसे ज्ञानीके चारित्र दर्शन और ज्ञान ये तीन गुण कहे जाते हैं। किन्तु निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन है। ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है।

फिर व्यवहारकी आवश्यकता क्यों ?

जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदुं ।

तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥८॥

जैसे म्लेच्छ लोगोंको म्लेच्छभाषाके बिना वस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेमें कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश करना शक्य नहीं है ।

जो हि सुदेणहिगच्छदि अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।

तं सुयकेवलमिसिणो भणति लोयप्पदीवयरा ॥६॥

जो सुयणाणं सर्व्वं जाणादि सुदकेवलिं तमाहु जिणा ।

णाणं अप्पा सर्व्वं जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥१०॥

जो श्रुतज्ञानके द्वारा केवल इस एक शुद्ध आत्माको जानता है, लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उसे श्रुतकेवली कहते हैं । और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिनेन्द्र देवने श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि यतः सब ज्ञान आत्मा ही है, अतः वह जीव श्रुतकेवली है । [आशय यह है कि जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रुतकेवली है यह तो परमार्थ है । और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है । जो श्रुतसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है, वह श्रुतकेवली है, इस परमार्थका कथन अशक्य होनेसे तथा जो सर्व्व श्रुतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह व्यवहार परमार्थका प्रतिपादक होनेसे अपनाता पड़ता है ।

व्यवहार और निश्चय

ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो हु सुद्धणओ ।

भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥११॥

व्यवहारनय अभूतार्थ है और शुद्धनय भूतार्थ है, ऐसा ऋषियोंने बतलाया है । जो जीव भूतार्थका आश्रय लेता है वह सम्यग्दृष्टी है । [आशय यह है कि शुद्धनय सत्यार्थ है इसको अपनानेसे जीव सम्यग्दृष्टि हो सकता है । किन्तु इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहारमें मग्न है तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता] ।

व्यवहार और निश्चयके पात्र

सुद्धो सुद्धादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहि ।

ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमेट्टिदा भावे ॥१२॥

जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान तथा ज्ञान-चारित्रवान हो गये हैं, उनको तो शुद्ध आत्माका कथन करने वाला शुद्धनय जानने योग्य है। किन्तु जो जीव श्रद्धा ज्ञान और चारित्रकी पूर्णता तक नहीं पहुँच सके हैं और साधक दशामें स्थित हैं, वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करनेके योग्य हैं।

शुद्धनयसे जानना ही सम्यक्त्व है

भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसव-संवर-णिण्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥१३॥

भूतार्थ अर्थात् शुद्धनयसे जाने गये जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ तत्त्व सम्यक्त्व हैं। अर्थात् इन तत्त्वोंको शुद्धनयसे जान लेना सम्यग्दर्शन है।

शुद्धनयका स्वरूप

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णण्यं णियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं तं सुदण्णयं वियाणीहि ॥१४॥

जो नय आत्माको बन्ध रहित, परके स्पर्शसे रहित, अन्यसे रहित, चंचलतासे रहित, विशेषसे रहित और अन्यके संयोगसे रहित देखता है उसे शुद्धनय जानो।

जो आत्माको देखता है वह जिन शासनको देखता है—

जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अण्णणमविसेसं ।

अपदेसमुत्तमज्झं पस्सदि जिणसासणं सव्वं ॥१५॥

जो आत्माको अबद्धस्पृष्ट—द्रव्यकर्म और नोकर्मसे अछूता, अनन्य-अन्यसे रहित, अविशेष-विशेषसे रहित देखता है वह समस्त जिन-शासनको देखता है। ['अपदेस मुत्तमज्झं' का अर्थ आत्मख्यातिमें नहीं है। और तात्पर्यवृत्तिमें जो अर्थ किया है वह मेरी समझमें नहीं आया। अतः मैंने भी इस पदका अर्थ छोड़ दिया है]।

दर्शनज्ञान चारित्र आत्मरूप ही हैं—

दंसण्णायचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णिण वि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१६॥

साधुको नित्य ही दर्शन ज्ञान और चारित्रिका पालन करना चाहिये । तथा उन तीनोंको निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो । अर्थात् ये तीनों आत्मस्वरूप ही हैं । अतः निश्चयसे साधुको एक आत्माका ही सेवन करना योग्य है ।

दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण

जह गाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिकुणं सद्दहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥
एवं हि जीवराया गादव्वो तह य सद्दहेदव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

जैसे कोई धनका अर्थी मनुष्य राजाको जानकर श्रद्धा करता है, उसके पश्चात् उसकी अच्छी तरहसे सेवा करता है । इसी तरह मोक्षकी इच्छा करने वालेको जीवरूपी राजाको जानना चाहिये, फिर उसी रूपसे श्रद्धान करना चाहिये । और उसके पश्चात् उसीका अनुचरण अर्थात् अनुभवन करना चाहिये ।

आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है—

कम्मे णोकम्ममिह य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१९॥

जब तक इस आत्माकी ऐसी बुद्धि है कि ज्ञानावरण आदि कर्म और शरीर आदि नों कर्मरूप मैं हूँ, और ये कर्म नोकर्म मेरे हैं, तबतक यह आत्मा अज्ञानी है ।

ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह

अहमेदं एदमहं अहमेदस्स^१ हि अत्थि मम एदं ।
अणुणं जं परदव्वं सच्चित्तानित्तमिस्सं वा ॥२०॥
आसि मम पुव्वमेदं^२ एदस्स अहं पि आमि पुव्वं हि ।
होहिदि पुणो ममेदं^३ एदस्स अहं पि होस्सामि ॥२१॥
एयं तु असंभूदं आदवियपपं करेदि संमूदो ॥
भूदत्थं जाणंती ण कगेदि दु तं असंमूदो ॥२२॥

१ -स्सेव होमि मम-ता० वृ० । २ अहमेदं चावि पुव्वकालमिह-ता० वृ० । ३ अहमेदं चावि हो-ता० वृ० ।

जो पुरुष अपनेसे भिन्न सचित्त स्त्री पुत्र आदि, अचित्त धन्य धान्य आदि और मिश्र अर्थान् सचित्ताचित्त ग्राम नगर आदि परद्रव्यको ऐसा मानता है कि मैं यह हूँ, ये द्रव्य मुझ रूप हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, पहले ये मेरे थे, मैं भी पहले इनका था, ये आगामीमें मेरे होंगे, मैं भी आगामीमें इनका होऊँगा, वह अज्ञानी है। और जो सत्यार्थको जानता हुआ ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं करता, वह ज्ञानी है।

आचार्य अज्ञानीको समझाते हैं—

अरण्यगणमोहिदमदी मज्जमिणं भणदि पोग्गलं दव्वं ।
 बद्धमबद्धं न तथा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥
 सव्वणहुण्णदिट्ठो जीवो उवआंगलकवणो सिण्णं ।
 कह सो पोग्गलदव्वीभूदो जं भणसि मज्जमिणं ॥२४॥
 जदि सो पोग्गलदव्वीभूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 तो सत्तो वत्तुं जे मज्जमिणं पोग्गलं दव्वं ॥२५॥

जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है, वह जीव कहता है कि यह बद्ध शरीर आदि तथा अबद्ध धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य मेरा है, तथा जीव राग द्वेष मोह आदि अनेक भावोंसे सयुक्त है। आचार्य उसे समझाते हैं कि सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा जो जीव नित्य उपयोग लक्षणवाला देखा गया है, वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है जिससे तू कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? यदि जीव द्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप होजाये और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यरूप हो जाये तो तुम यह कह सकते हो कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है।

अज्ञानीकी आशंका

जदि जीवो ण सरिंरं तित्थयरायारयसंथुदी चेव ।
 सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥

अज्ञानी कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थङ्कर और आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब मिथ्या हो जाती है। [क्योंकि शरीरको लेकर ही स्तुतियाँकी जाती हैं] अतः आत्मा शरीर ही है।

उत्तर

ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ।
 ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एक्कट्ठो ॥२७॥

व्यवहारनय कहता है कि जीव और शरीर एक हैं। किन्तु निश्चय नय कहता है कि जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हैं।

इणमणं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुणित्तु मुणी ।
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥२८॥

जीवसे भिन्न इस पुद्गलमय शरीरकी स्तुति करके मुनि ऐसा मानता है कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति और वन्दना की।

तं णिच्छये ण जुज्जादि ण सरीरगुणा हि होति केवलियो ।
केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्चं केवलिं थुणदि ॥२९॥

किन्तु निश्चयमें यह ठीक नहीं है क्यों कि शरीरके गुण केवलीके गुण नहीं हैं। अतः जो केवलीके गुणोंकी स्तुति करता है वही वास्तवमें केवलीकी स्तुति करता है।

णयरम्मि वण्णदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होति ॥३०॥

जैसे नगरका वर्णन करनेसे राजाका वर्णन नहीं हो जाता। वैसे ही शरीरके गुणोंका स्तवन करनेसे केवलिके गुणोंका स्तवन नहीं होता।

निश्चय स्तुति

जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ।
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छदा साहू ॥३१॥

जो इन्द्रियोंको जीतकर आत्माके ज्ञान स्वभाव होनेसे उसे अन्य द्रव्योंसे विशिष्ट मानता है, निश्चय नयमें स्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहते हैं।

जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधिअं मुणइ आदं ।
तं जिदमोहं साहुं परमट्टवियाणया षिंति ॥३२॥

जो मोहको जीतकर ज्ञानस्वभाव होनेसे आत्माको अन्य द्रव्योंसे विशिष्ट मानता है, परमार्थके जाननेवाले साधु उस साधुको जितमोह कहते हैं।

जिदमोहस्स तु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स ।
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविट्ठीहिं ॥३३॥

और मोहको जीतनेवाले साधुका जब मोह क्षीण-नष्ट हो जाता है, निश्चयको जाननेवाले तब उसे क्षीणमोह कहते हैं ।

प्रत्याख्यानका स्वरूप

'सर्वे भावा जम्हा पञ्चक्खाई परेत्ति णादूणं ।
तम्हा पञ्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेदव्वं ॥३४॥

यतः अपने सिवाय अन्य सभी पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान अर्थान् त्याग करता है । अतः प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियमसे जानना अर्थान् अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्थाका नाम ही प्रत्याख्यान है ।

दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण

जह णाम को वि पुरिसो परदव्वामणं ति जाणितुं चयदि ।
तह सर्वे परभावे णाऊण विमुं चदे णाणी ॥३५॥

जैसे कोई पुरुष परवस्तुको 'यह परवस्तु है' ऐसा जानकर छोड़ देता है । उसी तरह ज्ञानी समस्त पर भावोंको 'यह परभाव है' ऐसा जानकर छोड़ देता है ।

निर्ममत्वका स्वरूप

एत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवञ्चोण एव अहमिक्को ।
तं मोहणम्ममनं समयस्स विद्याणया विंति ॥३६॥

जो ऐसा जानता है कि मोह मेरा कोई भी नहीं है; मैं एक उपयोग-रूप ही हूँ; ऐसे जाननेको, सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके जाननेवाले मोहसे निर्ममत्व कहते हैं ।

एत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवञ्चोण एव अहमिक्को ।
तं धम्मणम्ममनं समयस्स विद्याणया विंति ॥३७॥

जो ऐसा जानता है कि धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं एक उपयोग-रूप ही हूँ, ऐसे जाननेको सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके ज्ञाता धर्म-द्रव्यके प्रति निर्ममत्व कहते हैं ।

१ 'णाणं सर्वे भावे पञ्चक्खादि य परेत्ति णादूणं'-ता० वृ० ।

उपसंहार

अहमिको खलु सुद्धो दंसणणाणमइओ सदाऽरूवी ।
ए वि अत्थि मज्झ किंचि वि अरणं परमाणुमित्तं पि ॥३८॥

ज्ञानी आत्मा ऐसा जानता है कि निश्चयसे मैं एक हूँ, दर्शन ज्ञानमय
हूँ । कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ।

जीव-अजीव अधिकार

जीवके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएँ

अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
जीवमज्झवसाणं कम्मं च तथा परुविति ॥३९॥
अवरे अज्झवसाणोसु तिव्वमंदाणुभागं जीवं ।
मयणंति तथा अवरे णोकम्मं चावि जीवो त्ति ॥४०॥
कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति ।
तिव्वत्तण-मंदत्तणगुणोहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
जीवो कम्मं उहयं दोणिण वि खलु केइ जीवमिच्छंति ।
अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
ते ए' परमट्टवाइणो णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥४३॥

आत्माको नहीं जानते हुए, परको आत्मा कहनेवाले कोई मूढ़
अज्ञानी अध्यवसान को और कोई कर्मको जीव कहते हैं । दूसरे कोई
अध्यवसानमें तीव्र मन्द अनुभागगतको जीव मानते हैं । अन्य कोई
नोकर्मको जीव मानते हैं । अन्य कोई कर्मके उदयको जीव मानते हैं ।
कोई कर्मका अनुभाग जो तीव्रता या मन्दता गुणको लिये हुए होता है,

उसे जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुआओंको जीव मानते हैं। दूसरे कोई कर्मोंके संयोगसे ही जीव मानते हैं। इस प्रकार तथा अन्य अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि लोग परको आत्मा कहते हैं। वे परमार्थ-वादी अर्थान् सत्य अर्थका कथन करनेवाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियोंने कहा है।

उक्त कथन करनेवाले सत्यवादी क्यों नहीं हैं ?

एए सव्वे भावा पांगलदव्वपरिणामणिण्णएणा ।

केवलजिणेहि भाण्णदा कह ते जीवो ति बुच्चति ॥४४॥

उपर कहे गये अध्यवसान आदि सभी भाव पुद्गल त्रयके परिणामसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवलज्ञानी जिनेन्द्रदेवने कहा है। उनको जीव कैसे कह सकते हैं ?

अध्यवसान आदि भी पौद्गलिक हैं—

अट्टावहं पि य कम्मं सव्वं पोमालमयं जिणा बिंति ।

जस्स फलं तं बुच्चइ दुक्खं ति विपच्चमःणस्स ॥४५॥

जिनेन्द्र देवने कहा है कि आठ प्रकारके सभी कर्म पौद्गलिक हैं। तथा पककर उदयमें आने वाले उस कर्मका फल दुःख है, ऐसा कहा है। आशय यह है कि अध्यवसान आदि भावोंको उत्पन्न करने वाले कर्म पौद्गलिक हैं और पौद्गलिक कर्मोंका फल दुःख है। अतः अध्यवसान आदि भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं।

व्यवहारसे ही उन्हें जीव कहा है—

ववहारस्स दरीसणमुवणसो वरिण्णदो जिणवरेहि ।

जीवा एदे सव्वे अज्जभवसाणादत्थो भावा ॥४६॥

ये सब अध्यवसानादिक भाव जीव हैं, ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश दिया है, वह व्यवहार नयका मत है।

व्यवहारनयका उदाहरण

राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

ववहारेण दु बुच्चिदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥४७॥

एमेव य व्यवहारो अज्भवसाणादि अरणभावाणं ।
जीवो त्ति कदो मुत्ते तत्थेक्को णिच्छिदो जीवो ॥४८॥

जैसे राजा निकला, यहाँ व्यवहारनयसे सेनाके समुदायको 'राजा निकला' ऐसा कहाजाता है । वास्तवमें राजा तो एक ही निकला है । इसी प्रकार परमागममें अध्यवसान आदि भावोंको, ये जीव हैं, ऐसा जो कहा है वह व्यवहारसे कहा है, निश्चयसे तो जीव एक है ।

जीवका स्वरूप

अरसमरुवमगंधं अक्वत्तं चेदणागुणमसहं ।

जाण अलिगग्गहणं जीवमाणिहिट्टुसंटाणं ॥४९॥

जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, इन्द्रियोंके अगोचर और अनियत आकारवाला जानो ।

उक्त कथनका खुलासा

जीवस्स णत्थि वण्णो ण वि गंधो ण वि रसो ण वि य फासो ।

ण वि रूवं ण सरीरं ण वि संटाणं ण संहणणं ॥५०॥

जीवस्स णत्थि रागो ण वि दोसो शेव विज्जदे मोहो ।

णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥५१॥

जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा शेव फट्ठया केई ।

णो अज्भप्पट्टाणा शेव य अणुभायटाणाणि ॥५२॥

जीवस्स णत्थि केई जियट्टाणा ण बंधटाणा वा ।

शेव य उदयट्टाणा ण मग्गणट्टाणया केई ॥५३॥

णो ठिदिबंधट्टाणा जीवस्स ण संकिलेसटाणा वा ।

शेव विसोहिट्टाणा णो संजमलाद्धिटाणा वा ॥५४॥

शेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।

जेण दु एदे सब्बे पोग्गलदब्बस्स परिणामा ॥५५॥

जीवके वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संहनन भी नहीं है । तथा जीवके राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आस्रव भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और नोकर्म भी नहीं है । जीवके वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्द्धक भी नहीं है, न अध्यवस्थान है और न अनुभाग

स्थान ही हैं। जीवके न कोई योगस्थान है, न बन्धस्थान है, न उदय-स्थान है और न कोई मार्गस्थान है। जीवके न स्थितिबन्धस्थान है, न संक्लेश स्थान है, न विशुद्धि स्थान है, न संयमलब्धिस्थान है, न जीवस्थान है, और न गुणस्थान है, क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं।

ववहारेण तु एदे जीवस्स हवन्ति वरणमादीया ।

गुणटाणांता भावा ण तु केई णिच्छयणयस्स ॥५६॥

ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नयसे तो जीवके हैं। परन्तु निश्चयनयसे इनमेंसे कोई भी भाव जीवका नहीं है।

ये भाव जीवके क्यों नहीं हैं ?

एएहि य संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो ।

ए य हुंति तस्स ताणि तु उवञ्चोगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥

इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध और जलके सम्बन्धकी तरह ही जानना चाहिये। किन्तु वे जीवके नहीं हैं; क्योंकि जीवमें उनसे उपयोग गुण अधिक है, अर्थात् उन भावोंमें जानना देखना-पना नहीं है, किन्तु जीवमें है। इसलिये जीव उनसे भिन्न है।

व्यवहार और निश्चयमें अविरोध

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भण्णति ववहारी ।

मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥५८॥

तह जीव कम्माराणं णोकम्माराणं च पस्सिदु वयणं ।

जीवस्स एस वरणो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५९॥

एवं गंधरसफासरूवा देहो संठारणमाइया जे य ।

सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥६०॥

जैसे मार्गमें चलनेवालोंको लुटता देखकर व्यवहारी लोग कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है। किन्तु कोई मार्ग लुटता नहीं है, जानेवाले लोग ही लुटते हैं। इसी तरह जीवमें कर्म और नोकर्मोंका वर्ण देखकर 'यह जीवका वर्ण है' ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है। इसी प्रकार जो गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर और संस्थान वगैरह हैं, वे सब व्यवहारसे जीवके हैं, ऐसा निश्चयनयके दृष्टा पुरुष कहते हैं।

तस्य भवे जीवाणं संसारत्यागं होति वरणादी ।
संसारपमुक्कारणं गत्यि ह्य वरणादत्रो केई ॥६१॥

वे वर्ण आदि भाव संसारमें स्थित जीवोंके संसार अवस्थामें ही होते हैं । संसारसे मुक्त हुए जीवोंके कोई भी वर्ण आदि भाव नहीं होता ।

जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव ति मयणसे जदि हि ।
जीवसाजीवस्स य गत्यि विसेसो दु वे कोई ॥६२॥

ये सब वर्ण आदि भाव जीवरूप ही हैं, यदि ऐसा तू मानता है तो तेरे मतमें जीव और अजीवमें कोई भेद नहीं रहता ।

अह संसारत्याणं जीवाणं तुष्म होंति वरणादी ।
तम्हा संसारत्या जीवा रुवित्तमावणणा ॥६३॥
एवं पोग्गलदब्बं जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।
खिण्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥६४॥

अथवा यदि तेरा मत है कि संसारमें स्थित जीवोंके वर्णादि होते हैं तो संसारी जीव रूपीपनेको प्राप्त हुए कहलाये । ऐसी स्थितिमें पुद्गलके लक्षणके समान ही जीवका लक्षण होनेसे हे मूढ़ बुद्धि ! पुद्गल द्रव्य ही जीव हुआ । तथा निर्वाण प्राप्त होनेपर भी पुद्गल ही जीवपनेको प्राप्त हुआ कहलाया । आशय यह है कि यदि ऐसा माना जाये कि संसार अवस्थामें जीव वर्णादिवाला है तो वर्णादिमान होना तो पुद्गलका लक्षण है । अतः पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य ठहरा । ऐसी स्थितिमें मोक्ष भी पुद्गलको ही हुआ । इससे मोक्षमें भी पुद्गल ही जीव ठहरा, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । अतः जीव वर्णादिवाला नहीं है ।

जीवसमास जीव नहीं है—

एक्कं च दोण्णिण तिण्णिण य चत्तारि य पंच इंदिद्या जीवा ।
बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ गामकम्मस्स ॥६५॥
एदेहि य खिण्वत्ता जीवट्टाणाओ करणभूदाहिं ।
पयडीहिं पोग्गलमईहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवो ॥६६॥

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौहन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव तथा बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये सब नामकर्मकी प्रकृतियां हैं । इन

करणभूत पुद्गलमयी प्रकृतियोंके द्वारा जीवस्थानोंकी रचना हुई है।
अतः उनके द्वारा जीव कैसे कहा जा सकता है ?

पञ्जत्तापञ्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव ।
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥

आगममें जो देहकी पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म वादर अदि जिन
संज्ञाओंको जीवसंज्ञा रूपसे कहा है वह सब व्यवहारसे कहा है।

गुणस्थान जीव नहीं है—

मोहणकम्मस्सुदयादु वण्णया जे इमे गुणट्ठाणा ।
ते कह हवन्ति जीवा जे शिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥

मोहनीय कर्मके उदयसे जो ये गुणस्थान कहे गये हैं; जिन्हें सदा
अचेतन कहा है, वे जीव कैसे हो सकते हैं।

—:०:—

कर्तृकर्माधिकार

जीवके कर्मबन्ध कैसे होता है ?

जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोएहं पि ।
अरणाया ताव तु सो कोहाइमु वट्टदे जीवो ॥६९॥
कोहाइमु वट्टं तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।
जीवस्सेवं बंधो भण्णिदो खलु सव्वदरसीहिं ॥७०॥

जीव जब तक आत्मा और आस्त्रव, इन दोनोंके विशिष्ट भेदको नहीं
जानता तब तक वह अज्ञानी हुआ क्रोध आदिमें प्रवृत्ति करता है। क्रोध
आदिमें प्रवृत्ति करते हुए उस जीवके कर्मोंका संचय होता है। इस प्रकार
सर्वज्ञ देवने जीवके कर्मका बन्ध कहा है।

बन्धका निरोध कब होता है ?

जइया इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।
णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥७१॥

जब यह जीव आत्मा और आस्त्रवके विशिष्ट अन्तरको जान लेता है । तब उसके बन्ध नहीं होता ।

जानने मात्रसे बन्धका निरोध कैसे होता है ?

णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभावं च ।
दुःखस्स कारणं ति य तदो गियत्ति कुण्णदि जीवो ॥७२॥

आस्त्रवोंका अशुचिपना, विपरीतपना और 'ये दुःखके कारण हैं' ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है, अर्थात् उनमें प्रवृत्ति नहीं करता ।

आस्त्रवोंसे निवृत्तिका उपाय

अहमिष्को खलु सुद्धो णिम्ममओ णाण-दंसणसमग्गो ।
तम्हि ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदे खयं शेमि ॥७३॥

ज्ञानी जीव विचारता है कि निश्चयसे मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ, ज्ञान और दर्शनसे पूर्ण हूँ । अपने इस स्वभावमें स्थित होकर उसीमें लीन होता हुआ मैं इन सब आस्त्रवोंको क्षय कर देता हूँ ।

जीवणिवद्धा एदे अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।
दुःखा दुःखफला त्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं ॥७४॥

ये आस्त्रव जीवके साथ निबद्ध हैं, अधुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुःख रूप हैं और उनका फल दुःख ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्ति करता है ।

आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।
ए करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७५॥

जो आत्मा इस कर्मके परिणामको, उसी तरह नोकर्मके परिणामको नहीं करता, परन्तु जानता है, वह ज्ञानी है ।

ज्ञानी पररूप परिणामन नहीं करता—

ए वि परिणमदि ए गियहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।
णाणी जाणतो वि हु पोगालकम्मं अणोयविहं ॥७६॥

ज्ञानी अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। आशय यह है कि ज्ञानी पुद्गल कर्मोंको जानता तो है परन्तु पुद्गलके साथ उसका कर्तापना या कर्मपना नहीं है न पुद्गलकर्म जीवका कार्य है और न जीव उसका कर्ता है।

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

एणणी जाणंतो वि हु सगपरिणामं अणोयविहं ॥७७॥

ज्ञानी अनेक प्रकारके अपने परिणामोंको जानता हुआ भी न तो परद्रव्य की पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे गृहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है।

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

एणणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥७८॥

ज्ञानी पुद्गलकर्मोंके अनन्त फलोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है।

पुद्गल कर्मका भी जीवके साथ कर्ता-कर्मभाव नहीं है—

ए वि परिणमदि ए गिरहदि उप्पज्जदि ए परदव्वपज्जाए ।

पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमइ सएहि भावेहि ॥७९॥

इसी तरह पुद्गलद्रव्य भी न तो परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणामन करता है, न उसे ग्रहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। किन्तु अपने भावरूपसे ही परिणामता है।

जीव और पुद्गलका परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र है—

जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥८०॥

ए वि बुद्धदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अणोसणणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोसहंपि ॥८१॥

एदेष कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुग्गलकम्मकदायां ए दु कत्ता सम्भवावायां ॥८२॥

जीवके परिणामके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणामन करते हैं। उसी तरह पुद्गल कर्मके निमित्तसे जीव भी परिणामन करता है। न तो जीव कर्मके गुणोंको करता है, उसी प्रकार न कर्म जीवके गुणोंको करते हैं। परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो। इस कारणसे आत्मा अपनेही भावसे कर्ता कहाता है, किन्तु वह पुद्गलकर्मके द्वारा किये हुए समस्त भावोंका कर्ता नहीं है।

निश्चयसे आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता भोक्ता है—

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८३॥

इस प्रकार निश्चयनयके अनुसार आत्मा अपनेको ही करता है और फिर अपनेको ही भोगता है, ऐसा जानो।

और व्यवहारसे

ववहारस्स दु आदा पोगलकम्मं करेइ गेयविहं ।

तं चेव पुणो वेयइ पोगलकम्मं अणेयविहं ॥८४॥

व्यवहारनयके अनुसार आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गलकर्मोंको करता है और फिर उन्हीं अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंको भोगता है।

उक्त व्यवहारमें दूषण

जदि पुगलकम्ममिणं कुव्वदि तं चेव वेदयदि आदा ।

दोकिरियाविदिरत्तो पसजदि सो जिणावमदं ॥८५॥

यदि आत्मा इस पुद्गल कर्मको करता है और उसीको भोगता है तो वह आत्मा स्व और पररूप दो क्रियाओंसे अभिन्न ठहरता है और यह बात जिन सम्मत नहीं है। [आशय यह है कि दो द्रव्योंकी क्रियाएँ भिन्न ही होती हैं—चेतनकी क्रिया जड़ नहीं कर सकता और जड़की क्रिया चेतन नहीं कर सकता। जो एकही द्रव्यमें दोनों क्रियाएँ मानता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं है]

दो क्रियावादी मिथ्यादृष्टि क्यों है ?

जम्हा दु अत्तभावं पुगलभावं च दो वि कुव्वंति ।

तेण दु मिच्छादिट्ठी दोकिरियावादिणो हुंति ॥८६॥

यतः दो क्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा आत्माके भावको और पुद्गलके भावको दोनोंको ही करता है । इसलिये वे मिथ्यादृष्टि हैं ।

उसीका विशेष कथन

मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥

मिथ्यात्वके दो प्रकार हैं—एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व । उमी तरह अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोध आदि ये सभी भाव जीव और अजीवके भेदसे दो दो प्रकारके हैं ।

पोगलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अण्णाणमज्जीवं ।

उवओगो अण्णाणं अविरइ मिच्छं च जीवो त्ति ॥८८॥

पुद्गल कर्मरूप जां मिथ्यात्व योग अविरति और अज्ञान हैं वे अजीव हैं और उपयोगरूप जो अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व हैं, वह जीव है ।

उवओगस अण्णं परिणामा तिण्ण मोहजुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो य णायव्वो ॥८९॥

अनादिकालसे मोहसे युक्त उपयोगके, मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति-भाव ये तीन अनादि परिणाम जानने चाहियें ।

उक्त तीनों परिणामोंका कर्ता आत्मा है—

एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥९०॥

यद्यपि यथार्थमें वह उपयोग शुद्ध और निरंजन भावरूप है, किन्तु मिथ्यात्व अज्ञान और अविरतिको निमित्त मिलनेसे तीन प्रकारका है । इनमेंसे उपयोगरूप आत्मा जिस भावको करता है वह उसीका कर्ता होता है ।

जं कुण्णदि भावमादा कत्ता सो ह्योदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे त्तिह सयं पोगलं दव्वं ॥९१॥

आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता है । उसके कर्ता होनेपर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणामन करता है ।

अज्ञानसे कर्मोंकी उत्पत्ति होती है—

परमप्पाणं कुब्बं अप्पाणं पि य परं करितो सो ।

अग्णाणमश्चो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥६२॥

परको अपना करता हुआ और अपनेको पर करता हुआ वह जीव अज्ञानी है । वह अज्ञानी जीव कर्मोंका कर्ता होता है ।

ज्ञानसे कर्मोंकी उत्पत्ति नहीं होती—

परमप्पाणमकुब्बं अप्पाणं पि य परं अकुब्बंतो ।

सो णाणमश्चो जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥६३॥

परको अपना नहीं करता हुआ और अपनेको भी परका नहीं करता हुआ जीव ज्ञानी है । वह ज्ञानी जीव कर्मोंका कर्ता नहीं होता ।

अज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं ?

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेदि कोहोऽहं ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६४॥

मिथ्यात्व अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका उपयोग 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा आत्म विकल्प करता है । उससे वह आत्मा उस उपयोग-रूप आत्म भावका कर्ता होता है ।

तिविहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेद् धम्मादि ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥६५॥

तीन प्रकारका यह उपयोग 'मैं धर्म द्रव्य आदि हूँ' ऐसा आत्मविकल्प करता है । उससे वह आत्मा उस उपयोगरूप आत्मभावका कर्ता होता है ।

एवं पराणि दब्बाणि अप्पयं कुण्दि मंदबुद्धीओ ।

अप्पाणं अवि य परं करेदि अग्णाणभावेण ॥६६॥

इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भावसे परद्रव्योंको अपना करता है और अपनेको परका करता है ।

एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाण्दि सो मुंच्दि सब्बक्त्तित्तं ॥६७॥

उक्त कारणसे निश्चयको जाननेवाले ज्ञानियोंने उस आत्माको कर्ता कहा है। जो ऐसा जानता है वह सब कर्तृत्वको छोड़ देता है। [सारांश यह है कि अज्ञानी अवस्थामें ही परद्रव्यका कर्तृत्व बनता है। ज्ञानी होनेपर परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता।]

ववहारेण तु आदा करेदि घटपडरथाणि दव्वाणि ।

करणाणि य कम्माणि य गांकम्माणीह विविहाणि ॥६८॥

व्यवहारसे इस लोकमें ऐसा माना जाता है कि आत्मा घट, पट रथ आदि वस्तुओंको तथा इन्द्रियोंको और अनेक प्रकारके कर्मों और नोकर्मोंको करता है।

उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है—

जाद सो परदव्वाणि य करिज्ज गियमेण तम्मआो होज ।

जम्हा ण तम्मआां तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥६९॥

यदि आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह नियमसे परद्रव्यमय हो जाय। परन्तु यतः वह परद्रव्यमय नहीं होता इसलिये वह उनका कर्ता नहीं है।

जीवो ण करेदि घटं रोव पडं रोव सेसगे दव्वे ।

जोगुवआंगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥१००॥

जीव न घटको करता है, न पटको और न शेष द्रव्योंको ही करता है। किन्तु जीवके योग और उपयोग घटादिकी उत्पत्तिमें निमित्त होते हैं और उनका कर्ता जीव है।

जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा हीति णाणआवरणा ।

ए करेदि ताणि आदा जो जाणादि सो हवदि णाणी ॥१०१॥

जो पुद्गल द्रव्योंके परिणाम ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उनको आत्मा नहीं करता। जो ऐसा जानता है वह ज्ञानी है।

अज्ञानी भी पर भावका कर्ता नहीं है—

जं भावं सुहममुडं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०२॥

आत्मा जिस शुभ या अशुभ भावको करता है वह उसका कर्ता होता

है और वह भाव उसका कर्म होता है । तथा वह, आत्मा उस भावका भोक्ता होता है ।

कोई द्रव्य पर भावको नहीं कर सकता—

जो जम्हि गुणे दव्वे सो अरणम्हि दु ण संकमदि दव्वे ।

सो अरणमसंकतो कह तं परिणामए दव्वं ॥१०३॥

जो द्रव्य जिस द्रव्यमें और गुणमें रहता है वह अन्य द्रव्य और अन्य गुणमें संक्रमण नहीं करता अर्थात् वह अपने स्वभाव और गुणको छोड़कर अन्य द्रव्य और अन्य गुणरूप नहीं बदलता । उस प्रकार अन्यरूपमें संक्रान्त नहीं होता हुआ वह द्रव्य अन्य द्रव्यको कैसे परिणामा सकता है । सारांश यह है कि द्रव्यका जो स्वभाव है उसे कोई भी बदल नहीं सकता । प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादामें ही रहता है ।

अतः आत्मा पुद्गल कर्मका कर्ता नहीं है—

दव्वगुणस्स य आदा ण कुणदि पोग्गलमयम्हि कम्मम्हि ।

तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥

आत्मा पुद्गलमय कर्ममें द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता । उन दोनोंको नहीं करते हुए वह उसका कर्ता कैसे हो सकता है ?

आत्माको पुद्गल कर्मका कर्ता कहना उपचार मात्र है—

जीवम्हि हेतुभुदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भएणदि उवयारमत्तेण ॥१०५॥

जीवके निमित्तभूत होनेपर पुद्गलोंके कर्मबन्धरूप परिणामको देखकर उपचारमात्रसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मको किया' ।

दृष्टान्त द्वारा उपचारका स्पष्टीकरण

जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे लोगो ।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥

सैनिकोंके द्वारा युद्ध करने पर लोग ऐसा कहते हैं कि राजाने युद्ध किया । उसी प्रकार व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि जीवने ज्ञानावरण आदि कर्म किये ।

व्यवहार नयका वक्तव्य

उष्पादेदि करेदि य बंधादि परिणामएदि गिरहदि य ।

आदा पोमालदव्वं ववहारणयस्स वत्तव्वं ॥१०७॥

आत्मा पुद्गलद्रव्यको उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणामाता है और प्रहण करता है, यह व्यवहार नयका कथन है ।

जह राया ववहारा दोसगुणुष्पादगो त्ति आलविदो ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुष्पादगो भग्गिदो ॥१०८॥

जैसे राजाको व्यवहारसे प्रजाके दोषों और गुणोंका उत्पादक कहा जाता है वैसे ही जीवको व्यवहारसे पुद्गलके द्रव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है ।

सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं आविरमणं कसाय-जोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥

तेसिं पुणो वि य इमो भग्गिदा भेदो दु तेरसवियप्पो ।

मिच्छादिट्ठीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥

एदे अचेदणा खलु पोमालकम्मदयसंभवा जम्हा ।

ते जादि करंति कम्मं ण वि तेसिं वेदगो आदा ॥१११॥

गुणमण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जम्हा ।

तम्हा जीवोऽकत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥११२॥

सामान्यसे चार प्रत्यय (कर्मबन्धके कारण) बन्धके कर्ता कहे जाते हैं। वे मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग जानने । फिर उन चारोंके भी तेरह भेद कहे हैं । वे तेरह भेद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगके-वली गुणस्थान तक तेरह गुणस्थान हैं । ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान अचेतन हैं, क्योंकि पुद्गल कर्मके उदयसे होते हैं । यदि वे कर्मको करते हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं है । और यतः ये गुणस्थान नामवाले प्रत्यय कर्मको करते हैं, अतः जीव कर्मका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान ही कर्मको करते हैं ।

जीव और प्रत्यय एक नहीं हैं—

जह जीवस्स अण्णणुवन्नोगो कोहो वि तह जादि अण्णणो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमण्णणत्तमावण्णं ॥११३॥

एवमिह जो दु जीवो सो चेव दु शियमदो तहाऽजीवो ।
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणो कम्मकम्माणं ॥११४॥

अह पुण अणो कोहो अणुवओगप्पगो हवदि चेदा ।
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णो कम्ममवि अणं ॥११५॥

जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं वैसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य है अर्थात् एक रूप है तो ऐसी स्थितिमें जीव और अजीव अनन्य ठहरते हैं । और ऐसा होनेपर इस जगतमें जो जीव है वही नियमसे अजीव ठहरा । प्रत्यय, कर्म और नोकर्मको भी एक मानने पर यही दोष आता है । इस दोषके भयसे यदि तेरे मतमें क्रोध अन्य है और उपयोगस्वरूप आत्मा अन्य है तो जैसे क्रोध आत्मासे अन्य है वैसे ही प्रत्यय कर्म और नोकर्म भी आत्मासे अन्य ही हैं ।

पुद्गल द्रव्य परिणामी है—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
जइ पुगल दव्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥
कम्मइयवग्गणासु अप्परिणमंतीसु कम्मभावेण ।
संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमअं वा ॥११७॥
जीवो परिणामयदे पोगलदव्वाणि कम्मभावेण ।
ते सयमपरिणमंते कहां गु परिणामयदि चेदा ॥११८॥
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोगलं दव्वं ।
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११९॥
शियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पोगलं दव्वं ।
तह तं णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥१२०॥

यदि ऐसा माना जाये कि यह पुद्गलद्रव्य जीवमें स्वयं नहीं बंधा और न स्वयं कर्मरूप परिणत होता है तो वह अपरिणामी ठहरता है । तथा कर्मण वर्गणाओंके कर्मरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव का प्रसंग आता है अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है । यदि ऐसा माना जाता है कि जीव पुद्गल द्रव्योंको कर्मरूपसे परिणमाता है तो यह प्रश्न पैदा होता है कि स्वयं परिणमन न करते हुए पुद्गलद्रव्योंको जीव कैसे परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है कि पुद्गलद्रव्य स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमन करता है तो जीव पुद्गल द्रव्यको कर्मरूपसे परि-

णमाता है यह कथन मिथ्या ठहरता है। अतः नियमसे कर्मरूप परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही कर्मरूप होता है। तथा ज्ञानावरणरूपसे परिणत हुआ पुद्गलद्रव्य ही ज्ञानावरण आदि है ऐसा जानो।

जीव भी परिणामी है—

ण सयं बद्धो कस्मै ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।
 जइ एम तुब्भं जीवो अपपरिणामी तदा होदि ॥१२१॥
 अपपरिणमतंभिह सयं जीवे कोहादिएहि भावेहिं ।
 संसारस्स अभावो पसज्जदे संवसमञ्चो वा ॥१२२॥
 पोगलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।
 तं सयमपरिणमतं कइं णु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥
 अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एम दे बुद्धी ।
 कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥
 कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
 माउवजुत्तां माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥

जीव स्वयं कर्मसे नहीं बंधा और न स्वयं क्रोधादिरूपसे परिणमन करता है, यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपपरिणामी ठहरता है। और स्वयं जीवके क्रोध आदि भावरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभावका प्रसंग आता है अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है। पुद्गल-कर्म क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता है यदि ऐसा मानते हो तो यह प्रश्न होता है कि स्वयं परिणमन नहीं करते हुए जीवको क्रोध कैसे परिणमा सकता है? अथवा आत्मा स्वयं क्रोधरूपसे परिणमन करता है, यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि है तो क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता है यह कथन मिथ्या ठहरता है। अतः क्रोधसे उपयुक्त अर्थान् क्रोधरूप परिणत आत्मा ही क्रोध है, मानरूप परिणत आत्मा ही मान है, मायारूप परिणत आत्मा ही माया है और लोभरूप परिणत आत्मा ही लोभ है।

ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
 णाणिस्स दु णाणमञ्चो अण्णाणमञ्चो अण्णाणिस्स ॥१२६॥

आत्मा जिस भावको करता है वह उस भावका कर्ता होता है। ज्ञानीका तो भाव ज्ञानमय होता है और अज्ञानीका भाव अज्ञानमय होता है।

ज्ञानमय और अज्ञानमय भावका कार्य

अण्णाणमश्चो भावो अण्णाणिणो कुण्दि तेण कम्माणि ।
णाणमश्चो णाणिस्स दु ण कुण्दि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥

अज्ञानीका भाव अज्ञानमय होता है इसलिये वह कर्मको करता है। और ज्ञानीका भाव ज्ञानमय होता है इसलिये ज्ञानी कर्मको नहीं करता।

ज्ञानीके ज्ञानमय और अज्ञानीके अज्ञानमय भाव होनेमें हेतु

णाणमया भावाश्चो णाणमश्चो चेव जायण भावो ।
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा हु णाणमया ॥१२८॥
अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायण भावो ।
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अण्णाणिस्स ॥१२९॥

यतः ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है अतः ज्ञानीके सब भाव ज्ञानमय होते हैं। और यतः अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही भाव होते हैं अतः अज्ञानीके भाव अज्ञानमय होते हैं।

दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन

कण्यमया भावादो जायंते कुण्डलादयो भावा ।
अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी ॥१३०॥
अण्णाणमया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जायंते ।
णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तद्दा होति ॥१३१॥

जैसे सुवर्णमय पदार्थसे सुवर्णमय कुण्डल वगैरह भाव उत्पन्न होते हैं और लोहमय पदार्थसे लोहमय बड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अज्ञानीके अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं और ज्ञानीके सब भाव ज्ञानमय होते हैं।

अपने अज्ञानमय भावोंका हेतु जीव स्वयं है—

अण्णाणस्स स उदश्चो जा जीवाणं अतच्चउवलद्धी ।
मिच्छत्तस्स दु उदश्चो जीवस्स असद्दहाणत्तं ॥१३२॥

उदश्रो असंजमस्स तु जं जीवाणं हवेह अविरमणं ।
 जो दु कलुसोवओगो जीवाणं सो कसाउदश्रो ॥१३३॥
 तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।
 सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥१३४॥
 एदेसु हेदुभूदेसु कम्मइयवग्गाणायं जं तु ।
 परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादि भावेहिं ॥१३५॥
 तं खलु जीवणिवद्धं कम्मइयवग्गाणायं जइया ।
 तइया तु होदि हेदू जीवो परिणामभावाणं ॥१३६॥

जीवोंको जो तत्त्वका अज्ञान है यह अज्ञानका उदय है। जीवको जो तत्त्वका अश्रद्धान है यह मिथ्यात्वका उदय है। जीवोंका जो अविरमण अर्थात् अत्याग भाव है यह असंयमका उदय है। जीवोंका जो क्लुपित उपयोग है यह कपायका उदय है। जीवोंके जो शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह है उसे योगका उदय जाना। इन उदयोंके हेतुभूत होनेपर जो कर्मणवर्गणारूपसे आया हुआ पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरण आदि भावसे आठ प्रकार परिणामन करता है, वह कर्मणवर्गणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे बंधता है तब जीव अपने अज्ञानरूप परिणामोंका हेतु होता है। [आशय यह है कि मिथ्यात्व आदिका उदय पुद्गलका परिणाम है। उस उदयका निमित्त मिलनेपर कर्मणवर्गणारूप पुद्गल स्वयं कर्मरूप परिणामन करते और जीवके साथ बंधते हैं। तथा उस समय जीव स्वयं ही अश्रद्धान आदि रूपसे परिणामन करता है।

पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न है —

बइ जीवेण सह चिय पोगलदव्वस्स कम्मपरिणामो ।
 एवं पोगलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावग्णा ॥१३७॥
 एकस्स तु परिणामो पोगलदव्वस्स कम्मभावेण ।
 ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥१३८॥

यदि जीवके साथ ही पुद्गलद्रव्यका कर्मरूप परिणाम होता है, अर्थात् जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्मरूप परिणामन करते हैं यदि ऐसा माना जायगा, तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मपनेको प्राप्त हुए

कहलायेंगे। किन्तु कर्मरूपसे परिणामन तो अकेले पुद्गलद्रव्यका ही होता है। अतः जीव भावरूप निमित्तके विना ही कर्मका परिणाम होता है।

जीवका परिणाम पुद्गलसे भिन्न है—

जीवस्स दु कम्मेष य सह परिणामा हु होति रागादी !

एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा ॥१३६॥

एकस्स तु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेदूहि विणा जीवस्स परिणामो ॥१४०॥

यदि जीवके रागादि परिणाम कर्मके साथ होते हैं अर्थात् जीव और कर्म दोनों मिलकर यदि रागादिरूप परिणामन करते हैं तो जीव और कर्म दोनों ही रागादिरूप परिणामे ऐसा कहा जायेगा। किन्तु रागादिरूप परिणाम तो अकेले जीवके ही होते हैं। अतः कर्मके उदयरूप निमित्तके विना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं। ऐसा मानना चाहिये।

जीवसे कर्मबद्ध है या अबद्ध ?

जीवे कम्मं बद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयमण्णिदं ।

सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्ध पुट्टं हवइ कम्मं ॥१४१॥

जीवमें कर्म बद्ध और स्पृष्ट है, यह व्यवहार नयका कथन है। जीवमें कर्म अबद्ध और अस्पृष्ट है, यह निश्चय नयका कथन है।

किन्तु समयसार उभयनयातीत है—

कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥

जीवमें कर्म बद्ध है अथवा जीवमें कर्म अबद्ध है इस प्रकार ये दोनों नयपक्ष हैं। किन्तु जो पक्षातिक्रान्त हैं, वह समयसार है।

पक्षातिक्रान्तका स्वरूप

दोएह वि णयाण भण्णियं जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धो ।

ए दु णयपक्खं गिएहदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ॥१४३॥

आत्माका अनुभव करनेवाला जीव दोनों नयोंके कथनोंको केवल

जानता है। किन्तु नयपक्षसे रहित होता हुआ किसी भी नयका पक्ष ग्रहण नहीं करता।

सम्महंसरणगणं एसो लर्हादि त्ति णव्वरि ववदेसं ।
सव्वणायपक्खरहिदो भण्णिदो जो सो समयसारो ॥१४४॥

जो सब नयपक्षोंसे रहित कहा जाता है वही समयसार है। उसीको सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान यह नाम मिलता है।

पुण्य-पाप अधिकार

कर्ममें शुभ अशुभ भेद निरर्थक है—

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह मुसीलं ।
कह तं होदि मुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥१४५॥

अशुभ कर्मको कुशील और शुभ कर्मको सुशील जानो। किन्तु जो संसारमें प्रवेश कराता है वह कर्म सुशील कैसे हो सकता है ?

शुभ अशुभ कर्म बन्धके कारण हैं—

सोवण्णियं पि ग्णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥

जैसे सोनेकी बेड़ी भी पुरुषको बांधती है और लोहेकी बेड़ी भी पुरुषको बांधती है। उसी प्रकार किये हुए शुभ और अशुभकर्म जीवको बांधते हैं।

अतः दोनों त्याज्य हैं—

तम्हा दु कुसीलेहि य रायं मा कुणह मा व संसमां ।
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसमारोगेण ॥१४७॥

अतः दोनों प्रकारके कुशील कर्मोंके साथ न राग करो और न उनका संसर्ग करो ; क्योंकि कुशीलोंका संसर्ग करनेसे तथा उनसे राग करनेसे स्वाधीनताका विनाश होता है ।

दृष्टान्त द्वारा समर्थन

जह शाम को वि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणित्ता ।
वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रायकरणं च ॥१४८॥
एमेव कम्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिदं णाउं ।
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरया ॥१४९॥

जैसे कोई पुरुष खोटी आदतवाले मनुष्यको जानकर उसके साथ संसर्ग और राग करना छोड़ देता है । वैसे ही अपने स्वभावमें लीन पुरुष कर्म प्रकृतियोंके शील-स्वभावको कुत्सित जानकर उनका संसर्ग छोड़ देते हैं और उनसे दूर रहते हैं ।

आगमसे समर्थन

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपन्नो ।
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मसे मा रज्ज ॥१५०॥

रागी जीव कर्मका बन्ध करता है और विरागसे सम्पन्न जीव कर्म बन्धनसे छूट जाता है । यह जिन भगवानका उपदेश है । अतः कर्मोंमें राग मत करो ।

ज्ञान ही मोक्षका कारण है—

परमट्टो खलु समत्थो सुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।
तम्हि ट्टिदा सहावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥

निश्चयसे जो परमार्थ है वही समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है । उस परमार्थ स्वभावमें स्थित मुनिजन निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

परमट्टम्हि दु अट्टिदो जो कुण्दि तवं वदं च धारेइ ।
तं सव्वं बालतवं बालवदं बिंति सव्वण्हू ॥१५२॥

जो परमार्थमें स्थित नहीं है, वह जो तप करता है और व्रत धारण करता है, उस सबको सर्वज्ञदेव बालतप और बालव्रत कहते हैं ।

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तथा तवं च कुर्वता ।

परमद्ववाहिरा जे णिण्वाणं ते ण विंदंति ॥१५३॥

व्रत-नियमोंको धारण करते हुए और शीलों तथा तपका आचरण करते हुए भी जो परमार्थसे बाहर हैं, अर्थात् परमार्थके ज्ञान और श्रद्धानसे शून्य हैं, वे निर्वाणको प्राप्त नहीं कर सकते ।

पुण्य संसारका कारण है, मोक्षका नहीं—

परमद्ववाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।

संसारगमणहेतुं वि मोक्खहेतुं अजाणंता ॥१५४॥

जो परमार्थसे बाहर हैं, वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुए, अज्ञान-वश संसार भ्रमणके कारणभूत भी पुण्यको चाहते हैं ।

मोक्षका कारण

जीवादीसद्वहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं ।

रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥

जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान सम्यक्त्व है । उनका जानना ज्ञान है और रागादिका त्याग चारित्र्य है । ये तीनों मोक्षका मार्ग हैं ।

विद्वानों और यतियोंमें भेद

मोक्षूण णिच्छयट्टं ववहारेण विटुसा पवट्ठंति ।

परमद्वमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खत्रो विहिअो ॥१५६॥

विद्वान लोग निश्चयनयके विषयको छोड़कर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते हैं । किन्तु परमार्थका आश्रय लेनेवाले यतियोंके ही कर्मोंका क्षय होता है, ऐसा आगमका विधान है ।

कर्म मोक्षके कारणोंको ढाँकता है—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाळ्ळणो^१ ।

मिच्छत्तमलोच्छरणं तह सम्मत्तं खु णायव्वं ॥१५७॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाळ्ळणो^१ ।

अण्णाणमलोच्छरणं तह णाणं होदि णायव्वं ॥१५८॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाळ्ळणो^१ ।

कसायमलोच्छरणं तह चारित्तं पि णायव्वं ॥१५९॥

जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही मिथ्यात्वरूपी मैलके संसर्गसे व्याप्त हुआ सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये । जैसे वस्त्रकी सफेदी मैलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही अज्ञानरूपी मैलके संसर्गसे व्याप्त हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये । जैसे वस्त्रकी सफेदी मलके संसर्गसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही कषायरूपी मलके संसर्गसे व्याप्त हुआ चारित्र भी नष्ट हो जाता है ऐसा जानना चाहिये ।

कर्म स्वयं ही बन्धरूप है—

सो सव्वणाणदरिसी कम्मरएण शियेणवच्छरणो ।
संसारसमावरणो ण वि जाणदि सव्वदो सव्वं ॥१६०॥

आत्मा स्वभावसे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है । किन्तु अपने कर्मरूपी रजसे व्याप्त होनेके कारण संसार अवस्थाको प्राप्त हुआ पूरी तरहसे सबको नहीं जानता ।

कर्म मोक्षके कारणोंके विनाशक हैं—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्तिणादव्वो ॥१६१॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अरणाणं जिणवरेहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो अरणाणी होदि णादव्वो ॥१६२॥
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहिदं ।
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि णादव्वो ॥१६३॥

मिथ्यात्व सम्यक्त्वको रोकनेवाला है ऐसा जिनवर देवने कहा है । उसके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता है ऐसा जानना । अज्ञान ज्ञानका रोकने वाला है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है । उसके उदयसे जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना । कषाय चारित्रको रोकती है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है । उसके उदयसे जीव अचारित्री—चरित्रहीन होता है ऐसा जानना ।

आस्रव-अधिकार

आस्रवका स्वरूप

मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य मरणसण्णा दु ।
बहुविहमेया जीवे तस्सेव अणसणपरिणामा ॥१६४॥
साणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारणं होति ।
तेसि पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥

मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। इनके अनेक भेद हैं। ये सब जीवमें होते हैं और जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। तथा वे ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण होते हैं। और उनका कारण रागद्वेषादि भावोंका कर्ता जीव होता है।

ज्ञानोंके उनका अभाव है—

एत्थि दु आस्रवबंधो सम्मादिट्ठस्स आस्रवणिरोहो ।
संतं पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो ॥१६६॥

सम्यग्दृष्टीके आस्रव पूर्वक बन्ध नहीं होता; क्योंकि उसके आस्रवका निरोध अर्थान् संवर होता है। वह नवीन कर्मोंको नहीं बांधता हुआ पहले बंधे हुए कर्मोंको, जो सत्तामें स्थित हैं, जानता है।

राग द्वेष मोह ही आस्रव हैं—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भण्णित्तो ।
रागादिविग्गमुक्को अबंधगो जाणगो एवरि ॥१६७॥

जीवके द्वारा किये गये रागादियुक्त भावको बंधक कहा है। और रागादिसे रहित भाव बन्धक नहीं है, केवल ज्ञायक है।

राग द्वेषसे रहित भावकी उत्पत्ति

पक्के फलमिम पिडिदे जह ए फलं बज्जुदे पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पिडिए ए पुणोदयमुवेइ ॥१६८॥

जैसे पके हुए फलके गिरजानेपर वह फल पुनः वृत्तसे नहीं बंधता । वैसे जीवके कर्मभावकी निर्जरा हो जानेपर वह पुनः उदयको प्राप्त नहीं होता ।

ज्ञानीके द्रव्यास्त्वका अभाव है -

पुदवीपिंडसमाणा पुव्वणिवद्धा दु पच्चया तस्स ।

कम्मसरीरेणा दु ते बद्धा सव्वे वि णाणिस्स ॥१६६॥

उस ज्ञानीके पहले बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप द्रव्यप्रत्यय मिट्टीके ढेलेके समान अकिञ्चित्कर है । तथा वे सब कर्मण शरीरके साथ सम्बद्ध हैं (जीवके साथ नहीं) ।

ज्ञानी निरास्त्व क्यों है ?

चहुविह अण्येयभेयं बंधंते णाणादंसणागुणेहि ।

समए समए जम्हा तेणा अबंधो ति णाणी दु ॥१७०॥

चूंकि मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगके भेदसे चार प्रकार का द्रव्यप्रत्यय ज्ञान और दर्शन गुणोंके द्वारा प्रति समय अनेक प्रकारके कर्मोंको बांधता है । अर्थात् उदयागत कर्म जीव के ज्ञान और दर्शन गुणोंको अज्ञान रूपसे परिणामाते हैं और अज्ञानभाव रूपसे परिणत ज्ञान और दर्शनगुण बन्धके कारण होते हैं । अतः ज्ञानी को अबंधक कहा है ।

ज्ञानगुण का परिणमन बन्धका कारण कैसे है ?

जम्हा दु जहणणादो णाणागुणादो पुणो वि परिणमदि ।

अणणत्तं णाणागुणो तेणा दु सो बंधगो भण्णिदो ॥१७१॥

चूंकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुणसे भी पुनः अन्यरूप परिणमन करता है । अर्थात् जब तक ज्ञानगुण जघन्य रहता है तब तक उसका पुनः पुनः अन्यरूप परिणमन हुआ करता है । और यथाख्यात चारित्ररूप अवस्था से नीचे राग का सद्भाव अवश्य रहता है, अतः उस ज्ञान गुणको बंधक कहा है ।

तब ज्ञानी निरास्त्व कैसे है ?

दंसणाणाणान्चरित्तं जं परिणमदे जहणणाभावेणा ।

णाणी तेणा दु बज्झदि पुग्गलकम्मेणा विविहेणा ॥१७२॥

अतः ज्ञान दर्शन और चारित्र्य जघन्य रूपसे परिणामन करते हैं। इसलिये ज्ञानी अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मोंसे बंधता है। आशय यह है कि जब तक ज्ञानी ज्ञानको जघन्य रूपसे जानता देखता और आचरता है तब तक पुद्गलकर्मका बंध होता है अतः जो साक्षात् ज्ञानीभूत है वह निराश्रव है।

ऐसी स्थितिमें सम्यग्दृष्टीको अबंधक कहनेका कारण -

सर्वे पुर्वणिषद्धा तु पञ्चया संति सम्मदिट्टिस्स ।

उवञ्चोपपाञ्चोगं बंधंते कम्मभावेण ॥१७३॥

सती तु गिरुवभोजा वाला इत्थी जहेह पुरिसस्स ।

बंधदि ते उवमोज्जे तरुणी इत्थी जह रारस्स ॥१७४॥

होदूण गिरुवभोजा तह बंधदि जह हवंति उवभोजा ।

सत्तद्धविहा भूदा शाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥

एदेण कारणेण तु सम्मादिट्टी अबंधगो भणिदो ।

आसवभावामावे ण पञ्चया बंधगा भणिदा ॥१७६॥

सम्यग्दृष्टीके पहले बंधे हुए सब प्रत्यय हैं और उपयोगके प्रयोगानुसार वे कर्मरूपसे बंध कराते हैं। किन्तु सत्ता अवस्थामें वे निरुपभोग्य हैं। जैसे लोकमें बाला स्त्री पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती। जब वे प्रत्यय भोगने योग्य होते हैं अर्थात् उदयागत होते हैं तो बंध कराते हैं, जैसे तरुणी स्त्री पुरुषको बांधती है। निरुपभोग्य होकर वे प्रत्यय जिस रूपसे भोगने योग्य होते हैं उसी रूपमें ज्ञानावरणादिरूपसे सात प्रकारके अथवा आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध कराते हैं। इस कारणसे सम्यग्दृष्टीको अबंधक कहा है। क्योंकि आश्रवभावके अभावमें प्रत्ययोंको बन्धक नहीं कहा है। आशय यह है कि पुद्गलकर्मरूप द्रव्यप्रत्यय पहले निरुपभोग्य रहते हैं-उदयकाल आने पर उपभोगयोग्य होते हैं। किन्तु ऐसा होने पर भी कर्मके उदयसे होनेवाले जीवके भावोंके निमित्तसे ही वे कर्मबन्ध कराते हैं। किन्तु कर्मके उदयके कार्य राग द्वेष मोहरूप आश्रवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय बन्धके कारण नहीं हैं।

उक्त बातका ही समर्थन करते हैं-

रागो दोसो मोहो य आसवा शाल्थि सम्मदिट्टिस्स ।

तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पञ्चया होंति ॥१७७॥

हेतू चदुवियप्यो अद्विवियपरस्स कारणं होदि ।

तेसिं पि य रागादी तेसिप्रभावे ण बज्झति ॥१७८॥

राग, द्वेष, और मोह ये आस्रव सम्यग्दृष्टीके नहीं हैं । इसलिये आस्रव भावके बिना द्रव्य प्रत्यय कर्मबन्धके कारण नहीं होते । मिथ्यात्व आदि चार प्रकारके हेतु आठ प्रकारके कर्मबन्धके कारण होते हैं और उन मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्ययोंके कारण रागादि भाव होते हैं । रागादिभावोंका अभाव होने पर कर्मबन्ध नहीं होता ।

पुनः दृष्टान्त द्वारा समर्थन करते हैं -

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणामदि सो अणोयविहं ।

मांसवसाहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ॥१७९॥

तह णाणिसस तु पुवं जे वड्ढा पच्चया बहुवियप्यं ।

बज्झते कम्मं ते णयपरिहीणादु ते जीवा ॥१८०॥

जैसे पुरुषके द्वारा ग्रहण किया गया आहार उदराग्निसे संयुक्त होकर मांस, चर्बी, रुधिर आदि अनेक भावरूप परिणमन करता है । वैसे ही ज्ञानीके पहले जो मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्यय बंधे थे वे (जीवके रागादि भावोंसे संयुक्त होकर) अनेक प्रकारके कर्मबंधको करते हैं । किन्तु ऐसे जीव शुद्धनयसे हीन होते हैं । अर्थात् शुद्धनयसे क्युत होनेपर ज्ञानीके कर्मबन्ध होता है ।

संवर-अधिकार

समस्त कर्मोंके संवरका उत्तम उपाय भेद विज्ञान है अतः सबसे प्रथम भेद विज्ञानका अभिनन्दन करते हैं ।

उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि को वि उवओगो ।

कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥१८१॥

अद्विवियप्ये कम्मे णोकम्मे चावि णत्थि उवओगो ।

उवओगम्मि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥१८२॥

एदं तु अविवरीदं गणं जइया दु होदि जीवस्स ।
तइया ग किंचि कुव्वदि भावं उवअोगसुद्धप्पा ॥१८३॥

उपयोगमें उपयोग है, क्रोधादिकमें कोई उपयोग नहीं है। क्रोध क्रोधमें ही है, निश्चय नयसे उपयोगमें क्रोध नहीं है। आठ प्रकारके कर्मोंमें और नो कर्ममें भी उपयोग नहीं है। उपयोगमें भी कर्म और नो कर्म नहीं है। यह अविपरीत-विपरीततारहित ज्ञान जब जीवको होता है तब उपयोग स्वरूप वह शुद्धात्मा उपयोगके सिवाय अन्य किसी भी भावको नहीं करता। आशय यह है कि उक्त प्रकारसे भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व-रागादि भावोंको नहीं करता। इससे नवीन कर्मोंका संवर होता है।

भेदविज्ञानसे ही शुद्धात्माकी उपलब्धि कैसे होती है—

जह कणयमग्गितवियं पि कणयभावं ग तं परिच्चयादि ।
तह कम्मोदयतविदो ग जहदि गणी दु गणित्तं ॥१८४॥
एवं जणादि गणी अगणाणी मुखादि रागमेवादं ।
अगणाणतमोच्छ्रणाणी आदसहावं अयाणंती ॥१८५॥

जैसे सुवर्ण अग्निसे तपा होनेपर भी सुवर्णपनेको नहीं छोड़ता। वैसे ही कर्मके उदयसे तप्त ज्ञानी भी ज्ञानपनेका नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी जानता है। और अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित अज्ञानी आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है।

शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही कैसे संवर होता है यह बतलाते हैं -

सुद्धं तु वियाणंती मुद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो ।
जाणंती दु अमुद्धं अमुद्धमेवप्पयं लहदि ॥१८६॥

शुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीव शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। और अशुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाला जीव अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है।

संवर किस प्रकारसे होता है यह बतलाते हैं

अप्पाशामप्पणा रुंधिऊरा दोपुण्णापावजोगेसु ।
दंसराणाणमिह टिदो इच्छाविरदो य अगणहि ॥१८७॥

जो सव्वसंगमुक्को भायदि अप्पाणमप्पणा अप्पा ।
 ण वि कम्मं णोकम्मं चेदा वित्तेदि एयत्त ॥१८८॥
 अप्पाणं भायंतो दंसणणाणामञ्चो अणारणामञ्चो ।
 लहइ अचिरेणा अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥१८९॥

आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य पापरूप शुभोपयोग और अशुभो-
 पयोगसे रोक कर और शुद्ध दर्शन ज्ञानरूप आत्मामें स्थिर होता हुआ अन्य-
 द्रव्यकी इच्छाको त्यागता है और समस्त परिग्रहको छोड़कर आत्माके द्वारा
 आत्माका ध्यान करता है कर्म और नो कर्मका ध्यान नहीं करता । तथा
 आत्माके एकत्वका ही चिन्तन करता है । वह आत्मा आत्माका ध्यान
 करता हुआ दर्शनज्ञानमय तथा अनन्यमय होकर शीघ्रही कर्मसे मुक्त
 आत्माको प्राप्त करता है ।

संवरका क्रम

तेसि हेऊ भणिया अज्भवसाणाणि सव्वदरसीहिं ।
 मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥१९०॥
 हेउअभावे शियमा जायइ णाणिस्स आसवणिरोहो ।
 आसवभावेण विणा जायइ कम्मस्स वि णिरोहो ॥१९१॥
 कम्मस्स अभावेण य णोकम्माणं पि जायइ णिरोहो ।
 णोकम्मणिरोहेया य संसारणिरोहणं होइ ॥१९२॥

सर्वज्ञ देवने मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगरूप अध्यव-
 सानोंको उन राग द्वेष मोहरूप आस्त्रवभावका कारण कहा है । इन
 कारणोंका अभाव होने पर ज्ञानीके नियमसे आस्त्रवका निरोध होता है ।
 और आस्त्रव भावके बिना कर्मका भी निरोध होता है । कर्मका अभाव
 होनेसे नो कर्मोंका भी निरोध हो जाता है और नो-कर्मका निरोध
 होनेसे संसारका निरोध हो जाता है ।

निर्जरा अधिकार

उपभोगमिदयेहिं द्वाणामचेदणामिदराणं ।

जं कुण्णदि सम्मदिट्ठी तं सर्व्वं णिज्जरणमित्तं ॥१६३॥

सम्यग्दृष्टी जो इन्द्रियोंके द्वारा अचेतन तथा चेतन पदार्थोंका उपभोग करता है वह सब निर्जराका निमित्त है ।

भाव निर्जराका स्वरूप

दव्वे उव्वमंजंते णियमा जायदि मुहं च दुःखं वा ।

तं सुहदुक्खमुदिणं वेदादि अहं णिज्जरं जादि ॥१६४॥

द्रव्यका उपभोग करने पर नियमसे सुख अथवा दुःख होता है । और उस उदयागत सुख दुःखको जीव वेदन करता है । तदनन्तर वह निर्जराको प्राप्त हो जाता है ।

ज्ञानकी सामर्थ्य

अहं विस्समुव्वमंजंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।

पोगलकम्मस्सुदयं तह भुंजादि शेव बद्धदे णाणी ॥१६५॥

जैसे वैद्य पुरुष विपको खाते हुए भी मरणको प्राप्त नहीं होता वैसे ही ज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगता है, किन्तु कर्मसे नहीं बंधता ।

अहं मज्जं पिवमाणो अरदीभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।

दव्वुवभोगे अरदो णाणी वि ण बद्धदि तहेव ॥१६६॥

जैसे कोई पुरुष अरुचि पूर्वक मद्यपान करता हुआ बदहोश नहीं होता वैसे ही द्रव्यके उपभोगमें अनासक्त ज्ञानी भी कर्मसे बद्ध नहीं होता ।

सेवतो वि ण सेवदि असेवमाणो वि सेवगो कोई ।

पगरराचेट्ठा कस्स वि ण य पायरणो त्ति सो होदि ॥१६७॥

कोई तो विषयोंका सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता और कोई विषयोंका सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है । जैसे कोई पुरुष विवाहादि प्रकरणमें लगा होने पर भी उस कार्यका स्वामी न होनेसे विवाहादि प्रकरणका कर्ता नहीं होता ।

सम्यग्दृष्टीका भाव

उदयविवागो विविहो कम्मराणं वरिणओ जिरवरेहिं ।
ए दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६८॥

कर्मोंके उदयका विपाक जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारका कहा है । किन्तु वे सब मेरे स्वभावरूप नहीं हैं । मैं तो एक ज्ञायकभाव हूँ ।

पुग्गलकम्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।
ए दु एस मज्झ भावो जाणगभावो दु अहमिक्को ॥१६९॥

राग नामक पुद्गलकर्म है । उसीके उदयके विपाकसे यह रागरूप भाव होता है । यह मेरा भाव नहीं है । मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ ।

एवं सम्मादिट्ठी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं ।
उदयं कम्मविवागं य मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥

इस प्रकार सम्यग्दृष्टी अपनेको ज्ञायक स्वभाव जानता है । और तत्त्वको जानता हुआ कर्मके विपाकरूप उदयको छोड़ता है अर्थात् उसमें ममत्वबुद्धि नहीं करता ।

रागी सम्यग्दृष्टी नहीं है -

परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणं तु विज्जदे जस्स ।
ए वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सव्वागमधरो वि ॥२०१॥
अप्पाणमयाणंतो अण्णपयं चावि सो अयाणंतो ।
कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥२०२॥

जिसके परमाणु बराबर भी रागादि भाव विद्यमान है, वह समस्त आगमका धारी होते हुए भी आत्माको नहीं जानता । और आत्माको नहीं जानता हुआ वह अनात्मा-आत्मासे भिन्न पदार्थोंको भी नहीं जानता । इस तरह जब वह जीव और अजीव तत्त्वको नहीं जानता तो वह सम्यग्दृष्टी कैसे हो सकता है ?

आदिमिह दव्वभावे अपदे मोत्तूण गिरह तह गियदं ।
थिरमेगमिमं भावं उवलब्भंतं सहावेण ॥२०३॥

आत्मामें अपदभूत द्रव्यकर्मों और भावकर्मोंको छोड़कर, स्वभावरूपसे अनुभूयमान नियत, स्थिर इस एक आत्मभावको ही ग्रहण करो ।

आभिणि सुदोहि मण केवलं न तं होदि एकमेव पदं ।
सो एसो परमद्वो जं लहिदुं शिवुदिं जादि ॥२०४॥

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवल ज्ञान ये सब एक ही पद हैं (क्योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही हैं) । यही वह परमार्थ है जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वाण प्राप्त करता है ।

शाणगुरोरा^१ विहीणा एदं तु पदं बहू वि ण लभंते ।
तं गिरह शियदमेदं^२ जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥२०५॥

ज्ञान गुणसे रहित बहुतेसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते । अतः यदि कर्मासे छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर ।

एदमिह रदो शिच्चं संतुट्टो होहि शिच्चमेदमिह ।
एदेण होहि तित्तो होहदि^३ तुह उत्तमं सोक्खं ॥२०६॥

हे भव्य ! तू इस ज्ञानमें सदा लीन हो, इसीमें सदा सन्तुष्ट रह, इसीसे तृप्त हो । ऐसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा ।

को ग्याम भाणज्ज हुहो परदव्वं मम इमं हवदि दव्वं ।
अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु शियदं वियाणंतो ॥२०७॥

अपनी आत्माको ही नियमसे अपना परिग्रह जानता हुआ कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ?

मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।
खादेव अहं उम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झं ॥२०८॥

यदि पर द्रव्य मेरा परिग्रह है तो मैं जड़पनेको प्राप्त हुआ । किन्तु मैं तो ज्ञाता ही हूँ अतः परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है ।

छिज्जदु वा भिज्जदु वा शिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।
जम्हा तम्हा गच्छदु तहा वि ण परिग्गहो मज्झं ॥२०९॥

कोई छेदन करो, वा भेदन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा

१. -गुरोहि, ता० वृ० । २. सुपदमेदं, ता० वृ० । ३ 'तो होहदि', ता० वृ० ।

प्रलयको प्राप्त होओ, अथवा यहां वहां जाओ, तथापि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भण्णियो णाणी य णिच्छदे घम्मं ।
अपरिग्रहो दु घम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥

जिसको इच्छा नहीं है उसको अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी धर्मकी इच्छा नहीं करता, अतः ज्ञानीके धर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो धर्मका केवल ज्ञायक है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भण्णियो णाणी य णिच्छदि अधम्मं ।
अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥

जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी अधर्मकी इच्छा नहीं करता, अतः उसके अधर्मका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञाता है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भण्णियो णाणी य णिच्छदे असणं ।
अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥

जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी भोजनकी इच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञातामात्र है।

अपरिग्रहो अणिच्छो भण्णियो णाणी य णिच्छदे पाणं ।
अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥

जिसके इच्छा नहीं है उस अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी पीनेकी वस्तुकी इच्छा नहीं करता। अतः उसके पानका परिग्रह नहीं है। वह तो उसका ज्ञायकमात्र है।

एमादिणं तु विविहे सब्बे भावे य णिच्छदे णाणी ।
जाणगभावो णियदो णीरालंबो य सब्बत्थ ॥२१४॥

इत्यादिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी ज्ञानी इच्छा नहीं करता। वह सर्वत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे ज्ञायकभावरूप ही है।

१. 'भण्णियो पाणं च णिच्छदे णाणी' -ता० वृ० । २. 'इव्वाहु एदु'
ता० वृ० ।

ज्ञानीके भोगोंकी इच्छा भी नहीं है -

उत्पण्णोदयभोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्चं ।
कंखामणागदस्स य उदयस्स ण कुब्बदे णाणी ॥२१५॥

उत्पन्न हुआ कर्मके उदयका भोग ज्ञानीके सदा विराग बुद्धिसे ही होता है । और अनागत उदय की इच्छा ज्ञानी नहीं करता । अर्थात् ज्ञानीकी प्राप्त हुए भोगमें तो हेय बुद्धि रहती है और आगामी भोगोंकी वह इच्छा नहीं करता ।

जो वेददि वेदिज्जादि समए समए विणस्सदे उभयं ।
तं जाणगो दु णाणी उभयं पि ण कवइ कया वि ॥२१६॥

जो अनुभवन करता है और जो अनुभव किया जाता है ये दोनों वेदक भाव और वेद्यभाव प्रतिक्षण विनाशी हैं । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कभी भी उन दोनों भावोंकी इच्छा नहीं करता ।

बंधुवभोगाणिमत्ते अज्जवसाणोदएसु णाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु णेव उत्पज्जदे रागो ॥२१७॥

बन्ध और उपभोगके निमित्त संसार सम्बन्धी और शरीर सम्बन्धी अध्यवसानोंके उदयमें ज्ञानीको राग उत्पन्न नहीं होता । आशय यह है कि कुछ अध्यवसान तो शरीरसम्बन्धी होते हैं और कुछ अध्यवसान संसार सम्बन्धी होते हैं । संसार सम्बन्धी अध्यवसान तो बन्धके निमित्त हैं और शरीरसम्बन्धी अध्यवसान भोगमें निमित्त हैं । बन्धमें निमित्त अध्यवसान तो रागद्वेष मोह आदि हैं और उपभोगमें निमित्त अध्यवसान मुख दुःखादि हैं । इन सबमें ही ज्ञानी राग नहीं करता ।

णाणी रागपज्जहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्जगदो ।
णो लिप्पादि 'रजएण दु कइममज्जे जहा कणयं ॥२१८॥
अणणाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्जगदो ।
लिप्पादि कम्मरणेण दु कइममज्जे जहा लोहं ॥२१९॥

ज्ञानी सब द्रव्योंमें रागादि नहीं करता. अतः कीचड़में पड़े हुए सुवर्ण की तरह वह कर्मोंके मध्यमें रहते हुए भी कर्मरूपी रज से लिप्त नहीं

होता । किन्तु अज्ञानी सबद्रव्योंमें रागी होता है । अतः कीचड़में पड़े हुए लोहकी तरह कर्मोंके मध्यमें स्थित अज्ञानी कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है ।

शंखके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके बन्धका अभाव बतलाते हैं -

भुंजंतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 संखस्स सेदभावो एा वि सक्कदि किरहगो काउं ॥२२०॥
 तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुंजंतस्स वि णाणं 'ण सक्कमण्णारादं शेदु' ॥२२१॥
 जइया स एव संथो सेदमहावं तयं पजहिदूण ।
 गच्छेज्ज किरहभावं तइया मुत्तणं पजहे ॥२२२॥
 तह णाणी वि हु जइया णाणसहावत्तयं पराहिदूण ।
 अण्णारोण परिणदो तइया अण्णारादं गच्छे ॥२२३॥

जैसे, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त अनेक द्रव्योंको भोगते हुए भी शंखके श्वेतपनेको कोई काला नहीं कर सकता । उसी प्रकार अनेक प्रकारके सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त द्रव्योंको भोगते हुए भी ज्ञानीके ज्ञानको अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता । और जब वही शंख अपने श्वेतपनेको छोड़कर कृष्णपनेको प्राप्त होता है तो श्वेतपनेको छोड़ देता है । वैसे ही ज्ञानी भी जब अपने ज्ञानस्वभबको छोड़कर अज्ञान रूपसे परिणमन करता है तब अज्ञानपनेको प्राप्त होता है ।

पुरिसो जह को वि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवए रायं ।
 तो सो वि देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२४॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 'तो सो वि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२५॥
 जह पुण सो' न्यि पुरिसो वित्तिणिमित्तं एा सेवए रायं ।
 तो सो एा देइ राया विविहे' भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥

१ 'एा वि सक्कदि रागदो शेदु' - ता० वृ० । २ - 'तो सो वि कम्मरायो देदि सुहुप्पादगे भोगे' - ता० वृ० । ३ 'सो चेव एारो' - ता० वृ० । ४ 'विविहसुहुप्पादगे भोगे' - ता० वृ० ।

एमेव सम्मादिट्टी विमयत्थं सेवए ण कम्मरयं ।

तो सो ण देह कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२७॥

जैसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकाके लिए राजाकी सेवा करता है तो वह राजा भी उस पुरुषको मुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोग देता है । इसी तरह जीव पुरुष मुखके लिये कर्मरूपी रजकी सेवन करता है तो वह कर्म भी मुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है । तथा जैसे वही पुरुष अजीविकाके लिए राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा भी मुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता । इसी तरह सम्यग्दृष्टी विषयोंके लिये कर्मरजका सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी मुख उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता ।

सम्यग्दर्शनके आठ गुणोंमेंसे निःशंकित गुणका कथन

सम्मादिट्टी जीवा शिस्संका होंति शिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु शिस्संका ॥२२८॥

सम्यग्दृष्टी जीव निःशंक होते हैं । और चूंकि वे निःशंक होते हैं इसीसे निर्भय होते हैं । और चूंकि वे इस लोकका भय, परलोकका भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, और आकस्मिक भय, इन सात भयोंसे मुक्त होते हैं इसी कारणसे वे निःशंक होते हैं ।

जो चत्तारि एव पाए छिंदादि ते 'कम्मबंधमोहकरे ।

सो शिस्संको चेदा सम्मादिट्टी मुण्येव्वो ॥२२९॥

जो कर्मबन्धसम्बन्धी मोहको करनेवाले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और योग इन चारों ही पायोंको काट डालता है उस निःशंक चेतयिता आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

निःकांचित्त गुणका कथन

जो^१ दु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सव्वधम्मसु ।

सो शिक्कंखो चेदा सम्मादिट्टी मुण्येव्वो ॥२३०॥

जो सब कर्मोंके फलोंमें और सब वस्तुधर्मोंमें आकांक्षा नहीं रखता

१ 'कम्ममोह बाधकरे'-ता० वृ० । २ 'जो ण करेदि दु'-ता० वृ० ।

अर्थात् उनकी इच्छा नहीं करता, उस आकांक्षा रहित आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

निर्विचिकित्सा गुणका कथन

जो ग्ण करेदि दुगुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं ।
सो खलु णिव्विदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३१॥

जो आत्मा सभी वस्तुधर्मोंके प्रति ग्लानि नहीं करता उस निर्विचिकित्सा गुणके धारीको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

अमूढदृष्टी गुणका कथन

जो हवइ असम्मूढो चेदा 'सहिट्ठी सव्वभावेसु ।
सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३२॥

जो चेतयिता आत्मा सब भावोंमें अमूढ है, यथार्थ दृष्टिवाला है उस अमूढदृष्टिको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

उपगूहन गुणका कथन

जो सिद्धभक्तिजुत्तो उवगूहणगो तु सव्वधम्माणं ।
सो उवगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३३॥

जो सिद्धभक्तिसे युक्त है और मिथ्यात्व रागादि विभावरूप सब धर्मोंका उपगूहक अर्थात् प्रच्छादक अथवा विनाशक है । उस उपगूहनकारीको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

स्थिति करण गुणका कथन

उम्ममं गच्छंतं 'सगं पि मग्गे ठवेदि जो अप्पा ।
सो ठिदिकरणजुत्तो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३४॥

जो आत्मा उन्मार्गमें जाते हुए अपनेको भी मार्गमें स्थापित करता है उस स्थितिकरण गुणसे युक्त आत्माको सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ।

वात्सल्य गुणका कथन

जो कुरादि वच्छलत्तं तिएहं साहूया मोक्खमगाम्मि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुण्येव्वो ॥२३५॥

१ सव्वेसु कम्मभावेसु-ता० वृ० । २ 'सिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणं'-
ता० वृ० ।

जो मोक्षमार्गमें स्थित आचार्य, उपाध्याय और साधुओंके प्रति वात्सल्यभाव करता है, उस वात्सल्यभावसे युक्त आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

प्रभावना गुणका कथन

विषजारहमारूढो मणोरहपहेमु भमद्रु जो चेदा ।

सो जिण्णणाण्णपहावो सम्मादिट्ठी मुण्णोयव्वो ॥२३६॥

जो आत्मा विद्यारूपी रथमें चढ़कर मनरूपी रथके मार्गमें भ्रमण करता है, उस जिनेश्वरके ज्ञानकी प्रभावना करनेवालेको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये ।

—०—

बन्ध-अधिकार

बन्धके कारण

जह णाम को वि पुरिसो रोहमत्तो दु रेणुवहुलम्मि ।

ठाणम्मि टाहदूण य करेदि सत्थेहि वायामं ॥२३७॥

छिदिदि भिदिदि य तथा तालीतलकदलिवंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताच्चित्ताणं करेइ दव्वाणमुववादं ॥२३८॥

उववादं कुब्बंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहि ।

णिच्छयदो चित्तिज्जहुं किं पच्चयगो दुं रयबंधो ॥२३९॥

जो सो दु रोहभावो तस्सि णरे तेण तस्स रयबंधो ।

णिच्छयदो विण्णोयं णं कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४०॥

एवं मिच्छादिट्ठी वरातो बहुविहासु चेट्ठासु ।

रागादी उवञ्चोगे कुब्बंतो लिप्पदि रयेण ॥२४१॥

जैसे कोई पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिकण वस्तु मलकर और धूलसे भरे हुए स्थानमें खड़ा होकर शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है

१. 'चित्तिज्जहुं'—आ० । २. 'दु तस्स रय'—ता०वृ० । ३. अकाय—आ० ।

अर्थात् शस्त्र संचालन करता है। तथा ताड़, तम्बाखू, केला, बांस, अशोक आदिके वृक्षोंका छेदन भेदन करता है। और इस तरह सचेतन और अचेतन द्रव्यों का उपघात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करनेवाले उस मनुष्यके धूलसे घूसरित होनेका क्या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुष्यके शरीरमें जो तेल आदि स्निग्धपदार्थ लगा हुआ है उसके द्वारा ही वह धूलसे सम्बद्ध होता है, यह निश्चयसे जानना चाहिये। शेष शारीरिक चेष्टाओंके द्वारा वह धूलसे लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार बहुत प्रकारकी चेष्टाओंको करता हुआ मिथ्यादृष्टि अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता है और इसीसे वह कर्मरूपी रजसे लिप्त होता है।

सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता

जह पुण सो चेव शरो गेहे सव्वम्हि अवणिये संते ।
 रेणुबहुलम्मि टाणे करेदि सव्वेहि वायामं ॥२४२॥
 छिंददि भिंददि य तथा तालातलकदलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ॥२४३॥
 उवघादं कुव्वंतस्स तस्स गाणाविहेहि करणेहिं ।
 णिच्छयदो चिंतिज्जहु किं पच्चयगो ण रयबंधो ॥२४४॥
 जो सो^१ तु गेहभावो तस्सि शरे तेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विणण्यं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥२४५॥
 एवं सम्मादिट्ठी वट्ठं तो बहुविहैसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी ण^१ लिप्पदि रएण ॥२४६॥

किन्तु जब वही मनुष्य समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थोंको शरीरसे दूर करके, धूलसे भरे हुए स्थानमें शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है। तथा ताड़ तम्बाखू, केला, बांस, अशोक आदिके वृक्षोंको छेदता भेदता है और सचेतन तथा अचेतन द्रव्योंका उपघात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करने वाले उस मनुष्यके धूलसे लिप्त न होनेका क्या कारण है यह निश्चयसे विचार करो। उस मनुष्यके शरीरमें जो स्निग्धता है उसीके द्वारा वह धूलसे लिप्त होता है यह निश्चयसे जानो,

१. सो असोह भावो—आ० । २. 'गेव बज्जदि रयेण'—ता० वृ० ।

शेष काय चेष्यओंके द्वारा नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रकारके मानसिक, वाचनिक और कायके व्यापारोंमें लगा हुआ सम्यग्दृष्टि अपने उपयोगमें रागादि नहीं करता। अतः वह कर्मरूपी रजसे लिप्त नहीं होता।

मिथ्यादृष्टिके भाव और उनका निराकरण

जो मरणदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अरणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७॥

जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंकी हिंसा करता हूँ और अन्य प्राणि मेरी हिंसा करते हैं वह मूढ़ और अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पयणत्तं ।

आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥२४८॥

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पयणत्तं ।

आउं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कदं तेहिं ॥२४९॥

जिनेन्द्रदेवने आयुर्कर्मके क्षयसे जीवोंका मरण कहा है। और तू अन्य प्राणियोंकी आयुका हरण नहीं करता तो तूने उनका मरण कैसे किया? जिनेन्द्रदेवने आयुर्कर्मके क्षयसे जीवोंका मरण कहा है और अन्य जीव तेरी आयुको नहीं हरते। तब उन्होंने तेरा मरण कैसे किया?

जो मरणदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अरणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंको जिवाता हूँ और अन्य प्राणि मुझे जिवाते हैं वह मूढ़ और अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।

आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥२५१॥

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।

आउं च ण दिति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥२५२॥

जीव आयुर्कर्मके उदयसे जीता है ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। और तू किसीको आयु नहीं देता। तब तूने उनको जीवदान कैसे किया। आयुर्कर्म

के उदयसे जीव जीता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है। और तुम्हें अन्य जीव आयु नहीं दे सकते तब उन्होंने तुम्हें जीवनदान कैसे दिया।

दुःख सुख भी स्वकर्मोंदयसे होता है —

जो अप्रपणा दु मरणदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।

सो मूढो अरणाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥

जो ऐसा मानता है कि मैं जीवोंको दुखी अथवा सुखी करता हूँ, वह मूढ़ अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है।

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिद-सुहिदा कहं कया ते ॥२५४॥

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दिति तुहं कदो सि कहं दुक्खिदो तेहि ॥२५५॥

‘कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दिति तुहं कहं तं सुहिदो कदो तेहि ॥२५६॥

यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुखी और सुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म देता नहीं, तब तूने उन्हें दुखी अथवा सुखी कैसे किया? यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुःखी और सुखी होते हैं और अन्य जीव तुम्हें कर्म देते नहीं तब उन्होंने तुम्हें दुःखी कैसे किया? यदि सब जीव कर्मके उदयसे दुखी और सुखी होते हैं और अन्य जीव तुम्हें कर्म देते नहीं, तब उन्होंने तुम्हें सुखी कैसे किया?

जो मरदि जो य दुहिदो जायादि कम्मोदएण सो सव्वो ।

तम्हा दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५७॥

जो ण मरदि ण य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेव खलु ।

तम्हा ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि ण हु मिच्छा ॥२५८॥

जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मके उदयसे होता है। अतः मैंने मारा, मैंने दुखी किया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है?

१-२-३-कम्मणिमित्तं सव्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता —
ता० वृ० । ४. —ए देसि तुमं कहं तं सुहिदो कदो तेहि’—ता० वृ० । ५. —ए
देसि तुमं कहं तं दुहिदो कदो तेहि—ता० वृ० ।

किन्तु मिथ्या ही है। तथा जो नहीं मरता और जो दुखी नहीं होता वह भी कर्मके उदयसे ही। अतः मैंने नहीं मारा और मैंने दुःखी नहीं किया ऐसा तेरा अभिप्राय क्या; मिथ्या नहीं है? किन्तु मिथ्या ही है।

उक्त मिथ्या भाव ही बन्धका कारण है -

एसा दु जा मदी दे दुक्खिदमुहिदे करेमि सत्ते त्ति ।

एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कम्मं ॥२५६॥

तेरी जो ऐसी मति है कि मैं जीवोंको दुःखी और सुखी करता हूँ, तेरी यह मूढ मति ही शुभाशुभ कर्मोंका बंध कराती है।

दुक्खिदमुहिदे सत्ते करेमि जं एवमज्झवसिदं ते ।

तं पावबंधगं वा पुण्णास्स व बंधगं होदि ॥२६०॥

मारेमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्झवसिदं ते ।

तं पावबंधगं वा पुण्णास्स व बंधगं होदि ॥२६१॥

मैं जीवों को दुःखी अथवा सुखी करता हूँ ऐसा जो तेरा अध्यवसाय (भाव) है वही पापका बन्धक अथवा पुण्यका बन्धक होता है। मैं जीवों को मारता हूँ अथवा जियाता हूँ ऐसा जो तेरा अध्यवसाय है वही पाप का बन्धक अथवा पुण्य का बन्धक होता है।

अतः हिंसाका अभिप्राय ही हिंसा है -

अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयसायस्स ॥२६२॥

जीवोंको मारो अथवा मत मारो, कर्मबन्ध अध्यवसानसे होता है। निश्चयनयसे यह जीवोंके बन्धका संक्षेप है।

यही बात असत्य सत्य आदिके विषयमें जाननी चाहिये --

एवमलिरा अदत्ते अरंभचेरे परिग्गहे चेव ।

कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झदे पावं ॥२६३॥

तह वि य सच्चे दत्ते बंभे अपरिग्गहत्तणे चेव ।

कीरदि अज्झवसाणं जं तेण दु बज्झदे पुण्णं ॥२६४॥

इसी तरह भूँठमें, चोरीमें, अब्रह्मचर्यमें और परिग्रहमें जो अध्यवसान

क्रिया जाता है उससे पापका बन्ध होता है। तथा सत्यमें, अचौर्यमें ब्रह्मचर्यमें और अपरिग्रहपनेमें जो अध्यवसान किया जाता है, उससे पुण्य कर्मका बंध होता है।

बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है -

वत्थु' पडुच्च जं पुण अज्भवसायां तु होइ जीवायां ।

या य वत्थुदो दु बधो अज्भवसायेण बंधो ति ॥२६५॥

किन्तु जीवोंका जो अध्यवसान होता है वह वस्तुके आश्रयसे होता है। तथापि वस्तुसे बन्ध नहीं होता, अध्यवसानसे बन्ध होता है।

अतः उक्त मति मिथ्या है -

दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।

जा 'एसा मूढमदी शिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥

अतः मैं जीवोंको दुखी अथवा सुखी करता हूँ, उन्हें बाँधता तथा छुड़ाता हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है वह निरर्थक होनेसे मिथ्या है।

क्योंकि—

अज्भवसायाणांमिच्चं जीवा बज्झंति कम्मणा जदि हि ।

मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करेसि तुमं ॥२६७॥

यदि अध्यवसानके निमित्तसे जीव कर्मसे बँधते हैं और मोक्षमार्गमें स्थित होकर कर्मबन्धनसे छूटते हैं तो तू क्या करता है। अर्थात् बाँधने और छुड़ानेका तेरा अभिप्राय व्यर्थ ही है।

सत्त्वे करेदि जीवो अज्भवसायेण तिरियणोरपिए ।

देवमणुरा य सत्त्वे पुण्णां पावं च खेयविहं ॥२६८॥

धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे अलोयलोयं च ।

सत्त्वे करेदि जीवो अज्भवसायेण अप्पासां ॥२६९॥

जीव अध्यवसानके द्वारा तिर्यञ्च, नारक, देव, मनुष्य इन सब पर्यायोंको और अनेक प्रकारके पुण्यकर्मों और पापकर्मोंको करता है। तथा

जीव अध्यवसानके द्वारा धर्म अधर्म, जीव अजीव, और लोक अलोक इन सबको अपना करता है ।

किन्तु जिनके यह अध्यवसान नहीं होता उन्हें कर्मबन्ध नहीं होता -

एदाणि सात्थि जेसि अज्जवसाणाणि एवमादाणि ।

ते अमुहेण सुहेण य कम्मेण मुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥

ये पहले कहे गये तथा इसी प्रकारके अन्य अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनि शुभ और अशुभ कर्मसे लिप्त नहीं होते ।

अध्यवसानके नामान्तर

बुद्धी व्यवसायो वि य अज्जवसाणं मदी य विण्णाणं ।

एअट्टमय सव्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥२७१॥

बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम ये सब एकार्थवाची हैं ।

उपसंहार

एवं व्यवहारणञ्चो पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।

णिच्छयणयासिदा पुण मुणियो पावंति सिव्वाणं ॥२७२॥

इस प्रकार निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयको निषिद्ध जानो । तथा निश्चयनयका आश्रय लेने वाले मुनि निर्वाणको प्राप्त करते हैं ।

व्यवहार का आश्रय तो अभव्य भी लेता है -

वदसामदीगुत्तीञ्चो सीलतवं जिणवरेहि पण्णात्तं ।

कुव्वंतो वि अभव्वो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी दु ॥२७३॥

जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तपको करता हुआ भी अभव्य अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि है ।

अभव्य एकादशांगका पाठी होकर भी अज्ञानी है -

मोकम्मं असदहंतो अभवियसत्तो दु जो अधीएज्ज ।

पाटो ण करेदि गुणं असदहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥

मोक्षका श्रद्धान न करनेवाला जो अभव्यजीव है यद्यपि वह शास्त्रोंको पढ़ता है, किन्तु ज्ञानका श्रद्धान न करने वालेका शास्त्रपठन लाभकारी नहीं है ।

शायद कोई कहे कि अभव्यके धर्मका श्रद्धान है, उसका उत्तर -

सद्दहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं एा दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥२७५॥

वह अभव्यजीव भोगके निमित्त रूप धर्मका श्रद्धान करता है, उसीकी प्रतीति करता है, उसीकी रुचि करता है तथा उसीका आलिंगन करता है । परन्तु कर्मक्षयके निमित्त रूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न प्रतीति करता है, न रुचि करता है और न उसे अपनाता है ।

व्यवहार और निश्चयका स्वरूप

आयारादी णाणां जीवादिदंसणां च विण्णोयं ।

छुज्जीवाणिकं च तहा भणइ चरित्तं तु ववहारो ॥२७६॥

आदा खु मञ्ज णाणां आदा मे दंसणां चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खाणां आदा मे संवरो जोगो ॥२७७॥

ज्ञानका कारण होनेसे आचारांग आदि शास्त्रको ज्ञान, श्रद्धानका आश्रय होनेसे जीवादि तत्त्वको सम्यग्दर्शन जानना चाहिये तथा चारित्रिका आश्रय होनेसे छे कायके जीव चारित्र है ऐसा व्यवहारनय कहता है । किन्तु निश्चयसे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, मेरा आत्मा ही सम्यक्चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संवर और योग (ध्यान) है ।

रागादिको कर्मबन्धका कारण कहा है तब रागादिका कारण क्या है,

यह बतलाते हैं -

जह फलिहमणी मुद्धो एा सय परिणामदि रागमादीहिं ।

रजिज्जदि अण्णोहिं दु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥२७८॥

एवं णाणी मुद्धो एा सयं परिणामदि रागमादीहिं ।

राइज्जदि अण्णोहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥२७९॥

जैसे शुद्ध स्फटिकमणि स्वयं रागादि रूप परिणामन नहीं करता, किन्तु अन्य रक्त आदि द्रव्योंके द्वारा वह रक्त आदि रूप परिणामन करता है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी आत्मा स्वयं रागादिरूप परिणामन नहीं करता। किन्तु अन्य रागादि दोषोंके द्वारा वह रागी आदि होता है।

ज्ञानी रागादिका कर्ता क्यों नहीं है, यह बतलाते हैं -

राग य रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।
सयमप्यणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८०॥

ज्ञानी रागद्वेष मोहको अथवा कषाय भावको (कर्मोदय रूप निमित्तके बिना) स्वयं अपना नहीं करता है। और इसलिये वह ज्ञानी उन रागादि भावोंका कर्ता नहीं है।

किन्तु अज्ञानी रागादि भावोंका कर्ता है

रागमिह य दोसमिह य कसायकम्मेसु चेष जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधादि पुणो वि ॥२८१॥

रागरूप द्वेषरूप और कषायरूप द्रव्यकर्मोंका उदय होनेपर जो रागादिरूप भाव होते हैं उनरूप परिणामन करता हुआ अज्ञानी पुनः रागादिका बन्ध करता है।

अतः यह बात टहरी

रागमिह य दोसमिह य कसायकम्मेसु चेष जे भावा ।
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥२८२॥

रागरूप, द्वेषरूप और कषायरूप कर्मका उदय होनेपर जो भाव होते हैं, उनरूप परिणामन करता हुआ आत्मा रागादिका बन्ध करता है।

सम्यग्ज्ञानी रागादिका अकर्ता कैसे है, यह बतलाते हैं -

अपडिक्कमरां दुविहं अपच्चखारां तहेव विपण्येयं ।
एदेणुवदेसेण दु अकारगो वणिणादो चेदा ॥२८३॥
अपडिक्कमरां दुविहं दव्वे भावे तहा अपच्चखारां ।
एदेणुवदेसेण दु अकारगो वणिणादो चेदा ॥२८४॥

जावं अपडिक्कमणां अपच्चखाणां च दब्बभावाणां ।

कुब्बदि आदा ताव दु कत्ता सो होदि णादब्बो ॥२८५॥

अप्रतिक्रमण (पहले भोगे हुए विषयोंका स्मरण करना) दो प्रकार है। उसी तरह अप्रत्याख्यान (आगामी विषयोंकी चारुप) भी दो प्रकारका जानना चाहिये। इस उपदेश (परमागम) के द्वारा आत्माको अकारक कहा है। द्रव्य और भावके भेदसे अप्रतिक्रमण दो प्रकारका है। उसी तरह द्रव्य और भावके भेदसे अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है। इस उपदेशके द्वारा आत्माको अकारक कहा है। जब तक आत्मा द्रव्य और भावका अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है तबतक वह कर्ता होता है ऐसा जानना चाहिये। आशय यह है कि आगममें जो अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमणको द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका कहा है, वह यह वतलाता है कि द्रव्य और भावमें निमित्त नैमित्तिकपना है। अतः पर द्रव्य निमित्त है, रागादि भाव नैमित्तिक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यानको कर्तापनेरूप निमित्तपनेका उपदेश व्यर्थ हो जायगा और ऐसा होनेपर अकेला आत्मा ही रागादि भावका निमित्त ठहरेगा। तब नित्यकर्तृत्वका प्रसंग आनेसे मोक्षका अभाव हो जायगा। इसलिये आत्माके रागादि भावोंका निमित्त पर द्रव्यको ही मानना चाहिये। अतःआत्मा रागादिका अकारक है। तथापि जबतक वह आत्मा निमित्तभूत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नैमित्तिकभूत रागादि भावोंका न प्रति क्रमण करता है और प्रत्याख्यान करता है। और जब तक रागादि भावोंका प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तबतक कर्ता ही है।

अन्य उदाहरणसे द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपने का समर्थन—

आधाकम्मादीया पुगलदब्बस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुब्बदि णाणी परदब्बगुणा दु जे णिच्चं ॥२८६॥

आधाकम्मं उद्देसियं च पुगालमयं इमं दब्बं ।

कह तं मम होदि कयं जं णिच्चमचेदयां उत्तं ॥२८७॥

अधःकर्म आदि जो पुद्गल द्रव्यके दोष हैं (उन्हें ज्ञानी नहीं करता)। तब जो सदा परद्रव्यके गुण हैं उन्हें ज्ञानी आत्मा कैसे

कर सकता है ? अधःकर्म और औद्देशिक पुद्गलमय द्रव्य हैं । तो जिन्हें सदा अचेतन कहा है वे मेरे किये कैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि मुनिको दिया जानेवाला आहार यदि पापकर्मसे युक्त होता है तो उस आहारको अधःकर्म दोषसे दूषित कहा गया है । तथा जो आहार ग्रहण करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं । जो मुनि इसप्रकार के आहार का, जो कि पुद्गलद्रव्य है, प्रत्याख्यान नहीं करता वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं करता । और जो मुनि उसका प्रत्याख्यान करता है वह उसके निमित्तसे होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार सब द्रव्योंमें और भावोंमें निमित्त नैमित्तिकपना होता है । जो पर द्रव्यको ग्रहण करता है उसके रागादि भाव भी होते हैं । और वह उन रागादि भाव का कर्ता होता है और उससे उसके कर्मबन्ध होता है । किन्तु जब आत्मा यह जानता है कि अधःकर्म आदि पुद्गल द्रव्यके दोष हैं उन्हें आत्मा नहीं करता तो वह निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नैमित्तिकभूत भावका भी, जो बन्धका कारण है, प्रत्याख्यान करता है । इस तरह निमित्तभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेवाला आत्मा नैमित्तिकभूत भावका भी त्याग करता है । इस तरह द्रव्य और भावमें निमित्तनैमित्तिकपना है ।

मोक्ष-अधिकार

बन्धके स्वरूपको जानने मात्रसे मोक्ष नहीं मिलता -

जह णाम को वि पुरिसो बंधणयम्मि निरकालपडिबद्धो ।

तिब्बं मंदसहावं कालं च विधाणुदे तस्स ॥२८८॥

जइ ण वि 'कुण्णदि च्छेदं ण' मुच्चए तेण बंधणवसो तं ।

कालेण उ बहुएण वि ण सो णरो पावदि विमोक्खं ॥२८९॥

इय कम्मबंधणाणां 'पएसट्ठिइपयडिमेवमणुभावं ।

जाणंतो वि ण मुच्चइ 'मुच्चइ सो चेव जदि सुद्धो ॥२९०॥

१ कुव्वदि-ता० वृ० । २ ण मुच्चदि तेण कम्मबंधेण-ता० वृ० । ३ पएस पयडिद्वितीय अणुभागं-ता० वृ० । ४ मुच्चदि सव्वे जदि विसुद्धो-ता० वृ० ।

जैसे बन्धनमें चिरकालसे बंधा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीव्र अथवा मन्द स्वभावको अर्थान् ढीलेपने और दृढपनेको तथा कालको कि यह बन्धन इतने समयसे है, जानता है। किन्तु वह पुरुष उस बन्धनको नहीं कटाता इसलिये उससे नहीं छूटता। अतः बन्धनके अधीन हुआ वह पुरुष बहुकाल बीतने पर भी उस बन्धन से छुटकारा नहीं पाता। इसी तरह जीव कर्मबन्धनोंके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभागको जानता हुआ भी मुक्त नहीं होता। परन्तु यदि वह शुद्ध होजाये तो मुक्त होजाता है।

बन्धका विचार करते रहनेसे भी मोक्ष नहीं मिलता -

जह बंधे चिंततो बंधणबद्धो ण पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे चिंततो जीवो वि ण पावदि विमोक्खं ॥२६१॥

जैसे बन्धनमें बंधा हुआ मनुष्य बन्धका विचार करनेसे छुटकारा नहीं पाता उसी तरह जीव भी बन्धका विचार करनेसे मोक्षको प्राप्त नहीं करता।

बन्धका छेदन करनेसे मोक्ष मिलता है -

जह बंधे छित्तूण य बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे छित्तूण य जीवो संपावदि विमोक्खं ॥२६२॥

जैसे बन्धनसे बंधा हुआ पुरुष बंधको काटकर मोक्ष (छुटकारा) पाता है वैसे ही जीव बन्धको काटकर मोक्षको प्राप्त करता है।

बंधायां च सहावं वियाणिओ अप्पणो सहावं च ।

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणां कुणदि ॥२६३॥

जो बन्धोंके स्वभावको और अपने स्वभावको जानकर बन्धोंके प्रति विरक्त होता है वह पुरुष कर्मोंसे मुक्त होता है।

आत्मा और बन्धके पृथक् होनेका साधन

जीवो बंधो य तथा छिज्जति सलक्खणेहिं णियएहिं ।

परणाछेदणएण दु छिएणा णाणत्तमावएणा ॥२६४॥

जीव और बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते हैं अर्थान् दोनोंके लक्षण जुदेजुदे हैं उन अपने-अपने लक्षणोंसे वे दोनों भिन्न-भिन्न

किये जाते हैं। और प्रज्ञारूपी छीनीसे छेदे जानेपर वे दोनो जुदे जुदे होजाते हैं।

आत्मा और बंधको अलग करनेसे लाभ

जीवो बंधो य तदा छिज्जन्ति सलक्खणेहि शियएहिं ।

बंधो छेदेदव्वो सुद्धो अप्पा य घेत्तव्वो ॥२६५॥

जीव और बन्ध अपने-अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते हैं। उनमेंसे बंधको तो छोड़देना चाहिये और आत्माको ग्रहण करलेना चाहिये।

प्रज्ञाके द्वारा आत्मा और बन्धको जुदा करने पर भी आत्माको कैसे

ग्रहण किया जाये ? इस प्रश्नका समाधान -

कह सो घिप्पदि अप्पा परणाए सो दु घिप्पदे अप्पा ।

जह परणाए विभत्तो तह परणाए व धित्तव्वो ॥२६६॥

वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है ? वह आत्मा प्रज्ञाके द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञाके द्वारा उसे बंधसे भिन्न किया वैसे ही प्रज्ञाके द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिये।

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेका उपाय

परणाए घेत्तव्वो जो चेदा सो अहं तु शिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति शादव्वा ॥२६७॥

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो चेतयिता है वह तो निश्चयसे मैं हूँ। बाकीके जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये।

परणाए धित्तव्वो जो दट्टा सो अहं तु शिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति शादव्वा ॥२६८॥

परणाए धित्तव्वो जो शादा सो अहं तु शिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति शादव्वा ॥२६९॥

प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो दृष्टा (देखनेवाला) है वह निश्चयसे मैं हूँ। बाकी जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये। प्रज्ञाके द्वारा ऐसे ग्रहण करना चाहिये, जो

ज्ञाता (जाननेवाला) है वह तो निश्चयसे मैं हूँ । बाकीके जो भाव हैं वह मुझसे पर हैं ऐसा जानना चाहिये ।

को णाम भणिज्ज बुहो णादुं सव्वे पराहए^१ भावे ।

मज्झमिण्यंति य वयणं जाणंती अप्पयं सुद्धं ॥३००॥

समस्त भावोंको परकीय जानकर आत्माको शुद्ध जानता हुआ कौन ज्ञानी 'ये मेरे हैं' ऐसा बोलेगा ।

दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन

येयादी अवराहे कुब्बदि जो सो तु संकिदो होदि ।

मा ब^२क्केज्जं केण वि चोरो ति जणमिह वियरंती ॥३०१॥

जो ण कुणइ अवराहे सो णिस्संको तु जणवदे भमदि ।

ण वि तस्स ब^३ज्झिदुं जे चिंता उण्णज्जदि कया धि ॥३०२॥

एवं हि सावराहो ब^४भ्भामि अहं तु संकिदो चेदा ।

जो पुण णिरवराहो णिस्संको हं णा ब^५भ्भामि ॥३०३॥

जो पुरुष चोरी आ दे अपराधोंको करता है वह तो लोकमें विचरता हुआ, मुझे कोई चोर जानकर पकड़ न ले ऐसा शंकित रहता है । किन्तु जो पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोकमें नेर्भय होकर घूमता है उसे बांधे-जाने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती । इसीप्रकार अपराधी आत्मा मैं अपराधी हूँ अतः मैं बांधा जाऊँगा इसप्रकार शंकित रहता है । किन्तु यदि वह निरपराधी होता है तो 'मैं नहीं बांधा जाऊँगा' इसप्रकार निःशङ्क रहता है ।

अपराधका स्वरूप

संसिद्धिराधसिद्धि^१ साधिदमाराधिदं च एयट्ठो ।

अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥३०४॥

जो पुण णिरवराहो चेदा णिस्संकिअो तु सो होदि ।

आराहराण णिच्चं वट्ठेइ अहंति जाणंती ॥३०५॥

१. परोदये— ता० वृ० । २. ब^२क्केउहं— ता० वृ० । ३.—सिद्ध आ० मु० ।

संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित ये सब शब्द एकार्थवाची हैं। 'राध' अर्थान् पर द्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माकी सिद्धिसे जो रहित है, वह आत्मा अपराध है ॥ तथा जो आत्मा निरपराध होता है वह निःशुद्ध होता है। और 'मैं शुद्ध आत्मारूप हूँ' ऐसा जानता हुआ सदा आराध-नारूपसे वर्तता है अर्थान् वह सदाकाल आराधक है।

व्यवहारनयावलम्बी कहता है कि शुद्धात्माकी उपासनासे क्या लाभ है ? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिके करनेसे ही आत्मा निरपराध होता है। सापराधका जो प्रतिक्रमण आदि नहीं करना है वह विषकुम्भ है, प्रतिक्रमण आदिका करना अमृतकुम्भ है क्योंकि वह अपराधको दूर करता है। इसका उत्तर—

पटिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा शिष्यत्ता य ।

शिदा गरहा सोही अट्टविहा होदि विसकुंभो ॥३०६॥

अप्यडिकमणमपडिसरणं अपपरिहारो अपधारणा चैव ।

अशिष्यत्ता य अशिदागरहासोही अमयकुंभो ॥३०७॥

प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि ये आठ प्रकारका विषकुम्भ है। और अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा, अशुद्धि ये आठ अमृत कुम्भ है ॥ आशय यह है कि अज्ञानीजनोंमें प्रचलित जो अप्रतिक्रमण-प्रतिक्रमण न करना आदि है वह तो स्वयं ही शुद्धात्मसिद्धि स्वभाव न होनेसे विषकुम्भ ही है। किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है वह यद्यपि समस्त अपराधरूपी विषको कम करने में समर्थ होनेके कारण अमृत कुम्भ है, तथापि जो प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है उसपर जिनकी दृष्टि नहीं है उनके लिये वः द्रव्य प्रतिक्रमण स्वकार्य करनेमें असमर्थ होनेसे तथा विरुद्धकार्यकारी होनेसे विषकुम्भ ही है। अप्रतिक्रमणादिरूप जो तीसरी भूमि है वह तो स्वयं शुद्धात्मसिद्धि स्वरूप होनेसे समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको दूर करनेके कारण साक्षान् अमृतकुम्भ रूप है। इसलिये वह व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमणादिको भी अमृतकुम्भपना सिद्धकरता है। उसीसे आत्मा निरपराध होता है। उसके

अभावमें द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधरूप हैं। अतः तीसरी भूमिकाके द्वारा ही निरपराधपना होता है उसी की प्राप्तिके लिये द्रव्यप्रतिक्रमणादि हैं।

सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार

दृष्टान्तपूर्वक आत्माके अकर्तापनेका कथन

दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणणणं ।

जह कइयादीहि दु पज्जएहि कणयं अणणणमिह ॥३०८॥

जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते ।

तं जीवमजीवं वा तेहिमणणणं वियाणोहि ॥३०९॥

ए कुदोचि वि उप्पणो जम्हा कज्ज ए तेण सो आदा ।

उप्पादेदि ए किन्नि वि कारणमवि तेण ए स होइ ॥३१०॥

कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।

उप्पज्जति य णियमा सिद्धी दु ए दीसए अरणा ॥३११॥

जो द्रव्य जिन गुणोंसे उत्पन्न होता है उन गुणोंसे उस द्रव्यका अभिन्न जानो। जैसे लाकमें कटक (कपड़ा) आदि पर्यायोंसे सुवर्ण अभिन्न है ॥ जीव और अजीवके जो परिणाम सूत्रमें कहे हैं, वह जीव अथवा अजीव उन परिणामोंसे अभिन्न है ॥ यतः किसीसे भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये वह आत्मा किसीका कार्य नहीं है। और किसीको उत्पन्न नहीं करता इसलिये वह किसीका कारण भी नहीं है ॥ ऐसा नियम है कि कर्मकी अपेक्षा कर्ता होता है और कर्ताकी अपेक्षा कर्म (कार्य) उत्पन्न होते हैं। इसके सिवाय अन्य किसी रीतिसे कर्ताकर्मभावकी सिद्धि देखनेमें नहीं आती।

अज्ञानकी महिमा

चेया उ पयडीअट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ।

पयडी वि चेययट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥३१२॥

एवं बंधो उ दुरहं वि अरण्योरण्यच्चया हवे ।
अप्यणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥३१३॥

आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ।
प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पन्न होती है और नष्ट होती है ।
इसप्रकार पारस्परिक निमित्तसे आत्मा और प्रकृति दोनोंका बन्ध होता
है और उससे संसार उत्पन्न होता है ।

जा एसा पयडीअट्टं चेया णेव विमुंचए ।
अयाणओ भवे ताव मिच्छाइट्टी असंजमो ॥३१३॥
जया विमुंचए चेया कम्मफलमणंतयं ।
तया विमुत्तो हवइ जाणओ पासआं मुणी ॥३१५॥

जब तक यह आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना और विनष्ट
होना नहीं छोड़ता तबतक वह अज्ञानी है, मिथ्यादृष्टी है और असंयमी
है । और जब आत्मा अनन्त कर्मफलको छोड़ देता है तब वह ज्ञायक है,
दर्शक है, मुनि है और विमुक्त है ; अर्थात् जबतक आत्माको भेद ज्ञान
नहीं है तबतक वह मिथ्यादृष्टि और बन्धक है । भेद ज्ञान होनेपर वह
ज्ञाता दृष्टा मात्र है ।

यही बात आगे कहते हैं—

अणणाणी कम्मफलं पयडिसहावट्टिओ दु वेदेइ ।
णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥३१६॥

अज्ञानी प्रकृति (जड़) के स्वभावमें स्थित होता हुआ कर्मोंके फलको
भोगता है । किन्तु ज्ञानी उदयमें आये हुए कर्मफलको जानता है, भोगता
नहीं है ।

अज्ञानी भोका है—

ए मुणादि पयडिमभवो सुट्ठु वि अज्जाइऊण सत्थाणि ।
गुडदुद्धं पि पिवंता ण पणया णिविसा होति ॥३१७॥

अच्छी तरहसे शाबोंको पढ़कर भी अभव्य प्रकृतिके स्वभावको
छोड़ता नहीं है । ठीक ही है, गुड़ मिश्रित दूधको पीते हुए भी सर्प निर्विष
नहीं होते ।

ज्ञानी भोक्ता नहीं है—

शिष्येयसमावरणो ग्राणी कर्मफलं वियारोह ।

महुरं कडुयं बहुविहमवेयश्चो तेण सो होई ॥३१८॥

वैराग्यको प्राप्त हुआ ज्ञानी भीटे कडुए अनेक प्रकारके कर्मफलको जानता है । अतः वह अवेदक है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है ।

ण वि कुव्वदि ण वि वेयइ ग्राणी कम्माइ बहुययाराइ ।

जाणइ पुण कम्मफलं बंधं पुणण च पावं च ॥३१९॥

ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंको न तो करता है और न भोगता है । किन्तु पुण्य और पापरूप कर्मबन्धको और कर्मफलको जानता है ।

ज्ञानी कर्ता और भोक्ता नहीं है, इसका दृष्टान्त —

दिट्ठी जहेव ग्राणं अकारयं तह अवेदयं चव ।

जाणादि य बंधमोक्खं कम्मदयं शिउजरं चव ॥३२०॥

जैसे आंख दृश्य वस्तुओंको न करती है और न भोगती है, केवल देखती है । वैसेही ज्ञान अकारक और अवेदक है—कर्ता भोक्ता नहीं है, वह बन्ध, मोक्ष, कर्मका उदय और निर्जराको केवल जानता है ।

परको कर्ता माननेसे लौकिक जनों और श्रमणोंके धर्ममें अन्तर नहीं रहता

लोगस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।

समणाणं पि य अप्पा जदि कुव्वदि छव्विहे काये ॥३२१॥

लोगसमणाणमेयं सिद्धंतं जइ^१ ण दीसइ विसेसो ।

लोगस्स कुणइ विण्हू समणाण^२ वि अप्पओ कुणदि ॥३२२॥

एवं ण को वि मोक्खो दीसइ लोयसमणाण दोणहं पि ।

शिउच्चं कुव्वताणं सदेवमणुयासुरे लोगे ॥३२३॥

लौकिक जनोंके मतमें विष्णु देव, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि प्राणियोंको करता है, इसी तरह यदि श्रमणोंके मतमें भी आत्मा छ कायके जीवोंको करता है तो लोक और श्रमणोंका एकमत होजाता है और

१—पडि इत्यदि पाठः तात्पर्यं वृ० । २ 'दुण्हं पि समण लोयाणं'—
तात्पर्यवृत्तौ ।

दोनोंके मतमें कोई अन्तर नहीं रहता । क्योंकि लोकके मतमें विष्णु करता है और श्रमणोंके मतमें आत्मा करता है ॥ और इस तरह देव, मनुष्य और असुर सहित तीनों लोकोंको सदा करनेवाले लोक और श्रमण दोनोंको कोई मोक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता ।

आत्माको परका कर्ता माननेवाला मिथ्यादृष्टि है -

व्यवहारभासिदेण दु परदव्वं मम भणंति अविदियत्था ।
जाणंति णिच्छयेण दु ण य मह परमाणुमित्तमवि किञ्चि ॥३२४॥
जह को वि णारो जंपइ अम्हं गामविसयणयरट्ठं ।
ण य हँति तस्स ताणि उ भणदि य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥
एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णीसंसयं हवइ एसो ।
जो परदव्वं मम इदि जाणंती अप्पर्यं कुणदि ॥३२६॥
तम्हा ण मेत्ति णिच्चा दोणह वि एयाण कत्तविसायं ।
परदव्वे जाणंती जाणिज्जो दिट्ठिरहियाणं ॥३२७॥

पदार्थके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष व्यवहार नयके कथनको लेकर ऐसा कहते हैं कि पर द्रव्य मेरा है । किन्तु ज्ञानी पुरुष निश्चयसे जानते हैं कि किञ्चिन् परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है ॥ जैसे कोई पुरुष हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र, ऐसा कहता है । परन्तु वे उसके नहीं हैं, मोहसे वह उन्हें अपना कहता है ॥ इसी तरह जो ज्ञानी भी 'पर द्रव्य मेरा है' ऐसा जानता हुआ पर द्रव्यको अपना करता है वह निस्सन्देह मिथ्यादृष्टि है ॥ अतः तत्त्वके स्वरूपको जाननेवाला 'पर द्रव्य मेरा नहीं है' ऐसा जानकर इन दोनों अर्थान् लौकिकजनों और श्रमणोंका परद्रव्यमें कर्तृत्वपनेके व्यवसायको जानता हुआ, ऐसा व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पुरुषोंका है, ऐसा जानता है । आशय यह है कि जो व्यवहारसे मोहित होकर परद्रव्यके कर्तृत्वको मानते हैं वे चाहे लौकिक जन हों या श्रमण दोनों मिथ्यादृष्टि हैं ॥

भावकर्मका कर्ता जीव है -

मिच्छता जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदि अप्पाणं ।
तम्हा अचेयणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो ॥३२८॥
अहवा एसो जीवो पोभाउदव्वस्स कुणइ मिच्छत्तं ।
तम्हा पोभाउदव्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥३२९॥

अहं जीवो पयडी तह पोगलदव्वं कुणादि मिच्छत्तं ।
 तम्हा दोहि कदं तं दोणियावि भुंजति तस्स फलं ॥३३०॥
 अहं ण पयडी ण जीवो पोगलदव्वं करेदि मिच्छत्तं ।
 तम्हा पोगलदव्वं मिच्छत्तं तं तु ण ह् मिच्छा ॥३३१॥

यदि मोहकर्मकी मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्माको मिथ्यादृष्टि करती है तो तुम्हारे मतमें अचेतन कर्मप्रकृति मिथ्यात्व भावकी कर्ता ठहरती है ॥ अथवा यह जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वकर्मको करता है ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि ठहरता है, जीव नहीं ॥ अथवा जीव तथा प्रकृति दोनों पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करते हैं ऐसा माना जाय तो चूँकि दोनोंने उसे किया है, इसलिये दोनोंको उसका फल भोगना चाहिये । अथवा न तो प्रकृति और न जीव पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्व भावरूप करता है, यदि ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्रव्य स्वयं ही मिथ्यात्व भावरूप है, यह बात मिथ्या नहीं है ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है—

कम्मेहि दु अण्णाणी विज्जदि णाणी तहेव कम्मेहि ।
 कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहि ॥३३२॥
 कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहि ।
 कम्मेहि य मिच्छत्तं शिज्जदि शिज्जदि असंजमं चेव ॥३३३॥
 कम्मेहि भमाडिज्जदि उट्टमहो चावि तिरियलोदम्मि ।
 कम्मेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेतियं किञ्चि ॥३३४॥
 जम्हा कम्मं कुब्बदि कम्मं देई हरदि जं किञ्चि ।
 तम्हा उ सव्वजीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥३३५॥
 पुरिसित्थियाहिलासी इत्थी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥
 तम्हा ण को वि जीवा अबंभन्चारी दु अम्हा उवदेसे ।
 जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि इदि भणियं ॥३३७॥
 जम्हा धादेदि परं परेण धादिज्जदेदि सा पयडी ।
 एदेणत्थेण दु किर भण्णादि परधादणामिति ॥३३८॥

१ तुम्ह —ता० वृत्ती । २ ज —ता० ।

तम्हा ए को वि जीवोवधादगो'अस्थि अम्ह' उवदेसे ।
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं धादेदि इदि भणियं ॥३३६॥
एवं संखुवदेसं जे दु परुविति एरिसं समण्णा ।
तेसिं पयडो कुब्बादि अप्पा य अकारया सव्वे ॥३४०॥
अहवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणोकुण्णदि ।
एसो मिच्छसहावो तुम्हं एवं 'मण्णत्तस्स ॥३४१॥
अप्पा णिब्बो असंखिज्जपदेसो देसिदो दु समयग्घि ।
ए वि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहिओ य कादु' जे ॥३४२॥
जीवस्स जीवरुवं वित्थरदो जाण लोगमित्तं खु ।
तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कहं 'कुण्णदि दव्वं ॥३४३॥
अह जाणमो दु भावो णाणसहावेण अस्थि इत्ति मयं ।
तम्हा ए वि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुण्णदि ॥३४४॥

कर्म जीवको अज्ञानी करते हैं, और कर्म जीवको ज्ञानी करते हैं, कर्म जीवको सुलाते हैं और कर्म जीवको जगाते हैं ॥ कर्म जीवको सुखी करते हैं और कर्म जीवको दुखी करते हैं । कर्म जीवको मिथ्यात्वकी ओर लेजाते हैं और कर्म जीवको असंयमकी ओर ले जाते हैं ॥ कर्म जीवको अधोलोक ऊर्ध्वलोक और मध्यलोकमें भ्रमण कराते हैं, जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं । कर्म ही करता है, कर्मही देता है, कर्म ही होता है । चूंकि जो कुछ करता है वह सब कर्म ही करता है अतः सब जीव अकारक हैं ॥

तथा पुरुषवेद कर्म स्त्रीकी अभिलाषा करता है और स्त्रीवेदकर्म पुरुष की अभिलाषा करता है यह आचार्य परम्परासे आई हुई श्रुति है । इसलिये हमारे आगममें कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं हैं; क्योंकि कर्म ही कर्मकी अभिलाषा करता है ऐसा कहा है । तथा जो परको घातता है और जो परके द्वारा घाता जाता है वह प्रकृति है । इसे ही परघातकर्म कहते हैं । अतः हमारे उपदेश (मत) में कोई भी जीव घात करनेवाला नहीं है क्योंकि कर्म ही दूसरेका घात करता है ऐसा कहा है ॥ इसप्रकार सांख्यमतका उपदेश है । जो भ्रमण इसप्रकार का उपदेश करते हैं उनके

१ 'जीवो उवधादगो'—ता० । २ 'तुब्ब' ता० । ३ -'मण्णत्तस्स'—ता० ।
४ 'मण्णसि'—ता० ।

मतमें जो कुछ करती है प्रकृति ही करती है। आत्मा तो सब अकारक ही हैं कुछ नहीं करते हैं ॥

अथवा यदि तू ऐसा मानता है कि मेरा आत्मा स्वयं ही आत्माको करता है तो ऐसा जाननेवाला तो यह स्वभाव भी मिथ्या है। क्योंकि आगममें आत्माको नित्य असंख्यात प्रदेशी कहा है। उसे उससे हीन अथवा अधिक नहीं किया जा सकता। तथा विस्तारकी अपेक्षा जीवको लोक प्रमाण जानना चाहिये। उससे क्या वह हीन अथवा अधिक होता है? यदि नहीं होता तो आत्मा आत्मद्रव्यका कर्ता कैसे हुआ? अथवा यदि ऐसा मानता है कि ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है तो आत्मा स्वयं आत्माका कर्ता नहीं है, यह स्थिर हुआ।

आगे ज्ञानिकवादका निषेध करते हैं—

केहिन्नि दु पज्जएहिं विणस्सदे रोव केहिन्नि दु जीवो ।
जम्हा तम्हा कुब्बदि सो वा अण्णो व रोयंतो ॥३४५॥
केहिन्नि दु पज्जएहिं विणस्सदे रोव केहिन्नि दु जीवो ।
जम्हा तम्हा वेददि सो वा अण्णो व रोयंतो ॥३४६॥
जो चेव कुण्णदि सो चिय ण वेदए जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अण्णारिहदो ॥३४७॥
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्स एस सिद्धंतो ।
सो जीवो णादब्बो मिच्छादिट्ठी अण्णारिहदो ॥३४८॥

चूंकि जीव कतिपय पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता, अतः जो भोगता है वही करता है अथवा अन्य करता है ऐसा एकान्त नहीं है। तथा चूंकि जीव कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता। अतः जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है ऐसा एकान्त नहीं है। जो करता है वही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धान्त है, वह जीव मिथ्यादृष्टी और अनार्हत (अर्हन्त भगवानके मतको न माननेवाला) है। अन्य करता है और अन्य भोगता है, जिसका ऐसा सिद्धान्त है उस जीवको मिथ्यादृष्टी और अनार्हत जानना चाहिये। [आशय यह है कि बौद्ध मतवाले प्रत्येक वस्तुको ज्ञानिक मानते हैं ॥ ज्ञान ज्ञानमें वस्तु नष्ट होती

१ 'सो चेव वेदको'—ता० वृत्तौ ।

है और नई उत्पन्न होती है ऐसा उनका सिद्धांत है। ऐसी स्थितिमें जो करता है वह भोगता नहीं है और जो भोगता है वह कर्ता नहीं है। किन्तु जैन सिद्धान्तमें प्रत्येक वस्तु द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। अतः जो करता है वही भोगता है या जो भोगता है वही करता है ऐसा एकान्त नहीं है; क्योंकि पर्याय दृष्टिसे करनेवाला जुदा है और भोगनेवाला जुदा है। तथा कर्ता दूसरा है और भोगता दूसरा है ऐसा भी एकान्त नहीं; क्योंकि द्रव्य दृष्टिसे जो करता है वही भोगता है।

अग्रे कहते हैं कि—व्यवहार दृष्टिसे कर्ताकर्म भिन्न हैं किन्तु निश्चय दृष्टिसे दोनों एक हैं—

जह सिप्पिओ दु कम्मं कुब्बदि ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुब्बदि ण य तम्मओ होदि ॥३४६॥
 जह सिप्पिओ दु करणेहि कुब्बदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणेहि कुब्बदि ण य तम्मओ होदि ॥३५०॥
 जह सिप्पिओ दु करणाणि गियहदि ण सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो करणाणि दु गियहदि ण य तम्मओ होदि ॥३५१॥
 जह सिप्पिओ कम्मफलं भुंजह ण य सो दु तम्मओ होदि ।
 तह जीवो कम्मफलं भुंजह ण य तम्मओ होदि ॥३५२॥
 एवं व्यवहारस्स दु वत्तवं दरिसणं समासेण ।
 सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३५३॥
 जह सिप्पिओ दु चिट्ठं कुब्बदि हवदि य तहा अणयणो से ।
 तह जीवो वि य कम्मं कुब्बदि हवदि य अणयणो से ॥३५४॥
 जह चिट्ठं कुब्बतो दु सिप्पिओ णिच्च दुक्खिदो होदि ।
 तत्तो सिया अणयणो तह चिट्ठं तो दुही जीवो ॥३५५॥

जैसे शिल्पी (कारीगर) कुण्डल आदि कर्मको करता है अर्थात् सोने के कुण्डल वगैरह बनाता है, किन्तु वह कुण्डलमय नहीं हो जाता। वैसे ही जीव भी पुण्य पाप रूप कर्मको करता है; किन्तु वह पुद्गल कर्ममय नहीं होता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदिके द्वारा कर्म करता है किन्तु हथौड़ा आदि मय नहीं होता, वैसे ही जीव मन वचन कायके व्यापार रूप योग के द्वारा कर्मको करता है किन्तु तन्मय नहीं हो जाता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि उपकरणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता। वैसे ही

जीव योगरूप करणोंको ग्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता । जैसे शिल्पी अपने द्वारा बनाये गये कुण्डलादिका फल भोगता है किन्तु फलमय नहीं हो जाता, वैसे ही जीव कर्मफलको भोगता है किन्तु तन्मय नहीं होता । इस प्रकार व्यवहार नयका दर्शन संक्षेपसे कहा । अब निश्चयनयका कथन सुनो जो परिणामविषयक है । जैसे शिल्पी चेष्टा करता है अर्थात् मनमें विचारता है कि मैं इस तरहसे कुण्डलादि बनाता हूँ और वह उस चेष्टासे अनन्य होता है । वैसे ही जीव भी अपने परिणामरूप कर्मको करता है और वह उससे अनन्य होता है । जैसे शिल्पी उक्त चेष्टा करता हुआ मानसिक खेदसे सदा दुखी होता है और वह उस दुःखसे अभिन्न होता है, वैसे ही अपने परिणामोंको करता हुआ जीव भी दुःखी होता है ।

दृष्टान्तपूर्वक व्यवहार और निश्चयका पुनः कथन करते हैं--

जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया य सा होदि ।
तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह परसगो दु ण परस्स परसगो परसगो सो दु ॥३५७॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि ।
तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सो दु ॥३५८॥
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सो होदि ।
तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५९॥
एवं तु गिञ्जयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते ।
सुणु व्यवहारणयस्स वत्तवं से समासेण ॥३६०॥
जह परदवं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदवं जाणदि णादा वि सयेण भावेण ॥३६१॥
जह परदवं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदवं परसदि जीवो वि सयेण भावेण ॥३६२॥
जह परदवं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदवं विजहइ^१ णादा वि सयेण भावेण ॥३६३॥
जह परदवं सेडिदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
तह परदवं सदहदि सम्मादिट्ठी सहावेण ॥३६४॥

१ विरमदि-ता० वृत्तौ ।

एवं व्यवहारस्य तु विण्छिञ्चो णाण्यदंसणचरित्ते ।
मण्णियो अण्णोसु वि पज्जएसु एमेव णादव्वो ॥३६५॥

जैसे खिरिया मिट्टी पर अर्थान् भीत आदिकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही ज्ञायक अर्थान् जानने वाला आत्मा परका नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही दर्शक अर्थान् देखने वाला आत्मा परका नहीं है, दर्शक तो दर्शक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही संयमी आत्मा परका नहीं है, संयमी तो संयमी ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वैसे ही दर्शन अर्थान् श्रद्धान परका नहीं है, दर्शन तो दर्शन ही है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके विषयमें निश्चयनयका कथन है। अब उसके सम्वन्धमें संक्षेपसे व्यवहारनयका कथन सुनो।

जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्य दीवार आदिको सफेद करती है वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यको जानता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे ही जीव अपने स्वभावसे परद्रव्यको देखता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका त्याग करता है। जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि स्वभावसे परद्रव्यका श्रद्धान करता है। इस प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके विषयमें व्यवहारनयका निर्णय कहा। अन्य पर्यायोंके विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिये।

सम्यग्दृष्टिका परद्रव्योंमें हाग न होने का कारण—

दंसण-णाण-चरित्तं किञ्चि वि णत्थि तु अचेदणो विसये ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥३६६॥
दंसणणाणचरित्तं किञ्चि वि णत्थि तु अचेदणो कम्मे ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्मि ॥३६७॥
दंसणणाणचरित्तं किञ्चि वि णत्थि तु अचेदणो काये ।
तम्हा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥३६८॥

शाणस्स दंसणस्स य भण्हिदो घादो तहा चरित्तस्स ।
 ण^१ वि तहिं पोग्गलदब्बस्स को वि घादो दु खिद्धिट्ठो ॥३६६॥
 जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खलु परेसु दब्बेसु ।
 तम्हा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो दु विसएसु ॥२७०॥
 रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणसणपरिणामा ।
 एदेण कारणेण दु सदादिसु णत्थि रागादि ॥३७१॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र रंचमात्र भी अचेतन विषयमें नहीं है। अतः आत्मा उन अचेतन विषयोंमें किसका घात करता है, अर्थात् किसीका भी नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्ममें रंचमात्र भी नहीं है। अतः आत्मा अचेतन कर्ममें किसका घात कर सकता है? दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन कायमें रंचमात्र भी नहीं है। अतः आत्मा कायमें क्या घात सकता है? घात ज्ञानका दर्शनका और चारित्रका कहा है। पुद्गल द्रव्यका वहाँ जरा घात नहीं कहा। अर्थात् ज्ञान दर्शन और चारित्रका घात होने पर पुद्गल द्रव्यका जरा भी घात नहीं होता। इस तरह जीवके जो कोई गुण हैं वे परद्रव्योंमें नहीं हैं। इसलिये सम्यग्दृष्टिका विषयोंमें राग नहीं है। राग द्वेष मोह जीवके ही अनन्य परिणाम हैं। इसलिये शब्दादि विषयोंमें रागादि नहीं हैं।

एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न नहीं करता-

अणएदविएण अणएदवियस्स ण कीरदे गु^१णुप्पादो ।

तम्हा दु सव्वदव्वा उप्पज्जते सहावेण ॥३७२॥

अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती। अतः सब द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं।

खिद्धिद-संथुद-वयणाण पोग्गला परिणमंति बहुगाणि ।
 ताणि सुखिदूण रूसदि त्सदि य पुणो अहं भण्हिद^१ ॥३७३॥
 पोग्गलदव्वं सद्दत्तपरिणदं तस्स जदि गुणो अण्णो ।
 तम्हा ण तुमं भण्हिदो किंचि वि किं रूसवि अबुहो ॥६७४॥
 असुहो सुहो व सद्दो ण तं भण्हिदि सुणसु मंति सो चेव ।
 ण य पदि विणिग्गाहदु^२ सोदविसयमागदं सहं ॥३७५॥

१ ण वि तम्हि कोवि पुग्गलदब्बे घादो दु खिद्धिट्ठो'-ता० वृ० ।

२ 'गुणविषाद'-ता० वृ० ।

असुहं सुहं व रुच्यं तं भणदि पिच्छं मंति सो चैव ।
 य य एदि विणिग्गाहिदुं चक्खुविसयमागदं रुवं ॥३७६॥
 असुहो सुहो व गंधो ण तं भणदि जिन्ध मंति सो चैव ।
 य य एदि विणिग्गाहिदुं घाणविसयमागदं गंधं ॥३७७॥
 असुहो सुहो व रसो ण भणदि रसय मंति सो चैव ।
 य य एदि विणिग्गाहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥३७८॥
 असुहो सुहो व फासो ण तं भणदि फुससु मंति सो चैव ।
 य य एदि विणिग्गाहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥३७९॥
 असुहो सुहो व गुणो ण तं भणदि बुष्म मंति सो चैव ।
 य य एदि विणिग्गाहिदुं बुद्धिविसयमागदं तु गुणं ॥३८०॥
 असुहं सुहं व दव्वं ण तं भणदि बुष्म मंति सो चैव ।
 य य एदि विणिग्गाहिदुं बुद्धिविसयमागदं दव्वं ॥३८१॥
 एदं तु जाणिऊण उवसमं शेव गच्छई मूदो ।
 णिग्गाहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ॥३८२॥

निंदा और स्तुति वचन रूप बहुतसे पुद्गल परिणत होते हैं । उनको सुनकर अज्ञानी जीव 'मुझे कहे हैं' ऐसा मानकर गुस्सा करता है अथवा खुश होता है । पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमन करता है । यदि उसका गुण तुम्हसे भिन्न है तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी होता हुआ क्यों रोप करता है । शुभ अथवा अशुभ शब्द तुम्हसे यह नहीं कहते कि हमें सुनो । और आत्मा भी श्रोत्र के विषय रूपसे आये हुए शब्दोंको ग्रहण करनेको नहीं जाता । शुभ अथवा अशुभ गंध तुम्हसे नहीं कहते कि मुझे सूँघ । आत्मा भी घ्राण इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए गन्धको सूँघनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ रस तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे चाख । और आत्मा भी रसना इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए रसको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ स्पर्श तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे स्पर्श कर । और आत्मा भी स्पर्शन इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए स्पर्शको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ गुण तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे जान । और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए गुणको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ द्रव्य तुम्हसे नहीं कहता कि मुझे जान । और आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए

द्रव्यको ग्रहण करनेको नहीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम (शान्त) भावको प्राप्त नहीं होता। और कल्याणकारी बुद्धिको प्राप्त न करता हुआ स्वयं पर वस्तुको ग्रहण करनेका मन रखता है।

प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप

कर्मं जं पुण्वकयं सुहासुहमणोयवित्थरवित्सेसं ।
 तत्तो णियत्तं अप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं ॥३८३॥
 कम्मं जं सुहमसुहं जग्गिह य भावग्गिह बज्जह भविस्सं ।
 तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥
 जं सुहमसुहमुदिशणं संपदि य अणोयवित्थरवित्सेसं ।
 तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥३८५॥
 णिच्चं पच्चक्खाणं कुव्वदि णिच्चं पडिक्कमदि जो य ।
 णिच्चं आलोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥३८६॥

पूर्वमें किया हुआ जो अनेक प्रकारका विस्तार वाला शुभ और अशुभ कर्म है उससे जो आत्माको निवृत्त करता है अर्थात् दूर हटाता है वह आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है। भविष्यमें जो शुभ और अशुभ कर्म जिस भावमें बंधको प्राप्त होगा, उस भावसे जो आत्माको दूर करता है वह आत्मा प्रत्याख्यान है। वर्तमानमें उदयको प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकारका विस्तार वाला जो शुभ और अशुभ कर्म है, उस दोषको जो आत्मा अनुभव करता है वह आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है वह आत्मा चारित्र है। [आशय यह है कि चारित्रमें प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना करनेका विधान है। पहले लगे हुए दोषोंकी विशुद्धिको प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्यमें लगनेवाले दोषोंके त्यागको प्रत्याख्यान कहते हैं। और वर्तमान दोषोंकी विशुद्धिको आलोचना कहते हैं। चूँकि यहाँ निश्चय चारित्रका कथन है अतः यहाँ निश्चय प्रतिक्रमणादिका स्वरूप बतलाया है]

वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं कुणदि जो दु कम्मफलं ।
 सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८७॥
 वेदंतो कम्मफलं मए कदं मुणदि जो दु कम्मफलं ।
 सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८८॥

वेदंतो कम्मफलं लुहिटो दुहिटो य हवदि जो वेदा ।

सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥३८२॥

कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो जीव कर्म फलको अपने रूप करता है, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता है । कर्मफलका वेदन करनेवाला जो जीव ऐसा मानता है कि यह कर्मफल मैंने किया है, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मोंको फिर भी बांधता है । कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो जीव सुखी अथवा दुःखी होता है, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता है ।

आगे ज्ञानको सब वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं—

सत्थं णारणं ण हवदि जम्हा सत्थं ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं सत्थं जिणा विति ॥३६०॥

सदो णारणं ण हवदि जम्हा सदो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं सदं जिणा विति ॥३६१॥

रुवं णारणं ण हवदि जम्हा रुवं ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं रुवं जिणा विति ॥३६२॥

वरणो णारणं न हवदि जम्हा वरणो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं वरणं जिणा विति ॥३६३॥

गंधो णारणं ण हवदि जम्हा गंधो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं गंधं जिणा विति ॥३६४॥

ण रसो दु हवदि णारणं जम्हा दु रसो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं रसं य अरणं जिणा विति ॥३६५॥

फासो ण हवदि णारणं जम्हा फासो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं फासं जिणा विति ॥३६६॥

कम्मं णारणं ण हवदि जम्हा कम्मं ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं कम्मं जिणा विति ॥३६७॥

धम्मो णारणं ण हवदि जम्हा धम्मो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं धम्मं जिणा विति ॥३६८॥

णारणमधम्मो ण हवदि जम्हा धम्मो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणमधम्मं जिणा विति ॥३६९॥

कालो णारणं ण हवदि जम्हा कालो ण जाणदे किंचि ।

तम्हा अरणं णारणं अरणं कालं जिणा विति ॥४००॥

आयासं पि य ख्यायं जम्हायासं ए जायदे किञ्च ।
 तम्हायासं अरयणं अरयणं रायणं जिखा विति ॥४६१॥
 यम्भवसायं रायणं अम्भवसायं अचेदयं जम्हा ।
 तम्हा अरयणं रायणं अम्भवसायं तहा अरयणं ॥४०२॥
 जम्हा जायदि शिच्वं तम्हा जीवो दु जायगो रायणी ।
 रायणं च जाययादो अव्वदिरित्तं मुणेयव्वं ॥४०३॥
 रायणं सम्मादिट्ठी दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अब्भुवति बुहा ॥४०४॥

शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता । अतः शास्त्र
 अन्य है और ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । शब्द ज्ञान नहीं है
 क्योंकि शब्द किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और शब्द
 अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप किञ्चित्
 भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रूप अन्य है ऐसा जिनदेव
 कहते हैं । वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः
 ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । गन्ध ज्ञान नहीं
 है क्योंकि गन्ध किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और गन्ध
 अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस किञ्चित्
 भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और रस अन्य है ऐसा जिनदेव
 कहते हैं । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श रचमात्र भी नहीं जानता ।
 अतः ज्ञान अन्य है और स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । कर्म
 ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है
 और कर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म
 किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और धर्म अन्य है ऐसा
 जिनदेव कहते हैं । अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म किञ्चित् भी नहीं
 जानता । अतः ज्ञान अन्य है और अधर्म अन्य है ऐसा जिनदेव कहते
 हैं । काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल किञ्चित् भी नहीं जानता । अतः
 ज्ञान अन्य है और काल अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । आकाश भी
 ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश जरा भी नहीं जानता । अतः आकाश अन्य
 है और ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । अध्यवसान ज्ञान नहीं
 है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है । अतः अध्यवसान अन्य है और
 ज्ञान अन्य है । किन्तु चूँकि जीव सदा जानता है इसलिये ज्ञायक जीव

ज्ञानी है। और ज्ञानको ज्ञायकसे अभिन्न जानना चाहिये। ज्ञानीजन ज्ञानको ही सम्यग्दृष्टि, ज्ञानको ही संयम, ज्ञानको ही अंग और पूर्व रूप सूत्र, ज्ञानको ही धर्म अधर्म और ज्ञानको ही प्रव्रज्या मानते हैं।

आत्मा न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोड़ता है -

अत्ता जस्स अमुत्तो ण हु सो आहारओ हवदि एवं ।

आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमओ दु ॥४०५॥

ए वि सक्कदि धित्तुं जं' ण विमोत्तुं जं च जं परइव्वं ।

सो को वि य तस्स गुणो पाउगिओ विस्ससो वा वि ॥४०६॥

तम्हा दु जो विसुद्धो चेया सो चेव गिएहए किंचि ।

एव विमु'चइ किंचि वि जीवाजीवाण दव्वाणं ॥४०७॥

इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक है वह आहारक नहीं है। आहार मूर्तिक है क्योंकि वह पौद्गलिक है। जो पर द्रव्य है उसे न वह ग्रहण कर सकता है और न वह छोड़ सकता है। उस आत्माका ऐसा कोई प्रायोगिक अथवा स्वाभाविक गुण है। अतः जो विशुद्ध आत्मा है वह जीव और अजीव द्रव्योंमेंसे न तो कुछ ग्रहण ही करता है और न कुछ छोड़ता ही है।

आगे कहते हैं कि केवल द्रव्य लिंग मोक्षका कारण नहीं है-

पासंडीलिंगाणि^१ व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि ।

धित्तुं वदंति मूढा लिंgamिणं मोक्खमग्गो त्ति ॥४०८॥

ए दु होइ मोक्खमग्गो लिंgamं जं देहणिम्ममा अरिहा ।

लिंgamं मुहत्तु दंसण-णाण-चरित्ताणि सेवंति ॥४०९॥

बहुत प्रकारके मुनिलिंगोंको अथवा गृहस्थलिंगोंको धारण करके मूढ़जन ऐसा कहते हैं कि यह लिंग मोक्षका मार्ग है। परन्तु लिंग मोक्षका मार्ग नहीं है। क्योंकि शरीरसे ममत्व न रखनेवाले अर्हन्तदेव लिंगको छोड़कर दर्शन, ज्ञान और चारित्रका सेवन करते हैं।

दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्षका मार्ग है-

ए वि एस मोक्खमग्गो पासंडी गिहिमयाणि लिंगाणि ।

दंसण-णाण-चरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा विति ॥४१०॥

मुनियों और गृहस्थोंके लिंग, ये मोक्षका मार्ग नहीं हैं। जिनदेवने दर्शन ज्ञान और चारित्रको मोक्षका मार्ग कहा है।

१ 'जि ए मुचदे चेव जं परं दव्वं'-ता० वृ० । २ पाखंडिय-ता० वृ० ।

तम्हा जहित्तु लिंगे सागारणगारएहि वा गहिदे ।

दंसण-णाण-चरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥४११॥

चूँकि द्रव्यलिंग मोक्षका मार्ग नहीं है अतः गृहस्थों और मुनियोंके द्वारा गृहीत लिंगको छोड़कर मोक्षके मार्ग दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें आत्माको लगा ।

मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव भाहि तं चेव ।

तत्थेव विहर शिच्चं मा विहरसु अण्णदव्वेसु ॥४१२॥

हे भव्य ! मोक्ष मार्गमें आत्माको स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, उसीका अनुभव कर तथा उसीमें सदा विहार कर, अन्य द्रव्योंमें विहार मत कर ।

लिंगके मोही समयसारको नहीं जानते—

पासंडीलिंगेसु व गिहिलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।

कुव्वंति जे ममत्ति तेहि ण णायं समयसारं ॥४१३॥

जो बहुत प्रकारके मुनिलिङ्गोंमें अथवा गृहस्थ लिंगोंमें ममत्व करते हैं उन्होंने समयसारको नहीं जाना ।

लिंगके विषयमें व्यवहार और निश्चयनयका मत

ववहारिओ पुण णओ दोगिण वि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे ।

णिच्छयणओ ण इच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥४१४॥

व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंग दोनोंको ही मोक्षका मार्ग कहता है । किन्तु निश्चयनय मोक्षके मार्गमें सब लिंगोको (किसी भी लिंगको) नहीं चाहता ।

समयसार ग्रन्थका महत्व

जो समयपाहुडमिणं पट्टिदूण य अत्थतच्चदो णाहुं ।

अत्थे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सोक्खं ॥४१५॥

जो आत्मा इस समय प्राप्तको पढ़कर और अर्थ तथा तत्त्व रूपसे उसे जानकर उसके अर्थमें स्थिर होता है वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है ।

१ 'ठवेहि वेदयदि भायहि'—ता० वृ० । २—पाखंडी—ता० वृ० । ३—णओ दु शिच्छदि—ता० वृ० । ४ होहि—पाठान्तरम् ।



समाप्त

कुन्द-कुन्द प्राभृत संग्रहके पारिभाषिक तथा विशिष्ट शब्दोंकी सूची

अ	
अक्षीण महानस(—ऋद्धि) १६६पृ०	अदन्तधावन—दातौ न करना १८, १६१
अवगाढ़—सम्यक्त्वका दोष १४८	अधर्म (—द्वय) —जो चलते हुए जीव और पुद्गलोंको ठहरनेमें सहायक होता है २२, २३
अगुरुलघु (—गुण) — ३०, ४२	अधोलोक १८८, २५७
अङ्ग—गणधरके द्वारा रचित ग्रन्थ १६, १२५, १५६	अध्यवसान २०१, २०३, २२६, २६७ —के नामान्तर २४४ —से बन्ध होता है २४२, २४३
अचक्षु (—दर्शन) —चक्षुके सिवाय अन्य इन्द्रियों और मनसे होने वाले ज्ञानसे पहले होनेवाला सामान्य प्रतिभास ७	अध्रुव—अनुप्रेक्षाका स्वरूप १३६
अजीव (—तत्त्व) १, २२, १६६ —का स्वरूप ५०	अनगार—साधु १६२, १६८ २६६ —धर्म १५२ —धर्मके दस भेद १४९
अज्ञान (—मिथ्यात्व) १४५ —भाव २२६	अनन्त—जिसका अन्त न हो । —प्रदेश २४ —ज्ञान-सुख-वीर्य ८७
अचेल—बल रहित नग्न १८, १६१	अनन्तानन्त—पुद्गलोंसे लोक भरा है ३४ —भव ७८
अणुव्रत—हिंसा आदि पाँचों पापोंका एक देशत्याग ५६	अनन्यभूत—अभिन्न १८, १६
अतद्भाव—एकका दूसरेमें अभाव २०	अनर्थ दृष्ट—बिना प्रयोजन पाप कार्योंमें मन, वचन और कायकी प्रकृति ६०
अतिथिपूजा (—शिक्षाव्रत) —संयमी अतिथिको आदर पूर्वक आहार देना ६०	अनुकम्पा—दया ५२, ५६
अतिशय—आश्चर्य जनक विशेषता ६०	अनुप्रेक्षा—संसार आदि की असारता- का चिन्तन ६६, १३६, १५३
अतिसूक्ष्म—स्क्न्धका भेद ३६	अनुभागबन्ध—बन्धने वाले कर्मोंमें फलदानकी शक्तिका पक्षका ७४, २४९
अति स्थूल स्थूल— ” ”	
अतीन्द्रिय (—ज्ञान) — १२	
अदत्त विरति—बिना दी हुई पराई वस्तुके ग्रहणका त्याग ६१	

अनुभागस्थान—अनुभागबन्धके कार-	अरहन्त—चार घाति कर्मोंसे रहित
खभूत परिणाम ४६, १४२, २०३	जिन ५२, १३१, १३८, १५४,
अनुमति विरत—इहलौकिक कार्योंमें	१७३, १६१
अनुमति न देने वाला	—मुद्रा ८८
नवम श्रावक ५६, १५०	—का स्वरूप ८६, ६०
अन्तरात्मा—का स्वरूप ८३, १७७	अर्थ—जीवादि पदार्थ १८, ४७, १३१
अन्तर्मुहूर्त—मुहूर्तसे कम काल ११६	अलोक—जहाँ केवल आकाशही है
अन्यत्र—का लक्षण २०	२५
—अनुप्रेक्षाका स्वरूप १३६	अलोक हानि ४४
अपराध—का स्वरूप १५१	अवक्तव्य (—भंग) २१
अपात्र— १३९	अवगूहन ५६
अपुनर्भव—पुनर्जन्मका न होना ६७	अवग्रह—इन्द्रिय और पदार्थके
अप्रदेश—जो एकही प्रदेशी हो, जैसे	सम्बन्धसे होनेवाला आद्य
परमाणु १२, २४ ३६	ज्ञान ७, १६, १६३, १७०
—समय ६६	अवधि(—ज्ञान)-रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष
अब्रह्म—के ढस प्रकार ६६	जाननेवाला मर्यादा सहित
अब्रह्मविरति—मैथुनका त्याग ६१	ज्ञान ६, १६७, २३२
अव्ययक—कर्मोंका बन्ध न करनेवाला	—दर्शन—अवधि ज्ञानसे पूर्व होने
१२, १५	वाला सामान्य प्रतिभास ७
अभव्य—जिसमें मुक्ति लाभकी पात्रता	अवसर्पिणी—कालका एक भेद
नहीं है २६, १८६, २४४, २५४	जिसमें जीवोंकी आयु वगैरह
अभिनिबोध—इन्द्रिय जन्य मतिज्ञान	क्रमसे घटती जाती हैं १४१
१६७, २३२	अवाय—ईहा ज्ञानके पश्चात् होने
अभ्युदय परम्परा— १३०	वाला निर्णय रूप ज्ञान १७०
अमूढ दृष्टि—तीन मूढता रहित	अविकृति करण— ७७, १७७
श्रद्धान ३, ५८, २३७	अविरत सम्यग्दृष्टी—ब्रह्मरहित
अमूर्त—जिसमें रूपादि नहीं होते	सम्यग्दृष्टी १३६
११२	अविरमण—हिंसा आदि पापोंसे
अमृत कुम्भ— २५२	विरत न होना १४५, २१४, २१६,
अमृतास्त्रवी (—ऋद्धि) १६६	२२४, २२६
अरति— ८०	अव्यावर्ध (—सुख)— ५६

अशरण—(अनुपेक्षा)	१३६, १३८	आकिञ्जन्य—(धर्म)— मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा आन्तरिक भाव	१५०, १५१
अशुचित्व—(")	१३६, १४४	आगम—का स्वरूप	३
अशुद्ध भाव	६७, ७०	आचार्य—	१५३, १७६, १६१
अशुभ—उपयोग	३१, ३२	—परम्परा	१३१, २५७
—कर्म	५६, २२०, २४४, २६५	आत्मा—अपने भावोंका कर्ता है	३४
—काय	१४६	—कर्ता और भोक्ता	३५
—मन	"	—कर्मोंसे कैसे बंधता है	४०
—वचन	"	—सप्रदेश है	४१
—भाव	६५, ६८, ८२	—पुनः पुनः जन्म लेता है	४८
—योग		—के क्या क्या नहीं है	४६
—लेख्य	५६	—शुभ अशुभ भावोंका कर्ता	५४
अष्ट गुण—सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघु अवगाहना, सिद्धोंमें पाये जाने वाले ये आठगुण	५०	—राग रहित	५६
अष्टम पृथ्वी—जिसके उपर मुक्त जीवों का निवास है	१५६	—का श्रद्धान करो	७०
असत्य विरति	६१	—ही उत्तमार्थ है	७३
असंख्यात (—प्रदेश)	२४	—बन्धोंसे रहित है	७४
असंयम—	५६	—ही आलम्बन है	७५, १२६
अस्नान—साधूका मूल गुण	६८, १६१	—ज्ञान दर्शन लक्षण वाला " "	
अस्तिकाय—बहुप्रदेशी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य	२४	—नो कर्म और कर्मसे तथा विभाव गुण-पर्यायोंसे रहित	७६
अहमिन्द्र—स्वर्गोंसे ऊपरके देव, जिनमें इन्द्रआदि भेद नहीं है	१३६	—शरण है	१३८, १६१
अहिंसा	६१	—के तीन भेद	१७७
आ		—ही स्वद्रव्य है	१८०
आकाश(—द्रव्य)—	२२, २३, २४ २५ ४४, ४६	—में ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप स्थित हैं	१६१
—का स्वरूप	४३, ५०	—निश्चयसे अपनाही कर्ता और भोक्ता है	२०६
		—व्यवहारसे पुद्गल कर्मोंका कर्ता और भोक्ता है	२०९
		—ही संबन्ध और योग रूप है	२४५

—न कार्य है और न कारण २५२	—भाव	”
आत्मस्वरूपालम्बनभाव ७८	आहार—शरीरादिके योग्य पुद्गलोंका	”
आदाननिक्षेपणसमिति— ६४	ग्रहण	”
आन पान—आसोड्वास	—मार्गणा ६१	”
—प्राण ४७, ६१	—पर्याप्ति	”
—पर्याप्ति ६१	इ	
आप्त—का स्वरूप २	इन्द्रनील(—रत्न)— ६	
आर्मीपधि(—ऋद्धि)— १६६	इन्द्रिय २९, ५३	
आयतन ८५, ८६	—प्राण ४७, ६१	
—के छे भेद १६३	—मार्गणा ६१	
आयु प्राण ४७, ६१	—पर्याप्ति ६१	
आरम्भ विरत—कृपि आदि आरम्भ	—रोध ६८	
का त्यागी अष्टम भावक ५६, १५	—निग्रह १६१	
आराधना ४, ७२	इच्छाकार—व्रतियोंके पारस्परिक अभि-	
आर्जव(—धर्म)—माया रहित भाव १५०	वादनमें प्रयुक्त होने वाला शब्द	
आर्तध्यान—वियोग आदिके निमित्तसे	१३३	
होने वाला खोटा ध्यान	ई	
७३, ७९, १६६	ईर्या समिति—का स्वरूप ६४	
—अशुभ भाव है १२८	ईहा(—ज्ञान)—अवग्रहसे जाने हुए	
आर्यिका १३५	पदार्थको विशेष रूपसे जाननेका	
आलोचना— ७६, १५३, २६५	उपक्रम रूप ज्ञान १७०	
आलुंछन— ७६	उ	
आवश्यक—का अर्थ ८१, ८३	उग्रतप १७५	
—के भेद ६८, १६१	उत्तर गुण ६८, १६१	
आवश्यक नियुक्ति ८२	उत्तर प्रकृति—ज्ञानावरण आदि कर्मों	
आख्य—शुभाशुभ कर्मोंके आनेका	के भेद १५१	
द्वार १, १६६	उत्तम ज्ञाना १५०, १६६	
—के हेतु १४५, १६३	उत्तम पात्र १३६	
—अनुपेक्षा १३६, १४५	उत्पाद १८	
—निन्दनीय है १४७		
—निरोध ५६		

उत्पादित केश पूमश्रु—सिर और दाढ़ीके बालोंको उखाड़ने वाला साधु	६७
उत्सर्पिणी—कालका एक भेद, जिसमें जीवोंकी आयु वगैरह क्रमसे बढ़ती जाती है	१४१
उदय	३२, ३३
उदय स्थान	४६, २०३
उद्दिष्टविरत—अपने उद्देशसे बनाये गये आहार वगैरहका त्यागी ग्यारहवाँ श्रावक	५६, १५०
उन्मार्ग	१३२ १३५
उपकरण—मुनि धर्मके पालनमें सहायक पीछी वगैरह	१०२
उपगूहन—सम्यग्दर्शनका गुण	२३७
उपधि—परिग्रह	१००
—से बन्ध होता है	१०१
उपयोग—जीवका जानने देखने रूप परिणाम	६
उपशम—	३२, ३३
उपसर्ग—संकट	६६, १९२, १६७
उपादेय—	४८
उपाध्याय(—परमेष्ठी)	१३८, १५४, १७५, १७६, १६१

ऊ

ऊर्ध्वलोक	१८८, २५७
-----------	----------

ए

एक भक्त—दिनमें एक बार भोजन करना (साधुका मूल गुण)	६८, १६१
--	---------

एकत्व(—अनुप्रेक्षा)—	१३६
एकान्त (—मित्यात्व)—	
वस्तुको नित्य या अनित्य आदि एकही धर्मवाली मानना	१५५
एकेन्द्रिय (—जीव)—जनके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है ऐसे पृथिवी कायिक आदि जीव	२७
एषणा समिति	६४
एषणा शुद्धि—शास्त्रोक्तरीतिसे भिक्षा ग्रहण करना	६२

औ

औदयिक भाव स्थान—कर्मोंके उदय से होनेवाले भावोंके स्थान	४६
औदारिककाय—मनुष्योंका शरीर —अर्हन्तके शरीर की विशेषताएँ	६१, ६२
औपशमिकभावस्थान—कर्मोंके उपशमसे होनेवाले भावोंके स्थान	४६

क

करण निग्रह—इन्द्रियोंको वशमें करना	७७
कर्म—	३३, १६७, २०३
—मूर्तिक है	५१
—कर्मका कर्ता है	३४, ३५
कर्मफल—३०, ४७, २५४, २५५, २६०, २६५	
कर्ममही—जहाँके निवासी कृषि आदि कर्मोंसे आजीविका करते हैं	२६
कपाय—क्रोध, मान, माया, लोभ	५३, ५६, १६५, १८२, २१४, २२४

—मार्गणा	६१
काय—मार्गणा	९१
—योगके दो भेद	१४६
कायक्लेश—	७९
कायगुप्ति—का स्वरूप	६५
कायोत्सर्ग—खड़े होकर दोनों हाथों- को नीचे लटकाकर ध्यान करना	१५७
कारण परमाणु—स्कन्धोंका कारण- भूत परमाणु	३७
कार्य परमाणु—स्कन्धोंके टूटनेसे बना परमाणु	३७
कर्मगण वर्गणा—वह वर्गणा जो कर्म- रूप परिणमन करती है	२१५, २१८
काल—द्रव्य)	२२, २३, २४, ४५, ५०
—की सिद्धि	४६
काल संसार	१४१
कालादिलब्धि—	१८१
कालुष्य	५०, ६५
केवल—ज्ञान	१८३, १६२, २३२
—सुख	१६२
—दर्शन	”
—वीर्य	”
केवली	६, १३, १५
केवल ज्ञानी	१३, १४, १५
केवलि प्रज्ञप्त धर्म	१५४
केवलि शासन	७६, ८०
कोष्ठबुद्धि(—ऋद्धि)	१६६
क्षमा गुण	६८, ७७, १५०
क्षय	३२, ३३
क्षयोपशम—कर्मोंका क्षय और उपशम	३३

ज्ञायिक(—ज्ञान)	१२
क्षितिशायन—भूमिपर सोना, साधुका मूलगुण	६९, ९८
जुद्धभय—धातुके अट्टारहवें भाग आयु वाला जीवन	११६
क्षेत्र संसार	१४१

ख

खेलौषधि(—ऋद्धि)	१६६
------------------	-----

ग

गणधर—तीर्थङ्करोंके प्रधान शिष्य	७१, १३०, १३१
गणी	९७
गति (—मार्गणा)	६१
गमक गुरु	६६
गारव—के तीन भेद	१६३, १८२
गृहीलिंग	२६८, २६९
गुण—	२०, २१, २२, २३
गुण पर्यायाश्रय	१८
गुणव्रत—जो व्रत अणुव्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि करते हैं	५६
गुणस्थान — संसारी जीवोंके मोह और योगके निमित्तसे होने वाले	१४
दजें	६६, ७१, ६० २०३, २०६
गुप्ति—मन, वचन और कायका निग्रह	१६६, १८३, १८६, २४४
गुरु भक्ति	१७०
ग्रन्थ—परिग्रह	१६४

घ

घाती(—कर्म) आत्माके ज्ञानाद गुणों का नाश करने वाले ज्ञानावरण,	
---	--

दर्शनावरण, मोहनीय और अन्त-		छ	
राय कर्म	१६, १६१	छियालीस दोष—भोजनके	६७
घोर तप	१६५	छेदोपस्थापक—मर्तोंको छेदकर	
		घरण करनेवाला भ्रमण	६२
च		छेदोपस्थापना चारित्र	१६१
चक्रधर—चक्रवर्ती	१३०	ज	
चक्षुदर्शन—चक्षु इन्द्रि-जो होनेवाले		जघन्यपात्र—अधती सन्यग्दृष्टि	१३६
मतिज्ञानसे पहले होने वाला		जंघाचारण (-ऋद्धि)	१४०
सामान्य प्रतिभास	७	जल्लौषधि(-ऋद्धि)	१६६
चलशत्रु—चलता फिरता मुर्दा	५	जलचर	२८
चतुर्थ भक्त—दिनमें एक बार भोजन		जिनधर्म	६९
करनेके पश्चात् दूसरे दिन भी		जिनविम्ब	८७
भोजन न करके तीसरे दिन भोज-		जिनभक्तिपरायण	५
न करना	१६४	जिनभावना	७०, ११५, १२८
चानुर्द्ध-र्थ—	१०८,	जिनमत	६६
चारण मुनि—पृथ्वीसे ऊपर आकाशमें		जिनमार्गें ७२, ८५, ८६, ८७, ८९, ९२, ९६	
गमन करनेकी शक्तिरखने वाले		जिनमुद्रा	८८, १८५
मुनि	१३०	जिनलिंग—निर्गन्थ मुनिका नग्नरूप	
चारित्र भ्रष्ट	१३९		६९, १२०, १२४, १८९
चारित्र—	५७, ५८, ७२, २४५	जिनवचन	३४, १३४
—के पाँच भेद	१६१,	जिनघर	४५, ८५, ६२
—का स्वरूप	१८४	जिनशासन	५६, १२८, १२९, १३५, १९६
चारित्र प्राभृत	५७	जिनसमय	२४
चारित्राचार	६७	जिनसूत्र	९
चेतना गुण		जिनसूत्र-पूजा	१०८
चेतनापरयोगमय	२१	जिनोपदेश	२१, २२१
चोरकथा	६५, १४६	जीव—तत्त्व	१९६
चौइन्द्रिय (जीव)	२८	—व्यय	२२
चैत्यगृह	६६	—के प्रदेश	२४
चौदह रत्न	१३८	—के भेद	२६
चल—सम्यक्त्वका दोष	१४८	—का स्वरूप	२९, ४७, ५०, २०३

निःकाक्षित—भोगों की इच्छा न करना	३, २३६	नोकपाय—हास्य बगैरह	१४७
निर्जरा—कर्मोंका एक देश लय होना	१, १६६, २५५	पञ्च परमेष्ठी—अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु	१३८, १७६, १६९
—अनुप्रेक्षा	१३६	पञ्च महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह	१३४ १४८, १८३, १८६
—के दो भेद	१४६	पञ्चविध चेल-पाँच प्रकारके वस्त्र	६६
निर्यापक—किसी मुनिके संयमका छेद होनेपर पुनः उसे धारण कराने वाले आचार्य	६८	पञ्चेन्द्रिय—	२८, ११६
निर्वाण—४, ५८, ५९, १२६, २२१	१७६, १६२	पञ्चेन्द्रिय संवर—	६१, १०६
—अध्यावाध, अनन्त, और अनुपम	१७८	पर निन्दा	६४
—को कौन प्राप्त करता है	१७८	परमाणु	२१, ३७, ३८
निर्वाणपुर	३५	—के भेद	३६
निःशङ्कित—जीव आदि तत्वों के अस्तित्व में शंका न करना, यह सम्यग्दर्शन का एक गुण है	३, २३६	—का स्कन्ध रूपमें परिणमन	३६
निर्विकल्प	७८	परमभाव दर्शा—	१६५
निर्विचिकित्सा—धर्मात्मा के अशुचि शरीर को देखकर ग्लानि न करना, यह भी सम्यग्दर्शन का गुण है	३, २३७	परमात्म.—	२
निर्वेद—वैराग्य	२५५	परम भक्ति—	८०
निश्चयनय—१, १४, २६, ७७, १४८, १५२, १५३ १८८, १६६, १६८, २०४, २०६, २३८, २३९, २४४, २५०, २५६, २६०, २६१		परसमय—का स्वरूप	१६३
		परम समाधि—	७८, ७९
		परमार्थ	१३१, १३२, २२१
		—नय	१४६
		परमेष्ठो—	५७
		पदानुसारित्व (—आब्धि)	१६७
		पद्मर्ष	६६
		पद्माराग रत्न	३०
		परिग्रह विरल—परिग्रह का त्यागी नदम आवक	५६, १६०
निश्चय चारित्र	८३	परिणाम—१८, २१, ३२, ४५, ५१	
नोकर्म—शरीर बगैरह	१६७	५२, ५५, ६६, ७७, १४६	

परिहार विशुद्धि चारित्र—दुर्घर चर्चा	—का बन्ध	४१
के पालक मुनियों के होनेवाला	—से जीव के प्राण बने हैं	४७
चारित्र १६१	—ही कर्म रूप परिणाम करता है	
परीषद्—भूख, प्यास, आदि की बाधा		३४, २१८
को सहन करना ६६, ६३, ६५,	—ही मिथ्या दृष्टि है	२५६
१३३, १६१, १८७	—का घात नहीं होता	२६३
परोक्ष(—ज्ञान) इन्द्रियादि की	पुद्गल परिवर्त संसार	१४१
सहायतासे होनेवाला ज्ञान १६	पुराण पुरुष	८४
पर्याय— १६, ४८	पूर्व—बारहवें दृष्टिवाद के भेद	
पर्याप्ति— ६०, ६१	१४ पूर्वरूप शास्त्र ६६, १६४	
पाणि पात्र-हाथरूपी भाजन १३२, १३४	पृथक्त्व-प्रदेशों का जुदा होना	२०
पाप—१, ३२, ५१, ५६, १८२,	प्रकृतिबन्ध—कर्मोंमें ज्ञानादिको घातने	
१६६, २५५	का स्वभाव पदना ४७, २४९	
—आत्म के कारण ५२	—स्थान १४२	
पापण्डी लिंग-साधु का वेश २६८, २६९	प्रकृति स्थान ४९	
प.पास्त्रव— ५३	प्रज्ञा—के द्वारा आत्माका ग्रहण २५०	
पार्श्वस्थ भावना—पार्श्वस्थ अर्थात्	प्रज्ञा श्रवणत्व(—ऋद्धि) १६७	
अष्ट मुनिकी भावना ११७	प्रतिक्रमण - ७२, ७३, ७४, ८३,	
पिहितेन्द्रिय—इन्द्रियों को वश में	१५३, २५२, २६५	
करने वाला ७६	प्रति क्रमण नामधेय सूत्र ७४	
पुण्य—१, ३२, ५१, ५६, १८२,	प्रतिमा ८६	
१६६, २५५	प्रतिष्ठ पन समिति ६५	
—आत्म के कारण ५२	प्रत्यक्ष(—ज्ञान) १२, १६	
—का स्वरूप ६६	— ज्ञानी १६७	
—धर्म नहीं है ७०	प्रत्यक्षान—७४, ७५, ७६, ८३, १५२,	
पुद्गल कर्म—का कर्ता आत्मा	२६५	
नहीं है ३४, ५४, २०७	प्रत्येकबुद्ध १५७	
पुद्गल काय २२, ४१, ५५	प्रदेश—जितने आकाश को एक	
पुद्गल द्रव्य—के भेद ३६, ३७	परमाणु रोकता है २४, ४६	
—की पर्याय ३८	—स्थान ४९	
—निश्चय नय से परमाणु ३६	प्रदेश बन्ध—कर्मरूप परिणत पुद्गल	
—व्यवहार नय से स्कन्ध ३६	स्कन्धों की संख्याका निर्धारण	७४, २४६

मध्वात्मवी (—ऋषि)	१६६
मनःपर्ययज्ञानी	१६७
मनो गुप्ति	६२, ६५
मनोयोग—के दो भेद छुम अशुभ १४३	
मलिन - सम्यग्दर्शन का दोष	१४८
महर्षि	७८, ८६
महातप	१६५
महाव्रत	६२, १६१
मार्गणा स्थान—जिनके द्वारा संसार भर के जीवोंको खोजा जाता है	४६, ६१, ७१, ६०
मार्दव (—धर्म)	७७, १५०
मिथ्यात्व	५६, १८२, २१४, २२४, २२६
—के पाँच भेद	१४५
—के दो भेद	२१०
मिथ्यादृष्टि	१३२, १७६, २०६, २३८, २४४, २५४, २५६
मुक्त	१२३
मुनि	६६, ७७, २४४
मुनि प्रवर	६६, ११७
मुमुक्षु	१६२
मूर्त	१२, २३, ४०
मूल गुण	६८, १६१, १८६
मूल प्रकृति—ज्ञानावरणादिक कर्म १५२	
मैथुन संज्ञा	६६
मोक्ष	१, ५५, ५७, ७०, १३४, १६६, २५५
मोक्षमार्ग	४, ८७, ८८, १३२, १३४, १३५, २४३, २६८
मोह	५१, ५३, ५४, ६६, ६१, ७१, १४६, १६२, २०३

मौन	७६, १३५
—व्रत	८४, १६५, १८२
य	
यति धर्म	६०
यथाख्यात चारित्र—समस्त मोहनीय कर्मके उपशम अथवा क्षय से होने वाला निर्विकार आत्म स्वभावरूप चारित्र	१६१
यथाजातरूपधर—जिस रूपमें जन्म होता है उसी नग्न रूपका धारी	
मुनि	६७, १३४
योग	५४, ५६, २१४, २२४, २२६
—मार्गणा	६१
—के भेद	८१
—योग परिणाम	५४
—योग भक्ति	८१
—योग स्थान	२०३
योनि	४६, ६१, १२३
र	
रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र	४, १८३, १८५,
—का स्वरूप	१२०
राग—५१, ५२, ५३, ६४, ५५, ६१, ७१, ७६, १४६, १६१, १८२, २०३	
राजकथा—	६५, १४६
राजु—एक माप, जिससे लोकको मापा जाता है	१२१
रात्रि भक्त विरत—रात में चारों प्रकारके आहार का त्यागी ब्रह्म आवक	५६, १५०
रौद्र ध्यान—द्विसा आदि करने का	

ज्यान	७३, ७६	वात्सल्य—	३, ५६, १०७, २३७
—अशुभ भाव है	१२६, १६६	विकथा—	स्त्रीकथा, भोजनकथा, चोर कथा और राजकथा ६३, ६५, ११७
ल		विकलेन्द्रिय—	दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव १ ६
लक्षणा—	अर्हन्तके शरीर में होनेवाले	विक्रिया—	अद्वि १३७
	१००८ चिन्ह विशेष	चिनय—	५६, ६७, ११२
लिंग—	श्रमण का चिन्ह या वेश	—मिथ्यात्व—	सभी धर्मों और देव-ताओं को समान मानना १४५
	६७, ६८, १८७	विपरीत (—मिथ्यात्व)	१४५
—के भेद	१३५	विपरीताभिनिवेश—	मिथ्याभाव ८१
—मोक्षका मार्ग नहीं है	२६८	विमोचितावास—	दूसरोंके द्वारा छोड़े गये स्थानमें निवास ६२
लेश्या—	कपायसे अनुरक्त मन वचन कायकी प्रवृत्ति	विभाव गुण पर्याय—	७६
	५३, १४६	विभाव ज्ञान—	६
लोक—	२५, १४४	विराग चारित्र—	८३
—पुद्गलों से भरा है	३४, ५५	विराधना—	चारित्रमें दोष लगाना ७२
—अनुप्रेक्षा	१३६, १४४	विशुद्धभाव—	७०
लोक विभाग—	२६	विषकुम्भ—	के आठ प्रकार २५२
लोकाकाश—	जितने आकाशमें सब द्रव्य रहते हैं	विष्णु—	२५५
	२४	वीतराग	५७, ७१, ७८
लोकालोकप्रदर्शी	७७	वीर्याचार	६७
लौकिक जन	११२	वीरासन	१६४
लौकान्तिक देव	१८७	वेद (लिंग)	८०
व		—मार्गणा	६१
वचन गुप्ति	६५	वैयावृत्य—	गुरु आदिकी सेवा करना ६७, १०६
वचनयोग	१४६	व्यवहार नय—	१, १३, १४, ५०, ६५, ८०, १३१, १५३, १६४, १६५, १६८, २०२, २०४, २१२, २१३, २१६, २२२, २५६, २६०, २६१
वनवास	७६		
वर्ग—	शक्तिके अविभागी अंशोंका समूह		
	२०३		
वर्गणा—	वर्गोंका समूह		
	२०३		
वर्धमान—	अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर		
वस्तु—	पूर्वनामक प्रन्थोंके अधिकार		
	१६०		

व्रत—१८, १४६, १५६, २२२, २४४
—प्रतिमा ५६, ७७, १५०

श

शक्त्य—माया मिथ्यात्व-और निदान
७३, १६३

शासन २०, ३३

शिद्धान्त—जिन व्रतोंके पालनसे
मुनिधर्मकी शिक्षा मिलती है ५६
—के भेद ६०

शील— ७७, १४६, १६१, २४४

शुक्लध्यान—जिस ध्यानसे मौक्त
मिलता है ७३, ७६, ८०, ८३
१२८, १४८, १६६

शुद्धनय— ५०, १६५, १६६, २१६

शुद्धोपयोग— १४८

शुभ

—उपयोग ३१, ३२

—कर्म ५६, २२०, २४४

—काय १४७

—मन १४६

—वचन १४७

—योग १४८

शून्यागार निवास—शून्य घरमें
निवास ६३

शौच धर्म १५१

श्रमण—जैन साधु ५०, ७६, ७६, ८०,
८२, ८३, ६७, ६८, ६६, १००
१५०, १८४, २५५, २५८

—को कैसा होना चाहिये १०२, १०६

—के भेद १४७

श्रमण संघ

श्रमण्य गुण ८२, ६७, ६६

श्रावक—जैन गृहस्थ ८०, १०८,
१३६, १८४

श्रुतज्ञान—मति ज्ञानके पश्चात् मनसे
होने वाला विशेषज्ञान ६, ७१,
१६५ २३२

श्रुत केवली—पूर्ण द्वादशांगका ज्ञाता
१०, १६३, १६५

स

सच्चित्त भक्तपान ६७

सच्चित्त विरत—सचित्त वस्तु के खाने
का त्यागी श्रावक ५६, १५०

सत्ता १७, १८, २०

सप्तभंग—स्यादस्ति, आदि सात भंग

२१

समय—पाँचो द्रव्यों का समवाय २५

—निश्चयकाल द्रव्य ४६

—आगम ५६

समयसार २१६, २२०, २६६

समाधि ७५, १५३, १५५

समिति—यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति
६४, ७७, ६८, १४६, १६१,
१६६, १८३, १८६, २४४

समुद्भात—मूल शरीरको छोड़े बिना
आत्माके प्रदेशोंका बाहर

विकलना १५७

सम्यक्त्व

—के मूल ६

—का स्वरूप १८५, १६६

—के आठ अंग

—मार्गवा

सम्यग्ज्ञान— १५२, ४

सम्यक्त्व चरण चारित्र	५८, ५९	सिद्ध—मुक्त जीव	२६, ५०, ५२, १५४,
सम्यग्दृष्टी—	१३१, १३६, १६५,		१५६, १५६, १७५, १७६, १६१
	१७६, २३०, २३६, २२४,	—का स्थान	४४
	२६१, २६७	सिद्धान्त	२५६
—अबन्धक है	२२६	सिद्धि—मुक्ति	७०, १०६
—के रागादि नहीं है	२२६, २६३	सुदान निक्षेप समिति—उपकरणांद्-	
—के भय नहीं है	२३६	को देखकर ग्रहण करना, देखकर	
सयोग केवली—तेरहवें गुणस्थान-		रखना	६२
वर्ता अरहन्त	६०	सूक्ष्म संयम	१६१
सर्पिरास्त्री—(ऋद्धि)	१६६	सूक्ष्म स्थूल—स्कन्धका एक भेद	३६
सर्वज्ञ	१८, ५६, ५७, १८३,	सूत्र—जिनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र	
	२२१, २४०		१०, १३१
सर्वदर्शी	५७, १७६, २०६	संज्ञा—चाह	५३, ६५, १४७
सर्वलोक दर्शी	५६, १८३	संयम	७७, ७९, १४६, २६७
सर्व विरत	६६	—मार्गणा	६१
सर्वोपधि—(ऋद्धि)	१६६	—धर्म	१५१
सल्लेखना—(शिवा ब्रत) मरणकाल		संयम चरण चारित्र	५८, ५९
उपस्थित होनेपर समाधि पूर्वक		संयम लब्धि स्थान	२०३
देह त्यागना	६०	संवर—नवीन कर्मोंका आना रोकना	
सागार-संयम चरण	५६		१, ५३, ६६, १६६
—धर्म के ११ भेद	१४६	—अनुप्रेक्षा	१३६
—धर्म	१५२	संशय मिथ्यात्व	१४५
सामयिक—(ब्रत)—तीनों सच्चाओंको		संसार अनुप्रेक्षा	१३६
साम्यभाव पूर्वक आत्मस्वरूपका		सांख्योपदेश—सांख्य मतका उपदेश	
चिन्तन	६०, ७५		२५८
—प्रतिमा	५६, १५०	स्कन्ध—परमाणुओंके बन्धसे उत्पन्न	
—चारित्र-समस्त सावधानियोंका		पुद्गलका भेद	२६
त्याग	१६१	—सकल समर्थ	३७
सान्निस्विक—(मच्छ),	७०	—कर्मरूप होनेके योग्य	५५
पधु—२२, ६६, ७३, ८१, १२५, १३३,		स्कन्ध देश—स्कन्धका आधा	३७
१३४, १३६, १५४, १७५,		स्कन्ध प्रदेश—स्कन्धका अनुयांश	३७
१७६, १६१			

स्थूल—स्कन्धका एक भेद,	३६
स्थूल सूक्ष्म—	”
स्वपर प्रकाशक	१४, १५
स्वभावज्ञान	६
स्वयं बुद्ध	१५७
स्वर्ग—के ६३ पटल	१४४
स्वसमय	१६३
स्वाध्याय	८० ६५

ह

हरिहर	१३२
हिंसा	१००
हेतु—मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग ये चार	५५

नामसूची

२४ तीर्थङ्करों के नाम

१ ऋषभ, २ अजित, ३ संबव,	
४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्मप्रभ,	
७ सुपार्श्व, ८ चन्द्रप्रभ, ९ सुविधि,	
या पुष्पदन्त, १० शीतल, ११ श्रेय,	
१२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनंत,	
१५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्धु,	
१८ अर, १९ मल्लि, २० सुव्रत,	
२१ नमि, २२ अरिष्ट नेमि, २४ पार्श्व	
और २४ वर्षमान ।	पृ० १५५

अंगों और पूर्वोंके नाम

आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय,	
व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथधर्मकथा या ज्ञातृ	
धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृद्दश,	
अनुत्तरोपपाद दश, प्रश्न व्याकरण,	
विपाक सूत्र और दृष्टिवाद ये बारह	
अंगोंके नाम हैं। दृष्टिवादके पाँच भेद	
हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूर्व	
और चूलिका। पूर्वके चौदह भेद हैं—	

उत्पाद पूर्व अमायणीय, वीर्यप्रवाद,	
अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्त्व-	
प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्या-	
ख्यान, विद्यानुवाद, कल्याण नमन,	
प्राणावाद, क्रियाविशाल और लोक-	
विन्दुसार	पृ० १५६

मुनियोंके नाम

अभय्य सेन	१२५
कुन्दकुन्द मुनिनाथ	१५३
दीपायन	१२४
बाहुमुनि	१२४
बाहुबली	१३३
भद्रबाहु श्रुतकेवली	६६
मधुपिंगमुनि	१२३
वशिष्ट मुनि	”
शिवकुमार	१२४
शिवभूति	१२३

निर्वाण भक्तिमें आगत पुराण

पुरुषों तथा तीर्थ स्थानोंकी

नामावली

अचलपुर	१७२
अनिरुद्ध	१७१
अनंग कुमार	”
अभिनन्दन	१७३
अरह	”
अर्गल देव	१७४
अष्टापद (कैलासपर्वत)	१७०, १७२
अहिषेत्र	१७४
इन्द्रजीत	१७२
उर्जयन्त (गिरिनार पर्वत)	१७०, १७१
ऋषभ	१७०
कलिंग देश	१७३

कुंथ गिरि	१७२	बालि	१७२
कुंथ (जिन)	१७३	बाहुबली	१७३
कुम्भकर्ण	१७२	मथुरा	१७४
कूल भूषण	"	महानील	१७१
गजपंथगिरि	१७०	महाबाली	१७२
गवय	१७१	महावीर	१७०
गवाक्ष	"	मंगलापुर	१७३
गुरुदत्त	१७२, १७३	मुनिसुव्रत	"
गोमटदेव	१७४	मेढगिरि	१७२
चम्पा	१७०	यादव नरेन्द्र	१७०
चूलगिरि	१७२	राम	१७१
चेलना नदी	१७२	रेवा (नदी)	१७१, १७२
जम्बु मुनि	१७४	रेशन्दी गिरि	१७३
जसहरराय	१७३	लाट नरेन्द्र	१७१
तारवर नगर	१७०	लोहा गिरि	१७४
तुंगी गिरि	१७१	वरदत्त	१७०, १७३
दशमुख (रावण)	१७१	वरनगर	१७४
देश भूषण	१७२	वरांग	१७०
द्रविड नरेन्द्र	१७१	वाराणसी	१७३
द्रौणगिरि	१७२	वासुपूज्य	१७०
नागकुमार	"	वंसस्थल नगर	१७२
नागहृद	१७३	शत्रुञ्जय गिरि	१७१
नील	१७१	शंख द्वीप	१७४
बेमि जिन	१७०, १७१	शम्भु कुमार	१७१
पाण्डु पुत्र	१७१	शान्ति (जिन)	१७३
पावा	१७०	श्री पुर	१७४
पावागिरि	१७१, १७२	सम्भेद गिरि	१७०
पाश्व	१७३, १७४	सागर दत्त	१७०
पौदनपुर	१७३	सिद्धवर कूट	१७२
प्रद्युम्न	१७३	सुग्रीव	१७१
कलहोत्री ग्राम	१७२	सुपाश्व	१७३
बडवानी नगर	"	सुवर्ण गिरि	१७१
बलभद्र	१७०	हनुमान	१७१
		हस्तिनापुर	१७३

